

	विंशति	ग्राहकस्थिति	अंश	
१	६	बाल्यावस्था	३०	१२
३	१२	कुमारवस्था	२४	२४
२	१८	युवावस्था	१८	३६
७	२४	वृद्धावस्था	१२	४८
९	३०	मृतावस्था	६	५४
११	अंश	उपस्थिति	सप्त	६०
			२४	



श्रीः

# जातकतत्वम्

द्वैतचरण्य श्रीमन्महादेव शर्म विरचितम्

—:—:—

तदात्मज

रत्नलक्ष्मण नगरनिवासि पाठकोपाहीदुम्बर

ज्यो० शिनिवासा शर्मकृता

भाषाटीकासहितम्

—:—:—

तदेतत्

ज्यो० मरुदिगात्मजेन शिनिवासाशर्मकृतेन  
स्वकीये "श्रीभुवनेश्वरी" यन्त्रालये

मुद्रयिता मरुदिगात्

मन्मत् १९७२  
प्रथमका प्रतिये १००० ]

सद १९१५  
[ मूल्य २० ]

पुस्तकालये उपरिष्कार प्रकाशनेन स्वकीयव्यापारे

# भूमिका ।

पद्यम्

नानाशास्त्रविचारसारमिहयत्तत्वेसमावेशितं ।  
सदृष्ट्वाविबुधाः शरावनिहितंरथानंमणीनामिव ॥  
तुप्यन्तुप्रतिमल्लमानम हिमोच्छेदं सुवर्णात्मकम् ।  
ज्योतिर्वित्कुलमुख्यमंडन महादेवेनसज्जातके ॥ १ ॥  
पुनरुक्तयुजासमांकिताः प्रायः पद्धतयश्चजातकाः  
इहतन्नहिपश्यतामहौ रैवाशांकरिनिर्मितौकदाचित् ॥ २ ॥

प्रिय पाठकों । सिद्धांत संहिता होरासंज्ञक त्रिस्कंधात्मक सर्वमान्य वेदचक्षु ज्योतिषशास्त्रका होरास्कंध जिसको फलित शास्त्रकहतेहैं वहबड़ा दुर्ज्ञेय और अपारहै जबतक इसनपार शास्त्रके अनेक ग्रंथोंके पर्यालोचन द्वारा फलनिर्णय नहींकियाजाय तबतक यथायोग्य फल विचारहोना असंभव है ।

अनेक ग्रंथोंद्वारा समुचितफल निर्णय करना बड़े असाधारण परिश्रमका कामहै । अतएव ऐसे कार्यकेलिये अनेक जातकग्रंथोंके संपूर्णफलका विचार सुगमतासेशिघ्र होसके ऐसे एकपरमोपयोगी ग्रंथका होना परमावश्यक जानकर हमारे पूज्यपाद पिताजी श्रीश्रामन्महादेवजी देवज्ञार्थ महानुभाव महाशयने पाराशरीद्वारा, लोमशसंहिता जमिनीस्न, शंभूहोराप्रकाश, बृहज्जातक, मनुष्यजातक, भावकुतूहल तत्कालार, जातकाभरण, सर्वार्थचिंतामणी, भावचिंतामणी, होरा तनशुकजातक, शुकफाककका, जातकपारिजात, जातकमुकुर, जातक विलाज, मानसागरी, लग्नचंद्रिका, आदि जितने प्राचीन तथा अर्थात् फलितशास्त्रके उपलब्धग्रंथहैं उनअनेकग्रंथोंका सारलेकर एक श्लोककातारपर्यं चार चार छ छ अक्षरोंमें खींचकर "जातकतत्त्व" अतिउत्तम ग्रंथवार्तिक रूपबनायाहै । इसके पढ़नेसे फलित संबंधी कोईभी अन्यपुस्तक देखनेकी अपेक्षा नहीं पढ़सकीहै ।

इसी कारण इसने इतना भाद-पाया है कि काशीकी पाठशालाओं में तथा भारतके अनेक विज्ञान विद्वानोंके यहाँ यह ग्रंथ मुख्यपाठ्य पुस्तक समझ पढ़ाया जाता है। और चटोदा महाराज्यमें भी फलितकी परीक्षा देनेवालोंके लिये मुख्य परीक्षाकी पुस्तक मानोगई है।

इसके मुख्य पाचतत्व (भाग) है जिसमें प्रथम संज्ञातत्त्व २ दुसरा सूक्तिका तत्व ३ तीसरा प्रकीर्णतत्त्व ४ चौथा स्त्री जातकतत्त्व ५ पाचमा दशातत्व है इनमें जो जो विषय वर्णित है उनकी नामावलि अनुक्रमणिकामें प्रदर्शित की गई है।

यह ग्रंथ काशीमें कईवार छपजानेपर भी इसकी प्रतिमें हाथोहाथ विक्रानेके कारण अनेक प्रति मिलती नहीं और माँगपर माँग आरही है। अतएव अनेकों सार साधारण जनोके उपयोगार्थ कईके नवीन विषय और अनुभव की हुई फलदेखने की बुनियाद तथा प्रत्येक योगी पर योगीके नाम और योगीको यथाक्रम एकत्र करके अन्यान्य अनेक योगी सहित सरल हिंदी भाषाटीकासे सुसज्जितकर आपलोगोंकी सेवामें समर्पण करनेका सदासं विधि है।

आशा है इस यथा मति लिखी हुई टीकामें जहाँ कहीं त्रुटि प्रमाद वा भूल होगई हो विद्वान क्षमाकरके परिशोधन करते हैं और दोषों की और ध्यान नहीं देते हूँ गुणों और ही ध्यान दे मेरपरिश्रमको सफल करेंगे यही सविनय निवेदन है।

पाठक श्रीनिवास महादेवजी शर्मा ज्योतिपरतन

अध्यक्ष श्रीभुवनेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस,

रतलाम.

(१)

# जातकतत्व विषयानुक्रमणिका ।



विषय	पृ०	विषय	पृ०
हाचरण	१	नेत्र संज्ञकभाव	"
ग्रहोंके अंगविभाग	"	त्रिक तथा दुष्ट स्थान	"
ग्रहोंके स्वामि	२	ऋक्ष ( राशि ) संधीसंज्ञा	"
सौम्य पुरुषश्री चरस्थिर-	"	दीर्घ ह्रस्वसमराशी संज्ञा	"
स्वभाव राशीसंज्ञा	"	भावोंके स्थिरकारक	"
नेदग उभयोदय पृष्टोदय	"	सजल तथा शष्कराशीये	"
संज्ञा	"	पापग्रहोंके नाम	"
शिशोका दिवारात्रिचल	"	पुरुष, स्त्री, नपुंसकग्रहोंकेनाम	"
शिशोका संज्ञाचक्र	"	सात्विक राजस तामस ग्रहों-	१०
भावोंकेनाम	"	केनाम	"
द्वर्गके नाम	"	ग्रहोंकी उच्च नीच राशी अंश	१०
रासाधन	"	मूलत्रिकोणराशीये	"
कला	"	वर्गोत्तमराशी संज्ञा	"
शिश०	"	स्वउच्च नीच मूलत्रिकोणचक्र	११
नाम	"	ग्रहोंकेस्वरूप	११
साधन	"	सूर्यका स्वरूप	"
नाम	"	चंद्रकास्वरूप	"
१७	"	भौमस्वरूप	१२
१६	"	बुधस्वरूप	"
संज्ञा	"	गुरुस्वरूप	"
१०७	"	शुक्रस्वरूप	"
१०८	"	शनिस्वरूप	"
"	"	सूर्यादिग्रहोंकीधातु	"
११०	"	ग्रहोंके मित्रशत्रुसमग्रह	"
१११	"	तार्कालिकमैत्री	"
११२	"	पंचवामैत्रीसाधन	१४
११३	"	नैसर्ग मैत्रीचक्र	१४
११४	"	ग्रहोंकी दृष्टिविचार	१४
११५	"	ग्रहोंकी पूर्णदृष्टिविचार	१५
११६	"	गुलिकेपुसाधन	"
	"	गुलिकसः	यो

विषय	पृ०	विषय
कौतुकियोग	७१	दंतविकार योग
भालसीयोग	७१	हस्तनाश हस्तपीडायोग
कृषिकर्तायोग	७२	बुद्धियोग [ बुद्धि ]
स्रल्लाटयोग	७२	कठिनचित्तयोग
शोभनेधयोग	"	विरुद्धचित्तयोग
बुद्बुद् लोचनयोग	"	अंहवृद्धयोग
मिलिताक्षयोग	७३	जंवाक्षतियोग
विकलनयनयोग	"	पंगुयोग
मंदलोचनयोग	"	इनसेविशेष क्यादेखना
चक्रनेत्रयोग	"	शरीरलक्षणपरसे लग्नचंद्र
नेत्ररोगी	"	भौर ग्रहोकीपरिक्षा
अंधयोग	"	मेषराशी वर्णन
निशा योग	"	बृषभराशी "
नेत्रनाशयोग	"	मिथुनराशी "
वामनेत्रेघातयोग	७८	कर्कराशी "
दक्षनेत्रेघातयोग	७८	सिंहराशी "
नृधकोपसेनेत्रोत्पाटनयोग	७८	कन्या राशी "
नेत्रप्रमादयोग	७८	तुला राशी "
काणयोग	७९	वृश्चिक राशी "
दंपतिकानयोग	"	धनराशी "
बधिरयोग	८०	मकरराशी "
कर्णच्छेदयोग	८१	कुंभराशी "
नाशाछेदयोग	८२	मीनराशी "
मुखदुर्गंधयोग	८२	ग्रहपरीक्षा पृष्ठ ९७
मूकयोग ( गुंगा )	"	
शंगस्वर योग	८३	अथधनविवेक.
प्रहसितमुखयोग	८४	
दुर्मेघ योग	"	धनीयोग
दीर्घमुखयोग	"	स्वल्पधनीयोग
जिह्वादोषयोग	८५	बहुधन वा १५
अस्फुटोक्तियोग	८६	सहस्रनिष्केज योग
गदगदवाक्ययोग	८६	द्विसहस्र निष्केजयोग
लल्लेरीक्तियोग	"	अयुतानिष्केज योग
पछपवाक्ययोग	८७	अष्टताधिक निष्केजयोग

विषय	पृ०	विषय	पृ०
लक्षाधीशयोग	११२	पितृकृत धननाशयोग	१०२
द्विलक्षेश योग	११२	धननाशयोग	१२२
त्रिलक्षाधीशयोग	११२	निर्वनयोग	१२२
कोटिशयोग	११२	दारिद्र्ययोग	१२३
वाह्ये बहुधनलाभयोग	११३	महादारिद्र्ययोग	१२३
निध्याप्तियोग	"	सर्वसंपत्तिमान्योग	१२४
स्वोपार्जितधनाप्तियोग	११४	बहुकुटुंबा योग	१२५
भ्रातृधनाप्तियोग	११४	विशतिजनपालकयोग	१२५
मातृधनाप्तियोग	११४	पंचाशत्जनपालकयोग	१२६
बंधुतः कृपेर्वा धनाप्तियोग	११५	त्रिशतजनपालकयोग	१२६
पुत्रतः धनाप्तियोग	११५	भनेकजनपालकयोग	१२६
सुपुत्रार्जितधनाप्तियोग	११५	भनादरयोग	१२६
शत्रुतो धनाप्तियोग	११५	संपद्धानयोग	१२६
भार्यातो धनाप्तीयोग	११५	परिवारक्षययोग	१२७
पितासे धनाप्तियोग	११५	विशेषप्रकारके धनयोग	१२७
धनाप्तियोग	११६	दारीश्रययोग	१२८
धनलाभप्राप्तिदिशा	११६		
धनलाभयोग	११६		
परांगना की भासक्तिमेधन- नाशयोग	११७		
जातिविवादसे धनहानीयोग	११८		
मिथ्याबोशानकृतयोग	११८		
राजदंडाद्धनक्षययोग	११८		
चौराग्निभूषकृतधननाशयोग	११९		
लोकापवादसे धनक्षययोग	११९		
निर्वनयोग	"		
पापकार्त्तमे धननाशयोग	१२०		
धर्मकार्यमे धननाशयोग	१२०		
भ्रातृकृत धननाशयो०	१२१		
मातृकृतधननाशयोग	१२१		
पुत्रकृत धननाशयोग	१२१		
शत्रुकृत धननाशयोग	१२१		
जायाकृत धननाशयोग	१२१		
		अथसहज विवेकः	
		बहुभ्रातृभगिनीयोग	१३१
		भ्रातृभगिनी संख्याविचार	१३३
		भ्रातृहीनयोग	१३४
		भ्रान्तोत्पत्तियोग	१३५
		भ्रान्तहीनयोग	१३६
		भ्रातृरोगीयोग	१३६
		भ्रान्तःस्नेहीयोग	१३६
		राजप्रेष्ययोग	१३६
		भृतकयोग	१३६
		दासान्विनयोग	१३७
		बहुदासान्वितयोग	१३७
		विक्रमीयोग	१३७
		प्रसिद्धकर्माजीवियोग	१३८
		काष्ठपाषाणादिविक्रतायोग	१३८

विषय	पृ०
भिक्षुव्रयोग	१३८
निश्च तथा नीचकर्माजीवि योग	१३९
पित्रादितःअर्थाप्तियोग	१३९
वृत्तिविचार	१४०
ग्रहोक्तधर्म और धंधका- विचार	१४०
प्रत्यहवृत्तिविचार	१४५

### अथचतुर्थविवेक.

मातुर्दुग्धशोषयोग	१४६
मातृसुखनाशयोग	१४६
मातुर्दीर्घायुयोग	१४७
पितामाता सहैवमृत्युयोग	१४८
मातृवधयोग	१४८
मातापतिवृत्तायोग	१४८
माताजारिणीयोग	१४९
मातृस्नेहयोग	१४९
द्वित्रीमातायोग	१४९
चतुष्पदसुस्रयोग	१४९
वाल्यसुखायोग	१५०
नृपाब्दान्तरं सुस्रीयोग	"
त्रिंशत्तिवर्षोर्ध्वसुस्रीयोग	"
त्रिंशद्वर्षेन परं सुस्रीयोग	"
भाद्यवयसिसुस्रयोग	१५१
धात्येदुःखीततःसुस्रीयोग	१५१
मध्यवयसी सुस्रीयोग	१५१
भाद्यमध्यवयसी सुस्रीयोग	१५१
अंत्य तथा मध्यांत्य वयसि सुस्रीयोग	१५२
भाजीवसुस्रीयोग	१५२
सुस्रीयोग	१५२

विषय	पृ०
दुस्रीयो०	१५४
मुपिकामार्त्तारं श्वादिदुःखद योग	१५५
प्रासादवान्शुयोग	१५५
इष्टिकाग्रहयोग	१५६
काष्ठग्रहयो०	१५६
तृणग्रहयो०	१५६
विचिनग्रहयो०	१५६
हर्म्यप्राकारादियुतग्रहयो०	१५६
दैविकवेश्मयो०	१५७
यहलाभयो०	१५७
भक्तस्माद्यहलाभयो०	१५८
दत्तक यो०	१५८
ग्रहनाशयोग	१५९
बहुगृहवासयो०	१६०
स्विर वास योग	१६०
बहुक्षेत्रवान्	" "
क्षेत्राप्तियोग	१६१
क्षेत्रादिनाशयोग	१६१
भूमिविक्रतायोग	१६२
पुत्रात'मित्रतायोग	१६३
स्त्रीतःप्रीतियो०	"
बहुजनसैत्रीयोग	"
सुदृत्वोप्ययो०	"
बन्धुपूज्ययो०	"
बंधूपकारकर्तायोग	१६४
बंधुभिरायज्यनेयोग	१६४
बंधुमध्ये कुसितयोग	१६५
बंधुद्वेषोयो०	१६५
पत्न्यकशापीयो०	१६५
शपनसुखाभावयो०	१६५

इतिचतुर्थविवेकसमाप्त ।



विषय	पृ०	विषय	पृ०
अथपंचम विवेकः ।		जज्ञ वेरिस्टरयोग	"
बुद्धिमान्‌यो०	१६६	सभामूकयोग	१७८
विशेषबुद्धिमान्‌यो०	१६७	भनपत्ययोग	"
क्षिप्रान्तरदानशीलयो०	१६७	गर्भानुत्पादयोग	"
चंचलधीयो०	१६७	गर्भच्युतियोग	"
सात्विकयो०	१६८	सर्पशापाद्विपुत्रयोग	१७९
सुवाक्यो०	१६८	पिचशापाद्विपुत्रयोग	१८०
बिस्मयशीलयो०	१६८	मातृशापाद्विपुत्रयोग	"
हीनधीयो०	१६८	कुलदेवदोषाद्विपुत्रयो०	१८२
जडयो०	१६८	सुतहीनयोग	"
याज्ञिकयो०	१६९	पुत्रनाशयोग	१८४
मात्रिकयो०	१६९	पुत्रातिवा पुत्रसुस्तरहितयोग	१८५
भिषक् तथा डाक्टरयो०	१७०	वंशविच्छेदयोग	१८७
धैयाकरणयो०	१७०	विलंबतःप्रजायोग	१८८
मीमांसकयो०	१७१	कष्टात्पुत्राप्तियोग	१८९
तर्कज्ञयो०	१७१	शीघ्रसंतानोदययोग	"
सांख्यज्ञयोग	१७१	पुत्रप्राप्तियोग	"
गणितज्ञयोग	१७१	कन्याप्राप्तियोग	१९१
ज्योतिर्विद्ययोग	१७२	भल्पापत्ययो०	१९२
त्रिकालज्ञयोग	१७३	बहुप्रजायो०	१९३
वेदातसंगीतज्ञयोग	१७३	पुत्रपुत्रीसंख्यायो०	"
वेदातज्ञयोग	१७३	प्रथमपुत्रकिंवापुत्रीजन्मयो०	१९५
ब्रह्मनिष्ठयोग	१७४	औरसपुत्रयो०	"
कवियोग	१७५	दत्तपुत्रयो०	१९६
विदुषारंजकयोग	"	दासीपुत्रयो०	"
विद्वान तथा पंडितयोग	"	क्रोतपुत्रयोग	"
पटशास्त्रवल्लभयोग	१७६	पुत्रेणसहमिन्नता तथा उदासी-	"
ग्रंथकर्तायोग	"	नता योग	"
शूद्रोपिविद्वान्	"	सुतभाजानुवर्तियो०	१९७
सर्वविद्यायोग	१७७	पुत्रवाक्यवश्ययो०	१९७
भद्रेजी, पारसी, भरवीविद्यायोग	"		

इतिपंचमविवेकः

विषय  
अथपष्टविवेकः ।

विषय	पृ०	विषय	पृ०
ज्ञातिशत्रुयो०	१९८	पीनसरोगयोग	२०९
सुत शत्रुयोग	"	पिसाचपीडायोग	"
मातृवैरयोग	"	चातुर्थिकज्वरयोग	"
पिनाशत्रुयोग	"	देहवैकल्ययोग	"
शत्रुपीडायोग	"	तनशोष, गुल्म, संग्रहणी	"
स्त्रीशत्रुयोग	१९९	और भतिसारयोग	२१०
वेरिहंता तथा शत्रुनाशयो०	"	अग्निविपादित तथा शीत	"
व्रणपीठादिपीडायो०	२००	रुक्मयोग	"
तापगंडयोग	२०२	प्रमेहरोगयोग	"
जलजगंडयो०	"	वातरोगयोग	२११
पित्तरोगीयोग	"	मूत्रकृच्छ्ररोगयोग	"
भामरोगी "	२०३	कुष्ठरोगयोग	"
क्षयरोगी "	"	शूलरोगयोग	२१४
चौराप्यजनितरोगयोग	२०४	पामान ( स्राजरोग ) योग	"
हृद्रोगीयोग	"	अर्शरोगयोग	"
व्याधियुत नित्यरोगी तथा-	"	कफरोगयोग	२१५
नानारोगवान् योग	"	प्लीहरोगयोग	"
स्त्री रोग "	"	दद्रु रोगयोग	२१६
दीर्घरोग "	"	जलभययोग	"
उदररोगीयोग	२०५	सर्पभययोग	"
दंतरोगीयोग	"	चौर तथा अग्निभययोग	"
स्मररोगीयोग	"	फोडा, अग्नि तथा स्रलभय	"
नाभिरोगीयोग	"	योग	२१७
पादरोगीयोग	"	श्वानभययोग	२१८
गुदरोगी वा गुह्यरोगीयोग	२०६	शगलादिभययोग	"
शस्त्रादिपीडायोग	"	चतुष्पद्भययोग	"
अपस्मारीयोग	"	मृगभययोग	"
तालुरोगयोग	२०७	गजभययोग	"
गलरोगयोग	"	अश्वभययोग	२१९
मस्त्ररोगयोग	२०८	गेहशैथिल्यभययोग	"
मुखरोगयोग	"	क्षेत्रचिंतायोग	"
कर्णरोगयोग	"	सौख्यचिंतायोग	"
	"	घाहनाभरणवस्त्रचिंतायोग	२१९
			"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
छत्रचामरचिंतायोग	"	बहुदारायो०	२३०
पुत्रचिंतायोग	"	शतस्त्रीगामीयो०	२३१
धीचिंतायोग	२२०	सुंदरस्त्रीयो०	२३२
तातबंधुचिंतायोग	२२०	वयोधिकस्त्रीयो०	"
यात्राचिंतायोग	"	विकलांगीस्त्रीयो०	"
मातुलमुखाभावयोग	"	कलावतीस्त्रीयो०	"
मातुलसुखयोग	"	रोगार्तस्त्रीयोग	२३२
इतिषष्ठविवेकः	२२०	पुनर्भूभार्यायोग	२३३
अथसप्तमविवेक ।		पतिव्रतास्त्रीयोग	"
युद्धारंभात्पूर्वधृष्टयोग	२२१	सुदारायोग	२३४
युद्धेजाहचयोग	"	विधवास्त्रीलाभयोग	"
युद्धेपराजययोग	"	जारिणीस्त्रीयोग	"
युद्धेरासाही युद्धकुशलयो०	२२२	कुदारायोग	"
सेनापतियो०	"	दाशीसमास्त्रीयोग	२३५
व्यभिचारीयो०	"	बन्ध्यास्त्रीयोग	"
दंपतिजारयो०	२२४	षण्ठास्त्रीयोग	"
नानास्त्रीगामीयो०	२२५	स्वदाररतयोग	२३६
मातृगमनकर्तायो०	"	कलशांतरभागीयोग	"
भगिनीगमनयो०	"	वाल्लेपिवाहयोग	"
बंध्या तथा रजस्वलासे		विवाहवर्षप्रमाणयोग	२३७
संगकायो०	२२६	दूरदेशेविवाहयोग	२३८
वैश्यासंगयो०	"	स्युक्तस्तनीभार्यायो०	"
ब्राह्मणीसंगयो०	"	दीर्घे तथा ह्रस्वभगवतियोग	"
गर्भिणीसंगयो०	"	गुह्याद्रास्त्रीयोग	"
कृष्णवर्ण युक्तासंगयो०	"	जापानाशयोग	२३९
गुरुतल्पगयो०	२२७	जायाहीनयोग	२४१
वयोधिकस्त्रीगमनयो०	२२७	लोकापवादाद्भार्यात्यागयो०	२४२
पशुगामीयो०	"	भार्यायाभग्निदाहयो०	२४२
भगचुम्बनशीलयो०	२२८	स्त्रीशरीरेपिशाचपीडायो०	"
विवाह संख्यायो०	"	दारहंतायोग	"
एक विवाहयो०	२२९	कलत्रसंपत ( स्त्रीसुख ) योग	"
द्विभार्ययो०	"	कामिनीतोषकृतयोग	२४२
त्रिभार्यायो०	२३०	वाणिज्यवात्तयोग	२४३
		इतिसप्तमविवेकः ।	

विषय

पृ०

विषय

पृ०

अथ अष्टमविवेकः ।

दीर्घायुयोग	२४४
मध्यायुयोग	२४५
अल्पायुयोग	२४६
सद्योमृत्युयोग	२४७
वर्षांतरेमृत्युयोग	"
अर्काब्देमृत्युयोग	"
१६ मे वर्षे मृत्युयोग	२४७
१८-२०-२२-२५-२६-२७	
२८-२९-३०-३२ मे वर्षे-	
मृत्युयोग	२४८
२४-३६-३०-३३-३७-४२	
४४-४० मे वर्षे मृत्युयोग	२४९
४५-४८-५२-५७-५८-६०	
६६-६८-६५-७० मे वर्षे मे	
मरण होनेकेयाग	२५०
७०-८०-८६-१००-१२०मे	
वर्षे मरण होनेकेयो०	२५१
सिद्धान्तमृत्युयोग	"
सर्पान्तमृत्युयोग	"
शस्त्रान्तमृत्युयोग	२५२
इवदंशान्तमृत्युयोग	२५२
राजगोहेमृत्युयोग	२५३
कुमृत्युयोग	"
तीर्थवापथे मरणयोग	"
कफादतिसाराद्वामृत्युयोग	२५४
शकटान्तमृत्युयोग	"
कारागारे शूलनवामृत्युयोग	"
शुष्याया वा अंतराले मृत्युयोग	"
विभक्तिरोगान्तरणयोग	"
उर्ध्वबंधनान्तरणयोग	२५४
विद्युत्पाततो मृत्युयोग	२५५
घाहना न्तरण योग	"

स्वदेशे विदेशे मार्गेवा मरणयोग	"
चौरान्तरणयोग	"
शिलाप्रपातान्तरणयोग	२५६
कूपपातान्तरणयोग	"
स्वजनेनहननयोग	"
जलोदरेण मरणयोग	"
रत्नोत्थशोपरोगे मृत्युयोग	"
रज्जु, अग्नि तथा पढ़ने से	
मरणयोग	२५७
स्त्राद्द्वेतुक् मरणयोग	"
शूलरोगेण मृत्युयोग	"
काष्ठादिघाततो मरणयोग	"
कृमिपाततो मरणयोग	२५८
यंत्रपीढनान्तरणयोग	"
विषमध्ये पतितस्य मृत्युयोग	"
प्रेतः पक्षिर्भक्ष्यतयोगे	"
शैलाशिखर, अशानि, तथा	
दीवालके पढ़नेसे मरणयोग	२५९
रणेतयाशत्रुकोपतः मरणयोग	२५९
व्रषभेण मरणयोग	"
वृक्षपाततो मरणयोग	२६०
व्याघ्रतो मरणयोग	"
शरेण " "	"
विषेण मरणयोग	२६०
गजत " "	"
अष्टमस्थानगतग्रहक्षेपेण	
मरणयोग	२६०
द्रेष्काणफल ( मेधादि चारारा	
शियोके प्रत्येक द्रेष्काण वशा	
न्तरण योग )	२६१
पत्तिसहगामिनीयोग	२६४
शुभलोकाप्ति योग	२६५
ब्रह्मसायुज्ययोग	"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
विष, पाषाण, भग्नि, जलघात योग	२६६	प्रव्रज्यायोग	"
वाहनभययोग	२६८	प्रव्रज्याभ्रष्टयोग	२८४
भुज, कर, पाद, मस्तक कण छेद योग	२६८	अथदशमविवेकः ।	
ब्रह्महत्यादियोग	२६९	व्यापारीयोग	२८५
इत्यष्टमविवेकः ।		मानोयोग	"
अथनवमविवेकः ।		मानहीनयोग	२८६
पुण्यवान् योग	२७०	कर्मादिवैकल्ययोग	"
पातकीयोग	२७१	सत्कीर्तियोग	२८७
शंकरभक्तियोग	२७३	भसत्कीर्तियोग	२८७
गौरि तथा लक्ष्मी आदि देविभक्तियोग	२७३	भाज्ञाकर्तायोग	२८८
विष्णु तथा सात्विक देवभक्तियोग	२७४	कूराज्ञा कर्तायोग	"
स्कंदभरवादिपुरुषदेव भक्तियोग	"	साम्पाज्ञा कर्तायोग	"
गुरुभक्तियोग	२७५	राजकार्य कर्तायोग	२८९
यक्षिणीभक्तियोग	"	कुलमुख्य कुलतुल्य योग	"
प्रेताशन्यादिभक्तियोग	"	प्रतापि योग	२९०
परपीडक देवभक्तियोग	"	श्रीमान् योग	"
धर्माध्यक्षयोग	२७५	पितृसुख योग	"
कूप तलाव कर्तायोग	२७६	पितापरस्त्रीगामीयोग	२९१
जीर्णोद्धारकर्तायोग	"	पिताधूर्त योग	"
सुस्थान कर्तायोग	"	पितृदुःख योग	२९२
यज्ञकर्तायोग	"	पितृसुखादि भल्पयोग	"
यज्ञोविघ्नयोग	२७७	पितृदेहनयोग	२९३
भयशयोग	"	जन्मतः प्राक्पितृमरणयोग	२९३
भाग्यहीनयोग	"	सिंहासनाप्ति योग	२९४
भाग्यवान् योग	२७८	नृपतुल्य योग	२९५
भाग्योदययोग	२७९	राजाधिराज योग	२९६
गंगास्नानयोग	"	भूपति योग	२९८
महापात्रायोग	२८२	भूपजोभूपभन्यजो मंत्रीयोग	३०५
		राजयोग भंग योगाः	३०९
		इति दशमविवेकः ।	
		अथैकादशमविवेकः ।	
		बहुलाभयोग	३११
		वाहनवान् योग	३१२

विषय	पृ०	विषय	पृ०
वाहनव्यूहनाथ योग	३१३	रवि शनि	" "
वाहन सुख योग	"	चंद्र मंगल	" "
<b>अथद्वादशमविवेकः ।</b>			
हानियोग	३१५	चंद्र बुध	" "
त्यागीयोग	"	चंद्र गुरु	" "
दंभाद्धर्मपरिग्रहयोग	"	चंद्र शुक्र	" "
दानशील योग	"	चंद्र शनि	" "
दानप्राप्तीयोग	३१६	बुध शनि	" "
धर्म दृढबुद्धि योग	"	शुक्र गुरु	" "
भद्रदाता योग	३१७	बुध शुक्र	" "
सदऽसद्य योग	"	बुध गुरु	" "
धनसंचय कर्ता योग	"	शनि मंगल	" "
ऋणग्रस्तयोग	३१८	शनि शुक्र	" "
ऋणदातायोग	३१९	शुक्र मंगल	" "
बंधन योग	३१९	मंगल गुरु योग फल	३२७
योगाना फलपरिपाकसमय	३२०	परगृहवासी योग	३२८
<b>अथमिश्रविवेकः ।</b>			
बन्दिजीवियोग	३२१	मातृ पितृ घातीयोग	"
बाग्विद्या हीनयोग	"	निर्धनी लोभी योग	"
विरक्त योग	"	जन्मावसरे पितृ मातृ र्वा	"
लग्नेशेन द्वादशभावशयो		मरणयोग	"
संबंधफल	३२१	भ्रातृधनक्षेत्रादि लाभ योग	"
मिथफल	३२३	कपटेन विषभक्षण योग	३२९
जपध्यान ममाधिवात योग	३२४	धैर्यान्वित युद्धपटुयोग	३२९
धर्मनिरतयोग	"	सत्यवादी योग	"
धनी कृपण प्रतापी योग	३२५	कटुप्रियादि योग	३२९
कुलघ्न तथा बहुस्त्री रतयोग	"	दद्रु कंडू पीडायोग	३३०
द्विग्रहयोग	३२६	मदाग्नि भ्रातृहीनयोग	३३०
रवि चंद्र योग फल	"	कलह शिलादि योग	"
रवि बुध योग फल	"	अधियोग	३३२
रवि गुरु योग फल	"	भनफा लक्षण	३३२
रवि शुक्र योग फल	३२६	मुनफा "	"
		दुर्धरा "	"
		केमद्रुम लक्षण	"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
सुनफा योग फल	३३३	विषकन्याभंगयोग	३४४
अनुफायोग फल	"	काकवन्ध्यायोग	"
दुरुधरायोग फल	"	वेन्ध्यायोग	"
केमद्रुम योग फल	"	इतिस्त्रीजातकतत्त्वं ।	
केमद्रुम भंगयोग	"	अथदशातत्वम् ।	
प्रचरधन तथा सिद्धयोग	३३४	दशाविचार	३४५
देवताऽतिथि पूनक योग	"	पूर्णादशाफल	"
इतिप्रकीर्णतत्वम् ।	"	रिकादशाफल	"
अथस्त्रीजातकतत्त्वं		अनिष्टादशाफल	३४६
पुंजातकोक्तं फलं स्त्रीणां विलोक्यं	३३५	अवरोहिणीदशाफल	"
स्त्रीणां भसंभवं पतिपु ज्ञयं	३३५	आरोहिणीदशाफल	"
शील भूषण गुणवतीस्त्रीयो०	"	पूर्वादिशुभासतरार्द्धमिश्रा	"
पुरुषा कृति स्त्री योग	"	शुभदशा	३४७
प्रत्येकराशीके त्रिंशशकाफल	"	फष्टादशा	३४७
स्त्रीतः स्वकामशमनकत्रायोग	३३७	लग्नदशाफल	३४८
कुभर्तृका योग	३३८	वक्रगतिस्थग्रहदशाफल	"
पत्नीवभर्तृान्वितायोग	"	अभीष्टसिद्धिदादशा	"
प्रवासीपति योग	"	राजभयदा तथा रिष्टदादशा	"
भर्तृत्यज्यते योग	"	भतिपीडादादशा	"
अविवाहयोग	"	महाप्रतिष्ठादादशा	"
पुनर्भूयोग	"	लग्नादिद्वादश भावेश	
अन्यसक्ता योग	"	दशाफलम्	३४९
सगोगभगा वा सद्भगायोग	३३९	अंतरदशाफलम्	३५०
पतिलक्षण	"	दशांतदेशाप्रवेश समय	
सुखयुता योग	३४०	वशांशुभाशुभदशाफलं	३५२
भर्तृपुना योग	३४१	ग्रहचारवशेन अष्टवर्गज	
अनपत्यायोग	"	शुभाशुफलविचार	३५४
मृत्यापत्यायोग	"	इति दशातत्वम् पंचमं ।	
पुंषुदृष्टायोग	"	ग्रंथकर्ताकानिवासस्थानव	
दुःस्त्रातया कुलद्वयघ्नी योग	३४२	ग्रंथसमाप्तिसमय वर्णन	३५५
बाल विधवायोग	"	टीकाकारकावंशवर्णन	३५६
विधवायोग	"		
विषकन्यायोग	३४३	ग्रंथसमाप्ति :	

श्रीभुवनेश्वरी प्रिंटिंगप्रेस, मे उपीहुई पुस्तके  
विक्रयार्थ तयार है.



❧ लघुपूजाअनुष्ठान पद्धति ❧

पूजा तथा अनुष्ठान सबधी ऐसीपुस्तक आजतक कही भी छपीनही  
इस १ पुस्तक के पढनेसे हरेक वालक पूजा और फर्मकाढ मे निपुण  
होजाताहै और पूजा अनुष्ठान सबधी कामके लिये दुसरी कोई पुस्तक  
पढनेकी जरूरत नही रहतीहै पुस्तक परामोयोगों पास रखने योग्य  
है मूल्य 1=)

❧ ग्रह आणि ग्रहाचा परिणाम मराठी ❧

इसमे ग्रहक्यापदार्थहै और ग्रहोका असर मनुष्या दिकपर रयो और  
क्योकरहोता है वगेरा ५ बिषय के पश्चोके उत्तर भति उत्तम प्रकारसे  
लिवखेगये है जिसके पढनेस सर्व साधारण भी फलित के नमानने  
वाले नास्तिको को उत्तर देके परास्वकारसनेहै पुस्तक अवश्य देखने  
योग्य है जरूरीकरो पुस्तके बहुत कमरहगई है मूल्य ॥)

परिक्षा विचार ।

मे इस साल परिक्षामे पास होउगा के नही इसप्रश्न का उत्तर सोप  
पत्तिक शास्त्रानुसार जाननाहो तो इसपुस्तकको अवश्य देखिये विचार  
हिन्दी भाषा मे किया गया कीमत २॥ ) मात्र

नाडीमानाविवाहपटल.

इसम विवाहमहूर्त विषय विवेचन के ६० श्लोकहै येप्रत्येक श्लोक  
अंक २ पत्रके बराबरकेहै इसलिये इनसाठही श्लोकोंका १ पाठ पूरा  
हुवाके १ घड़ी याने २४मिनिटहोजाते है अन इसग्रंथके द्वारा विवाह  
महूर्त का निर्णय और सरास्र टी घड़ीकी पहचानये दोनुकाम एव साथ  
होसकेहै पुस्तक बडेकामकी देखनयोग्यहै मूल्य २॥) मात्र

अध्यक्ष श्रीभुवनेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस-  
ज्योतिपर्कायालय-रतलाम.



भाषाटिकासहित.

## जातकतत्व प्रारम्भः ।

साम्बसदाशिवं विष्णुं गणेशं च गुरुंतथा ।

नत्वाजातक तत्वस्य भाषा टीकां करोम्यहं ॥ १ ॥

टीकाकार ग्रन्थादिमे विघ्नविघातार्थं स्वैष्टदेवको प्रणामरूप मंगला चरण करताहै, साम्बसदाशिव एवं विष्णुभगवानं और गणेशजी तथा निजगुरु पूज्यपादमहादेवजी महाराज को नमस्कार करके मे श्रीनिवास शर्मा जातकतत्व की भाषाटीका करताहू ॥ १ ॥

श्रीगुरुगणेशाम्ना चरणान्नत्वाप्राचीनार्वाचीन होरात ।

न्वस्यारमुद्धृत्य महादेवजातक तत्वं कुरुते ॥ १ ॥

टीका-श्रीगुरु गणेश और जगदम्बाके चरणोको नमस्कार करके प्राचीन और नवीन फलितशास्त्र के ग्रन्थोका सारलेके महादेव शर्मा जातकतत्व ग्रंथ कुरुते है ॥ १ ॥ इस प्रकार निर्विघ्नसे ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थं ग्रंथ कार स्वैष्टदेव और निजगुरु गणेशको नमस्कार करके ग्रंथारम्भ करते है ॥

मस्तकमुखोरो हृदुदरकटिवरितलिङ्गोरुजानुजङ्घांघ्रि

मेपादित 'कालाङ्गम् ॥ २ ॥

टीका-राशियो के अंग विभाग-मस्तक १ मुख २ स्तनमध्य ३ हृदय ४ उदर ५ कटि ६ वास्ति [ नाभीके नीचेका भाग "पेटू" ] ७ लिङ्ग ८ जंघा ९ घुटना १० पिडली ११ पाँव [ पैर ] १२ इनस्थानोमे क्रमसे मेष राशीको भादिले चाराहि राशी कालपुरुष के अंग मे जानना । राशी चक्र

के विभाग में जिस राशीका जिस स्थान पर अमल कहा है जैसे मेषमा मस्तकपर सिंहका पेटपर इत्यादि उनसर्व १२ वाराहिस्थाना में से जिस विभाग की राशीदीर्घहो वह अंग लम्बा हस्तराशी हो तो ह्रस्व अथवा जिस राशी को पापग्रह पीडित करते हो वह राशी जिसस्थानपर अमल रखती होगी उस अंगमें कष्ट जानना जैसे कर्क या सिंह पर पापग्रह है इनको पापग्रह देखते हैं इनका स्वामि पापग्रह से युक्त दृष्ट है तो पेटमें या हृदयमें पीडा कहना एवं सर्व अंगोंका विचार काल पुरुषके अंगविभागसे जानना ॥ २ ॥

म. शु बु, च, र, बु, शु, म, गु, श, शगवो मेषादीशा ॥ ३ ॥

टीका-मंगल १ शुक्रे बुध ३ चंद्र ४ राहु ५ बुध ६ शुक्रे ७ मंगल ८ गुरु ९ शनि १० शनि ११ गुरु १२ मेषादिराशिया के क्रमसे स्वामी कहे हैं ॥ ३ ॥ इस सूत्रमें ग्रंथकर्तान नामैकदशनामनिदेशन्याय से १२ राशियों के स्वामियों के नाम एक २ अक्षरमें कहे हैं ॥ ३ ॥

क्रूरसौम्यौ नृस्त्रियौ चरस्त्रिभ्रद्विस्त्रभावाश्चमेषादेः ॥ ४ ॥

सिंहादिचतुष्कयुग्मकुंभाः शीर्षोदया मीन उभयोदय. शे-  
पापृष्टोदयाः ॥ ५ ॥

टीका-राशियोंके क्रूरदिसंज्ञा=क्रूर और सौम्य, पुरुष स्त्री, चरस्त्रिय और द्विस्त्रिभान, इस क्रमसे मेषादि १२ राशिया कि संज्ञा जानना ॥ ४ ॥ सिंह ५ कन्या ६ तूल ७ वृश्चिक ८ मिथुन ३ और कुम्भ ११ शीर्षोदय राशी मीन १२ उभयोदय और मेष १ वृषभ २ कर्क ४ धन मकर १० पृष्टोदय राशी जानना ॥ ५ ॥

विमिथुनशीर्षोदया दिने शेषारात्रौ बलिनः ॥ ६ ॥

टीका मिथुनपिनाशीर्षोदय ५।६।७।८।११ राशिदिनमें बलवान और शेष पृष्टोदय उभयोदय १।२।३।४।९।१०।१२- राशि रात्रौ में बलवान जानना ॥ ६ ॥

## राशीयोकी संज्ञाका चक्र.

मेघ इयम मिथुन बर्क सिद्ध कन्या तुल्य वृश्चिक धन इकर कुंभ मीन  
 क्रूर सौम्य क्रूर सौ-य क्रूर सौ-य क्रूर सौम्य क्रूर सौम्य क्रूर सौम्य  
 पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री  
 चर स्थिर इह- चर स्थिर द्विस्थ चर स्थिर द्विस्थ चर स्थिर द्विस्थ.  
 पृष्ठा. पृष्ठा. शीषो. पृष्ठा. शीषो. शीषो. शीषो. पृष्ठा. पृष्ठा. शीषो उभयो.  
 रात्री रात्री रात्री रात्री दिन दिन दिन दिन रात्री रात्री दिन रात्री

देह धन सौत्यमात्रात्मजारि स्त्रीमृति धर्म कर्म लाभव्य

यालगात्तावाः ॥ ७ ॥ टीका.

टिका—देह १ धन २ सौत्य ( भ्रातृ ) ३ मात्र ( माता ) ४ आ-  
 त्मज ( पुत्र ) ५ अरि ( शत्रु ) ६ स्त्री ७ मृति ८ धर्म ९ कर्म १०  
 लाभ ११ व्यय १२ लग्नको आदिले क्रमसे चाराहि भाषोके नाम  
 जनना ॥ ७ ॥

ग्रह होरा द्रेष्काण नवांश द्वादशांश त्रिशांशाः पद्वर्गाः ॥ ८ ॥

टिका—पद्वर्ग—ग्रह १ होरा २ द्रेष्काण ३ नवांश ४ द्वादशांश  
 ५ और त्रिशांश ६ इनको पद्वर्ग कहते है ॥ ८ ॥

समेचंद्रार्कयो विपमेव्यत्ययेनहोरा ॥ ९ ॥

खेपुनवर्शेशा द्रेष्काणपाः ॥ १० ॥

चरभेस्वम्मात्स्थिरे नवमभाद्विम्बभावे पञ्चमभात्रयांशाः ११

स्वभाद्वादशांशाः ॥ १२ ॥

समेगुक्तेज्याकिं कुजानां पंचाद्यष्ट शरेपवास्त्रिंशांशा वि-  
 पमेन्यथा ॥ १३ ॥

टी०—१ ग्रह—\* राशियो के स्वामि ऊपर कहे उस प्रमाणे लिखना १

नाट—\* स्पष्टग्रहों के आशेषोंको समस्त दशवगदि गणित और फलतरे और  
 संप्रतमं महलाषनाय प्रागं अतए प्रत्यक्षपतातशरदा है एतदर्थं बेनवा उदे।न।मि।न।  
 वादि प्रयोगे हेक् तुल्य स्पष्टग्रहभवा दाधन प्रथम करना तदुप।त।उन्।प्रो।र।दशवगं  
 शैः फलविचार करना

२ होरा—समराशी मे १५ अंशतक चंद्र और १५ से ३० अंशतक रवीकीहोरा जानना विषम राशीमे इससे उलट अर्थात् १५ अंशतक रवीकी १५ से ३० अंशतक चंद्र की होरा जानना ॥ ९ ॥

३ ट्रेष्काण—राशीके प्रथम ट्रेष्काण (० से १० अंशतक) मे उसी राशीका स्वामि दूसरे ट्रेष्काण (१० से २० अंशतक) में अपनी राशीसे पांचवी राशीका स्वामि तीसरे ट्रेष्काण (२० से ३० अंशतक) में अपनी राशीसे नवमी राशीका स्वामि ट्रेष्काण का स्वामि होता है १०

४ नवांश—चरराशी मे अपनी राशीसेहि स्थिरराशी मे अपनी राशीसे जो नवमीराशी हो उसको आदिले द्विस्वभाव राशीमें अपनी राशीसे जो पांचवी राशी हो उसको आदिले नवांश के स्वामी जानना राशीके नवमें भागको नवांश कहते हैं. एक नवमांश ३।२० (तीनअंश बीसकला) का होता है ॥ ११ ॥

५ द्वादशांश—द्वादशांश के स्वामी अपनी राशीसे ही जानना. एक द्वादशांश छह अंशका होता है ॥ १२ ॥

६ त्रिंशांश—समराशी मे शुक्र बुध गुरु शनि मंगल ५।७।८।९।५ इन अंशोंके क्रमसे त्रिंशांश के स्वामी—कहे हैं विषम राशी मे व्युत्क्रम [ उलटे ] अर्थात् ५।५।८।७।५ इन अंशों के क्रम से मंगल शनि गुरु बुध शुक्र त्रिंशांश के स्वामी जानना ॥ १३ ॥

पडवर्गा एव सप्तमांशसहिताः सप्तवर्गाः १४

विषमे स्वस्मात्समे सप्तमात्मतमांशः १५

सप्तवर्ग चक्र । उपरोक्त पडवर्गों मे सप्तमांश मिलाने से सप्तवर्ग होते हैं ॥ १४ ॥ ७ सप्तमांश—विषम राशीमे अपनी राशी से ही और सम राशीमे अपनी राशीसे जो सातमी राशी होव उससे गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी सप्तमांशका स्वामी होता है । एक सप्तमांश ४ अंश १७ कलाका होता है ॥ १५ ॥

सप्तवर्गा दशांश षोडशांशपट्यंशयुता दशवर्गाः १६

दशवर्ग—सप्तवर्ग मे दशांश षोडशांश और पट्यंश ये तीनवर्ग

और भी मिलादेन से दशवर्ग होते हैं ॥ १६ ॥

ओजेस्वस्मात्समे नवमादशमांशः ॥ १७ ॥

चरेजायाः स्थिरेसिंहाया द्विस्वभावे चापायाः षोडशांशाः १८ ॥

स्वभात्पट्टचंशः ॥ १९ ॥

टीका—दशांश षोडशांश और पट्टचंश लाने कि विधि—विषम राशी में अपनी राशी से ही समराशी में अपनी राशीसे जो ९ नवमी राशीहो उससे दशमांश के स्वामी समझना ( एक दशमांश ३ तीन अंश का होता है ) ॥ १८ ॥

टीका—चर राशी में मेष राशीको आदिले स्थिर राशीमें सिंह राशीको आदिले द्विस्वभाव राशी में धन राशी को आदिले ग्रह षोडशांश के जितनी संख्या के विभाग में होवे उतनी संख्या पर्यन्त निम्नलिखित हैं

द्व्यादिरवो द्वाऽधिभिन्नवर्गः पारिजातोत्तम गोपुर सिंहासन पा  
रावतेदेवलोक देवलोकैरावतवैशेषिकमंत्रः क्रमात् ॥ २० ॥

टीका-पारिजातादि वर्ग संज्ञा लान्नीप्रिधि-उपरोक्तरीतीसे दशवर्ग  
साधन करना और उसमें नितन स्व उच्च अधिभिन्न ग्रहण वर्ग होये उन  
वगोकि संख्या का योग करना वह याग यदि २ होयतो वह ग्रह पारिजात  
२ वर्ग भेहै एवं ३ उत्तम ४ गोपुर ५ सिंहासन ६ पारावत ७ देवलोक  
८ देवलोक ९ पारावत १० वैशेषिकाग्र वर्ग संज्ञा जानना उदाहरण ॥ जैसे  
सूर्यके दशवर्गमे स्व २ उच्च १ अधिभिन्न ग्रहण वर्ग ३ हे इन्द्रा याग  
६ हुवा तो सूर्य ६ उच्च पारावत संज्ञा वर्गमे ह एष हि सर्वत्र जानना ॥ २० ॥

१ पृथ्वी २ वायु ३ अग्नि ४ जल ५ अether ६ अंध ७ कुल ८ विषा ९ अग्नि  
१० माया ११ प्रेतपुरीष १२ वरुण १३ द्र १४ कला  
१५ अग्नि १६ चंद्र १७ चंद्र १८ मृदु १९ मृदु २० पद्म  
२१ विष्णु २२ वागीश २३ दिगम्बर २४ देवा २५ अर्द्ध  
२६ कलिनाश २७ अतिशय २८ कमलाकर २९ मंदात्मज  
३० मृत्यु ३१ काल ३२ दावाग्नि ३३ घोर ३४  
यकंठक ३५ सुधा ३६ अमृत ३७ पूर्णेदुं ३८ विप-  
दिग् ३९ कुलनाश ४० मुख्य ४१ वंशक्षयो ४२  
६-प्रात ४३ कालरूप ४४ सौम्य ४५ मृदु ४६  
शीतल ४७ दंष्ट्राकराले ४८ न्दुमुख ४९ प्रीण ५० क  
लाग्नि ५१ दंडायुध ५२ निर्मल ५३ शुभा ५४ ५  
शुभा ५५ तिशीतल ५६ सुधा ५७ पयोधि ५८ ज्ञ-

मंजें ५९ दुरेखा ६० युग्मेतु व्यत्ययः ॥ २१ ॥

टी० विपमराशीभेषष्टयं शेष क्रमसे धोर १ राक्षस २ इत्यादि क्रमसे जानना २१  
 और समराशी भे उलटे जानना । अर्थात् विपम राशीका गृह जितनी  
 संख्याके पष्टयंश विभागमें हों उतनीही संख्या पर्यंत क्रमसे धोर १  
 राक्षसादि गिननेसे पष्टयंश होवेगा. और समराशीमें उतनेही पष्टयंश वि-  
 भाग पर्यंत उलटा इंदुरेखा १ भ्रमणादि २ क्रमसे गिननेसे पष्टयंश शेष  
 होताहै ॥ २१ ॥

### पष्टयंशश चक्रम् ।

धोर १-६० राक्षस २-५९ देव ३-५८ कुबेर ४-५७ रक्षोगण ५-५६ किन्नर ६-५५  
 भ्रष्ट ७-५४ कुलव्र ८-५३ विष ९-५२ अग्नि १०-५१ माया ११-५०  
 प्रेतपुरीष १२-४९ परुण १३-४८ इंद्र १४-४७ कला १५-४६ अहि  
 १६-४५ चंद्र १७-४४ चंद्र १८-४३ मृदु १९-४२ मृदु २०-४१  
 पद्म २१-४० विष्णु २२-३९ वागीश २३-३८ दिग्म्बर २४-३७  
 देव २५-३६ अर्द्ध २६-३५ कलिनाश २७-३४ क्षितीश २८-३३  
 कमलाकर २९-३२ मंदात्मज ३०-३१ मृत्यु ३१-३० काल ३२-२९  
 दावाग्नि ३३-२८ घोर ३४-२७ यमकंटक ३५-२६ सुधा ३६-२५  
 अमृत ३७-२४ पूर्णेंद्रु ३८-२३ विषदिग्ध ३९-२२ कुलनाश ४०-२१  
 मुख्य ४१-२० वंशक्षय ४२-१९ उत्पात ४३-१८ कालरूप ४४-१७  
 सौम्य ४५-१६ मृदु ४६-१५ शीतल ४७-१४ दंष्ट्राकराल ४८-१३  
 इंदुमुख ४९-१२ प्रवीण ५०-११ कालाग्नि ५१-१० दंष्ट्रायुध ५२-९  
 निर्मल ५३-८ शुभ ५४-७ अशुभ ५५-६ अतिशीतल ५६-५ सुधा  
 ५७-४ पयोधि ५८-३ भ्रमण ५९-२ इंदुरेखा ६०-१.  
 इन ६० में २६ क्रूरांश १ मध्यम ३३ देव भाग के श्रेष्ठ ( शुभ ) फलदे  
 ने वालेहै ॥

लग्नाम्ब्वस्तदशमानिकेंद्राणि ॥ २२ ॥

टीका—लग्न १ चतुर्थ ४ सप्तम ७ और दशम १० ( १-४-७-१० )  
 इन चार स्थानोंकी केन्द्र संज्ञाहै ॥ २३ ॥

स्वायाष्टमात्मजाः फणफराः ॥ २३ ॥

टीका—दूसरा ७ ग्यारवां ११ आठवां ८ पांचवां ५ ( ७—५—८—११ )  
 इनचारस्थानोंके फलफल संज्ञाहै ॥ २४ ॥

अरि धर्मान्त्या आपोह्निमाः ॥ २५ ॥

टीका—तिसरा ३ छठा ६ नवमा ९ बारवा १० ( ३—६—९—१० )  
 इनचार स्थानोंके आपो क्लम संज्ञाहै ॥ २४ ॥

त्रयाय स्वारयाः उपचयाः ॥ २५ ॥

टीका—तीसरा ३ छठा ६ दसवा १० ग्यारवां ११ स्थानकी उपचय संज्ञाहै २५  
 धर्मात्मजो विक्रोगो ॥ २६ ॥

टीका— नवम ९ और पंचम ५ स्थानकी विक्रोग संज्ञाहै ॥ २६ ॥

तुर्याष्टमो चतुरस्रौ ॥ २७ ॥

टीका—चौथे और आठम स्थान को चतुरस्र कहते हैं ॥ २७ ॥

स्वास्तौ मारकौ ॥ २८ ॥

टीका—दुसरा २ और सानमा ७ येदोनों स्थान मारक संज्ञकहै ॥ २८ ॥

स्वांत्यौ नेत्र संज्ञौ ॥ २९ ॥

टीका—दूसरा २ बारवा १० स्थान नेत्र संज्ञकहै ॥ २९ ॥

पश्चाष्टमांत्याधिकादुष्टाश्च ॥ ३० ॥

टीका—छठा ६ आठमा ८ बारवा १२ इन ३ तीन स्थानोंको विक-  
 स्थानकहतेहैं और दुष्टस्थानभी कहतेहैं ॥ ३० ॥

कर्कालिङ्गपान्त्य भागा ऋभसंधयः ॥ ३१ ॥

टीका कर्क ४ वृश्चिक ८ मीन १२ राशीयोंका अंत्य भाग ( २९<sup>मी</sup> अंश )  
 ऋभ संधी कहाना है ॥ ३१ ॥

सिंहादि चतुष्कं दीर्घं कुंभादि चतुष्कं ऋस्वं शेषाः समाः ३२

टीका—सिंह ५ कन्या कुल ७ वृश्चिक ८ राशी दीर्घ संज्ञक और  
 कुंभ ११ मीन १० मेष १ वृषभ २ राशी ऋस्व ( छोटी ) शेष मिथुन ३  
 कर्क ४ धन ९ मकर १० राशी सम संज्ञकहैं ( नहिदीर्घ और नहि  
 ऋस्व अर्थात् दोनोंके मध्यकी ) ॥ ३२ ॥



अर्को १ जीवः २ कुज ३ शंभ्रज्ञौ ४ गुरु ५  
 मंदारौ ६ शुक्र ७ शनिः ८ सूर्यज्यौ ९ शार्केज्य-  
 मन्दा १० जीवः ११ शनि १२ रितिक्रमात्तन्वादि  
 कारकाः ॥ ३३ ॥

टीका—लाग्नादि वाराहिभावो के स्थिर कारक ॥ लग्नका १ रवि । धन  
 भावका २ गुरु । सहजका ३ मंगल । चतुर्थका ४ चंद्र बुध । पंचमका गुरु ।  
 रिपु ६ का शनि मंगल । सप्तम ७ का शुक्र । अष्टम का ८ शनि ।  
 नवम ९ का रवि गुरु । दसम १० का बुध सूर्य गुरु शनि । लाभका ११  
 गुरु । व्यय १२ भावका शनि । भाव कारक जानना ॥ ३३ ॥

कर्क घटैणझपालितुलाः सजलाः शेषाशुष्काः ॥ ३४ ॥

टीका—कर्क ४ कुंभ ११ मकर १० मीन १२ वृश्चिक ८ तुल ७ राशि  
 सजल ( जलराशी ) है शेष मेष १ वृषभ २ मिथुन ३ सिंह ५ कन्या  
 ६ धन ९ शुष्क राशी है ॥ ३४ ॥

क्षीणे न्द्रर्क यमारराहुशिखिनः पापा स्तन्मात्र युतो-  
 बुधश्च ॥ ३५ ॥

टीका—क्षीणचंद्र सूर्य शनि मंगल राहु केतु ये पापग्रह हैं और बुध  
 पापग्रह से युक्त होवे तो वह भी पाप होता है । पाश्चात्य विद्वानगण  
 हर्शल नेपच्युन को भी पापमानते हैं इनके अतिरिक्त शेष ग्रह [ पूर्ण  
 चंद्रमा शुभयुत बुध गुरु शुक्र ] शुभ ग्रह जानना ॥ ३५ ॥

मंदज्ञौ क्लीबौ चंद्राच्छौ स्त्रियौ शेषानराः ॥ ३६ ॥

टीका—शनि बुध नपुंसक चंद्र शुक्र स्त्री सूर्य मंगल गुरु पुरुष सज्ञक  
 ग्रहजानना ॥ ३६ ॥

✓ \* कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक क्षीणचंद्र उसके बाद पूर्ण  
 चंद्र होता है.

चंद्रार्कज्याः सात्विका ज्ञाच्छौ राजसौ शेपा स्तामसाः ३७

टीका—चंद्र मूर्य गुरु सात्विक (सतोगुणी) बुध शुक्र राजस (रजोगुणी)  
मंगल शनि राहु केतु तामस ( तमोगुणी ) ग्रहजानना ॥ ३७ ॥

मेषगो मृग कन्या कर्कान्त्य तुलाः सूर्याद्युच्च भानि  
तत्सतमानि नीचभानि दशमतृतीयाष्टाविंश पंचदश  
पंचमसप्त विंश विंशांशा अर्का दीनांपरमोच्चनीचभागाः  
॥ ३८ ॥

टीका—मेष १ (मू) वृषभ २ (चं) मकर १० [ मं ] कन्या ६ [ बु. ]  
वर्क ४ [ गु. ] मीन १२ ( शु ) तुल ७ ( श ) येराशी क्रमसे सूर्यो  
दि ग्रहोकि उच्च राशी कहीहै इनसे सातमी २ राशी [ तुल ] ( मू )  
वृश्चिक ( चं ) कर्क ( मं ) मीन ( बु ) मकर ( गु ) कन्या [ शु ]  
मेष [ शनि ] सूर्यादिग्रहो विनीच राशि जानना और इनही राशीयोके  
क्रमसे. १० । ३ । २८ । १५ । ५ । २७ । २० । ये अंश परमोच्च और  
परम नीच के अंश जानना ॥ ३८ ॥

सिंहगोजांगनाचापतुलघटाः सूर्यादिनां मूलत्रिकोण-  
भानि ॥ ३९ ॥

टीका—सिंह ५ (मू.) वृषभ २ [चं.] मेष १ (मं) कन्या ६ (बुध) धन  
९ [ गु ] तुल ७ ( श. ) कुंभ ११ ( श. ) सूर्यादि गृहोकि क्रमसे मू-  
लत्रिकोण राशी कहीहै । परंतु सूर्यकी स्वराशी भी सिंहहै और मूल-  
त्रिकोणभी सिंहहै अैसेहि बुधकी स्वराशी उच्चराशी और मूलत्रिकोण  
राशी भी कन्या राशी ही कहीहै इनका विचार अंश विभाग से ग्रंथा  
तरो मे विशेष स्पष्टी करणसे कहाहै उसके अनुसार चक्रादियाहै उससे  
स्व. उच्च. मूलत्रिकोण .राशी जानना ॥ ३९ ॥

स्वनवांशकाराशयो वर्गोत्तमाः ॥ ४० ॥

टीका—ग्रह निसराशीका हो उसीराशीका नयाशमेभी हो तो वह  
वर्गोत्तम संज्ञक होताहै ॥ ४० ॥

स्व. उच्च. नीच. मूलत्रिकोण राशि चक्रं.

रवी	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	राहु	केतु	
५	४	१ ८	३ ६	९ १२	२ ७	१० ११			स्वराशी.
भेष १०	वृषभ ३	मकर २८	कन १५	कर्क ५	मीन २७	तुला २०	वृषभ	वृश्चि	उच्चराशी परमोच्चभं
तुला १०	वृश्चि. ३	कर्क २८	मीन १५	मकर ५	कन्या २७	भेष २०	वृश्चि.	वृषभ	नीचराशिप- रम नचांश
सिंह ५	वृषभ २	भेष १	कन्या ६	धन ९	तुल ७	कुंभ ११	कुंभ ११	सिंह ७	मूल त्रिको- ण राशी
मू२० स्व१०	उ. ३ मू२७	मू१२ स्व१८	उ. १५ मू ५ स्व१०	म१० स्व२०	मू१५ स्व१०	मू२० स्व१०	मिग भौमष.	मिग भतल	उच्च मूल त्री कोण स्व रा शि के अंश

पिंगलनेत्रो रक्तश्याम वर्णः पित्तप्रकृतिः समगात्रः प्रतापीः

अल्परोमवागर्कः ॥ ४१ ॥

टीका-ग्रहोके स्वरूप ॥ जोग्रह बलवान् हो उसके अनुरूप गुण आकारादि स्वरूप जन्मतया प्रश्न में कहेजातेहैं ॥

सूर्य=पिंगल नेत्र, ( नेत्रकांति पिली ) रक्तश्यामरंग, पित्तपृकृति, सम शरीर, प्रतापी, अल्पकेश कमबोलनेवाला सूर्य हैं ॥ ४१ ॥

शुक्रःरुशो वर्तुलाङ्गो मेधावी मृदुवाक् शुभदृग्दिवेकी

वात कफात्मा चंद्रः ॥ ४२ ॥

टीका-चंद्र=श्वेतरंग, दुर्बल, गोलाकारशरीर, बुद्धिवान्, मधुरभाषी, शुभदृष्टि, विचारवान्, वातकफ, प्रकृतियुक्त चंद्र है ॥ ४२ ॥

दुष्टदृक्तरुणः रुशमध्यो रक्तसिताङ्गः पैतिकश्चंचलधी

रुदार प्रताप्यारः ॥ ४३ ॥

टीका-भौम-दुष्टदृष्टि ( खराबनजर ) वाला, तरुण ( जवान ) म-

वस्था, पतलीकमर लाल और श्वेतरंग का शरीर ( गौर ) पित्तप्रकृति चंचलबुद्धी, उदार स्वभाव प्रतापि, भौम है ॥ ४३ ॥

गद्गदवाग्वास्यशीलः सुधीर्दूर्वाश्यामाङ्गस्त्रिधातुः पुंश्च  
लोज्ञः ॥ ४४ ॥

टीका—बुध—गद्गदवचन बोलनेवाला हास्यशील ( हसनेवाला ) श्रेष्ठ बुद्धि, दूर्वा के रंगसमान श्यामरंग का भंग. धातुपित्तकफ प्रकृति, व्यभिचारी बुध है ॥ ४४ ॥

स्थूलोगौराङ्गः कफात्मापिङ्गलक्ष मूर्द्धन्यकचाभियुक्तो  
विद्वान् गुरुः ॥ ४५ ॥

टीका—गुरु पुष्टशरीर गौररंग कफ प्रकृति पीलीनेत्रकांति और पल्लिहि मस्तक के केशोसे युक्त विद्वान् गुरु है ॥ ४५ ॥

सुखीबली दर्शनीर्वपुः सुलोचनः कृष्णकुटिल केशः  
कामीवातकफात्मा श्यामः शुक्रः ॥ ४६ ॥

टीका—शुक्र—सुखी बलवान् दिखनेके शरीरवाला सुहावने नेत्र काले और टेढ़े ( घुघुरुवाले ) केश अधिककामी, वात कफ प्रकृति श्यामरंग के शरीरवाला शुक्र है ॥ ४६ ॥

क्रियास्वपदुः कातराक्षः कृष्णःकृशदीर्घाङ्गो बृहदन्तो-  
रुक्षतनूरुहो वातात्मा कठिनवाग् निन्द्योमन्दः ॥ ४७ ॥

टीका—शनि—सर्वकामो कि क्रिया मे भचतुर डरावने नेत्रवाला कालारंग, दुर्बल, दीर्घदेह बड़े दांतोवाला रुखाशरीर और केश वात-प्रकृति कठोरशब्द बोलनेवाला तथा निन्द्यकर्म करनेवाला शनि है ॥ ४७ ॥

अस्थिरक्तमज्जात्वग्वसाशुक्रस्नायूनि सूर्यादीनां धातवः  
॥ ४८ ॥

टीका—सूर्यादिग्रहो कि धातु । सूर्यमस्थि ( हड्डी ) का चंद्र रुधिरका भौम मज्जा ( भीतरकी पतलीचमड़ी ) का बुध चमड़ी का गुरु

चर्वोका. शुक्र चैयिका. शनि नशोका. भाद्रिपति है. इनको ग्रहोंकिधातु कहते है । जो ग्रह अष्टम मे हैं वा मृत्यु कारक है उसके धातुके कोप से भंगमे रोगादिपीडा तथा मरण भी होता है ॥ ४८ ॥

सूर्यस्यमन्दाच्छौरिपू ज्ञःसमः शेषाः सुहृदः ॥ ४९ ॥

चंद्रस्यज्ञार्को सुहृदौ शेषाः समाः ॥ ५० ॥

भौमस्य शुक्रार्को समौ ज्ञोरिः शेषाः सुहृदः ॥ ५१ ॥

ज्ञस्येन्दुः शत्रुः शुक्रार्को मित्रे शेषाः समाः ॥ ५२ ॥

जयिस्य ज्ञाच्छावरी समोर्कजः शेषा मित्राणि ॥ ५३ ॥

शुक्रस्य ज्ञार्कजौ मित्रे कुजेज्यौ समौ शेषावरी ॥ ५४ ॥

मन्दस्य ज्ञाच्छौ सुहृदौ जीवः समः शेषाः शत्रवः ॥ ५५ ॥

टीका-नैसर्ग भैत्रिचक्र । सूर्य के-शनि शुक्र शत्रु बुधसम चंद्रभौम गुरु मित्र है ॥ ४९ ॥ चंद्रके-बुधसूर्यमित्र शेष, ( मंगल गुरु शुक्र शनि ) सम है ॥ ५० ॥ मंगलके-शुक्र शनि सम बुध शत्रु शेष ( रवि चंद्र-गुरु ) मित्र है ॥ ५१ ॥ बुधके-चंद्रशत्रु शुक्र सूर्य मित्र शेष ( मंगल गुरु शनि ) सम है ॥ ५२ ॥ गुरुके-बुध शुक्र शत्रु शनि सम शेष ( रवि चंद्र मंगल ) मित्र है ॥ ५३ ॥ शुक्रके-बुधशनि मित्र मंगल गुरु सम शेष [ रविचंद्र भौम/शत्रु है ॥ ५४ ॥ शनि के बुध शुक्र मित्र गुरुसम शेष रविचंद्र मंगल शत्रु है ॥ ५५ ॥

अन्योन्यस्य पार्श्वत्रयगास्तत्काले मित्राणिशेषाः शत्रवः ५६

टीका-तात्कालिकमे त्रिसाधन ॥ जिस ग्रहसे जो ग्रह अपने समीप के तीन तीन स्थानमे अर्थात् २ । ३ । ४ और १२ । ११ । १० होवे वह उस ग्रहका तात्कालिक मित्र जानना । और शेष स्थान ५ । ६ । ७ । ८ । ९ मे हो वह उस ग्रहका शत्रु जानना ॥ ५७ ॥

उभयथामित्राण्य धिमित्राणि शत्रवस्त्वधिशत्रवो मित्रा

शत्रवः समा मित्रसमा मित्राणि शत्रुसमाः शत्रवः ॥ ५७ ॥

## नैसर्गिकमैत्रि चक्रम्.

र	चं	मं	बु	गु	शु	श	.
चं मं गु	बु सू	र चं गु	शु सू	र चं मं	बु श	बु शु	मित्र.
बु	मं गु शु श	शु श	मं गु श	श	मं गु	गु	सम.
श शु	०	बु	चं	बु शु	र चं	र चं मं	शत्रु.

टीका-पंचधामैत्रिचक्र साधन । उपरोक्त नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्रिसाधन कर्के देखना उनदोनो मैत्रिमें जो ग्रह मित्रका होवे वह अधिमित्र ( मित्र मित्र अधिमित्र ) दोनो मैत्रिमें जो ग्रह शत्रु होवे वह अधिशत्रु ( शत्रु शत्रु अधिशत्रु ) एक मैत्रिमें मित्र और दुसरीमें शत्रु होवे तो समहोता है ( मित्रशत्रु-सम ) ऐसेहि मित्र और समहोवे तो मित्र ( सममित्र-मित्र ) सम और शत्रु होवे तो ( समशत्रु-शत्रु ) शत्रु होता है ॥ ५७ ॥

तृतीयदशमौ नवमपंचमौ चतुर्थाष्टमौ सप्तमपादर्चितो  
ग्रहाः पश्यन्ति ॥ ५८ ॥

टीका-तीसरे ३ दशमे १० एकपाद । नवमे पांचवें ५ द्विपाद । चौथे ४ भाठवे ८ त्रिपाद और सातमें ७ स्थानमे ग्रह पूर्ण दृष्टी से देखते है ॥ ५८ ॥

तृतीय दशमौ शनि त्रिकोणं गुरु श्वतुरसं भौमश्च  
विशेषतः पूर्ण पश्यति ॥ ५९ ॥

टीका-ग्रहो किं विशेष द्रष्टि । तीसरे ३ दशमे १० शनि । नवमे ९ पांचवे ५ गुरु । चौथे ४ भाठवे ८ स्थानमे मंगल विशेष कर्के पूर्ण द्रष्टि

से देखते हैं अर्थात् सर्वग्रहो कि पूर्ण दृष्टि ७ सप्तमस्थान की कही है  
 मो सातमे तो ये शनि गुरु भौम पूर्ण दृष्टी से देखतेहि है विशेष कर  
 [ ३।१० ] [ ९।५ ] [ ४।८ ] इन स्थानो मे भी पूर्ण दृष्टी  
 से देखते है यह इन ३ ग्रहो कि विशेष दृष्टी कही है ॥ ६० ॥

दिनेवारारंभादस्तकालो निश्चस्ततो वारप्रवेश कालांतः

स्ववारखंडेनहतोष्ट भक्तो लब्धं गुलिकेष्टकालः ॥ ६० ॥

टीका—गुलिक साधनो पयोगि गुलिकेष्टकाल साधन की रीति ।  
 दिन के समयका जन्म होवेतो वार प्रवेश कालके आरंभ समय से  
 सूर्यास्त कालपर्यंत की घट्यादिकको और रात्रिका जन्महोवे तो  
 सूर्यास्त समय से वार प्रवेशकाल पर्यंत जितनी घट्यादिक होवे उनको  
 अपने वर्तमान वार के खंडेसे अर्थात् आगेके सूच ६२ में वारो के दिन  
 रात्रि के खंडे कहे है उनमे से जो वार अपना हो उसका दिनका जन्म  
 हो तो दिनके खंडे से और रात्रिका हो तो जो रात्रिका खंडा होवे  
 उससे गुणन करना भाठका भागदेना लब्ध आवे वही गुलिकका इष्ट  
 काल होता है ॥ ६० ॥ वार प्रवेश काल मुहूर्त चितामणी मे कहा है उ  
 सकी रीति यह है कि ॥ श्लोक—यादोनेस्त्रा परपूर्व योजन पर्युतोना स्ति  
 थयोदिनाद्धतः । ऊनाधिकास्तद्विवरो द्वैपल ऊर्द्ध तथा धो दिनप्रवे-  
 शनं ॥ जिस ग्राम का वार प्रवेश काल देखना हो उस ग्राम मे जिस  
 ग्राम की मध्यरेखा लगती हो उस मध्यरेखा और अपने ग्राम के  
 बीचके जितने पश्चिम अथवा पूर्वयोजन का अंतरहोवे उतनीही संख्या  
 मे से चतुर्यास घटाना शेष रहे उतने ही पलोंको पंद्रा घटीमें रेखा से  
 पश्चिम मे ग्राम होतो मिलाना और पूर्व मे अपना ग्राम होतो घटाना  
 शेष रहे वह उस ग्रामका वार प्रवेश कालका ध्रुव होता है । इसध्रुवसे  
 जिस दिनका वार प्रवेशकाल देखना हो उसी दिन के दिनाद्ध के  
 साथ अंतर करना शेष जितनी पले बचे उतनही पल दिनाद्ध से ध्रुव  
 अल्प होवे तो दिन चंटे और दिनाद्ध से ध्रुव जादा होवे तो उत-  
 नी ही पल रात्रि शेष रहते वार प्रवेश होता है ॥ इस प्रकार  
 वार प्रवेश काल लाना यदि दिनचंटे वार प्रवेश हुवा होवे  
 तो उतने पल दिनचंटे हुवा उतनी ही पल दिनमान मे से

घटादेना एव रात्रिनेपरहते वारप्रवेश हुआ होते निम्न पल शेष रात्रि रहते प्रवेशहुया उतत्रेहि पल दिनमानने अधिक मिलादेना सो बार प्रवेशकाल से सूर्यास्तकाल पर्यन्त का काल होता है। ऐसे हि सूर्यास्तकाल से बार प्रवेश पर्यन्त के कालों जानना। उदाहरण। जैसे किसी का जन्म सम्वत् १९५३ कार्तिककृष्ण ६ भौमवार को इष्ट ३९।३ सू ६।१० पर रात्रिका जन्म है इसलिये सूर्यास्त से बुधवारके प्रवेश का कालपर्यन्त समय निश्चय करने के लिये बुधवार का प्रवेशज्ञान प्रथम क्रिया रतलाम-और मध्यरेषा उज्यनी के बीच के अंतरकी योजन सख्या ६ है इसमे से इमी संख्या का चतुर्याश. १।३० घटाया ४।३० शेष रहे यह पल रेखा से पश्चिम मे रतलाम हाने से १५ घटी मे यत् की १५।४।३० यह रतलाम का बार प्रवेश भुवक हुया इसके और बुधवार के दिन के दिनार्द्ध १४।२।० के अंतरकिया १।२।३० शेष पद्यगदि अंतर रहा इतदिन दिनार्द्ध से भुव भविव है इसलिये १ घटी ० पल ३० विपल रात्रिरहते बुधवार प्रवेशहुआ अतएव मंगलवार के सूर्यास्त समय ०८।५ से सूर्योदय पर्यन्त रात्रिमान ३१।५५ है इस मे से वारप्रवेशकाल १।०।३० घटाया शेष ३०।५२।३० यह सूर्यास्त से वार प्रवेश कालान्त-समय हुआ इसको मंगलवार के राज का जन्म है सर्वत्र मंगलवार के राजी के संड १ जो भागे सूत्र ६२ मे कहा है इस १ से गुणन किय ३०।५२ ३० हुमे इस के ८ का भागदिया लब्ध ३।५१।३३ यह गुलिक का इष्टकाल हुआ इस इष्टपर लग्नस्पष्ट की रीति से स्पष्ट लग्न लाये. ७।२ यह गुलिक लग्न स्पष्ट हुआ ॥ ६१ ॥

तत्काल लग्नतुल्यो गुलिकः ॥ ६१ ॥

दिनेर्काद्रात्रौ ज्ञानगाङ्ग पंचाग्निनिनेत्रेन्दुमिता गुलि

क संडाः ॥ ६२ ॥

टीका-भायेहुए गुलिकेष्ट पर लग्न की रीति से जो लग्न साध<sup>ही</sup> वह गुलिक होनाता है ॥ ६२ ॥



दिनमें मूर्यसे रात्रिमें शुक्लसे ७।६।५।४।३।२।१ क्रमसे गुलिक के संडे जानना ॥ ६२ ॥

र चं मं बु गु शु श

७ ६ ५ ४ ३ २ १ दिनमें गुलिक संडा ।

३ २ १ ७ ६ ५ ४ रात्रिमें गु० सं०

अन्योन्यदृष्टौ एकतरदृष्टौ अन्योन्यस्थानस्थितावेक  
त्रस्थितौ वा संबन्धोवगंतव्यः ॥ ६३ ॥

टीका—संबन्ध=ग्रह आपसमें परस्पर देखते होवे उसको प्रथम दृष्टि संबन्ध जानना । एक ग्रहदेखताहोवे दूसरा उसको नहींदेखता होवे परंतु जो देखता है उसकी राशी में गयाहो तो उसको एकतर दृष्टि संबन्ध २ रा० जानना । दोनो परस्पर स्थान में स्थित होवे अर्थात् एककी राशीमें दूसरा और दूसरे की राशी में पहला होवे उसको अन्योन्य स्थान सम्बन्ध ३ राजानना । दोनो ग्रह एकस्थानमें स्थितहोवे उसको एकत्र स्थित सम्बन्ध ४ था जानना । ऐसे चारप्रकार के सम्बन्ध होते हैं ॥ ६३ ॥

मंदाकाराः शुष्का श्वंद्राच्छौ सजलौ जलक्षगौज्ञेज्योच ६४

टीका—शनी सूर्य मंगल शुष्क और चंद्र शुक्र सजल ग्रह जानना बुध गुरु जलराशीमें जायतो सजल शुष्कराशीमें स्थितहोवे तो शुष्कजानना ॥ ६४ ॥

सर्व ग्रहेभ्योधिकंशादिनात्मकारक स्ततः क्रमेण न्यूनांशा

अमात्य भ्रातृ मातृ पितृ पुत्र ज्ञाति दारा कारकाः ६५

टीका—सूर्यादि राहु पर्यंत सर्व ग्रहोमे से जोग्रह अधिक अंशादिक का हो वही आत्मकारक होताहै फेर उससे न्यूनन्यून अंशादिकके ग्रह क्रमसे अमात्य भ्रातृ मातृ पितृ पुत्र ज्ञातिदारा कारक जानना ॥ ६५ ॥

अंशशब्देनात्मकारकनवांशः ॥ ६६ ॥

टीका—इसग्रंथमें जहां अंश शब्दआवे वहां आत्मकारक ग्रहके नवांश लक्ष्मीकी कुंडली जानना इसीको कारकांश कुंडली कहतेहैं ॥ ६६ ॥

ओजर्षे क्रमाद्बाल कुमार युवा वृद्धामृताख्या अवस्थाः १  
समर्क्षे व्यत्ययः ॥ ६७ ॥

टीका-विषम राशीमे क्रमसे छठ अंशके विभागसे बाल १ कुमार २ युवा ३ वृद्धा ४ मृता ५ अवस्था जानना और समराशीमे विपरीत जानना अर्थात् छ अंशका ग्रहहोवेतो मृता १ छ से १२ तक वृद्धा २ बारासे १८ तक युवा ३ अठारासे २४ अंशतक कुमार २४ चौबीससे ३० अंशपर्यंत बाल ५ अवस्था जानना ॥ ६७ ॥

द्वादशांशादंशषट्केवस्थितः पूर्णफलदः ॥ ६८ ॥

टीका-ग्रह जिस राशीमे होवे उस शाशिके बारा अंशको आदिले ६ छ अंशके भीतर स्थित हो ( अर्थात् १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ अंशका हो ) तो वह पूर्ण फल देता है ॥ ६८ ॥

वलंपद्वत्युक्तन् ॥ ६९ ॥

टीका-इस ग्रंथमे जहा बल शब्द आवे वह केशवीका पद्वल समझना ॥ ६९ ॥

वक्रग उच्चगोवा महाबली ॥ ७० ॥

टीका-जोग्रह वक्रगती होवे वा अपनी उच्चराशीमे स्थितहोवे वह महाबलवान समझना ॥ ७० ॥

स्वर्षतुङ्ग मूलत्रिकोणगा नानिष्ट फलदाः ॥ ७१ ॥

टीका-स्वराशी उच्चराशी मूलत्रिकोणराशीमे जो ग्रहस्थितहोते है वे नेष्टफलनहीदेते है ( अष्टहीफलदेते है ) ॥ ७१ ॥

गुरुपूर्ण दृष्टोग्रहो नानिष्टफलदः ॥ ७२ ॥

टीका-जिसग्रहको गुरु पूर्णदृष्टीसे देखताहोवेवह नेष्टफलनही देताहै ॥ ७२ ॥

ग्रहर्क्षसंख्या ग्रहसंख्या हता पुनः ग्रहांशसंख्या हता इष्टजन्म  
नक्षत्रलभ संख्याभिर्युतार्कनष्टा शेषावस्थाः ॥ ७३ ॥

शयनो १ पवेशन २ नेत्रपाणी ३ प्रकाश ४ गमना ५  
५ गमन ६ सभा ७ गम ८ भोजन ९ नृत्यलिप्ता १०

## कौतुक ११ निद्रा-१२ अवस्थाः ॥ ७४ ॥

टीका-जिसनक्षत्र का ग्रहहोवे उसनक्षत्र की संख्या वो ग्रहकी संख्यासे (सूर्यहोतो १ से चंद्रहोतो २ से इसक्रम से संख्याग्रह की होतीहै) गुणन करना फेर उसको ग्रह/नितने अंशका होवे उतनीही अंशसंख्यासे गुणन करना और उसमे इष्टघटी जन्मनक्षत्र की संख्या और जन्म के लग्न की संख्या मिलना १२ वाराहका भागदिया शेष १ बचतो शयन २ उपवेशन ३ नेत्रपाणी ४ प्रकाश ५ गमन ६ आगमन ७ सभा ८ गम ९ भोजन १० नृत्यालिप्सा ११ कौतुक १२ निद्रा अवस्था जानना ७३-७४ उदाहरण। सूर्य ६। १२। २२ यह स्वातिनक्षत्र के द्वितीयचरणमेहै अभिन्यादि क्रमसे स्वातिनक्षत्र १५ पंद्रहवाहै इसलिये ग्रहसंख्या १५ हुई इसको ग्रहसंख्या १ से गुणनकिये १५ हुए फेर सूर्य १२ अंश काहै इसकरण ग्रहांश संख्या १२ वारासे गुणनकिये १८० आये इसमे जन्म समय की इष्टघटी ३९ और मिथुन लग्न के ३ जन्म नक्षत्र पुनर्वसुके ७ मिलानेसे आयाहुआ योग ४९ मिलाया २२९ हुए इसमे १२ वाराका भागदिया शेष १ बचाअतएव सूर्य शयना अवस्थामे है ऐसेहि सर्वग्रहोकि अवस्था जानना ॥ ७४ ॥

स्वोच्च गोदीप्तः स्वभगः स्वस्थो हितभगो हास्ययुक्तः शुभ  
वर्गगः शांतः स्फुरद्रश्मिः शक्तो मूढोलुप्तो नीचगोदीनः पाप  
शत्रुभगः पीडितः ॥ ७५ ॥ ✓

टीका-अपनी उच्चराशीमे जो ग्रह स्थितहोवे वह दीप्त १ जानना। और जो स्तराशी का हो वह स्वस्थ २ मित्रराशीमे स्थितहो वह हास्ययुक्त ३ एवं शुभग्रहो के वर्ग मे (अर्थात् दशवर्ग मे जिस ग्रहमे अधिक शुभ ग्रहकावर्ग) हो शांत ४ और जोचलवान हो वहशक्त ५ अस्तका हो वहलुप्त ६ नीचराशीमे स्थितहो वहदीन ७ औरपाप ग्रहकी अथवा अपने शत्रुग्रह कीराशीमे स्थितहो वहग्रह पीडितसजक ८ जानना ॥ ७५ ॥

इति महादेवकृत जातकतत्त्वे संज्ञातत्वं प्रथमम् ॥ १ ॥

इति श्री गणकवर्य श्रीमन्महादेवकृत जातकतत्त्वाख्यजातक ग्रंथे तस्मिन् श्रीनिवास रचित तत्त्वप्रदर्शनि भाषाटीकायां संज्ञातत्वं प्रथमम् ॥ १ ॥

## ॥ अथ सूतिका तत्वम् ॥

अथ सूतिका [ प्रभृति समयका ] विचार वर्णन करते हैं ।

( पिताके परोक्ष जन्मयोग )

चंद्रेणादृष्टेऽपितुः परोक्षं जन्म ॥ १ ॥

स्थिरकेटमांकायांत्ये चंद्रेण चादृष्टेऽपितुः स्वदेशस्थापितुः

परोक्षं जन्म ॥ २ ॥

चरेकेतु प्राग्ज्जातस्यपितरिविदेशं गतेजन्म ॥ ३ ॥

मन्देङ्गे वास्तेभोमे पितुः परोक्षं जन्म ॥ ४ ॥

ज्ञाच्छांतरे चंद्रे पितुः परोक्षं जन्म ॥ ५ ॥

टीका-पिताके परोक्षमे बालका जन्मयोग-चंद्रमालग्नको नहि देखाता होतो पिताके परोक्ष मे जन्म जानना ॥ १॥ स्थिराशी । २ । ५ । ८ । ११ । का सूर्य । भाठमे ८ नक्षमे ९ ग्यारवे ११ बारवे । १२ । स्थानमे स्थित होवे. और चन्द्रमा लग्नको नहि देखता होतो पित स्वदेश मे रहते हुवे भिं पिताके परोक्ष मे जन्म होवे [ जन्म समयमे पिता घरके बाहर कही होवे ] ॥ २॥ चरराशि [ मेष तुल मकर कर्क ] का सूर्य ८ । ९ । ११ । १२ । स्थान मे स्थित होवे और चन्द्रमा लग्न को नहि देखता होतो पिता विदेश मे गयाया और पीछे से जन्म हुआ ॥ ३ ॥ शनि लग्न मे होवे अथवा सातम स्थान में भंगल होवे तो पिताके परोक्षमे जन्म जानना [ इससूत्र मे दो योग कहेहै १ शनी लग्न मे होतो २ रा मंगल सात मे होतो ] ॥ ४ ॥ बुध और शुक्रके बीच मे चन्द्रमा स्थित होवेतो पिताके परोक्ष मे जन्म जानना ॥ ५॥ सर्प वेष्टित योग.

भौमव्यंशेचन्द्रे पापलग्ने भुभाःस्वायगाःसर्पवेष्टितो

जातः ॥ ६ ॥

टीका-मंगलकी राशी १ । ८ । के दृष्काणमे चन्द्र होवे और पापग्रह की राशी [ १-५-८-१०-११- ] का लग्न होवे सर्व शुभ ग्रहदुसरे २

ग्यारमे ११ स्थानमे जायतो सर्प वेष्टित जन्म होता है सर्प वेष्टित का तात्पर्य—सर्पाकार नशोसे या तदाकार नालसे भी है ॥६॥ औरभी सर्वार्थमे सर्पवेष्टितके योगरह्ये है प्रसंगसे बतावे है । यदि अष्टमेश लग्नमें राहु सहित होवैतो बालक सर्प वेष्टित होवे १ अथवा केद्रमे राहु और गुलिकसे लग्नेश्वर युतहोवे २ अथवा लग्नेश अष्टमेशकेद्रमे युतहो ३ तथा लग्न मे पापग्रहका द्रेष्काणहोतो बालक सर्प वेष्टित होवे ४ और लग्नमे सर्प वा अंडज द्रेष्काण होवे ५ तथा द्रेष्काण तत्स्वामि युक्तहो और शुभदृष्टिरहितहोतो सर्पवेष्टित जन्महोवे । ६।

वृषाजसिंहगे मन्दे वा भौमे भांशतुल्येवयये नालवेष्टितः ॥७॥

टीका—मेष वृष सह राशीके लग्नमे शनि अथवा मंगल स्थित होता उस राशि और नवाशके राशि विभागके समान अंगमे बालक नालवेष्टित होता है अर्थात् वह राशि वा उसका नवाश कालपुरुषके अंगमे जिसस्थान मे होवे उस स्थानमे नाला लिपटा हुवा होता है ॥ ७ ॥

यमल जन्म याग

चतुष्पदेके शेषेषुसबलेषु द्व्यङ्गेषु यमलजन्मः ॥८॥

टीका—चतुष्पदराशि ( मेष वृष सिंह मकर पूर्वाद्धं धनका उत्तराद्धं ) का मूर्य होवे और शेषग्रह बलवान होकर द्विस्वभान राशिके लग्न मे स्थित होवैतो यमल जन्म—( जोडलेजन्म ) होवे ८ अर्थांतरामे लिखा है कि आधानलग्नका स्वामी और तृतीय स्थानका स्वामी लग्नमे होतो यमल (दो बालक) सत्पन्न होवगे । अथवा आधान लग्नेश तृतीय येशसे युक्त होकर तीसरे स्थानमे होतोभी वही फल जानना [ दो बालक होवेग ] ॥ ८ ॥

जन्म समये पिता बंधनयोग-

सूर्यात्रिकोणास्तगौ मन्दारौपापभगौ जन्मनि पितावद्धः ॥९॥

टीका—सूर्यसे ९।५।७। नवमे पांचवे अथवा सातवे स्थानमें शनि मंगल दोनोही पापग्रहकी राशि मे एकत्र स्थित होवैतो जन्म समयमें पिता बंधाहुआ कहना ॥ ९ ॥

नौकामध्ये जन्मयोग-

पूर्णेन्दौ कर्के ज्ञे लग्ने जीवितृये नौकां जन्म ॥ १० ॥

टीका—पूर्णचन्द्रमा कर्कराशिका होवे और बुध लग्नमे गुरु चतुर्यस्था नमें स्थित होतो नावमें जन्म होता है ॥ १० ॥

जलासत्र जन्मयोगा

जलभेगेऽस्तेपूर्णन्दौ जलासत्रे जन्म ॥ ११ ॥

जलभगावंगचन्द्रौजलासत्रे जन्मः ॥ १२ ॥

जलभगे चन्द्रे खाम्बुस्थे जलासत्रे जन्म ॥ १३ ॥

टीका—जलराशी [ ४ । ११ । १० । १२ । ८ । ७ । ] का लग्न होवे और सातमें स्थानमे पूर्ण चन्द्रमा स्थित होवेतो जलके निकट स्था नमें जन्म होता है ॥ ११ ॥ जल राशिके लग्न और चन्द्रमा दोनो होवेतो जलके समीप जन्म होवे ॥ १२ ॥ जलराशिका चन्द्रमा दशम १० अथवा चतुर्थ ४ स्थानमे स्थित होवे तो जलके समीपमें जन्म जानना ॥ १३ ॥

कारागारे जन्मयोग

चन्द्रेऽङ्गे मंदिन्त्ये पापदृष्टे कारागारेजन्मः ॥ १४ ॥

टीका—लग्नमें चन्द्रमा और चारहवे स्थानमे शनि पापग्रहसे दृष्टहोवेतो जलखानेमे जन्म कहना ॥ १४ ॥

[ गर्त में जन्मयोग ]

कर्काल्यंगेर्कजे चन्द्रदृष्टे गर्तजन्मः ॥ १५ ॥

टीका—कर्क अथवा वृश्चिक राशिके लग्नमें शनि स्थित होवे और उस को चन्द्रमा देखना होवेतो गर्त [ खड्डे ] मे जन्म होता है ॥ १५ ॥

[ क्रीडालय दवालय और रेतीकी जमीनमें जन्मयोग ]

जलभे मंदिङ्गे ज्ञदृष्टे क्रीडालये कर्कदृष्टेदेवालये चन्द्रदृष्टेसशर्क रावन्यां जन्म ॥ १६ ॥

टीका—जलराशी [ ४ । १० । ११ । १२ । ८ । ७ । ] का शनि लग्नमे हारे और उसको बुधदेखता होतो क्रीडालय ( भानदकी जगह ) मे जन्म होवे सूर्य देखता होवेतो देवालयेमे और चन्द्रदेखताहोवेतो रेती पिछी हुई जमीन में जन्म कहना ॥ १६ ॥

श्मशाने, रमणीयग्रह, अग्निशाला, राजमंदिर,  
शिल्पालयमे, जन्म योग ।

नृलग्नेमन्देकुजदृष्टे श्मशाने सितेन्दुदृष्टेरमणीयगृहे गुरुदृष्टे  
ग्निशालायां रविदृष्टे नरेन्द्रामरालयगोकलान्यतमे ज्ञदृष्टे  
शिल्पालये जन्मः ॥ १७ ॥

टीका-नर राशी ( १।३।५।७।९।११। ) के लग्नमे शनी स्थित  
होवे और उसको मंगल देखताहोतो श्मशानमे जन्म जानना । गुरु  
चन्द्र देखते होवेतो रमणीय स्थानमे जन्म होव । गुरु देखता हावेतो  
अग्निशाला अथवा रसोई घरमे जन्म कहना । सूर्य देखता होवेतो  
राजमहलमें तथा देवालयमें तथा गौशालामे जन्म होवे । और बुध जो  
देखता होवेतो शिल्पालय (कलाभवन सिलावटी सुथारी लुहारी सुनारी  
चिन्नकारी काम जिसमकानमें होतेहोवे उसमकान)मे जन्मजानना ॥१७॥

माताछोडदे और दीर्घायु होवे ।

मन्दाराभ्यांपञ्चमेस्तेङ्गे चन्द्रे मात्रात्यज्यते गुरुदृष्टेतु  
चन्द्रे दीर्घायुः ॥ १८ ॥

टीका-शनि मंगलसे । ५।७।९। पांचवे सातवे तथा नयमे स्थानमे  
चन्द्रमा होवेतो माताउस बालकको छोडदेवे यदि उस चन्द्रको गुरु  
देखाता होवेतो माता छोडदेव तोभी दीर्घायु होताहै ॥ १८ ॥

माता त्याग करे और मरजाने के योग.

पापदृष्टेचन्द्रेगे ऽस्ते भौमे मातृत्यक्तो विनश्यति ॥ १९ ॥

पापदृष्टेङ्गे चन्द्रे मंदारौलाभे मातृत्यक्तो विनश्यति ॥ २० ॥

टीका-पापग्रहसे देखाहुआ चन्द्रमा लग्नमे होवे और सातमे मंगल  
होवेतो माताकेछोड देनेसे मरजाता है ॥ १९ ॥ पापग्रहसे देखा  
हुआ चन्द्रमा लग्न मे होवे शनि मंगल दोनो ग्यारवे स्थानमे स्थित  
होवेतो माताकेत्यागकर देनेसे मरजाता है ॥ २० ॥

पित्र मात्रा संबंधी ग्रहने जन्म योग

मातापितृग्रहयोर्बली तत्संबंधीगृहे जन्मः ॥ २१ ॥

टीका-माता पिता ग्रहमस जोग्रह बलवान होवे उसके सबधी घरमे जन्म जानना अर्थात् माताग्रह बलवान होवतो माता सबधी नाना मामा मासी के घरमे जन्म होव और पितृग्रहबलवान होतो पितृ संबंधी पिता काका आदिके घरमे जन्म होता है ॥ बृहज्जातकमे " दिवाकं शुक्रौ पितृ मातृ सज्ञितौ शनैश्चरेन्दू निक्षितद्विपर्यात् । पितृव्य मातृप्सु सज्ञितौचता वयौज युग्मक्षं गतौ तयो शुभौ " । अर्थात् दिनमे जन्म हावे उसजीवके सूर्यपिता और शुक्रमाता सज्ञक ग्रह होता है एव रात्र मे जन्म होवे उसक शनैश्चर पितृ सज्ञक और चन्द्रमा मातृ सज्ञक हाता है येही उलट अर्थात् दिनमे जन्म होवे उसके शनैश्चर पितृव्य ( काका ) और चन्द्रमा मातृप्सु ( मासी ) सज्ञक और रातमेजन्म हो तो सूर्य काका और शुक्र मातृप्सु ( मासी ) सज्ञक जानना । इसप्रकार पितृ मातृ सज्ञक ग्रह कहेहै इनहीके बलके अनुसार जन्म स्थान कहना ॥ २१ ॥

वृक्षनदी प्राकारादिमे जन्म याग ।

सौम्याः सर्वे नीचगा वृक्षनदी प्रकारादिषु जन्म ॥ २२ ॥

टीका-सर्व शुभग्रह नीचराशिमे गये होवेतो वृक्षक नीचे तथा नदीमे वा किलके भीतर अथवा कांइ प्राकार ( परकोट ) के भीतर जन्म होता है ॥ २२ ॥

मार्गम जन्म योग

नीचगेपशुभेषुचंद्रेङ्गे ग्रहमात्रादृष्ट टव्यांजन्म ॥ २३ ॥

टीका-शुभग्रह नीचराशिमे स्थित होवे और लग्नमे गयेहुवे चंद्रको कोईभी ग्रह देखता नही होवेतो मार्गमे जानना ॥ २३ ॥

अधकारे जन्म योग

चंद्रे तुर्ये वा मंदयुतदृष्टे वा जलभांशेन्धकारे जन्म ॥ २४ ॥

टीका-इस सूत्रमे तीनयोगहै । १ चंद्रमा चोयेस्थानमे स्थित होवे तो अधकारमे जन्म हावे २ अथवाचंद्रमा शनीसे युक्त दृष्टहोवेतो अधकारमे जन्महो अथवा चंद्रमा जलराशी [ ४ । १० । ११ । १२ । ८ । ७ ] मे तथा जलराशीके नयमाशमे होवेतो अधकार ( अधरेमे ) जन्म होताहै ॥ २४ ॥



बहुदीप गृहे जन्म योग

सबलेके भौमदृष्टे बहुदीपगृहे जन्मः ॥ २५ ॥

टीका-बलवान सूर्यको मंगल देखता होवेतो बहुत दीपकाले घरमे जन्म कहना ॥ २५ ॥

तैल, वति, दीपज्ञान योग

चन्द्रात्तैल ज्ञानम् ॥ २६ ॥

लग्नाद्दीपवति ज्ञानं ॥ २७ ॥

चरेकेचर स्थिरेके स्थिरो द्विस्वभावे खंडवद्दीपः ॥ २८ ॥

टीका-सूतिका घरमे-दीपकमें तैल चन्द्रके अनुरूप [ क्षीण , पूर्ण, सपाप, जैसा चंद्रहो वैसा अल्प अधिक मध्यम ] जानना ॥ २६ ॥  
और ऐसेहि लग्नके अनुरूपवती कहना ॥ २७ ॥ जन्मसमयमे चर राशीका सूर्य होवेतो चंचलदीप(हातमें चलता फिरता होगा ) स्थिर राशीका सूर्य होतो स्थिरदीप ( एकस्थानमे रखा हुवा ) और द्विस्वभाव राशीका सूर्य होतो खंडवद्दीप(देहलीमे रखाहुवा दीपक ) जानना ॥ २८ ॥

मस्तकसे वा पावसे जन्म ज्ञान ।

शीपादयांशेर्द्धतः प्रसव उभयोदयांशेहस्ततो

न्यथापादतः ॥ २९ ॥

टीका-जन्म लग्नमे शीर्षांश्य राशी ( ३।५।६।७।८।११ ) नवांशहो तो मस्तककी तरफसे जन्म कहना । उभयोदय राशी ( १२ ) का नवांशहो तो हातसे जन्म अर्थात् प्रथम हस्त निम्नला होगा और पृष्ठोदय राशी का नवांश होवेतो पांवकी औरसे जन्म जानना २९ कष्ट योग-

लग्नचंद्रान्यतरतो बंध्वस्तगेपुकूरेपुमातुः कष्टम् ॥ ३० ॥

टीका-लग्न तथा चमासे चौथे सातमे स्थानमे क्रूरग्रहहोवेतो माताको विशेष कष्टहुआ जानना ( क्रूरग्रह-सू मं. श. रा. ) ॥ ३० ॥

सूतिना गृह द्वारज्ञानं ।

केंद्रगस्य वा बालिनो ग्रहस्य दिशिगृहद्वारम् ॥ ३१ ॥

टीका-केद्र १ । ४।७।१०। स्थानमें जोग्रह स्थितहोवे तथा जोग्रह सर्वग्रहोसे अधिकबलीहोवे उसकी दिशामें सूतिकाग्रहका द्वार जानना ॥३१॥ ग्रहोंकीदिशा बृहज्जातक मे इसप्रकार कही है “ प्रागा द्यारविशुक लोहित तमः शौरिन्दु वित् सूरयः ” अर्थात् पूर्वका स्वामी रावि १ भाग्निका शुक्र २ दक्षिणका मंगल ३ नैऋतकाराहु ४ पश्चिमका शनि ५ वायव्यका चंद्र ६ उत्तरका बुध ७ ईशानका गुरु ८ स्वामि जानना ॥ ३१ ॥ गृहज्ञान. ।

काष्ठाढ्यं नवं दग्धं चित्रं दृढं रम्यंजीर्णं क्रमादर्कादिपुयो बली तदनुसारी गृहम् ॥ ३२ ॥

टीका-जन्म समयमें सूर्यादि ग्रहोंमेंसे जोग्रह अधिक बलीहोवे तदनुसार बालकका जन्म गृह ( मकान ) जानना. । यदि सूर्य बलवान होवेतो काष्ठगृह ऐसेहि चंद्रबलवान होतो नयामकान मंगल० जला हुवा० बुध० चित्र विचित्र गुरु मजबूत. शुक्र० सुंदर शनि० पुराना [ जीर्ण ] मकान जन्म का कहना ॥ ३२ ॥

गृहके किसभागमें जन्म हुआ.

वृषाजयो रुदये गृहस्य पूर्वभागे युग्मस्याग्नेयां कर्क सिंह योर्याम्ये कन्यायां नैऋते तुलावृश्चिकयोः पश्चिमेधनुषो वायौ मंदभयो रुत्तरे झपस्येशान्यां जन्म ॥ ३३ ॥

एवं शय्या ज्ञानम् ॥ ३४ ॥

टीका-जन्म समयमें भेष वा वृषभ लग्न होतो घरके पूर्वभागमें और मिथुन होतो घरकेअग्निकोणमें कर्क सिंह राशिका लग्न होतो घरके दक्षिण भागमें कन्या लग्न होतो घरके नैऋत कोणमें तुल वृश्चिक लग्न होतो घरके पश्चिम भागमें धनराशिका लग्न होतो घरके वायु कोणमें मकर कुंभ लग्न होतो घरके उत्तर भागमें भीनराशिका लग्न होतो घरके ईशान भागमें जन्म कहना ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार शय्या ( सूतिका का पलंग ) का विचार जानना ॥ ३४ ॥

शय्या सिर वा पाद विचारः ।

लग्नदिशि शय्याशिर स्त्रिपडंकान्त्येषुपादाः ॥ ३५ ॥

यत्र पाप स्तत्रो त्वात्ः ॥ ३६ ॥

टीका-उपरोक्त लग्नकी दिशाके तरफ पलंग का शिर ( शिराध्या ) कहना अर्थात् मेष वृष लग्न में पूर्वकी तरफ मिथुन में आग्नि कोणमें १४।५। कर्क सिंह में दक्षिणमें इसी प्रकार वाराहि लग्न में जानना और लग्न से ३।६।९।१२। तीसरा छुटा नवा वारवां स्थान पलंग के पाये जानना ॥ ३५ ॥ इन स्थानों में से जिस स्थानमें पाप ग्रह युक्त होवे वहि पलंग का पाया फटाहुवा समझना ॥ ३६ ॥

उपसूति का ज्ञान ।

लग्न चन्द्रान्तरग्रह संख्या उपसूतिका उदगर्द्धेभ्यन्तर  
गा दक्षिणाद्धे वाह्याः ॥ ३७ ॥

टीका-लग्न और चन्द्रके बीचमें जितने ग्रह स्थितहोवे उतनीही संख्या उपसूतिका जानना ग्रह उत्तरार्द्ध [ लग्नसे सप्तमभावपर्यंत ] में होवेतो भीतर ( सूतिका के समीप में ) और दक्षिणाद्धे ( सप्तम से लग्न पर्यंत ) में होवेतो बाहर कहना ॥ ३७ ॥

वक्रोच्चसंस्थै द्विगुणाः स्वर्क्ष व्यंशानवां शोस्थितै द्विगुणा  
नीचास्तगैरर्द्धमिता उपसूतिकाः ॥ ३८ ॥

मीनाजाङ्घ्रिद्वे गोघटाङ्गे चतस्र कर्कहयांगेपंच शेषे  
तिस्रउपसूतिका ॥ ३९ ॥

टीका-लग्न चंद्रके बीचमें जितने ग्रह स्थितहो उतनी उपसूतिका कहीहै उस्मेभि यदि वक्र राशिका अथवा उच्च राशिका ग्रह स्थित होवेंतो उनकी संख्या की तीन गुनी उपसूतिका कहना और स्वराशी स्वद्रेष्काण स्वनवांशके ग्रह होतो उनकी संख्यासे द्विगुण संख्या उपसूतिका जानना ॥ ऐसेहि जितनेग्रह नीचराशी के अस्तके होवे उतनी संख्या कि भाधि उपसूति का समझना ॥ ३८ ॥ तथा मीन मेष लग्न में जन्म होतो दो २ वृष कुम्भ लग्न होतो ४ चार कर्क सिंह होतो पांच ५ शेष ३।६।७।८।९।१०। लग्न होतो ३ उपसूतिका जान ॥ ९ ॥ इनमें भी सर्वार्थमें लिखाहै कि चन्द्र ग्रह

गुरु शुक्रादि शुभ ग्रह होतो सुन्दर सौभाग्यवती और शनि राहु केतु योग होतो विधवा कृष्ण वर्णा कृष्ण वस्त्रा उपसृतिका जानना ॥

बहुरुदितयोगः ॥

गोलाश्वि युग्म सिंहांगे बहुरुदितो जातो न्यथान ॥ ४० ॥

टीका—वृषभ मेष धन मिथुन सिंह राशिका लग्न होतो जन्म समय मे बालक बहुत रोया और शेष लग्न मे होतो रुदन नहीं किया जानना ॥ ४० ॥

निर्जने प्रसव योगः ॥

अंगे चंद्रे ग्रहमात्रादृष्टे निर्जने प्रसवः ॥ ४१ ॥

टीका—लग्नमे चंद्रमा स्थितहोवे और उसको कोईभी ग्रहनही देखता होवेतो निर्जन ( शून्य ) स्थान में जन्म कहना ॥ ४१ ॥

सुख तथा कष्टसे प्रसव योग ॥

खांबुगे शुभेषु सुखेन प्रसव त्रिकोणास्तगेषु पापेषु कष्टतः ॥ ४२ ॥

टीका—दशमें १० और ४ चोथे स्थानमें शुभग्रह स्थित होवेतो सुखसे प्रसव हुवा और त्रिकोण ९।५। सप्तम ७ मस्थानमें पापग्रह स्थितहोवेतो कष्टसे प्रसव हुवा कहना ॥ ४२ ॥

जन्मसे पूर्व पितृ मरण योगः ॥

तुर्येखेवा मन्शरार्क योगे जन्मतः प्राक्पितृ मरणं ॥ ४३ ॥

टीका—चतुर्थ ४ अथवा १० दशम स्थानमे शनि मंगल सूर्य इनतीनों ग्रहोका योग होवेतो जन्म के पहले पिता मरण कहना ॥ ४३ ॥

माताके साथ बालक का मृत्यु योग ।

लग्न पट्टास्ताष्टमगाः पापामात्रासह बालस्य मृतिः । ४४

ग्रहे चंद्रे समंदे लग्नाष्टमे भौमे मात्रासह बालस्य मृतिः । ४५

ग्रहे के मंदज्ञा न्यतमयुते रंध्राङ्गे कुजे मात्रासह बाल

स्य मृतिः ४६ ॥

टीका—लग्न मे छटे सातमे आठमे स्थान मे सर्व पापग्रह स्थितहोव  
तो माता के साथ मे बालक की मृत्यु होव ॥ ४४ ॥

ग्रहण दिनका चंद्रमा शनिसे युक्त होव और लग्नमे अथवा आठमे  
भौम होव तो माताके साथ बालक की मृत्यु होव ॥ ४५ ॥

ग्रहण समय का रवि, शनि अथवा बुध से युक्त हेवे और लग्नमे  
तथा आठमे मंगलहोवे तो माता के साथ बालक को मृत्यु होव ॥ ४६ ॥

महाकष्ट योग.

भौमभेकरिमन्देन्दुदृष्टेष्टमेचेज्ये बालस्य महाकष्टम् ॥ ४७ ॥

टीका—मंगल की १ । ८ राशी के सूर्य मंगल शनि होवे और चंद्र, दे-  
खता होवे ८ भाठमे स्थानमे गुरु स्थित हो तो बालक को महाकष्ट  
होताहै ॥ ४७ ॥

सद्यमृत्यु होनेके योग.

व्ययारि पापयुतौ बालमृतिः ॥ ४८ ॥

लग्नेरोमार्केनीचगेरन्ध्रे बालस्य सद्योमृतिः ॥ ४९ ॥

राहौकेन्द्रेपापमात्रयुतदृष्टे बाल ० ॥ ५० ॥

नगेकेगेमन्दे ष्टमेभौमे बाल ० ॥ ५१ ॥

मंदारभेखेके पापैर्दृष्टे बाल ० ॥ ५२ ॥

पठाष्टमेचन्द्रे पापैर्दृष्टेबाल ० ॥ ५३ ॥

चरमांसेचन्द्रे शुभैर्दृष्टे कोणेपापा वा ० ॥ ५४ ॥

मन्दाकेन्द्वाराव्ययां काङ्गाष्टमगात्सबलागुर्वदृष्टाबाल ० ५५ ॥

कोणांत्यास्तांगेपुशापयुतश्चद्रो बलिशुभायुतदृष्टोवा ० ५६ ॥

चन्द्रेकेस्तेपापावा ० ॥ ५७ ॥

मन्दादन्ध्रे गलिनः पापाबाल ० ॥ ५८ ॥

क्षीणेन्दादन्ध्रेकेन्द्राष्टमगाः पापाबाल ० ॥ ५९ ॥

कर्काल्यगे खलाःपूर्वाद्धे सौम्याःपराद्धे वा लग्नास्ताष्टांत्ये-  
सपापेदौशुभादृष्टे शुभायुतेपुकेन्द्रेपुत्राल० ॥ ६० ॥

त्रिकेसौम्याःकेन्द्रकोणेपापा लग्नेकेवाल० ॥ ६१ ॥

चन्द्रापयुतेषु सर्वकेन्द्रेषुवा० ॥ ६२ ॥

लग्नास्तगौपापौ चंद्रो मिश्रदृष्टोवाल० ॥ ६३ ॥

क्षीणेदावंत्ये पापेषुलग्नाष्टमगेषु केन्द्रेतरगेषु शुभेषुवाल० ६४

पापांतरेचंद्रे रंध्राग्बुसप्तमगे वाल० ॥ ६५ ॥

संध्यायांभांत्यगाः पापाइन्दुहोरायां वाल० ॥ ६६ ॥

रंध्रास्तगौपापौपापमात्र दृष्टौवाल० ॥ ६७ ॥

लग्नान्ताष्टाद्धेकभाच्चंद्रारार्कमन्दा वाल० ॥ ६८ ॥

पशुचां तातस्य भौमाकर्काविंगेमृतिः० ॥ ६९ ॥

पशुष्टमगेचंद्रे पापवर्गस्थे तुर्बेताहौशिशुमरणं ॥ ७० ॥

टीका-वारमे और ६ छठे स्थानमे पापग्रह युक्तहोवे तो बालककी सद्य मृत्यु कहना ॥ ४८ ॥ लग्न का स्वामी सूर्ययुक्त होवे और नीचराशी मे स्थित होकर भाठमे स्थान मे जाय तो बालक की सद्य मृत्यु कहना ॥ ४९ ॥ राहु केन्द्र १।४।७।१०। में स्थितहोवे और पाप ग्रह मात्र से युक्त तथा दृष्टहोवे तो बालक की सद्य मृत्यु होतिहै ॥ ५० ॥ सातमे सूर्य लग्नमे शनि भाठ मे मंगल होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होतिहै ॥ ५१ ॥ शनि तथा मंगल की १०।११।१।८ राशिका सूर्य १० दशम स्थान मे स्थितहोवे और पापग्रहो से दृष्टहो तो बालक की शीघ्र मृत्यु होतिहै ॥ ५२ ॥ चंद्रमा छठे भाठ मे स्थान मे पापग्रहो से दृष्टहोवे तो बालक की शीघ्रमृत्यु जानना ॥ ५३ ॥ राशी के अंत्य अंश ( २९ अंश ) मे स्थित चंद्रमा शुभ ग्रहो से दृष्ट नही होवे और ९।५ नक्षत्रमे पांचमे स्थान मे दो से अधिक पाप ग्रह युक्त होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु कहना ॥ ५४ ॥ शनि सूर्य चंद्र मंगल

ये ग्रह बलवान होकर क्रमसे १२।९।१।८। वारमे नवमे लग्न मे आठमे स्थान मे जाय और गुरु इनको नही देखता होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु कहना ॥ ५५ ॥ नवमे पांचमे वारमे सातमे ९।५।२।७ तथा लग्न मे पापग्रह युक्त चंद्रमा स्थितहोवे और बलवान शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट नही होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु कहना ॥ ५६ ॥ लग्नमे चंद्रमा और सातमे २।३ पापग्रह होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु जानना ॥ ५७ ॥ शनी से ८ आठ मे स्थानमे बलवान ३ पाप ग्रहगये होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु जानना ॥ ५८ ॥ क्षीण चंद्रमा लग्न मे स्थित होवे केंद्र १।४।७।१० और अष्टम स्थान मे पापग्रह युक्त होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होति है ॥ ५९ ॥ कर्क और वृश्चिक राशि के लग्नमे जन्म होवे पूवार्द्ध ( लग्नसे सप्तम भावपर्यंत ) में पापग्रह स्थितहोवे और उत्तरार्द्ध ( सप्तमसे लग्न पर्यंत ) में शुभग्रह स्थित होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होवे, अथवा लग्न सप्तम अष्टम और वा (में स्थानमें पापग्रह युक्त चंद्रमा स्थितहोके शुभग्रहों से दृष्ट-नही होवे और केंद्रस्थान में शुभग्रह युक्तनही होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होति है ॥ ६० ॥ त्रिक स्थान ६।८।१२ मे शुभग्रह, केंद्र १।४।७।१० कोण (९।५) स्थानमे पापग्रह और लग्नमे सूर्य स्थित होवे तो बालक की जल्दी मृत्यु जानना ॥ ६१ ॥ चारोहि केंद्र १।४।७।१० स्थानमे पाप ग्रह और चंद्रमा स्थितहोवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होवे ॥ ६२ ॥

लग्न और सप्तम स्थानमे दो पापग्रह स्थितहोवे और चंद्रमा मिश्रग्रह ( शुभ पाप दोनु ) से दृष्टहोवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होवे ॥ ६३ ॥ वारमे स्थानमे क्षीणचंद्रमा, लग्न १ और अष्टम ८ स्थान में पापग्रह, और केंद्रस्थान के शिवाय अन्य पणकर तथा भाषो क्लिप्त स्थान में शुभग्रह स्थित होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु जानना ॥ ६४ ॥ पापग्रहों के बीचमें चंद्रमा ८।४।७ भाव में गयाहोवे तो बालककी शीघ्र मृत्यु होवे ॥ ६५ ॥ संध्या समय मे जन्म होवे और राशी के अंत्य अंशमे अर्थात् २९ में अंशमे पाप ग्रह गयेहुवे चंद्रकी हारा मे स्थित होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु होति है ॥ ६६ ॥ आठमे और सातमे स्थानमे पापग्रह स्थित होवे और पापग्रह मात्र देखते होवे तो बालक की शीघ्र मृत्यु जानना ॥ ६७ ॥

चंद्र १ मंगल १२ सूर्य ८ शनि १ स्थानमे क्रमसे गयेहोवे तो बालक

की शीघ्र मृत्यु कहना ॥ ६८ ॥

छठके दिन जन्म हावे मंगल और सूर्य लग्नमे स्थितहोवे तो बालक

की शीघ्र मृत्यु होतिह ॥ ६९ ॥

छठे भाठ मे स्थान मे चंद्रमा पापवर्ग मे गया हुवा स्थितहोवे और

चौथ स्थान मे राहुहो तो बालक का शीघ्र मरण होवे ॥ ७० ॥

दश ग्यारा सोल्य दिन मे मृत्यु योग

चंद्रा दस्ते भौमाकौ दशाहे शिशु मरणं ॥ ७१ ॥

मंद भगे जीवेष्टमे पापे दृष्टे एकादशाहे शिशुमरणं ॥ ७२ ॥

मन्दे ज्ञे पापमात्र दृष्टे षोडशाहे शिशु मरणं ॥ ७३ ॥

टीका-चंद्रमा से सातमे स्थानमे मंगल और सूर्य दोनो स्थितहोवे

तो दशमे दिन बालक की मृत्यु होवे ॥७१॥ शनी कीराशि १०।११ का

गुरु ८ अष्टम स्थान मे स्थितहोवे और पापग्रहा से होवे तो ११

ग्यार में दिन बालक की मृत्यु जानना ॥७२॥ शनि लग्न में होवे सर्व

पापग्रह देखते होवेतो १६ सोलमे दिन बालक की मृत्युजानना ॥७३॥

लग्नांशे रो षष्ठे षष्ठभतुव्य दिनेशिशु मरणं ॥ ७४ ॥

टीका-जन्मलग्न जिस राशिके नवमास मे हो उसका स्वामी छठे

स्थान मे गयाहावे तो छठे स्थान मे जो राशि होवे उतने दिन मे

बालक मरता है ॥ ७४ ॥

भेक मास मे शिशु मरण योग.

षष्ठाष्टमगाः सोम्या वक्रग पापदृष्टा मासे शिशुमरणं ॥ ७५ ॥

सपापे ज्ञे शे घृने मासे शिशुमरणं ॥ ७६ ॥

कुजेगे जीवेत्ये शुभेषु मासे शिशुमरणं ॥ ७७ ॥

सपापे जन्मेशे रंध्रे मामेशिशुमरणं ॥ ७८ ॥

लग्ननेस्ते खलपिजिते मामे शिशुमरणं ॥ ७९ ॥

मंदार्किरां रंध्रे वाषष्ठे मासे शिशुमरणं ॥ ८० ॥



टीका-छठे आठवें स्थान में शुभ ग्रहगणे होंवे वक्रगती में गये हूवे पापग्रह देखते होंवे तो १ मासमें बालक की मृत्यु कहना ॥ ७५ ॥

पापग्रह से युक्त लग्न का स्वामी ७ सातमें स्थानमें स्थितहोवे तो १ एकमास में बालक की मृत्युहोवे ॥ ७६ ॥

लग्न में भौम वाग्में स्थान में गुरु, आर शुभ ग्रह छठे स्थान में बैठे होंवे तो १ एकमास में बालक की मृत्यु जानना ॥ ७७ ॥

जन्म राशी का स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर ८ आठ में स्थान में गयाहोवे तो १ मास में बालक का मृत्यु जानना ॥ ७८ ॥

लग्न का स्वामी ७ सातमें स्थान में पापग्रह से पराजित ( हारा ) हुआ होवे तो १ मासकी आयु जानना ॥ ७९ ॥

शनी सूर्य मंगल ८ आठ में अथवा छठे स्थान में जाय तो बालक की १ एकमास की आयु कहना ॥ ८० ॥

तीन पक्ष से अकरण पर्यन्त की आयु के योग.

ग्रहणेङ्गेशे ऽचले सपापे पक्षत्रयं वा यासत्रयंजीवति ॥ ८१ ॥

रंभ्रेङ्गेशे पापयुत दृष्टे तुर्यमासायुः ॥ ८२ ॥

सर्वे आपोक्लिमगा विचलाः षण्मासायुः ॥ ८३ ॥

पापक्षे सुते इन्द्रकाराः षण्मासायुः ॥ ८४ ॥

टीका-लग्न का स्वामी ग्रहण समय का होवे और निर्बली होकर पापग्रह से युक्त होवे तो पक्षत्रय ( दैठ महिना ) अथवा तीन महिना बालक जीवित रहेगा ॥ ८१ ॥

लग्नका स्वामी ८ आठ में स्थान में पापग्रह से युक्त दृष्टहोवे तो ४ चार मास की आयुबालक की जानना ॥ ८२ ॥

शुभ तथा पाप सर्व ग्रह आपोक्लिम ( ३६।१।१२ ) स्थान में जाय और निर्बली होवे तो बालक की ६ छेमास की आयु कहना ॥ ८३ ॥

पापग्रह की राशी ( १।८।५।१०।११ ) मेंगये हूवे चंद्र सूर्य मंगल पंचमस्थान में स्थितहोवे तो ६ छे महिने की आयु जानना ॥ ८४ ॥

धनांत्यगा वा व्ययारिगा वा रंभ्रारिगा वा टभांकगां

ष्टमेऽष्टमे वा मासि मृतिः ॥ ८५ ॥

लग्नद्रेष्काणेशे षष्ठे भतुल्ये मासि मृतिः ॥ ८६ ॥

टीका-दुसरे और चारमे स्थान मे १ अथवा १२ वारमे और छठे स्थान मे २ वा अष्टमे और छठे स्थानमे ३ अथवा ८ आठमे और नवमे स्थानमे ४ सर्ष पापग्रह स्थितहोवे तो छठे तथा ८ आठ मे महिने मे मृत्यु कहना ॥ इस सूनमे चारयोगकहेहै इनमे से कोईभी योग हो तो ६ तथा ८ महिने मे बालक की मृत्यु जानना ॥ ८५ ॥

लग्न द्रेष्काण का स्वामी ६ छठे स्थान मे स्थितहोवे तो छठे स्थान मे जो राशी होवे उतनेहि संख्या के मासमे बालक की मृत्यु जानना ॥ ८६ ॥

भेरु वर्ष से २४ वर्ष पर्यंतके आयु योग.

षष्ठाष्टमयोः पाप दृष्टयोः पापयो वर्षांतरे मृतिः ॥ ८७ ॥

चंद्रज्ञौ केद्रे मूढमंदारदृष्टौ वर्षांतरेमृतिः ॥ ८८ ॥

लग्नपाचंद्रेशोष्टमे पापमात्रदृष्टे वर्षत्रयायुः ॥ ८९ ॥

केद्राष्टपष्टमक्रगेग्रहेकुजभे सबलारदृष्टे वर्षत्रयायुः ॥ ९० ॥

टीका-पापग्रह से देखे हुवे पापग्रह छठे आठमे स्थान मे गयेहोवे तो एक वर्षके बाद बालक की मृत्यु जानना ॥ ८७ ॥

चंद्रबुध दोनो केद्रेमे स्थितहोवे और भस्तके शनि मंगल उनको देखते होवे तो बालक की एक वर्ष के पश्चात् मृत्यु जानना ॥ ८८ ॥

लग्न के स्वामी से चंद्रमा की राशी का स्वामी ८ आठवेस्थान मे स्थितहोवे और पापग्रह मान देखते होवे तो २ दो वर्ष की आयु जानना ॥ ८९ ॥

केद्र और छठे आठमे १।४।७।१०।६।८ स्थान मे व रुगातिस्थ ग्रहमेप अथवा वृश्चिक राशीका जाय और उसको बलवान मंगल देखता होवे तो ३ तीन वर्ष कीआयु जानना ॥ ९० ॥

सौत्ये पापांशगौ पापदृष्टौ पुष्पवंतौ वर्ष त्रयायुः ॥ ९० ॥

भौमभेष्टमेजीवे मन्देन्द्रर्क दृष्टे भृग्वदृष्टे वर्षत्रयायुः ॥ ९१ ॥

पष्टाष्टमे कर्कग्रे चंद्रदृष्टे तुर्येन्दे मृतिः ॥ ९३ ॥

टीका—पापग्रह के नवमांशमे गये हुवेसूर्य चंद्रमा तीसरे स्थानमे  
गताहोवे और पापग्रह उनको देखते होवे तो ३ वर्ष की आयुजानना  
९१ ॥

मेघ वृश्चिक शराशी का गुरु भाठमे स्थान मे जाय और उस्कोशनि  
सूर्य देखते होवे शुक की दृष्टि नहि होवेता ३ वर्षकी आयु जानना  
९२ ॥

छठे आठमे स्थान मे कर्कराशी का बुवहोवे और चंद्रमा उस्को  
गताहोवे तो ४ वर्ष की आयु जानना ॥ ९३ ॥

सेंद्रकर्कज्यौ वा सेंद्रर्काक्र्यारा वा समन्देन्दच्छाराः पञ्चमाब्दे  
मृतिः ॥ ९४ ॥

लग्नेराहौ पापमात्रदृष्ट युते पञ्चमाब्देमृतिः ॥ ९५ ॥

सुर्येन्दूभेत्रिकेशुके पापदृष्टे षष्ठेन्दे मृतिः ॥ ९६ ॥

लग्नेर्कमन्दाराः क्षणिन्दावस्ते षष्ठे सप्तमेवाब्देमृतिः ९७ ॥

क्षणिन्दावास्ते लग्नेमंदाराच्छा गुर्वदृष्टाः सप्तमेब्देमृ० ९८ ॥

पष्टाष्टमगाः सौम्याः कोणेपापा अष्टमेब्दे मृतिः ॥ ९९ ॥

क्षिणेदावस्तेशुकभे लग्नेमंदाराकार्गुर्वदृष्टासप्तमेब्देमृति १००

त्रिकेचंद्रर्काकियोगे नवमाद्वे मृतिः ॥ १०१ ॥

टीका—चंद्रमा सूर्य गुरु स युत होवे १ अथवा चंद्रमा सें सूर्य शनि  
तल युक्त होवे २ अथवा शनि सें चंद्र शुक मंगल युक्त होवे ३ तो ५  
वर्ष की आयु जानना । इस सूत्रमे ३ योग है इनमेसे कोईभी होवे  
५ वर्ष की आयु कहना ॥ ९४ ॥

लग्न में राहु सर्व पाप ग्रहों से दृष्ट होवे तो पांच वर्ष की आयु  
जानना ॥ ९५ ॥

करं भयया सिंह राशी का शुक त्रिक स्थान (६।८।१२) मे स्थित होवे भार पाप ग्रहो से दृष्टहोवे तो छठे वर्ष मे मृत्यु जानना ॥ ९६ ॥

लग्न में सूर्य शनि मंगल स्थितहोवे और क्षीण चंद्रमा ७ सात मे स्थान मे होवे तो छठे भयया सात मे वर्ष मे मृत्यु होवे ॥ ९७ ॥

सातमे स्थानमे क्षीण चंद्रमा लग्न मे शनि मंगल शुक स्थित होवे और इनको गुरु नहि देखता हो तो सातमे वर्ष मे मृत्यु जानना ॥९८॥

छठे भाठ मे स्थानमे सौम्य ग्रह ( चं. बु गु शु ) और ९।५ स्थानमे पाप ग्रह जावे तो भाठमे वर्ष मे मृत्यु जानना ॥ ९९ ॥

तुल तथा वृषभ राशी का क्षीण चंद्रमा सप्तम स्थानमे होवे और लग्न मे शनि मंगल सूर्य होवे इनको गुरु नही देखता होवेतो ७ सात वर्ष की आयुजानना ॥ १०० ॥

त्रिक ६।८।१२ स्थान में चंद्र सूर्य शनिका योग होवे तो ९ नव मे वर्ष मृत्यु जानना ॥ १०१ ॥

ज्ञभगा इन्द्रकारा गुर्वदृष्टा नवमाब्देमृतिः ॥ १०२ ॥

यूनेचंद्रे षमेशोङ्गे मंददृष्टे नवमाब्देमृतिः ॥ १०३ ॥

चंद्राङ्गेशावस्ते वा त्रिके भतुल्याब्देमृतिः ॥ १०४ ॥

जन्मेशांद्रभगौशुक्रार्कौ वा लग्नेशेषष्ठे भतुल्याब्देमृतिः १०५

चंद्राङ्गेशौ मंदार्कयुतौ द्वादशाब्देमृतिः ॥ १०६ ॥

जीवेभौमभे भौमेजीवभे वा सूर्यमंदभे मंदेसूर्यभे द्वादशाब्दे मृतिः ॥ १०७ ॥

क्रमान्मेपादिगो विधुरष्टम नवम त्रयोविंश द्वा

विंश पञ्चम प्रथमचतुर्थत्रयोविंशाष्टादश विं

शैकविंशदशमलवस्थो लवां रुमिताब्देमृत्तिदः ॥ १०८ ॥

टीका-बुधकीराशी ३।६ के चंद्र सूर्य मंगल होवे और गुरु की दृष्टी उनपर नही होवे तो नववर्ष की उमरमे मृत्यु होवे ॥ १०२ ॥

चंद्रमा सातमे होवे भार ८ भाठमे स्थान का स्वामी लग्न मे

स्थित हो कर शनी से द्रष्टृ हेवे तो नव वर्ष की उमर जानना ॥ ११३ ॥

चंद्रमा और लग्न का स्वामी सातमे स्थानमे स्थित होवे अथवा त्रिष स्थान ६। ८। १२ मे जायतो उस स्थान मे जो राशी हो उतने ही संख्या वर्षमे मृत्यु जानना ॥ १०४ ॥

जन्मराशी के स्वामीसे भाठमे स्थानमे शुक्र और सूर्य दोनु जाय १ अथवा लग्न का स्वामी छठे स्थान मे गयाहो तो उस स्थानमे जो राशी हो उतने ही वर्ष की आयु जानना ॥ १०५ ॥

चंद्र और लग्न की राशी के स्वामी शनि सूर्यसे युक्त होवेतो बार १२ मे वर्ष मे मृत्यु जानना ॥ १०६ ॥

गुरु, मंगल की (१।८) राशी का होवे, और मंगल, गुरु की (९।१२) राशी का होवे १ अथवा सूर्य, शनि की १०।११ राशी का और शनि, सूर्य की ५ राशी का होवे तो १२ बार मे वर्ष मे मृत्यु जानना ॥ १०७ ॥

जन्म समय मे चंद्रमा मेपके ८ वृषभके ९ मिथुनके २३ कर्कके २२ सिंहके ५ कन्याके १ तुलके ४ वृश्चिक के २३ धनके १८ मकरके २० कुंभके २१ मीनके १० भंश का होवेतो भंश के संख्या के घरावर वर्ष मे मृत्यु जानना ॥ जैसा के किसी के जन्म समय मे चंद्रमा धनके १८ भंश काहे तो १८ अठार मे वर्ष मे मृत्यु कहना इसी प्रकार सब राशी यो मे समझना ॥ १०८ ॥

सर्व रिष्ट योगोके भंगयोग ।

रात्रौषष्टाष्टमगध्वद्रः शुक्ले सर्वारिष्टहरः ॥ १०९ ॥

सौम्य भांशगाः सौम्याः सर्वारिष्टहरः ॥ ११० ॥

भेशेकेन्द्रे वा सौम्येकेन्द्रे सर्वारिष्टहरः ॥ १११ ॥

शीर्षोदयगास्सर्वे सर्वा ० ॥ ११२ ॥

षष्ठाष्टमगे रुष्णचंद्रे दिवा पापदृष्टे सर्वा ० ॥ ११३ ॥

रथोच्चसुहृद्भेचंद्रे सर्वारिष्टहरः ॥ ११४ ॥

चंद्रात्खेजीवो व्यये ज्ञाच्छौ लाभे खलाःस ० ॥ ११५ ॥

ककजिइन्दौ केन्द्रे सदृष्टे सर्वारिष्टहरः ॥ ११६ ॥

कर्काजवृषे राहौ सर्वा० ॥११७॥

केन्द्रे तदग्रेच सर्व खेटाः स० ॥११८॥

शुभमे पूर्णेन्दौ सर्वा० ॥११९॥

पष्टाष्टमे चन्द्रे शुभवर्गगे स० ॥१२०॥

इन्द्रज्ञौ सर्व ग्रह दृष्टौ सर्वा० ॥१२१॥

शुभांशे केन्द्र कोणे शुक्र दृष्टे चन्द्रे सर्वा० ॥१२२॥

बलिशुभः केन्द्रगो लाभेसूर्यः सर्वा० ॥१२३॥

सवलेङ्गने शुभमात्र दृष्टे सर्वा० ॥१२४॥

जीवेस्वभोच्चगे केन्द्रे सर्वा० ॥१२५॥

पापाः शुभ वर्गगाः शुभ मात्र दृष्टास० ॥१२६॥

श्यायारिगो राहुः शुभमात्रदृष्टयुतः स० ॥१२७॥

सर्वे बलिनो वा नृराशिगा वामित्रभगा वाशुभभगा वा

शुभवर्गगाः सर्वारिष्टहरः ॥ १२८ ॥

टीका- ॥ शुक्लपक्ष मे रात्रिसमय मे जन्म होवे और छुटे भाठ मे स्थान मे चन्द्रमा स्थितहोवे तो सर्व रिष्टयोग का नाशकरता है १०९

शुभग्रह कि राशि और नवमांश ( २।७।९।२।३।६।४ ) मे शुभग्रह गये होवे तो सर्वारिष्टनाश करते है ११०

जन्म राशी का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० मे स्थितहोवे भयवा शुभ ग्रह केन्द्रमे होवे तो सर्वारिष्टनाश करते है १११

संवग्रह शीर्षोदय राशी ३।५।६।७।८।११ मे गये होवे तो सर्वारिष्ट नाश करते है ११२

कृष्णपक्ष में दिन का जन्म होवे और ६।८ छुटे भाठमे स्थान मे चन्द्रमा दृषाप ग्रहसे दृष्ट होवे तो सर्वारिष्ट नाश करता है ११३

चन्द्रमा भयनि स्वराशि ( ४ ) उच्च राशी ( २ ) तथामित्र ग्रहकी

राशी में स्थितहोवे तो सर्वारिष्ट नाशकरता है ११४

चंद्रमासे दशमे स्थान में गुरु, चारमे स्थान में बुध शुक्र और ग्यार  
में स्थान में पापग्रह स्थितहोवे तो सर्वारिष्टकानाश करते है ११५

कर्कतया मेष राशि का चंद्रमा केंद्रमें स्थितहोवे और शुभ ग्रहसे  
दृष्टहोवे तो सर्वारिष्ट नाश करता है ११६

कर्कमेघ तथा वृषभ राशी के लग्नमें राहु स्थितहोवे तो सर्वा ० ११७  
केंद्र १।४।७।१० और पणफर २।५।८।११ स्थान में सर्व ग्रह  
स्थितहोवे तो सर्वारिष्ट नाशकरते है ११८

पूर्ण चंद्रमा शुभग्रह की राशी का होवे तो सर्वा ० ११९

शुभग्रह के वर्ग में गया हुआ चंद्रमा छठे भाठमें स्थान में स्थित  
होवे तो सर्वा रिष्टकानाश करता है १२०

चंद्र और जन्म लग्न को सर्व ग्रह देखते होवे तो सर्वा ० १२१

शुभग्रह की राशि के नवांशमें गयाहुवा चंद्रमा केंद्र कोण १।४।७  
।१०।१।५ स्थान में स्थितहोवे और शुक्र उसको देखता होवे तो  
सर्वा रिष्टनाश करता है १२२

बलवान् शुभग्रह केंद्र १।४।७।१० में स्थितहोवे और ११ ग्यारमें  
स्थान में सूर्य होवे तो सर्वा ० १२३

लग्नका स्वामी बलवान् होवे सर्व शुभग्रह से दृष्ट होवे तो सर्वा  
रिष्ट ० ॥ १२४ ॥

केंद्र १।४।७।१० स्थानमें स्वराशी १।१२ तथा भपत्रि उच्चराशी ४  
में गयाहुवा गुरुस्थित होवे तो सर्वा रिष्टनाश होवे ॥ १२५ ॥

पापग्रह शुभग्रहों के वर्ग में गयेहोवे और शुभग्रह मान से दृष्ट  
होवे तो सर्वा रिष्टनाश होवे ॥ १२६ ॥

तीसरे ग्यारमें छठे ३।११।६ स्थानमें गयाहुवा राहु शुभ ग्रहों  
से युक्त तथा दृष्टहोवे तो सर्वा ० ॥ १२७ ॥

सर्व [ शुभ पाप ] ग्रह बलवान् होवे १ भयवा सर्व ग्रह नरराशी  
[ १।३।५।७।९।११ ] में गयेहोवे २ भयवा सर्व ग्रह अपने मित्रग्रह कि  
राशी में स्थित हावे ३ भयवा शुभग्रह की राशी में स्थितहोवे ४ भयवा  
सर्वग्रह शुभग्रह के वर्गमें गयेहोवे ५ तो सर्वारिष्ट नाशहोवे । इस सूत्र  
में ५ पांच योग कहे है इनमें से कोई भी १ योग हो तो सर्वारिष्टहर  
योग जानना ॥ १२८ ॥ इति सर्वारिष्टहर योगाः ॥

## जारज योग

- षष्ठाष्टमेशौ चद्रारयुतौ तुर्यगो जारजः ॥ १२९ ॥  
 षष्ठांशिशौ पापयुतौ जारजः ॥ १३० ॥  
 षष्ठांशिशयोर्मन्दयोगे शूद्रजो ज्योगेवैश्वजोऽ क्योगेक्षत्रजो  
 जीवशुकान्यतरयोगे ब्राह्मणजः ॥ १३१ ॥  
 अंशेषामात्र संबन्धे जारजः ॥ १३२ ॥  
 केंद्रसोत्थेश योगे जारजः ॥ १३३ ॥  
 द्वित्रिपंचारीशा लग्ना जारजः ॥ १३४ ॥  
 पापेङ्गे शुभेयूने स्तमन्दे जारजः ॥ १३५ ॥  
 चन्द्रेङ्गे सुतेशुके सोत्थेभौमे जारजः ॥ १३६ ॥  
 लग्नेर्के सुखेराहौ पितृव्यजः ॥ १३७ ॥  
 लग्ने रावहारौ पुष्पवंतौयूने नीचजः ॥ १३८ ॥  
 गून्धेपुकेन्द्रेषु जारजः ॥ १३९ ॥  
 सर्वद्विषष्ठाष्टांत्येषु जारजः ॥ १४० ॥  
 जीववर्गहीनेगे जारजः ॥ १४१ ॥  
 स्वङ्गेतुर्यसपापचन्द्रे चन्द्रलग्नौ गुर्वदृष्टौ जारजः ॥ १४२ ॥  
 पुष्पवंता वेकमगौ गुर्वदृष्टौ जारजः ॥ १४३ ॥  
 लग्नाम्बुपष्टधर्मप योगे जारजः ॥ १४४ ॥  
 धर्मसुखेचपापे झपेऽबले जारजः ॥ १४५ ॥  
 सुखेपापान्तरे लग्नपेऽबले पापदृष्टे जारजः ॥ १४६ ॥  
 दारेरोधनेसपापे भौम दृष्टे जारजः ॥ १४७ ॥



चंद्रमंदयोगे जारजः ॥ १४८ ॥

टीका—छठे आठमे स्थानके स्वामी चंद्र मंगलसे युक्त होकर चतुर्थ स्थानमे स्थित होवे तो जारज (व्याभिचारसे उत्पन्न) कहना ॥ १२९॥

छठे और नवम स्थानके स्वामी पापग्रहों से युक्त होंवे तो जारज कहना ॥ १३० ॥

छठे और नवम स्थानके स्वामी शनि से युक्त होवे तो शूद्र से उत्पन्न कहना एव बुध से युक्त होवे तो वैश्य से, मृग से युक्त होवे तो क्षत्री से, गुरु से अथवा शुकसे युक्त होवे तो ब्राह्मण के शीर्ष से उत्पन्न जानना ॥ १३१ ॥

कारकाश लग्नमे पापग्रह मानके संबंध होवेतो जारज ० ॥ १३२॥

केन्द्र १। ४। ७। १० स्थान के स्वामी स तृतीय स्थान के स्वामिका योग होवे तो जारज कहना ॥ १३३ ॥

दूसरा २ तीसरा ३ पाचवा ५ और छटा ६ स्थानके स्वामी लग्न मे स्थित होवे तो जारज कहना । स्मरणरहै ये चारोग्रह लग्न मे हे वे तो योग जानना नहींतो योग नहि होता है ॥ १३४ ॥

लग्न मे पाप ग्रह ७ सप्तम स्थानमे शुभग्रह आर १० दशम स्थान मे शनि स्थित होव तो जारज होताहै ॥ १३५ ॥

लग्न मे चंद्रमा पञ्चम स्थानमे शुक और तीसरे स्थानमे भौम स्थितहोव तो जारज जानना ॥ १३६ ॥

लग्न मे सूर्य, चतुर्थ स्थान मे राहु स्थितहोव तो पितृव्य [ काके ] से उत्पन्न हुवा कहना ॥ १३७ ॥

लग्नमे राहुमंगल और सप्तम स्थान मे सूर्य चंद्रमा स्थितहोवे तो नीच से उत्पन्न कहना ॥ १३८ ॥

केन्द्र १। ४। ७। १० स्थान मे कोईभी ग्रह नहीं होवे तो जारज कहना ॥ १३९ ॥

सर्व ग्रह २। ६। ८। १२ दूसरे छठे आठमे बाहरवे स्थान मे स्थित होवे तो जारज कहना ॥ १४० ॥

लग्नमे गुरु का वर्ग नहि होवे तो जारज कहना ॥ १४१ ॥

दशमे लग्न मे तथा चोथे स्थानमे पापग्रह से युक्त चंद्रमा स्थित होवे और लग्न, चंद्र, को गुरु नहि देखता होवे तो जार० ॥ १४२ ॥

सूर्य चंद्र दोनो एक राशी मे स्थितहोव और उनको गुरु नही देखता होवे तो जारज कहना ॥ १४३ ॥

लग्न १ चतुर्थ ४ षष्ठ ६ और ९ नवम के स्वामीयो का याग होवे तो जारज कहना ये चारो एक राशि मे जितने नजीक अंशमे होवे उतनाहि योग बलवान जानना ॥ १४४ ॥

नवम ९ और ४ चतुर्थ स्थानम पापग्रह स्थितहोवे और लग्नेश्वर निर्बली होवे तो जारज कहना ॥ १४५ ॥

चतुर्थ स्थान पाप ग्रहो के बीचमे होव लग्नपति निर्बली होवे पापग्रह से दृष्ट होवतो जारज ० ॥ १४६ ॥

सप्तमभात्रकास्वामी धन २ स्थानमे पापग्रह से युक्त होवे और भौम से दृष्ट होवे तो जारज ० ॥ १४७ ॥

चंद्र शनिका योग होव तो जारज होताहै ॥ १४८ ॥

जारज योग के भंग योग.

लग्नपेङ्गे वा लग्नदृष्टरि जारजयोग भङ्गः ॥ १४९ ॥

लग्नेर्जीव युतदृष्टे जारजयोग भङ्गः ॥ १५० ॥

लग्नचंद्रान्यतरो जीवभर्गान्यतरगो जारजयोग भङ्गः १५१

टीका- लग्नेश लग्नमें युक्तहोवे अथवा लग्न को देखताहोवे तो जारज योग का भंग जानना ॥ १४९ ॥

लग्नमे गुरु युक्तहो तथा लग्न को गुरु देखताहोवे तो जारज योगका भंग जानना ॥ १५० ॥

लग्न तथा चंद्रमा गुरु की राशि का अथवा गुरु के दशवर्ग मे होवे तो जारज योगका भंग जानना अर्थात् इनयोगो मे से कोई १ योगभी होवेतो उपरोक्त जारज योग नही जानना ॥ १५१ ॥

चिन्ह का विचार

यदययवे कुजाकां तत्रारक्तचिन्हम् ॥ १५२ ॥

राव्हर्कजौयत्र तत्र शामचिन्हम् ॥ १५३ ॥

लग्नगाश्वंद्राराच्छाः शिरसिचिन्हम् ॥ १५४ ॥

शुक्रेङ्गे रंधेराहौ मस्तके वा वाम कर्णे चिन्हम् १५५

आरेङ्गे कोणेमदे लिंगेगुदसमीपे वा चिन्हम् ॥ १५६ ॥

ज्ञेयौरंध्रे कोणेशुके सुरेङ्गेभंदे जठरे चि० ॥ १५७ ॥

राव्हच्छौतुर्ये मंदेकुजेवाङ्गे वामपादे चि० ॥ १५८ ॥

यस्य राजयोगो भंग रहितस्तरय करचरणान्यतरत्र राज  
चिन्हम् ॥ १५९ ॥

चंद्राकौ यदङ्गौ तदङ्गे चिन्हम् ॥ १६० ॥

टीका— काल पुरुष के शरीर विभाग के विचार से शरीर के जिस अवयवस्थानमें सूर्य भौम युक्त होवे उस स्थानमें लालरंगका चिन्ह जानना ॥ जैसे किसीके लग्न से ४ चतुर्थ स्थानमें कर्क राशी में सूर्य मंगल स्थित है तो यह स्थान कालपुरुषके हृदयका है इसलिये इस कुंडलीवाले के हृदयके समीप लालरंग का मश वगेराका चिन्ह कहना एवं सर्व स्थाना का विचार जानना ॥ १५२ ॥

राहु शनि जिस स्थानमें होवे उस अंगपर श्याम चिन्ह जानना १५३  
लग्नमें चंद्र भौम शुक्र युक्त होवे तो मस्तकपर चिन्ह जानना १५४  
लग्नमें शुक्र और ८ अष्टम स्थानमें राहु युक्त होवे तो मस्तकपर  
अथवा वाम कर्णपर चिन्ह जानना ॥ १५५ ॥

लग्नमें मंगल और नवम पंचम ९।५ स्थानमें शनि युक्त होवे तो  
लिंगपर अथवा गुदा के समीप में चिन्ह जानना ॥ १५६ ॥

अष्टम स्थानमें बुध गुरु त्रिकोण स्थान ( ९।५ ) में शुक्र और चौथे  
तथा लग्नमें शनी युक्त होवे तो पेटपर चिन्ह जानना ॥ १५७ ॥

चतुर्थ स्थान में राहु शुक्र और शनि अथवा मंगल लग्नमें स्थित  
होवे तो बायें पांव में चिन्ह जानना ॥ १५८ ॥

जिसके भंग रहित राजयोग पूर्ण होवे उसके हात अथवा पांवों में  
राज चिन्ह जानना ॥ १५९ ॥

चंद्र, रवि, जिस अंगमें युक्त होवे उस अंगमें चिन्ह कहना ॥ १६० ॥  
शुभ जन्म के योग.

वर्गोत्तमेङ्गे वा चंद्रेशुभं जन्म ॥ १६१ ॥

सूर्याद्धने सदग्रहे शुभंजन्म ॥ १६२ ॥

एकस्मिन्नपि केंद्रे ग्रह युते शुभं० ॥ १६३ ॥

आत्मकारके सब छे शुभजन्म ॥ १६४ ॥

टीका— लग्न वर्गोत्तम नवाशमे होवे अथवा चंद्रमा वर्गोत्तमाशमे होवे तो जन्म शुभ जानना ॥ १६१ ॥

११/सूर्य से दूसरे स्थान में शुभग्रह स्थित होवे तो शुभ जन्म जानना १६२  
अथवा जो ग्रह स्थानमें ग्रह युक्त होवे तो शुभ जन्म कहना ॥ १६३ ॥

आत्म कारक ग्रह बलवान होवे तो शुभ जन्म कहना ॥ १६४ ॥

शरीर की आकृति लक्षण वर्ण विचार

लग्न नन्दाशपतुल्याकारो वा वीर्याधिक ग्रह तुल्यतनुः १६५

चंद्राकांतनवांशप वर्णः ॥ १६६ ॥

टीका— लग्न में जिस ग्रह की राशी का नवमाश होवे उसग्रह के स्वरूप ( संज्ञा तं० सूत्र ४२ से ४८ में कहे हैं ) के समान शरीर का आकार अथवा जो ग्रह अधिक बलवान होवे उसग्रह के स्वरूप के समान शरीर का आकार लक्षण कहना ॥ १६५ ॥

चंद्रमा जिस राशीके नवमाशमें होवे उसके स्वामी के वर्ण के समान शरीर का गौर श्यामादि वर्ण जानना ॥ १६६ ॥

सत्त्वादिगुणपृकृती का विचार.

सूर्योयस्यत्रिंशांशे, तद्गुणभाक् ॥ १६७ ॥

टीका— सूर्य जिस ग्रह के निशाशमें होवे उसग्रह का जो सत्त्वजमादि गुणहोवे वैसाही शरीर का गुण जानना ॥ १६७ ॥

इति श्रीमहादेवकृत जातकतत्त्वे प्रसूतिका  
तत्त्वंद्वितीयम् ॥ २ ॥

इति श्री गणकपर्य्य श्रमन्महादेव कृत जातक तत्त्वाख्य जातकग्रंथे  
तत्सूनु श्रीनिवास रचित तत्त्वप्रदर्शनि भाषाटीकायां  
प्रसूतिका तत्त्वं द्वितीयम् ॥ २ ॥

अथ प्रकीर्ण तत्वारम्भः ।

आलिङ्गनाय संवृत्तौ भवोदेवौ मिथोभिया ।

विश्लेषस्यैकतांयातौ भूयास्तामङ्गलायनः ॥ १ ॥

टीका-अथ प्रकीर्णतत्त्वका आरम्भ करते समय ग्रंथकर्ता मंगला चरण करते है । आलिङ्गन के लिये प्रवृत्तहुए शिवपार्वती परस्पर विश्लेष ( जुदे ) होने के भय से अेकरूप जिन्होंने ( अर्द्धनारीश्वर ) धारण किया है वे साम्बसदाशिव हमारे मंगल के लिये होवो ॥ १ ॥

तत्रादौ भवानां विचारः ।

योभावःस्वस्वामि शुभैर्युक्तोदृष्टो वा तस्यवृद्धिः पापैर्हानि मि  
श्रैर्मिश्रम् ॥ १ ॥

नीचारिस्थोग्रहो भावनाशकः ॥ २ ॥

स्वसुहृत्तुङ्गस्थोभाववृद्धिकरः ॥ ३ ॥

यद्वावात्रिके पापास्तद्दावनाशः ॥ ४ ॥

यद्वावेशात्रिके त्रिकेशो वा यद्वावेतद्दावनाशः ॥ ५ ॥

यद्वावीयकेंद्रार्थकोणस्थानानि शुभपतियुतानि तद्वावपुष्टिः  
पापयुतानिचेद्धानिर्मिश्रयुतानि मिश्रम् ॥ ६ ॥

यद्वावेशोरिनीचास्तगः शुभैर्युतेक्षितश्चेत्तद्दावनाशः ॥ ७ ॥

यद्यद्वावीयरंध्रेश सूर्यशानि गुलिकेश गुलिकंशेशानांमध्ये  
योधिकबली तत्पाके मूर्तिवित्तादिनाशः ॥ ८ ॥

टीका-प्रथम द्वादशभावों का शुभाशुभ फल विचार के साधारण नियम कहते है । जोभाव अपने स्वामी और शुभग्रहों से युक्त भयवा दृष्टहोवे उस भावकी वृद्धि और पापग्रहों से युक्त वा दृष्टहोवे उस-भाव की हानी तथा शुभ पाप मिले हुवे ( मिश्र ) ग्रहों से युक्त दृष्ट होवे उसका मिश्रफल जानना ॥ १ ॥

नीचराशी का तथा शत्रु राशी का ग्रह जिसभाव में स्थित होय वह ग्रह उस भवका नाश करता है ॥ २ ॥

स्वराशि का तथा मित्र और उच्चराशी का ग्रह जिसभाव में स्थित होवे वह ग्रह उसभाव की वृद्धि करता है ॥ ३ ॥

जिस भावस ६।८।१२ छठ आठवे चारवे स्थान में पापग्रह गये होव उसभाव की हानी जानना ॥ ४ ॥

जिस भावका स्वामी ६।८।१२ में स्थित होव अथवा जिसभाव में त्रिक स्थान (६।८।१२) का स्वामि युक्त होव उस भावका नाश कहना ॥ ५ ॥

जिस भावस १।४।७।१०।१।१।५ स्थान शुभ ग्रह से और अपने स्वामी से युक्त हावे उसभाव की वृद्धि ( उत्तम फल ) कहना और पापग्रह से युक्त हावे ता उसभाकी हानी तथा मिश्र ( शुभपाप ) ग्रहस युक्त हावे ता मिश्र ( मध्यम ) फल कहना ॥ ६ ॥

जिस भावका स्वामी शत्रु ग्रहकी राशीका अथवा नीच राशीका तथा अस्त का हाव और वह शुभग्रहा से युक्त तथा दृष्टनदिहावे तो उस भावका नाश होता है ॥ ७ ॥

जिस जिस भावसे ८ अष्टम स्थानका स्वामी, और सूर्य, शनि, गुलिक की राशीका स्वामी, और गुलिक के नवाशका स्वामी, इनपाचों में से जो अधिक बलवान् हावे उसकी दशामे उस उस देह धनादि भाव का नाश जानना । अर्थात् लग्न से ८ स्थान क स्वामी से विचार किया हातो दहका नाश कहना धनभावस ८ के स्वामी से हाता धनका एसहि प्रत्यक भाव के फलका नाश कहना ॥ ८ ॥

### अथाग विचार

स्वांशेङ्गेशुभयुते वाशुभदृष्टे देहसौख्यं ॥ ९ ॥

अङ्गेशोमे देह सौख्यं ॥ १० ॥

सपापेङ्गेशोनिके देहसौख्यं ॥ ११ ॥

लग्नेपापा लग्नशेच हीनरीये देहसौख्यन्त ॥ १२ ॥

देहकाश्ययोगः ।

शनिचंद्रौमेपे देहकार्श्यं ॥ १३ ॥

अन्त्येहेलाव केंद्रगेवके देहकार्श्यं ॥ १४ ॥

लग्नेशाधिष्ठित भेशन्निके देहकार्श्यम् ॥ १५ ॥

शुक्लांगे शुक्लग्रहे देहकार्श्यं ॥ १६ ॥

शुक्लयुतेगेशे देहकार्श्यम् ॥ १७ ॥

शुक्लग्रहक्षेत्रे देहकार्श्यम् ॥ १८ ॥

लग्नेशांशे शुक्लेदेहकार्श्यम् ॥ १९ ॥

शुक्लाङ्गैःपापैःदेहकार्श्यम् ॥ २० ॥

टिका-भव शरीरका विचार कहते हैं । लग्नका स्वामी स्वनांशम होवे शुभग्रह से युक्तहोवे अथवा शुभग्रहो से दृष्टहोवे तो देहका सुख होव ॥ ९ ॥

लग्नका स्वामी लग्नमे होवे तो देह सुख जानना ॥ १० ॥

पापग्रह से युक्त लग्नेश्वर ६-८-१२ में स्थान में जायतो देह सुख नहीं होवे ॥ ११ ॥

लग्नमें २-३ पापग्रह होवे और लग्नका स्वामी हीनबली होवे तो देह सुख नहीं होवे ॥ १२ ॥

देहकार्श्ययोग कहते हैं ।

मेप राशी मे शनि चंद्र युक्त होवे तो देह दुर्बल कहना ॥ १३ ॥

वारमे स्थानमे मूर्य, और केद्र १।४।७।१० स्थानमे भौम होवे तो देह कार्श्य ( कृश ) जानना ॥ १४ ॥

लग्नेश्वर जिसराशी मे स्थितहोवे उस राशी का स्वामी त्रिक (६-८-१२) स्थानमे स्थितहोवेतो देह कृश ( पतली ) होवे ॥ १५ ॥

शुक्ल राशी १।२।३।५।६।९ के लग्नमे शुक्लग्रह [ रवि मंगल शनि-बुध गुरु. ] स्थितहोवे तो देह कार्श्य ( पतलीदेह ) होवे ॥ १६ ॥

लग्नेश्वर शुक्लग्रह [ रविमंगल शनि औरशुक्लराशी मे गयेहुवे बुध गुरु ] से युक्तहोवे तो देह कार्श्य [ पतली देह ] जानना ॥ १७ ॥





जलराशी ४ । ७ । ८ । १० । ११ । १२ का लग्न शुभग्रहों से युक्त  
अथवा दृष्टहोवे ता पुष्ट देह होता है ॥ २६ ॥

कारकांश कुंडलीमें मिथुन लग्न होवे तो पुष्टदेह होताहै ॥ २७ ॥

जन्मलग्न में बलवान शुभग्रह स्थितहोवे तो पुष्टदेह होताहै ॥ २८ ॥

लग्नादिराशयः शिरः प्रभृतिकालाङ्गेपुकल्प्याः ॥ २९ ॥

यत्राङ्गे दीर्घराशि दीर्घमपश्च तदीर्घम् व्यस्ते-ह्रस्वमिश्रमिश्रं

ग्रहानाकांतराशिश्चेद्वाशिवत् ॥ ३० ॥

दीर्घदेह योग ।

बुधात्सप्तमेभौमे दीर्घदेहः ॥ ३१ ॥

लग्नपेदीर्घभे दीर्घदेहः ॥ ३२ ॥

देह और देहके कोन २ अवयव ह्रस्व दीर्घहै उनका विचार ।

टीका-जैसे मेषादि द्वादश राशि मस्तकादिपादपर्यंत कालपुरुषमें कल्पना की है तैसेहि जन्म लग्नकी राशि को आदिले १२ वाराहि राशि मस्तक से पादपर्यंत कालपुरुष के अंगमें कल्पना करना । उदाहरणके लिये कल्पना कीजिये जैसे किसीका जन्मलग्न ५ सिंह राशि है तो ५ सिंहमस्तक ६ कन्या मुख ७ तुल उर ८ वृश्चिक हृदय ९ धन उदर १० मकर कटि ११ कुंभवस्ति १२ मीनलिंग १ मेष उरु २ वृष जानु ३ मिथुन जंघा ४ कर्क अंग्घ्रि (पांव) स्थान हुआ इसीप्रकार प्रत्येक लग्नसे अंगकी कल्पना करना ॥ २९ ॥

इन उपरोक्त मस्तकादि पादपर्यंत अंगस्थान में से जिसअंगमें दीर्घ राशि ५।६।७।८ और दीर्घ राशीकास्वामी ( मू. बु. शु. मं. ) स्थित होवे वह अंगदीर्घ जानना और औरजिसअंगस्थानमें ह्रस्वराशि ११।-१२।१।२ और ह्रस्वराशि का स्वामी स्थितहोवे वह अंग ह्रस्व जानना एवंमिश्र राशि ३।४।९।१० और मिश्र राशि केस्वामि जिसस्थान में स्थितहोवे उसअंगको सप्त अर्थात् नही दीर्घ और नही ह्रस्व जानना । ग्रह जिसराशि में जाय उसीराशी के समान ग्रहको ह्रस्व दीर्घ मिश्र समझना ॥ ३० ॥

बुधसेसातमें स्थानमें भौम स्थितहोवे तो दीर्घदेह होताहै ॥३१॥

लग्नकी राशिका स्वामि दीर्घराशि ५।६।७।८ का होतो दीर्घ देह होताहै ॥ ३२ ॥

॥ वामन योग. ॥

मंदातुर्ये चंद्रैराश्यायभागे वा ल्पतरराश्यंत्यभागे वामनः ३३  
लग्नेशे ल्पतरमे शुभदृग्घीने वामनः ॥ ३४ ॥

पृष्टोदयगे चंद्रैतुर्येशनिदृष्टे चाजेङ्गेशे वामनः ॥ ३५ ॥

सिहेऽर्काच्छौखे मृगे चंद्रे वामनः ॥ ३६ ॥

आयंत्येशे चंद्रे मंददृष्टे सौम्याऽदृष्टे वामनः ॥ ३७ ॥

लग्नेशे ल्पर्शे लग्नदर्शिनि वामनः ॥ ३८ ॥

वामन योग कहतेहै ।

टीका—शनिसे चौथे स्थानमे चंद्रमा राशिके प्रथम भागमे स्थित होवे अथवा ऋस्व राशि के अत्यभाग म [२९] अंशमे होवेतो वामन ( ठिगना ) होता है ॥ ३३ ॥

लग्नश ऋस्व राशिमे स्थित होव और उसको शुभग्रह नहि देखते-होय तो वामन हाताहै ॥ ३४ ॥

पृष्टोदयरशी ( १।२।४।९।१० का चंद्रमा चौथे स्थानमे शनि से दृष्टहोवे और लग्नेश मेष राशी का होतो वामन हाताहै ॥ ३५ ॥

मृगेश शुक सिंहराशीमे स्थितहोवे और दसमे स्थान मे मकरराशी का चंद्रमा होतो वामन हाताहै ॥ ३६ ॥

लग्नतथा व्यय १२ स्थान का स्वामीचंद्रमा, शनिसे दृष्टहोवे और शुभग्रहोसे अदृष्टहोवे तो वामन हाताहै ॥ ३७ ॥

लग्न का स्वामि हस्तेराशी मे स्थित होवे अथवा लग्नको देखता होवे तो वामन हाताहै ॥ ३८ ॥

विकलाग योग ।

केंद्रस्थाः क्रूरा विकलाङ्गः ॥ ३९ ॥

केंद्रगौ पुष्पयंतौ विकलाङ्गः ॥ ४० ॥

लग्नेशुके मंददृष्टे श्रोणिभागे वैकल्यम् ॥ ४१ ॥

तुयशुक्रे मंदाराज्ञान्यतनयुतेजविकरचरणकट्यन्यतमेवै-  
कल्पम् ॥ ४२ ॥

चंद्रखेभौमेस्ते मंदवेशिगे विकलाङ्गः ॥ ४३ ॥

सुताङ्केभौमे क्रूरदृष्टे हीनाङ्गः ॥ ४४ ॥

मंदेथे खेचंद्रे ज्ञेस्ते विकलाङ्गः ॥ ४५ ॥

नीचगाः शुकेन्दुमदाः कुम्भेके विकलाङ्गः ॥ ४६ ॥

टीका-केंद्रस्थान ( १।४।७।१० ) में क्रूरग्रहास्थितहोवेतो विकलांग  
( विकलशरीरवाला ) होताहै ॥ ३९ ॥

केंद्रस्थान १।४।७।१० में सूर्य चंद्रमा होवे तो विकलशरीर  
होताहै ॥ ४० ॥

लग्नमें गयाहुवा शुक्र शनि से दृष्टहोवे तो कटि भागमें विकलता  
होतीहै ॥ ४१ ॥

चौथे स्थानमें शुक्र, होवे और शनि, भौम, अथवा बुध इनतीनों  
में से किसीसेभी गुरु युत होवे तो हाथ, पांव, कटि, स्थानमें से किसि  
अेकस्थानमें विकलता होतीहै ॥ ४२ ॥

चंद्रमा १० दशमें भौम ७ सातवे शनिवेशिस्थान [ सूर्य से दूसरे ]  
में होवेतो विकलांग होताहै ॥ ४३ ॥

पांचमें तथा नवमें मंगल होवे और क्रूरग्रहो से दृष्टहोवे तो हीनांग  
होताहै ॥ ४४ ॥

शनि २ दूसरे चंद्रमा १० दशमें बुध ७ सातवे स्थानमें स्थितहोवे  
तो विकलांग होता है ॥ ४५ ॥

शुक्र चंद्र और शनि नीच राशी में स्थित होवे और कुंभराशी का  
मूर्य होवेतो विकलांग होता है ॥ ४६ ॥

रक्तपित्तरोग योगः

नीचेभौमे रक्तपित्तकोपः ॥ ४७ ॥

टीका-जन्म समयमें भौम नीचराशिका होवेतो रक्तपित्त रोगका  
कोप होता है। अर्थात् नाक, मुख, तथा मलद्वार की तरफसे रुधिर  
पड़ाकरता है ॥ ४७ ॥

----- - - - - देहदुर्गंधयोग.

मंदक्षेशुकेदेहदौर्गंध्यम् ॥ ४८ ॥

पष्टेशक्षे वा नके देहदौर्गंध्यम् ॥ ४९ ॥

क्षेशुके ज्युते केंद्रे देहदौर्गंध्यम् ॥ ५० ॥

मेपगेचंद्रे देहदौर्गंध्यम् ॥ ५१ ॥

टीका-शनि की राशी १०।११ का शुक्र होवे तो देहमें दुर्गंध होती है ॥ ४८ ॥

छठे स्थान का स्वामी बुध की राशि. ३।६ का होवे भयवा मकर राशी का होवे तो देहमें दुर्गंध होती है ॥ ४९ ॥

बुधकी राशी ३।६ में गयाहुवाशुक्र बुधसेयुक्तहोवे और केंद्र १।४।७।१० स्थानमें स्थितहोवे तो देहमें दुर्गंध होती है ॥ ५० ॥

मेपराशी का चंद्रमा जन्म लग्नमें स्थितहोवे तो देहमें दुर्गंध होती है ॥ ५१ ॥

लकड़ी के साहारेचलने का योग.

लग्नेशेत्ये पारयुतदृष्टे दृष्ट्याचलति ॥ ५२ ॥

टीका-लग्नका स्वामी १२ बारंबं स्थानमें पापग्रह से युक्त तथा दृष्टहोवे तो लकड़ी के साहारे से चलनेवालाहोता है ॥ ५२ ॥

विलज्जयोग.

चंद्रज्ञौभौमदृष्टौ विलज्जः ॥ ५३ ॥

क्षिणेंदौसारेत्रिके विलज्जः ॥ ५४ ॥

ज्ञाच्छावङ्गे भौमस्ते विलज्जः ॥ ५५ ॥

जीवेङ्गे भौमदृष्टे विलज्जः ॥ ५६ ॥

टीका-चंद्र और बुध दोनुग्रह भौम से दृष्टहोवे तो विलज्ज होता है ५३ क्षिणचंद्रमा मंगल से युक्त होकर त्रिक ६।८।१२ स्थानमें जावे तो विलज्ज होता है ॥ ५४ ॥

बुध शुक्रलग्नमें और सातमें स्थानमें भौमहोवे तो विलज्जहोता है ५५ लग्नमें गुरु भौम से दृष्टहोवे तो विलज्ज होता है ॥ ५६ ॥

सलज्जयोग.

चंद्रारौघने गुरुदृष्टौ सलज्जः ॥ ५७ ॥

टीका- सातमे स्थानमे चंद्र मंगल गुरु से दृष्टहोवे नो दृष्टहो-  
ता है ॥ ५७ ॥

कपटीयोगाः

ज्ञारयोगे कपटी ॥ ५८ ॥

पापान्वितेज्ञे बलाढ्येके कपटी ॥ ५९ ॥

सोत्थेकुजे शुभदृग्घीने कपटी ॥ ६० ॥

सुखेशे वा भाग्येशे पष्ठे कपटी ॥ ६१ ॥

मेपेज्ञे कपटी ॥ ६२ ॥

पापयुते वा पापदृष्टेसुखे कपटी ॥ ६३ ॥

पापांतरे तुयें कपटी ॥ ६४ ॥

कर्मपे वा रंध्रपे सुखे कपटी ॥ ६५ ॥

राहुमंदारयोगे हृत्कपटी ॥ ६७ ॥

शनि मंगल और राहु इन तीनोंमे से १ भेकभी ग्रह चतुर्य स्थान  
मे होतो हृत्कपटी होताहै ॥ ६६ ॥

राहु शनि और मंगल इन तिनोग्रहोका योग(युति) होवतो हृत्क  
पटी होताहै ॥ ६७ ॥

निष्कपटीयोग.

सुखे स्वर्शोच्चगे शुभे निष्कपटी ॥ ६८ ॥

मुखेशे बलाढ्ये निष्कपटी ॥ ६९ ॥

तुर्यशुभर्शे मित्रान्वित दृष्टे निष्कपटी ॥ ७० ॥

हृदयेशे गोपुराद्यंशे निष्कपटी ॥ ७१ ॥

पाताले मृदंशादियुते निष्कपटी ॥ ७२ ॥

लग्नेशुबुगे शुभयुतोक्षिते निष्कपटी ॥ ७३ ॥

लग्नेशे बलाढ्ये निष्कपटी ॥ ७४ ॥

लग्नेपे पारावताद्यंशे निष्कपटी ॥ ७५ ॥

लग्नेगुरौ शुक्रदृष्टे निष्कपटी ॥ ७६ ॥

इन्द्रकौतुर्ये क्षणमात्रंकपटी उर्ध्वे निष्कपटी ॥ ७७ ॥

तुर्यतमसी पापयुतदृष्टे बहिः शुद्धोतः कपटी ॥ ७८ ॥

तुर्ये बहुपापयुतदृष्टेपूर्ववत् ॥ ७९ ॥

टीक-स्वराशि तथा उच्चराशि मे गया हुआ शुभग्रह चोथेस्थान  
मे स्थितहोवेतो निष्कपटी होताहै ॥ ६८ ॥

चोथेस्थान कास्वामी बलवान् हो तो निष्कपटी हेताहै ॥ ६९ ॥

चोथेस्थान मे शुभग्रहकीराशि २।७।३।६।४।९।१२ अपने स्वामी के  
भिन्नग्रहसे युक्त तथा द्रष्ट होतो निष्कपटी होताहै ॥ ७० ॥

चोथेस्थान का स्वामी गोपुरादि भशमे हो तो निष्कपटी होताहै ७

चतुर्थभाय मृदंशादिक मेहाने तो निष्कपटी होताहै ॥ ७२ ॥

लग्नेश्वर चतुर्थ स्थानमे जावे शुभ ग्रहसेयुक्तः तथा दृष्टहोवतो निष्कपटी होताहै ॥ ७३ ॥

लग्नेश्वर बलवान् होवेतो निष्कपटी होताहै ॥ ७४ ॥

लग्न का स्वामि पारायतादि अंशमे होवेता निष्कपटी होताहै ७५ शुक्र से दृष्ट गुरु लग्नमे स्थित होवेता निष्कपटी होताहै ॥ ७६ ॥

चंद्रसूर्य का योग चोथे भाव मे होवे तो क्षणमात्र कपटिरहै पश्चात् निष्कपटी होताहै ॥ ७७ ॥

पापग्रह से युक्तः तथा दृष्ट राहु चोथे स्थानमे, स्थितहोवे तो बाहर तो निष्कपटी (शुद्ध) और अंतःकरणमें कपटी होताहै ॥ ७८ ॥

चोथेस्थानमे बहुत पापग्रह युक्तहो तथा ४ स्थानकों देखते होवेतो बाहार से निष्कपटी और अंतःकरणमें कपटी होताहै ॥ ७९ ॥

शूरयांगः

रात्रौ बल्यारोगे खे वा शूरः ॥ ८० ॥

भौमेस्ते बलवान् शूरश्च ॥ ८१ ॥

टीका-बलवान् मंगल, लग्नमे अथवा १० दशमे भावमे जावे और रात्रिसमय का जन्महो तो शूरवीर होताहै ॥ ८० ॥

सातवे स्थानमे मंगल स्थितहोवेतो बलवान् और शूर होताहै ॥ ८१ ॥

दूसरे ग्रंथोमें लिक्खाहै तथा अनुभव से देखनेमे आयाहै कि जिसके जन्म लग्नसे तीसरे ३ छठे ६ ग्यारवें ११ स्थानमे भौम शनि रवि राहु स्थित होतेहैं वह शूरवीर उद्योगी साहसी इमतवान् पराक्रमी होताहै ।

कातरयोगः

निर्बलारेणांगे दृष्टे कातरः ॥ ८२ ॥

रात्रौशनौ दशमे कातरः ॥ ८३ ॥

स्वर्शगभौमदृष्टेगे कातरः ॥ ८४ ॥

अंशाद्विक्रमेपापेशूरःशुभेकातरः ॥ ८५ ॥

टीका-जन्मलग्नकों निर्बली मंगल देखताहो तो कातर (डरपोक) होताहै ॥ ८२ ॥

राशि समय में जन्महो शनि दशमेस्थानमें स्थितहोतो कातर ( डरपोक ) होताहै ॥ ८३ ॥

स्वराशि १।८ का मंगल लग्नको देखता होतो कातर होताहै ८४  
कारकांसश लग्नसे ३ तीसरे स्थानमें पापग्रह स्थितहोतो शूरहोताहै  
और शुभग्रह स्थितहो तो कातर होता है ॥ ८५ ॥

क्रोधियोगः

दिवाबल्यारे स्वंगे क्रोधी ॥ ८६ ॥

लग्ने अस्ते वा निर्बलारे शनिदृष्टे क्रोधी ॥ ८७ ॥

लग्नेभौमे क्रोधी ॥ ८८ ॥

यूनेबलवति भौमे क्रोधी ॥ ८९ ॥

त्रिकोणेत्यवीर्ये राशिपे क्रोधी ॥ ९० ॥

अन्त्याष्टमेङ्गेशे क्रोधी ॥ ९१ ॥

पनेशे गुलिकान्विते क्रोधी ॥ ९२ ॥

टीका- दिनकाजन्महोवे और बलवानं मंगल १० दश में अथवा  
१ लग्न में स्थितहो तो क्रोधी होताहै ॥ ८६ ॥

लग्नमें अथवा सात वे स्थानमें निर्बली मंगल होवेशनि देखता  
होतो क्रोधीहोताहै ॥ ८७ ॥

लग्नमें मंगल होतो क्रोधी ॥ ८८ ॥

सातम स्थानमें बलवानं मंगल होवेता क्रोधी होताहै ॥ ८९ ॥

जन्म राशिका स्वामी निर्बली होके त्रिकोणस्थान ( ९।५ ) में स्थित  
होतो क्रोधी ॥ ९० ॥

लग्न कास्वामी बारवै तथा भाठमें स्थानमें जातो क्रोधी ॥ ९१ ॥

धन २ स्थान का स्वामी गुलिकसे युक्तहो तो क्रोधी होताहै ॥ ९२ ॥

कलहप्रिययोग

केतु युते सोत्थे कलह प्रियः ॥ ९३ ॥

टीका- तीसरेस्थान में केतु युक्तहोतो कलह प्रिय होताहै ॥ ९३ ॥



## क्षमात्रान्योग

कर्कालिङ्गपके भौमदृष्टे क्षमावान् ॥ ९४ ॥

तुर्यशेङ्गे वा लग्नेशे तुर्ये क्षमावान् ॥ ९५ ॥

सबलेतुर्ये क्षमावान् ॥ ९६ ॥

शुभेतुर्ये क्षमावान् ॥ ९७ ॥

टीका- कर्क वृश्चिक मीनराशि मे गयाहुवा सूर्य भौमसे, दृष्टहोवेतो क्षमावान् होताहै ॥ ९४ ॥

चोथेस्थान का स्वामि लग्नमे अथवा लग्न का स्वामि चोथेस्थान मे जावेतो क्षमावान् होताहै ॥ ९५ ॥

चोथास्थान चलवान हो ( स्वामि से तथा गुरुबुध सेयुक्त दृष्ट होवे ) तो क्षमावान् होताहै ॥ ९६ ॥

शुभग्रह चोथेस्थान मे स्थित होवेतो क्षमावान् होताहै ॥ ९७ ॥

## हास्यासक्त योग

शनिग्रहे जारौ हास्यासक्तः ॥ ९८ ॥

जेङ्गेचास्तेजीवे हास्यासक्तः ॥ ९९ ॥

ज्ञांशेगे हास्यासक्तः ॥ १०० ॥

टीका- बुध मंगल कायोगमकर अथवा कुंभराशी मे होवेतो हास्यासक्त ( हसीसुसी मे रहनेवाला ) होताहै ॥ ९८ ॥

लग्नमे बुध और सात मे गुरु स्थित होवेतो हास्या० ॥ ९९ ॥

बुधकी राशि ३६ का नवांश लग्नमे होवेतो हास्यासक्त होताहै १००

## द्रोहीयोग.

सोत्येभौमे जचंद्र द्रष्टे द्रोही ॥ १०१ ॥

लग्नेशेङ्गे पष्टे द्रोही ॥ १०२ ॥

लग्नेशे निर्वले द्रोही ॥ १०३ ॥

टीका- तीसरेस्थानमें मंगल होवे और उसको बुध चंद्र देखते होतो द्रोही होताहै १०१

लग्नका स्वामीबुध छठे स्थानमे जावे तो द्रोही होताहै ॥ १०२ ॥

लग्नका स्वामी निर्बली होवे तो द्रोही होताहै ॥ १०३ ॥

गुरु द्रोही योग

राहर्कजौधर्मशादुरुद्रोही ॥ १०४ ॥

टीका—कारकांश लग्नसे नवम स्थानमें राहुशनि स्थितहोवेतो गुरुद्रोही होताहै ॥ १०४ ॥

चौरयोग.

अंशकेतौ चौरः ॥ १०५ ॥

अंशगुलिके चौरः ॥ १०६ ॥

तृतीयेशंत्ये चौरः ॥ १०७ ॥

सुखेशेषष्टे चौरः ॥ १०८ ॥

धनेरंध्रेशे चौरः ॥ १०९ ॥

रिपुगौ सबलौ ज्ञारौचौरः ॥ ११० ॥

ज्ञारौलग्ने चौरः ।. १११ ॥

टीका—कारकांश कुंडली के लग्नमे केतु स्थितहोतो चौर होताहै १०५

कारकांश लग्नमे गुलिक युक्तहोतो चौर होताहै ॥ १०६ ॥

तीसरे स्थानका स्वामी चारवे स्थानमेंजावे तो चौर होताहै ॥ १०७ ॥

चौथेस्थानका स्वामी छठेस्थानमे होवे तो चौर होताहै ॥ १०८ ॥

आठवे ८ स्थानका स्वामी धनस्थानमे होवे तो चौर होताहै ॥ १०९ ॥

बलघान् बुध मंगल छठे ६ स्थानमे जावे तो चौर होताहै ॥ ११० ॥

बुध मंगलका योग लग्नमे होवे तो चौर होताहै ॥ १११ ॥

व्यसनीयोग.

मृगेजीवेङ्गे ऽहिफेनव्यसनी ॥ ११२ ॥

व्यशेनीचे व्यसनी ॥ ११३ ॥

अंगपेनीचेवारिक्षेत्रे व्यसनी ॥ ११४ ॥

व्ययेपापेव्यसनी ॥ ११५ ॥

• लग्नपे निर्बले व्यसनी ॥ ११६ ॥

लग्नपेसारे व्यसनी ॥ ११७ ॥

अंगेपापदृष्ट्याधिक्ये व्यसनी ॥ ११८ ॥

टीका- लग्न मे मकर राशि का गुरु होवेतो अफीमखानका व्यसनी होता है ॥ ११२ ॥

वारत्रे (१२) स्थानका स्वामी नीचराशि का होवेतो व्यसनी अर्थात् अफीम गाजा भंग चरस शराब तमाखु पान चगेरा कईयक व्यसनी से कोई भी जातका व्यसन करने वाला होता है ॥ ११३ ॥

लग्न का स्वामि नीचराशि से स्थित होवे अथवा अपने शत्रुग्रह की राशिमे होवेतो व्यसनी होता है ॥ ११४ ॥

वारत्रे स्थानमे पापग्रह जावेतो व्यसनी होता है ॥ ११५ ॥

लग्न का स्वामि निर्बली होवेता व्यसनी होता है ॥ ११६ ॥

लग्न का स्वामि मंगल से युक्त होवेतो व्यसनी होता है ॥ ११७ ॥

लग्नपर पापग्रहो कि दृष्टि अधिक होवेतो व्यसनी होता है ॥ ११८ ॥

निर्व्यसनीयोग

सबलेङ्गेशे निर्व्यसनी ॥ ११९ ॥

लग्नेशे लग्ने वा व्यये शुभसम्बन्धे निर्व्यसनी ॥ १२० ॥

धर्मशुभे निर्व्यसनी ॥ १२१ ॥

लग्नपे केंद्रे निर्व्यसनी ॥ १२२ ॥

टीका- लग्न का स्वामि बलवान् होवेतो निर्व्यसनी होता है ॥ ११९ ॥

लग्नेश्वर लग्न मे जावे अथवा वारवा स्थान शुभग्रहो स सम्बंध करताहोवे तो निर्व्यसनी होता है ॥ १२० ॥

नरम स्थानमे शुभग्रह स्थितहोवेतो निर्व्यसनी होता है ॥ १२१ ॥

लग्नका स्वामि केन्द्र १४।७।१० मे स्थित होवेतो निर्व्यसनी होता है ॥ १२२ ॥

## गोपालयोग

अंशात्वे जीवार्कमात्रदृष्टे गोपालः ॥ १२३ ॥

टीका- कारकांश लग्न से १० दशमस्थान को गुरु सूर्य के शिवाय और कोई ग्रह नहिदेखते होवे ( अर्थात् गुरु सूर्य ही देखतेहो ) तो गोपाल न करनेवाला होताहै ॥ १२३ ॥

## अविश्वासीयोग

अशांद्धर्मे जीवार्कविश्वासी ॥ १२४ ॥

टीका- कार कांश लग्न से नवमे स्थानमे गुरुसूर्य स्थितहोवे तो अविश्वासि ( किसीपर भरोसा नही रखनेवाला ) होता है ॥ २४ ॥

## कामीयोग.

उच्चगे वा नीचगे वा सिंहपूर्वाद्धं शुक्रत्रिकेकामी ॥ १२५ ॥

स्वांशे शुक्रे कामी ॥ १२६ ॥

पापदृष्टे शुक्रे कामी ॥ १२७ ॥

युग्मे स्वर्क्षे वा शुक्रे कामी ॥ १२८ ॥

खांगसुतेपुधनेशे कामी ॥ १२९ ॥

टीका-उच्चराशि (१२)काशुक्र ६।८।१२ जावे १ अथवा नीच राशि (६) का शुक्र ६।८।१२ मे जावे २ वा सिंहराशि के पूर्वाद्धं ( १५ अंशके-भीतर ) मे गयाहुवाशुक्र त्रिकस्थान (६।८।१२) मे स्थितहोवे ३ तो कामी होताहै इस सूत्रमे ३ योग कहेहै ॥ १२५ ॥

स्वनवांश का शुक्रहोवे तो कामी होताहै ॥ १२६ ॥

शुक्रको पापग्रह देखते होवे तो कामी होताहै ॥ १२७ ॥

मिथुनराशि मे अथवा स्वराशि २।७ मे शुक्रस्थित होवे तो कामी होताहै ॥ १२८ ॥

धन (२) स्थानका स्वामी दसमे १० लग्नमे १ तथा पांच ५ वे स्थानमे स्थितहावे तो कामी होताहै ॥ १२९ ॥

## भातिकामीयोग

शुक्रेस्तेतिकामुकः ॥ १३० ॥

भौमाच्छयुतौ जीवेचारीशे कामाधिक्यं ॥ १३१ ॥

टीका-सात में स्थानमें शुक्र होवेतो अति कामी होताहै ॥ १३० ॥

मंगलशुक्रकायोग कोईभस्थानमें होवे और छठेस्थान कास्वामी गुरुहोव तो अतिकामी होताहै इसयोगका संभव कर्क तथा तुललग्न में जन्म पाने वाले को ही होताहै ॥ १३१ ॥

अल्पकाम वा अल्पवीर्य योग

शनिर्धनुषिवृषे लग्ने ऽल्पकामः ॥ १३२ ॥ २ ॥

विषमोदयगेशुकेल्पवीर्यः ॥ १३३ ॥

तुर्यं चंद्रशनि अल्पवीर्यः ॥ १३४ ॥ ३ ॥

शुकेस्तेशे शदृष्टे ऽल्पवीर्यः ॥ १३५ ॥ ४ ॥

शुक्रक्षेत्रे चंद्रेल्पवीर्यः ॥ १३६ ॥ ५ ॥

टीका-धन अथवा वृषभ राशिके लग्नमें शनि स्थित होवेतो अल्प कामी होता है ॥ १३२ ॥

विषम राशी (१।३।५।७।९।११) के लग्नमें शुक्रहोवे तो अल्प वीर्य होता है ॥ १३३ ॥

चंद्र और शनि चौथे स्थानमें युक्तहोवे तो अल्प वीर्य होताहै १३४

सातमें स्थानमें गये हुवे शुक्र को लग्न का स्वामी देखताहोवे तो अल्प वीर्य होता है ॥ १३५ ॥

शुक्र की राशी २।७ का चंद्रमाहोवे तो अल्प वीर्य होता है ॥ १३६ ॥

नपुंसक योग

मंदाच्छौखेरंध्रे वा शुभद्रष्टिराहित्ये पण्डः ॥ १३७ ॥

पष्टांत्ये जलक्षेमदेशुभद्रघ्नीने पण्डः ॥ १३८ ॥

चंद्राकौवापंदज्ञौवाभौमाकौ युग्मौजर्क्षगा वन्योन्यं पश्यतः पण्डः ॥ १३९ ॥

ओजर्क्षगे समर्क्षगभौमेक्षिते पण्डः ॥ १४० ॥

चंद्रज्ञौ युग्मौजर्क्षगौ भौमेक्षितौ पंडः ॥ १४१ ॥

पुंभागेसितेन्द्रंगानि पंडः ॥ १४२ ॥

मंदाच्छौखे पंडः ॥ १४३ ॥

शुक्रात्पष्टमेमन्दे पंडोवातादृशः ॥ १४४ ॥

अशेकेतौ मंदज्ञदृष्टेपंडोवातादृशः ॥ १४५ ॥

मंदाच्छौ शुभदाग्धी नौरन्ध्रगौ पण्डो वा तादृशः ॥ १४६ ॥

पष्टान्त्येनीचगेमंदेपंडो वा तादृशः ॥ १४७ ॥

टीका—शनि और शुक्र ये दोनो दशमे अथवा आठवे स्थान मे स्थित होव और शुभग्रहोसे अदृष्टहोव तो नपुंसकहोता है ॥ १३७ ॥

जलराशि मे गयाहुवा शनि छठे अथवा बारवे स्थान मे होवे और उसपर शुभग्रह की दृष्टिनहि होवेतो नपुंसकहोताहै ॥ १३८ ॥

चंद्र रवि अथवा शनि बुध अथवा मंगल रवि येग्रह क्रमसे सम और विषमराशि मे स्थितहोके परस्पर देखते होवेतो नपुंसकहोताहै अर्थात् चंद्रसमराशिका रवि विषमराशिकाहोवे अथवा शनिसमराशि का और बुधविषमराशिका होवे अथवा मंगल समराशिका और रवि विषमराशिका होवे और ये मत्येक परस्पर पूर्णदृष्टिसे देखतेहोवतो इन तीनों योग मे से अेकभी योगमे जन्महोनेसे नपुंसक होताहै ॥ १३९ ॥

विषमराशि का लग्न समराशि २।४।६।८।१०।१२ मे गयाहुवे भौम से दृष्टहोव ता नपुंसक होताहै ॥ १४० ॥

समराशि का चंद्रऔर विषमराशि का बुधहोवे इनदोनोको मंगल दखताहोवे तो नपुंसक होताहै ॥ १४१ ॥

शुक्रचंद्र और लग्न येतीनों पुरुषराशि १।३।५।७।९।११ के नवांश पे होवेतो नपुंसक होताहै ॥ १४२ ॥

शनि और शुक्र येदोनो दशमे होवेतो नपुंसक हाताहै ॥ १४३ ॥

शुक्र से छठे आठवे स्थान मे शनी होवे तो नपुंसक अथवा नपुंसक के समान होताहै ॥ १४४ ॥

बारवांश लग्नमे केतुहोव और वह शनि बुधसेदृष्ट होवे तो नपुंसक वा नपुंसक के समान होताहै ॥ १४५ ॥

शनिशुक्र भाठमे स्थानमे स्थित होवे और इनदोनोको शुभग्रह न-  
ही देखते होवे तो नपुंसक वा नपुंसक के समान होताहै ॥ १४६ ॥

नीचराशिमे स्थित शनि छोट तथा वारवे स्थान में होवे तो पंड  
अथवा पंड के समान होताहै ॥ १४७ ॥

वीर्यच्युति योग

राहोशुक्रकेजेवोच्चगेकरकेकेमेपंचद्रेवीर्यच्युतिः ॥ १४८ ॥

लग्नेचंद्रे गुर्वर्कजौसुते वीर्यच्युतिः ॥ १४९ ॥

कन्योदये मंदज्ञद्रष्टे मन्दर्क्षशुके वीर्यच्युतिः ॥ १५० ॥

टीका-राहू शुक्र अथवा शनि अपनी उच्चराशिमे होवे और कर्कराशि  
कामूर्य भेपकाचंद्रमाहोवेतो वीर्यश्राव होताहताहै ॥ १४८ ॥

लग्नमे चद्रमा और गुरुशनि पांचवे स्थानमे स्थित होवे तो  
वीर्यच्युति ( वीर्यश्राव ) होताहता है ॥ १४९ ॥

कन्याराशि के लग्नको शनिदुध देखते होवे और शनिकि राशि  
१०११ काशुक्रहोवे वा वीर्यच्युतिहोतीहै ॥ १५० ॥

यह यागनिसका होताहै उसके पैशाबमें वास्वममें वा स्त्रीकेदर्शन  
स्पर्श मात्रसेही वीर्यश्रावहो जायाकरताहै

उन्मादयोग

ईज्येङ्गे कुजेस्ते उन्मादी ॥ १५१ ॥

लग्नेशैना मदत्रिकोणे कुजे उन्मादी ॥ १५२ ॥

मन्देङ्गे व्ययके कोणेचंद्रे वा भौमे उन्मादी ॥ १५३ ॥

मूढेनीचेपष्टे सात्थेशे पापद्रष्टे गरलज उन्मादः ॥ १५४ ॥

भौमेस्ते जीवेङ्गे उन्मादी ॥ १५५ ॥

क्षीणेद्वंर्कजावंत्ये उन्मादी ॥ १५६ ॥

मंदार्थशौ सपापौ वातज उन्माद ॥ १५७ ॥

धनेशार्कजौमूर्ययुतौ राजकोपजउन्मादः ॥ १५८ ॥

यमार्थशौ भौमयुतौ पित्तज उन्मादः ॥ १५९ ॥

चंद्राकौकोणाङ्गगौकेद्रेजीवेयमारक्षणवारेउन्मादः ॥ १६० ॥

इद्वर्कजौलग्ने ज्ञद्रष्टौ विव्हलः ॥ १६१ ॥

टीका-लग्नमे गुरु और सातमे मंगलहोवेतो उन्मादि ( विक्षिप्त ) होताहै ॥ १५१ ॥

लग्नमे शनि सातवे अथवा नवमे पांचवे मंगलहोवे तो उन्मादि होताहै ॥ १५२ ॥

लग्नमे शनि, वारवे सूर्य, नवमे पांचवे चंद्र, अथवा मंगल स्थितहोवे तो उन्मादी हाताहै ॥ १५३ ॥

तिसरे स्थानका स्वामी अस्नका, अथवा नीचराशीका छठे स्थान मे होवे और पापग्रह से दृष्टहोवे तो जहरखानेसे उन्माद होताहै ॥ १५४ ॥

सातमे मंगल और लग्नमे गुरु होवेतो उन्मादी होताहै ॥ १५५ ॥

क्षीगचंद्र और शनि येदोनचारवे स्थानमेहोवे तो उन्माद होताहै ॥ १५६ ॥  
शनि और धनस्थानका स्वामि ये दोनो पापग्रहसे युक्तहोवे तो वायुस उन्माद होताहै ॥ १५७ ॥

धनेश और शनि ये दोनो सूर्य से युक्तहोयतो राजकोपसे उन्माद होता है ॥ १५८ ॥

शनि और धनस्थान का स्वामि ये दोनो मंगल से युक्तहोवे तो पित्तजन्य उन्माद होताहै ॥ १५९ ॥

चंद्र और सूर्य दानो नवमे पांचवे अथवा लग्नमे होवे और केंद्र १।४।७।१० मेगुरु होवे जन्मसमय मे शनि अथवा मंगल की काल होरहोवे वा शनि मंगलवार केदिन जन्म होवे तो उन्माद होताहै ॥ १६० ॥

चंद्र शनि लग्नमे होवे और बुध इनको देखताहोवे तो विव्हल ( भ्रमिष्ठ ) होताहै ॥ १६१ ॥

शीध्र्वार्ध क्य चिन्होदय योग

धनेकेतौ शीध्र्वार्धक्यचिन्होदयः ॥ १६२ ॥

टीका-धनस्थानमे केतु होवेतो शीध्र्वृद्धायस्था के चिन्ह उदय होजाताहै ॥ १६२ ॥

प्रकृति वृद्ध योग

राव्हर्कजाकेज्या लग्नगा प्रकृति वृद्धः ॥ १६३ ॥



टीका-राहु शनि सूर्य गुरु ये चारो लग्न मे होवे तो प्रकृति वृद्ध ( स्वाभाविकवृद्ध ) होता है ॥ १६३ ॥

नातिवृद्धनयुवा योग

चंद्राच्छौलग्ने नातिवृद्धो नयुवा ॥ १६४ ॥

टीका-चंद्र शुक्र लग्नमे होवेतो नतोभाधिक वृद्ध और नआति जवानही ( मध्या वस्थाका ) होता है ॥ १६४ ॥

वृद्धभी तरुण के समान रहनेका योग.

सबलेभौमेलामे वृद्धोपितरुणायते ॥ १६५ ॥

टीका-चलवान मंगल लाभ ११ भावमें होवेतो वृद्धावस्थाहोवेतोभी तरुणके समान रहता है ॥ १६५ ॥

रसायन व्यसनी योग.

खे सुखेशे रसायनव्यसनी ॥ १६६ ॥

सुखेशे विदले रसायनव्यसनी ॥ १६७ ॥

टीका-चोथे स्थानका स्वामि १० दशमे स्थानमे होवेतो धातु उपधातु की रसायन बनाना तथा उसका सेवन करन मे विशेष प्रीतिरखनेवाला होता है ॥ १६६ ॥

चोथे स्थानका स्वामि निर्बली होवेतो धातु उपधातु की रसायन बनाना तथा उसका सेवन करने मे विशेष प्रीतिरखनेवाला होता है १६७

बहुभुक्त्योग.

सपापे अर्थेशे बहुभुक् ॥ १६८ ॥

सपापेर्थे क्रूरपट्यंशे बहुभुक् ॥ १६९ ॥

टीका-धन २ स्थानका वामि पापग्रहसे युक्तहोवे तो बहुत भोजन करनेवाला होता है ॥ १६८ ॥

धन २ स्थान पापग्रहसे युक्तहोवे और क्रूरपट्यंशमे होवेतो अधिक भोजन करने वाला होता है ॥ १६९ ॥

सुखभुक्त योग.

सशुभे धनेशे सुखभुक् ॥ १७० ॥

धनेशुभे पापदग्घीने सुखभुक् ॥ १७१ ॥

धनेशुभदृष्ट्याधिक्ये सुखभुक् ॥ १७० ॥

धनेशे बलवति सुखभुक् ॥ १७३ ॥

वेशोपिकांशेथेशे वा गुरुदृष्टे सुखभुक् ॥ १७४ ॥

टीका-धनशशुभग्रहसे युतहावेतोसुखसे भोजनकरनेवालाहोताहै १७०  
धन २ स्थानम शुभग्रह होवे और धनस्थान नो पापग्रह नहि देखते  
हा व ता सुखस भोजन करने वाला होताहै ॥ १७१ ॥

धन २ स्थानपर शुभग्रह की अधिक दृष्टि होवेतो सुखसे भोजन करने  
वाला हाताहै ॥ १७२ ॥

धन २ स्थान का स्वामि बलवान होवेतो सुखसे भोजन करने वाला  
होताहै ॥ १७३ ॥

धनश वैशेषिकाश ( सजाध्यायमेशूत्र २१ मे कहाहै ) मे हावे अथवा  
धनश का गुरु देखताहोवेता सुखसे भोजन करने वाला होताहै ॥ १७४ ॥  
श्राद्धात्र भाजनकर्तायाग

धनेशे मंदे नीचगे गुलिक युते सततं श्राद्धभुक् ॥ १७५ ॥

टीका-धन २ स्थान का स्वामि शनि नीचराशि म हाव और गुलिकसे  
युक्त हावे ता निरंतर श्राद्धान्न भोजन करनेवाला हाताहै ॥ १७५ ॥

अल्पमुक्तयाग

धनेशे शुभे वा स्याच्चे शुभदृष्टेऽत्पागी ॥ १७६ ॥

टीका-धन २ स्थान का स्वामि शुभग्रह हाव १ अथवा अग्नी उच्चराशि  
का हाव और शुभ ग्रह से दृष्ट होव २ तोअल्पभाजनकरनेवाला  
हाताहै ॥ १७६ ॥

शीघ्र भद्र याग

मवलैर्यगे मशुभे शीघ्रभुक् ॥ १७७ ॥

धनेशे चरभे शीघ्रभुक् ॥ १७८ ॥

धनेशुभर्क्षे शुभदृष्टे शीघ्रभुक् ॥ १७९ ॥

टीका-धन २ स्थान का स्वामि बलवान हाव और शुभग्रह से युत होव  
ता शीघ्र भाजन करनेवाला हाताहै ॥ १७७ ॥

धन २ स्थान का स्वामि चर राशि ११५७१० काहावता जल्दि भाज

न करने वाला होता है ॥ १७८ ॥

धन २ स्थान का स्वामि शुभग्रह की राशि का होवे और शुभग्रह उसको देखतेहोवे तो जल्दी भोजन करनेवाला होता है ॥ १७९ ॥

चिरभुक् योग

कोशोपापर्शे पापयुतदृष्टे चिरभुक् ॥ १८० ॥

धनेशे स्थिरक्षे चिरभुक् ॥ १८१ ॥

टीका-धनभावमे पापग्रह की राशिहोवे और पापग्रह युक्त तथा दस्रते होवेतो देरतक भोजन करनेवाला होता है ॥ १८० ॥

धनस्था नकास्वामी स्थिर २।५।८।११ राशिका होवेतो देरतक भोजन करने वाला होता है ॥ १८१ ॥

कदन्नभुक् योग

गुलिकारयोगे कदन्नभुक् ॥ १८२ ॥

टीका-गुलिक और मंगल का योग होवेतो दुष्टात्र (सरावभन्न) भोजन करने वाला होता है ॥ १८२ ॥

भोजनशूर

लग्ने जीवे भोजनशूरः ॥ १८३ ॥

टीका-लग्नमेगुरुहोवे तो भोजनमेशूर (भोजन करने में बहादुर) होता है ॥ १८३ ॥

धीरयोग

आतृपेचलिनिकेंद्रकोणगे सौम्यदृष्टेवैशेषिकांशे धीरः १८४

विक्रमेशे शुभक्षांशे शुभदृष्टयुते धीरः ॥ १८५ ॥

विक्रमार्केश योगे धीरः ॥ १८६ ॥

सोत्थेशेन्दुयोगे धीरः ॥ १८७ ॥

टीका-तीसरे स्थान का स्वामि बलवान होकर केन्द्र कोण १।४।७।१०।१५ स्थानमे होव शुभग्रह से दृष्टहोवे वैशेषिकांशमे होवे तो धीर (धैरवान्) होता है ॥ १८४ ॥

तीसरे स्थानका स्वामि शुभग्रह की राशि और शुभग्रहके नयमां

शमें होवे शुभग्रहसे युतदृष्ट होवे तो धीर होताहै ॥ १८५ ॥

तीसरे ३ और १२ वारमे स्थान के स्वामि कायोग होवेतो धीर होताहै ॥ १८६ ॥

तीसरे ३ स्थान के स्वामि से चंद्र का योग होवे तो धीर होताहै ॥ १८७ ॥

### पिशुनयोग

सुतेगेशपिशुनः ॥ १८८ ॥

पापेङ्गेशपिशुनः ॥ १८९ ॥

पापदृष्ट्याधिकेङ्गे पिशुनः ॥ १९० ॥

टीका-लग्नका स्वामि ५ पाचवे होवेतो जुगलखोर होताहै ॥ १८८ ॥

लग्नका स्वामि पापग्रह होवेतो जुगलखोर होताहै ॥ १८९ ॥

लग्नपर पापग्रहों कि दृष्टि अधिक होवेतो जुगलखोर होताहै १९०

चाण्डालयोग.

पापदृष्टेजीवे मतमसी चाण्डालता ॥ १९१ ॥

नीचभारोजीवे चाण्डालता ॥ १९२ ॥

टीका-गुरु, राहुसेयुक्तहोने और उसकी पापग्रह देखता होवेतो चाण्डाल प्रकृति हाताहै ॥ १९१ ॥

नीचराशि और नीच नवाशमे गुरुहोवेतो चाण्डाल प्रकृति होताहै (९२

पिशाचजन्मयोग

ग्रस्तेचंद्रेङ्गे पापाः शोणे पिशाचजनिः ॥ १९३ ॥

टीका-ग्रहणसमय का चंद्रमा लग्नम होवे और ९/५ नरमे पांचवे स्थान मे पापग्रह जाय तो पिशाच प्रकृतिवाला जन्मताहै ॥ १९३ ॥

शिल्पियोग

वेद्रेमंदे ज्ञयुते शिल्पी ॥ १९४ ॥

सवलेङ्गे केंद्रे शिल्पि ॥ १९५ ॥

ईज्यज्ञयोगे शिल्पि ॥ १९६ ॥

टीका—बैद्र १। ४। ७। १० मे शनि, बुधसेयुक्तहोवेतो शिल्पकार्य करनवाला होताहै ॥ १९४ ॥

बलवान बुध १। ४। ७। १० मे स्थानमे होवेतो शिल्पज्ञ होताहै १९५  
गुरु और बुधका योग होवेता शिल्प जाननेवाला होताहै ॥ १९६ ॥  
सुधारसिलावट केतयाकलावंग १ हुनर के कामको शिल्प विद्या कहतेहै  
क्षारादिपदार्थ प्रिययोग

ज्ञेय्योपष्टे उपदंशप्रियः ॥ १९७ ॥

टीका—छटेस्थानमे बुध वृहस्पति होवेता अच्छे क्षार पदार्थकोप्रिय माननेवाला होताहै ॥ १९७ ॥

सर्वार्थचिंतामणीमिंद्रसरेयोगभीकहेहै छटेबुधशुभग्रहसेदृष्ट होवे और पष्टेशुभ युक्त होवे परंतु पापग्रहोके मध्यमे स्थितहोवेतो अच्छे क्षार पदार्थको प्रियमाननेवालाहोताहै १ छटे गुरु भयवा बुधकी राशीमृदंशादिकमे होतो क्षारवस्तुप्रियमाननेवालाहोताहै २ मधुरादिपदार्थप्रिययोग.

पष्टेशेजीवे शुक्रवा मधुरादिप्रियः ॥ १९८ ॥

सशुभेजे मधुरप्रियः ॥ १९९ ॥

टीका—छटेस्थानका स्वामि गुरु भयवा शुक्र होवेतो मधुरादि (मीठे-आदि) प्रदार्थ प्रियमाननेवाला होताहै ॥ १९८ ॥

बुध शुभग्रहसेयुक्त होवेतो मीठा पदार्थ प्रियमानने वाला होताहै १९९  
ग्रंथांतरमें कहाहै कि पष्टेशगुरु वा शुक्र गोपरादिभंशकमेहोवेतो मीठा  
आदिपदार्थप्रियमाने भयवा शुभग्रहसे युक्तशुक्र छटेस्थानमे स्थित होवे २  
वा शुभके नवांशमे शुक्रहोवे और शुभग्रहोसेदृष्टहोवेतो ३ वा  
शुक्र बलगतहोवे बुधसे यतहोवे और पारावतादि शुभनवांशमे स्थित  
हावेतो निम्न मीठापदार्थका भोजन करनेवाला होताहै ४

मधुरे भरुचि, भ्रम्लपदार्थेच रुचियोग.

मपापजे मधुरेऽरुचि ॥ २०० ॥

टीका—पापग्रह से युक्तबुध होवेतो मीठेपदार्थपर भरुचिवालाहोताहै २००  
ग्रंथांतरमें कहाहै कि बुध पापग्रहसे दृष्टहोवेतो मीठेपदार्थपर भरुचि

रखनेवाला होता है १ बुध सहित शुक छठे भागमें होवेतो वह मनुष्य  
खट्टा पदार्थ खानेवाला होता है २ छठेस्थानमें शुक मंगलसे युक्त होवेतो  
१ अथवा छठेस्थानमें शुकहोवे और उसको मंगल देखताहोवेतो २  
अथवा छठगये हुवे शुककोसूर्य देखताहोवेतो ३ वहमनुष्य खट्टापदार्थ  
( दहि इमलि निबु कठी आदि खट्टेपदार्थ ) खानेवाला होता है

नीचकर्मा, नीचपथग, म्लेच्छ योग.

लग्नेर्कज्यंशे केंद्रगचंद्रदृष्टे नीचकर्मा ॥ २०१ ॥

दूनेर्केलग्नेमन्दे पुण्येसोत्थे भौमे श्रेष्ठवर्णोपिनीचपथगः २०२  
मंशार्कविकर्षगौज्यंशे नवांशे त्रिशांशे वा नीचयोपानुपङ्गा  
म्लेच्छोभवति ॥ २०३ ॥

टीका-लग्नमें शनिका द्रेष्काणहोवे और १।४।७।१० में स्थानमें  
गया हुवा चंद्र देखताहोवेतो नीचकर्म करनेवाला होता है ॥ २०१ ॥

सातमें सूर्य लग्नमें शनि और ९।३ नवमें तथा तीसरे स्थानमें मंगल  
स्थितहावेतो उत्तमवर्णकाहो तथापि नीचमार्गमें चलनेवाला होता है २०२

शनि और सूर्य दोनो एकराशिके होवे १ अथवा एकराशिक द्रेष्काणमें २  
वा एकराशिके नवाशमें ३ वा अकराशिके त्रिशाशमें ४ हावेतो नीच  
जातिकी स्त्रीके संगसे म्लेच्छ होजाता है ॥ २०३ ॥ टीप-इससूत्रमें  
चारयोग बहेहैं इन चारयोगमें जिसके दो योगसे जितने अधिक  
हावे उतनाहि ये योग बलवान जानना केवल शनि सूर्य दोनो अक  
राशि के होजाने से ये योग नहि मिलगा

ज्ञातिपीडायाग

पष्टाङ्गेशौ लग्नगौ ज्ञातिपीडा ॥ २०४ ॥

लग्नेशेषष्टे पष्टेशदृष्टे ज्ञातिपीडा ॥ २०५ ॥

शुकैज्यौलग्नेपष्टेशयुतो शन्यारतमोदृष्टौ ज्ञातिपीडा २०६

टीका-लग्नेशभौरछठेस्थानकास्वामि ये दोनो लग्नमें होवेतो ज्ञातिसे  
पीडाहानिहै ॥ २०४ ॥

लग्नेश छठे स्थानमें होव और उसको छठे स्थानका स्वामि देखता  
होवे ज्ञातिसे पीडाहोतीहै ॥ २०५ ॥

षष्ठशसे युक्त शुक्र गुरु लग्नमे स्थितहोवे और इनको शनि मंगल राहु देखतेहोवे तो ज्ञातिसे पीडाहोतीहै ॥ २०६ ॥

जातिच्युतियोग.

लग्नेशाद्वा लग्नात्त्रिकगैःपापैर्जातिच्युतिः ॥ २०७ ॥

जेन्द्रर्कजा नीचारिभागगा जातिच्युतिः ॥ २०८ ॥

टीका-लग्नसे भयवा लग्नेशसे ६।८।१२ स्थानमे पापग्रह स्थित होवेतो जानिबाहर होताहै ॥ २०७ ॥

बुध, चंद्र, शनि, ये तीनों नीच तथा शत्रु राशिके नवमांशमे होवेतो जातिबाहर होताहै ॥ २०८ ॥

जातिषोष्ययोग.

इन्द्रर्कजौ मित्रर्क्षे जातिषोष्यः ॥ २०९ ॥

टाका-चंद्रशनिमित्रराशिकेहोवेतोजातिकोषोषणकरनेवाला होताहै ॥ २०९ ॥

कौतुकियोग.

लाभेशेङ्गे कौतुकि ॥ २१० ॥

लाभेशुभे वा सवले कौतुकी ॥ २११ ॥

लाभेशुभे कौतुकि ॥ २१२ ॥

टीका-लाभ ११ स्थानका स्वामि लग्नमेहोवेतो कौतुकिहोताहै २१०  
लाभस्थानका स्वामिशुभग्रहहोवे वाचलनानहोवेतो कौतुकि (खिलाडी)  
होताहै ॥ २११ ॥

ग्यारमं स्थानमे शुभग्रह स्थितहोवेतो कौतुकि होताहै ॥ २१२ ॥

भालसियोग.

ईज्यमन्दयोगे अलसः ॥ २१३ ॥

लग्नेशे मंदान्विते अलसः ॥ २१४ ॥

लग्नेशे निर्बल अलसः ॥ २१५ ॥

लग्नेपापदृष्ट्याधिक्ये अलसः ॥ २१६ ॥

टीका-गुरु शनिना योग होवेतो भालसी होताहै ॥ २१३ ॥

लग्नेश्वर शनीसे युत होवेतो भालसी होताहै ॥ २१४ ॥

लग्नेश्वर निर्बली होवेतो भालसी होताहै ॥ २१५ ॥

लग्नपर पापग्रहोकि दृष्टि अधिकहोवेतो भालसी होताहै ॥ २१६ ॥

कृपिकर्तायोग

अंशाद्धर्मे जिवे कृपिकर्ता ॥ २१७ ॥

अंशादारिगौ पापौ कृपिकर्ता ॥ २१८ ॥

टीका-कारकाशलग्नेसे ननमेस्थानमे गुरु होवेतो खेति करनेवाळा होताहै ॥ २१७ ॥

कारकाश लग्नस छठे स्थानमे २ दो पापग्रह स्थितहोवेतो खेति करने वाला होताहै ॥ २१८ ॥

स्रल्वाटयोग

धनुषि वृषेङ्गे क्रूरैर्दृष्टेखल्वाटः ॥ २१९ ॥

सपापे पापक्षेङ्गे खल्वाटः ॥ २२० ॥

कर्केचद्रे भौमदृष्टे सिंहचापाल्यंगनालग्ने खल्वाट २२१

टीका-बृहस्पहोसे दृष्ट धन तथा वृषम लग्नहोवेतो स्रल्वाट ( गजा ) होताहै ॥ २१९ ॥

पापग्रहोकि राशिका लग्नपापग्रहसे युक्तहोवेतो स्रल्वाट हाताहै २२०  
कर्कराशिमगयाहुवा चद्रमा मगलसे दृष्टहावे और ५।९।८।६ राशि  
का लग्नहोवेतो स्रल्वाट होताहै ॥ २२१ ॥

शोभननेत्रयोग

नेत्रेशुभे नेत्रेशेचशुभान्वितेङ्गेशयुतेशोभननेत्रः २२२

टीका-नेत्रस्थान २।१२ म शुभग्रहहोव, नेत्रस्थानका स्वामी शुभग्रहसे  
भौर लग्नेशसे युक्तहोवेतो भच्छनेत्रवाला हाताहै ॥ २२२ ॥

बुद्धदलोचन याग

इन्द्रकोलग्ने मिश्रदृष्टेबुद्धदलोचनः ॥ २२३ ॥

टीका-चद्र भौर सूर्य लग्नमस्थितहावे मिश्र ( शुभपाप ) ग्रहसे  
दृष्टहोवेतो बुद्धदलोचन ( चीपढेनेत्रका ) होताहै ॥ २२३ ॥



## मिलिताक्षयोग

धने वा व्ययेपापे मिलिताक्षः ॥ २२४ ॥

टीका-दूसरे अथवा बारवे स्थानमे पापग्रह होवेतो मिलिताक्ष होताहै ॥ २२४ ॥

## विकलनयनयोग.

सक्रूरार्कोन्त्ये वात्रिकोणे विकलनयन ॥ २२५ ॥

टीका-क्रूरग्रहसेयत् सूर्य बारवेस्थानमे अथवा १५ वे स्थानमे होवे तो विकलनेत्र होताहै ॥ २२५ ॥

## मंदलोचनयोग.

धनेत्राव्येशुक्रे पापयुते काणो वा मंदलोचनः ॥ २२६ ॥

टीका-दूसरे अथवा बारवे स्थानमे शक्र पापग्रहसे युक्त होवेतो काणा [ अक्षक्षु ] अथवा मंददृष्टिवाला होताहै ॥ २२६ ॥

## वक्रनेत्रयोग.

पुष्पवंतावमदृष्टौ वक्रक्षगौ व त्रिके वक्रनेत्रः ॥ २२७ ॥

चंद्रारवेकभागेऽक्ष्णोश्चिन्हम् ॥ २२८ ॥

टीका-सूर्य और चंद्रमा ये दोना वक्रोग्रहकी राशिमे स्थित होवे और पापग्रह से दृष्टहावे १ अथवा ६।८।१२ स्थानमेस्थितहोवे तो वक्र नेत्र ( टेढेनेत्र ) होतेहै ॥ २२७ ॥

चंद्र, और मंगल दोना भेक नवांशमे ( बहुतसमीप २ अंशके, भेकराशिमे ) होवतो नेत्रमे चिन्हहोताहै ॥ २२८ ॥

## नेत्ररोगीयोग.

पष्टेशेवक्रगर्भेऽक्षिरोगी ॥ २२९ ॥

ज्ञारक्षेल्ग्नपे ज्ञाग्दृष्टेऽक्षिरोगी ॥ २३० ॥

रंध्रांगेशौपष्टे सव्यनेत्रेरोगः ॥ २३१ ॥

पष्टेष्टमेशुः दक्षिणनेत्रेरोगः ॥ २३२ ॥

धनेरोगुभेक्षिते लग्नेशे पापयुते सरोगनेत्रः ॥ २३३ ॥

मंदारगुलिकयुते नेत्रेशे नेत्ररोगः ॥ २३४ ॥

नेत्रेषापा यमदृष्टा नेत्रे रोगहंतंभवेत् ॥ २३५ ॥

नेत्रेशांशेषापार्श्वे रोगहतनेत्रः ॥ २३६ ॥

लग्नाष्टमेशुक्के क्रूरदृष्टेश्रुपातान्नेत्रपीडा ॥ २३७ ॥

लग्नेभौमेशयने नयनेगदः ॥ २३८ ॥

स्वैशशुक्रयोगे नेत्ररोगी ॥ २३९ ॥

शुक्रात्रिकेनेत्रेशे नेत्ररोगी ॥ २४० ॥

त्रिकोणिसूर्येषापदृष्टे निस्तेजेनेत्रः ॥ २४१ ॥

टीका-वक्रगतिग्रह की राशिमें छठेस्थानका स्वामि होयतो नेत्ररोग होताहै ॥ २२९ ॥

लग्नका स्वामि बुध ( ३।६ ) अथवा मंगलकी ( १।८ ) राशिक होय और बुध मंगल उस्को देखते होवेतो नेत्ररोगी होताहै ॥ २३० ॥

लग्न और अष्टमस्थानके स्वामि ये दोनो छठेस्थानमें होवेतो सब ( बाये ) नेत्रमें रोगहोना है ॥ २३१ ॥

छठे भाठमें स्थानमें शुक्रहोवेतो दक्षिणनेत्रमें रोगहोताहै ॥ २३२ ॥

धनेश शुभग्रहसे दृष्टहोय और लग्नश पापग्रहसेयुतहोवेतो सरा नेत्रहोताहै ॥ २३३ ॥

दूसरे और चारवेस्थानके स्वामि शनि मंगल और गुलिकसे युक्त होयतो नेत्रमेंरोग होताहै ॥ २३४ ॥

दूसर चारवे स्थानमें पापग्रहहोवे और उनको शनि देखताहोवेतो रोगसे नेत्र पीडित होतेहै ॥ २३५ ॥

नेत्रस्थान ( २।१२ ) के स्वामिका नारांशका स्वामि पापग्रहकी राशि का होयतो रोगसे नेत्रपीडित होतेहै ॥ २३६ ॥

लग्नमें तथा भाठमें शुक्रहोय क्रूरग्रहसे दृष्टहोवेतो अश्रुपातसे नेत्र पीडाहोतीहै ॥ २३७ ॥

शयनापस्थानमें गयाहुवा मंगल लग्नमें होवेतो नेत्रमें पीडाहोतीहै ॥ २३८ ॥

धनेश और शुक्र का योग होवेतो नेत्ररोगी होता है ॥ २३९ ॥

शुक्रसे ६।८।१२ नेत्रस्थान का स्वामि होवेतो नेत्ररोगी होता है ॥२४०॥

पापग्रह से द्रष्ट सूर्य ९।५ नवमे पांचमे स्थानमे होवेतो निस्तेज नेत्रदातेहै ॥ २४१ ॥

### अंध योग

लग्नेरो सार्कशुके त्रिके जन्मांध ॥ २४२ ॥

सूर्य राहुग्रस्तंगे मन्दारौ त्रिकोणे जन्मांध ॥ २४३ ॥

नेत्रांगेशौ भान्वच्छयुतौ त्रिके जन्मांधः ॥ २४४ ॥

त्रिकेचंद्रारयोगे पातादन्धः ॥ २४५ ॥

सेज्येदौ त्रिके सेकादन्धः ॥ २४६ ॥

चंद्राच्छौत्रिके कामान्धः ॥ २४७ ॥

जेन्दुत्रिके शास्त्रान्धः ॥ २४८ ॥

इन्द्रको सौत्ये वा केंद्रेन्धः ॥ २४९ ॥

पापज्ञ भौमे केंद्रेन्धः ॥ २५० ॥

यमज्ञस्ते सूर्येन्धः ॥ २५१ ॥

सौम्यास्त्रिके क्रूरदृष्टा अन्धः ॥ २५२ ॥

कुजेग कुंभेन्धः ॥ २५२ ॥

शुक्रांगिरायुतौ स्वांत्येशौ त्रिकस्थावन्धः ॥ २५४ ॥

शुक्रपापाभ्यांयुक्त थन्द्रोधनेन्धः ॥ २५५ ॥

सुतांबुगौ पापौ अन्धः ॥ २५६ ॥

चंद्रेत्रिके पापदृष्टेन्धः ॥ २५७ ॥

चंद्रार्केव्यशुभदृग्वीतौ अन्धः ॥ २५८ ॥

सिहेर्कजेगे वा शुकेन्धः ॥ २५९ ॥

यमेन्द्रर्काः क्रमादंत्यार्थाष्टमगा नेत्रहीनः ॥ २६० ॥

यथा तथा पष्ठाष्टांत्यधनस्था श्रंद्राकारयमा वलीग्रह  
दोषजानेत्रहीनता ॥ २६१ ॥

लग्नाच्छुक्राद्रासुतेराहु स्सूर्यदृष्टच्छेत्रेनाशः २६२

मंदेतुर्ये पापैर्दृष्टे नष्टदृष्टिः ॥ २६३ ॥

टीका—लग्नेश्वरसूर्य शुक्रसे युक्तहोकर ६।८।१२ स्थानमे होयतो जन्माध होताहै ॥ २४२ ॥

लग्नमे श्रुण समय का सूर्य होयेऔर शनि मंगल ९।५ मेस्थानमे होवेतो जन्मांधहोताहै ॥ २४३ ॥

नेत्र २।१२ स्थानका स्वामी और लग्नेश ये दोनो सूर्य शुक्र सेयुक्त हो के ६।८।१२ स्थानमे जायतो जन्माध होताहै ॥ २४४ ॥

चंद्र मंगल का योग ६।८।१२ मे स्थानमे होवेतो पतन ( गि(जाने ) से अंधाहोता है ॥ २४५ ॥

गुरुसे युक्त चंद्रमा ६।८।१२ मे स्थानमे होवेतो सेरुकरने से अंधा होताहै ॥ २४६ ॥

चंद्र और शुक्र दोना ६।८।१२ स्थानमे होयेतो कामांध होताहै २४७  
बुध चंद्रमा ६।८।१२ मे स्थानमे होयेतो शास्त्राध होताहै ॥ २४८ ॥

चंद्र और सूर्य दोनो ३ तीसरे स्थानमे अथवा १।४।७।१० मे स्थानमे होयेतो अंधाहोताहै ॥ २४९ ॥

पापग्रह कि राशी मे गयाहुवा मंगल १।४।७।१० मेस्थानमे होयेतो अंधाहोताहै ॥ २५० ॥

शनि कि राशी १०।११ क्.सूर्य ७ सातमे स्थानमे होवेतो अंधा होताहै ॥ २५१ ॥

शुभग्रह ६।८।१२ मे स्थानमे गंयहोये और उनको मूरग्रह देखते होव तो अंधा होनाहै ॥ २५२ ॥

रुभराशि का मंगल लग्नमे होयतो अंधाहोताहै ॥ २५३ ॥

शुक्र और लग्नका स्वामि ये दोनो २।१२ दूसरे और चारमे स्थानके स्वामि से युक्त होके ६।८।१२ स्थानमे जायतो अंधाहोताहै ॥ २५४ ॥

शुक्र और पापग्रहोसे युक्त चंद्रमा धनस्थानमें स्थितहोवेतो अंधा होताहै ॥ २५५ ॥

पांचवे और चौथे ४ इनदोनोंस्थानोंमें पापग्रह स्थितहोवेतो अंधाहोताहै ॥ २५६ ॥

पापग्रह से दृष्ट चंद्रमा ६। ८। १२ में स्थानमें स्थित होवेतो अंधा होताहै ॥ २५७ ॥

चंद्र और सूर्य येदोनो वारमें स्थानमें स्थितहोवे और इनको शुभग्रह नहींदेखतेहोवेतो अंधाहोताहै ॥ २५८ ॥

सिहराशकशान अथवा शुक्र लग्नमें होवेतो अंधाहोताहै ॥ २५९ ॥

शनि चंद्र सूर्य, ये तीनों क्रमसे १२।१८ स्थानमें स्थितहोवे अर्थात् शनि १२ वा. में चंद्रमा २ दूसरे सूर्य ८ आठमें स्थानमें होवेतो नेत्रहीनहोताहै ॥ २६० ॥

छठे स्थानमें चंद्र अष्टम स्थानमें रवि वारवे स्थान में मंगल और धन स्थान मशनि इस प्रकार यथाक्रमतया विन क्रम कोईभी स्थानमें इनग्रहानस कोईभी ग्रह स्थित होवेतो इनमस जाग्रह अधिकबलवान होवे उसी ग्रहके वातपित्त कफादि दापसे नेत्रनाश होते है ॥ २६१ ॥

लग्नसेअथवाशुक्रसे पांचवेस्थानमेंराहु सूर्यसे दृष्टहोवेतो नेत्रनाश होतेहै ॥ २६२ ॥

चौथे स्थानमें शनि पापग्रहोसे दृष्टहोतो नष्टदृष्टी होताहै ॥ २६३ ॥  
निशाधयोग

सैंदुः शुक्रसिकस्थो निशांधः ॥ २६४ ॥

शुक्रेंद्रुयुतेनेत्रेशेङ्गे निशांधोनतुस्वोच्चशुभैर्युते ॥ २६५ ॥

टीका-चंद्रसेयुक्त शुक्र ६। ८। १२ में स्थानमेंहोय ता निशांध ( रात्रिमेंअंधा ) होताहै ॥ २६४ ॥

नेत्रस्थान २। १२ केस्थानी शुक्रचंद्रसेयुक्त होके लग्नमेंस्थितहोवेतो निशांध ( रातके समय अंधा ) होताहै परंतु ये ग्रहस्वराशी उच्चराशिके तथा शुभग्रह से युक्त नहिहोवेतो येयोग जानना ॥ २६५ ॥

नेत्रनाशयोग

लग्नार्थशौचिकेक्षिनाशः ॥ २६६ ॥

हाताहै अतएव एस अन्हरेयागम पापग्रहोकायोग तथा दृष्टियोग होवतो याग बलवान होत है

इसप्रकार पिता १० भाइ ३ माता ४ पुत्र ५ स्त्री ७ काका १२ भ्रात्र स्त्री ९ पुत्रास्त्री ११ काकविस्त्री ६ मामा ६ मामाकीस्त्री १२ भुवा १२ फुफा ६ मासी ६ मासा १२ साला ९ सालेकपा १ सालाकीस्त्री ३ दादि १ दादा ७ पुत्राकपा ९ इत्यादि स्थानके स्वामियाभिस जिस २ स्थान कास्वामी रवि शुक्रस युक्तहोके ६।८।१२स्थानमे जाये और मंगल शनि राहुदृशिल नपुत्रुन आदि पापग्रहास युक्त दृष्टहावे तो उस २ का भयत्व प्राप्त हावगा एसा बुद्धिमान पढिताने विचारकरके कहना ॥ उदाहरण जैस १० दशम स्थान मे पिताका स्थानहै इसदसमभावस २।१२।६।८ भाव और इन स्थानके स्वामि पापग्रह से युक्त दृष्टहाव और दशमे भावकास्वामी रवि शुक्र स युक्त हाव पापग्रहोसे द्रष्ट होयेतो पिता भवाहाताहै

इसप्रकार प्रत्येक उपरोक्त भावके स्वामी से प्रत्येक भावका विचार करके कहना.

### वधिरयाग

मंदात्तुर्यमौम्ये पट्टेरोत्रिके वधिरः ॥ २७९ ॥

सरिपु पूर्णेदुशुनौ वधिरः ॥ २८० ॥

रानौज्ञे पट्टे खेशुके वधिरः ॥ २८१ ॥

मितैत्ये ज्युते वामरुर्णे श्रुति-यूनता । २८२ ॥

ज्ञपट्टेसौ क्रूरदृष्टौ वधिरः ॥ २८३ ॥

पापादयायत्रिज्ञे मौम्येनेक्षिता वारिर्भयकराः ॥ २८४ ॥

पट्टेरोत्रिके मंददृष्टे वधिरः ॥ २८५ ॥

टीका-शनिसे चोये स्थानम बुधहावे और छठ भावका स्वामी ६।८।१२ भावमे हावेता बहराहोताहै ॥ २७९ ॥

पूर्णचंद्रमा और शुक्र येदाने अपन शत्रुग्रहसे युतहावे तो बहराहोताहै इसयागमर्भे पापग्रहका उल्लखन हिंदै तथापि वास्तविक विचार से इनपर

पापग्रहोकीदृष्टि तथा पापग्रहोका योगहोवेतो अवश्य बहराहोताहै २८०  
राजिसमयका जन्महोवे लग्नसे छठेस्थानमेबुध और दशवे भावमे  
शुक्रहोवेतो बहराहोताहै ॥ २८१ ॥

वा(मेभावमेशुक्र बुधसेयुतहोवेतो वामकर्णसे कम सुनेवाला  
होताहै ॥२८२॥

बुध और छठेभावका स्वामी इन दोनोको क्रूरग्रह देखते होवे तो बहरा  
होताहै ॥ २८३ ॥

तीसरे ग्यारवे नवमे पांचवे भावमें पापग्रह जावे और उनको शुभग्रह  
नहिदेखतेहोवेतो बहरा होताहै ॥२८४॥

छठे भावका स्वामि ६ । ८ । १२ मे स्थानमे होवे और उसको शनि  
देखता होवे तो बहरा होताहै ॥२८५॥

कर्णच्छेदयोग

हंसार्किचंद्रास्त्रिसुतास्तर्धर्गगाःसौव्याऽदृष्टयुताकर्णच्छेदः—

॥२८६॥ चंद्रादस्तेमंदे शुक्राकौलग्ने कर्णच्छेदः २८७

नीचेभूगौफणियुते कर्णच्छेदः ॥ २८८ ॥

टीका—सूर्य शनि चंद्रमा ३।५।७।९ में स्थान मे स्थितहोवे और शुभ  
ग्रहोसे दृष्टवा युत नहिहोवेतो कर्णच्छेद होताहै (कानकटताहै) २८६

चंद्रमासेसातमे स्थानमे शनिहोवे और शुक्रसूर्य लग्नमे होवेतो  
कर्णच्छेदहोताहै (कानकटताहै) ॥ २८७ ॥

नीचराशि [६]काशुक्र राहुसे युतहोवे तो कर्णच्छेद होताहै ॥ २८८ ॥

सर्वार्थमे इनके अतिरिक्त २ दोयोग यह कहेंहै कि शनिश्चर मंगल सहित  
होवे और धनेश लग्नमें होवे ( तथा पणेश और धनेश ये दोनो लग्न  
मेंहोवे और शनि मंगल १२ वारमे भावमे स्थितहोवे २ तो कानकटे  
वा फुटजावे—एसेही विचार पित्रादीभावों काभीकरना, पित्रादिभाव  
और भावेश एवं उनउन भावोंके कारकग्रहोंके साथ उपर्युक्त वधिर  
तथा कर्णच्छेदादि योग होवे अथवा भागे नाशाछेदादि और भीजो  
जोयोग कहेजावेगे वे योग होवेतो पित्रादिकों को वधिर, तथा कर्ण  
विच्छेदादि समस्त योगोंका फलकहना ।

## नासाच्छेदयोग

शुक्रेपष्ठे कुजेङ्गे नासाच्छेदः ॥ २८९ ॥

टीका—छठे स्थानमें शुक और लग्नमें मंगल होवे तो नासाच्छेद होता है ॥ २८९ ॥

## मुखदुर्गंधयोग

इंद्रच्छौ मेपगौ लग्नेपष्ठेजे मुखदौर्गंध्यं ॥ २९० ॥

कर्काजगेशुके मुखदौर्गंध्यम् ॥ २९१ ॥

लग्नेइंदौ पष्ठेशेजे मुखदौर्गंध्यम् ॥ २९२ ॥

टीका—चंद्र और शुक मेपराशिमें होवे और लग्नमें ताय छठे बुध होवे तो मुखमें दुर्गंध ( बदबु ) आती है ॥ २९० ॥

कर्कवामेपराशिका शुकहावतो मुखमें दुर्गंध आती है ॥ २९१ ॥

लग्नमें चंद्रमा होवे और छठ स्थानका स्वामि बुधहावे तो मुखमें दुर्गंध आती है ॥ २९२ ॥

## मूकयोग

कर्कालिङ्गपेजे सूर्याधस्थचंद्रदृष्टे मूकः ॥ २९३ ॥

ज्ञारिशौ लग्नगौ मूकः ॥ २९४ ॥

जीवारीशाधंगे मूकः ॥ २९५ ॥

धनेरोज्यौत्रिके मूकः ॥ २९६ ॥

टीका—कर्क वृश्चिक तथा मीन इननि शब्द राशिमें गयेहुव बुध को सूर्य केनचि गयाहुया ( अमावास्याका ) चंद्रमा दस्रता होयता मूक ( गुंगा ) हाताहै २९३

बुध और छठे स्थानका स्वामि येदोनो लग्नमें स्थितहोवेतो मूक ( गुंगा ) होताहै ॥ २९४ ॥

गुरु और पष्ठेश लग्नमें युक्तहोवेतो मूक ( गुंगा ) होताहै ॥ २९५ ॥

धनश और गुरुयेदोनो ६।८।१२ में स्थानमें होवेता मूक ( गुंगा ) होताहै ॥ २९६ ॥— इसी तरहसे पिता माता भाई भोजाई स्त्री मामा काका शाला गेरा का पिचार जिस २ भागसे किया जाताहै उन २ भाग



के स्वामी गुरुसे युक्त होके १८।१२ जावेतो जिस २ भावका स्वामी होवे, उसी २ को गुंगापन होनेका कहना. शंभुहाराप्रकाशमे लिखाहै कर्क, वृश्चिक और मीनराशी मेपापी ग्रहस्थितहोवे राशीकेअंतमे वा वृषराशी मे चंद्रमा स्थितहोवे और पापग्रहोसे दृष्टहोवेतो मूक होताहै और शुभ ग्रहोसे दृष्टहोवेतो चिरकालके पश्चात् बोलनेवाला होताहै. अर्थात् पांच वर्ष के उपरांत बोलताहै. १. क्रूरग्रह संधिमे गयेहोवे कोई शुभग्रह नही देखतेहोवे अथवा चंद्रमापापग्रहोसे युक्त होवेतो जड़के समान गुंगाहोताहै.

गुंश्वर योग

कर्कालिङ्गपगोक्षे चंद्रदृष्टे सुखेसूर्ये षष्ठमेपापदृष्टे गुंश्वरः

॥ २९७ ॥ शुक्लेन्द्वारावङ्गे गुंश्वरः ॥ २९८ ॥

टीका—कर्कवृश्चिकतथामीनराशिमेगयाहुवाबुध चंद्रसेदृष्टहोवे, चौथे-स्थानमे सूर्य होवे और छठेस्थानकोपापग्रह देखतेहोवे तो गुंश्वर [समजनेमे नहीभावेवैसा नाकमे गडबड गडबड बोलनेवाला] होताहै ॥ २९७ ॥

शुक्लपक्षमे जन्महोवे और चंद्रमंगल का योग लग्नमे होवेतो गुंश्वर (गुंगा स्वरवाला) होताहै ॥ २९८ ॥

इनउपरोक्तयोगोसे मूकहोताहै येअथ कारो का मत सत्य है परंतु मूकमनुष्योकि कुंडलिये देखनेसे मूकत्वकिंवा वाणीमें दोष उत्पन्न होनेकेविशेष कारण, जोजो अनुभव से दृष्टिगत होतेहैं वे इससुनिश्च है

(१) द्वितीय स्थान में पापग्रह युक्तहोवे और उसस्थान का स्वामी नीचराशिका किंवा अस्तंगन होके पापग्रहोसे दूषित (युक्तदृष्ट) होवे और रवि बुध का सिंहराशिमेयोग कोईभीस्थानमे होवे तो निश्चय करके मूक (गुंगा) होताहै

(२) सिंहराशिमें रवि बुध अथवा जिसकेहोतेह वसकी वाणी मे निश्चय पूर्वक दोषहोताहै बहुधाजालोक बोलतेसमय अटकनेहै, उनकी कुंडली मे ये योग होताहै।

अति बोलनेवाले बोलते समय अटकनेवाले मुख टेढ़ा वांका करके बोलनेवाले बोलनेमें अस्वामिचकानेवाले वगेरा बोलनेके असंख्यभेदहैं

उनकी कुंडली में भी विशेषकर द्वितीय स्थान के ग्रह काही प्रभाव दृष्टि पड़ता है

प्रहसित मुख

चंद्रार्को भौनस्थौप्रहसितमुखः ॥ २९९ ॥

धनेशे स्वोच्चगे केंद्रे प्रहसितमुखः ॥ ३०० ॥

कोशेशे सौम्ययुते केंद्रे सुमुखः ॥ ३०१ ॥

टीका-भौनराशिमें चंद्रसर्प युतहोवेतो प्रहसित मुख होता है २९९ धनेश अपनी स्वराशि तथा उच्चराशि का हाके केंद्र ११४।७।१० में स्थित होवेतो प्रहसित मुख हाता है ॥ ३०० ॥

धन ( २ ) स्थान का स्वामि शुभग्रह स युक्त होकर ११४।७।१० स्थान में स्थित होवेतो सुमुख होता है ॥ ३०१ ॥

दुमुख याग

धने पापे धनेरोपापयुते नीचारिगे दुमुखः ॥ ३०२ ॥

टीका-धन स्थान में पापग्रहहोवे और धनेशपापग्रहसे युक्तहोके नीच भयवा शत्रुराशि का हावेतो दुमुख होता है ॥ ३०२ ॥

दीर्घमुख योग

धनेपापे दीर्घमुखः ॥ ३०३ ॥

टीका-धन स्थान में पापग्रह होवेतो दीर्घमुख ( लंबेमुखवाला ) होता है ॥ ३०३ ॥

यागमीयोग

याभिन्नेभंदे चंद्रेखे वाग्मी ॥ ३०४ ॥

भंदाच्छौवित्ते मंदभेके वाग्मी ॥ ३०५ ॥

दिवातिहेजे वाग्मी ॥ ३०६ ॥

रात्रौककेजे वाग्मी ॥ ३०७ ॥

धनेरोसौम्ययुतेकेंद्रकोणसास्वोच्चेशुभेक्षितेपुंग्रहयोगेवाग्मी ३०८

धनेशपारावतांशे केंद्रे वाग्मी ॥ ३०९ ॥

सौम्येशेजीवे वाग्मी ॥ ३१० ॥

वागी शांशपे उच्चे गोपुरे वा वाग्मी ॥ ३११ ॥

सशुभेजीवे वर्गोत्तमे वाग्मी ॥ ३१२ ॥

धनेशपारावतांशे जीवयुते वाग्मी ॥ ३१३ ॥

टीका-सातमेशनि दशमेचंद्रमा होवेतो अतिवक्ता ( भच्छाबोलनेवाला, व्याख्यानदाता, पुराणवक्ता, शास्त्रानुसार अत्यंत बोलनेवाला ) होताहै ॥ ३०४ ॥

धनस्थानमे शनि शुक्र जावे और शनि की राशि १० । ११ का सूर्य होवेतो अतिवक्ता होताहै ॥ ३०५ ॥

दिनके समय जन्महोवे और सिंह राशीका बुधहोवे तो भच्छावक्ता होताहै ॥ ३०६ ॥

रात्रिसमय मे जन्महोवे और कर्ककाबुधहोवेतो भच्छावक्ता होताहै ३०७

धनस्थानका स्वामि बुधसे युक्तहोवे और १।४।७।१०।१।५ स्थानमे जावे अथवा धनस्थानकास्वामि अपनिस्वराशी उच्चराशीकाहो शुभग्रह देखतेहोवे पुरुषग्रहसे युक्तहोवे तो भच्छावक्ताहोताहै ॥ ३०८ ॥

धनभावकास्वामि पारावतांशमेहोवे १।४।७। १० स्थानमे जावेतो भच्छावक्ता होताहै ॥ ३०९ ॥

बुधकी राशीके नवांशमे गुरुहोवेतो भच्छावक्ता होताहै ॥ ३१० ॥

गुरु जिसराशीके नवमांशमेहोवे उसकास्वामि उच्चराशीकाहोवे अथवा गोपुरांशमे होवेतो भच्छावक्ता होताहै ॥ ३११ ॥

शुभग्रहसे युक्त गुरु वर्गोत्तमांशमें होवेतो भच्छावक्ता होताहै ३१२

धनभावका स्वामि पारावतांशमेहोवे गुरुसे युक्त होवेतो भच्छावक्ता होताहै ॥ ३१३ ॥

जिह्वादोषयोग

पष्ठेशेज्ञेजिह्वादोषः ॥ ३१४ ॥

टीका—छठे स्थानका स्वामी बुध होवेतो जयानमे कोई भीतरहका दाप होता है ॥३१४॥

ये दोषहोना संभव प्रतीत नही होता क्योकी जिब्दाका संबंध धनस्थानसे है अतएव धनस्थानमे पापग्रह स्थित होवे धनको पाप ह देखते होवे और पण्डेश बुध होवे पापग्रहो से युक्त दृष्ट होवे शत्रुनीचराशी गतहाव तो भवश्य जिब्दामे दोषहोना संभव है ।

भस्फुटोक्तियोग.

मदेशाद्धने केतावस्फुटोक्तिः ॥ ३१५ ॥

टीका—सातमे स्थानके स्वामी से धनस्थानमे केतु होवे तो साफ बोलनेवाला नहि होता है ॥ ३१५ ॥

गद्गदवाक्ययोग.

मंदक्षेत्रे मंददृष्टे गद्गदवाक् ॥ ३१६ ॥

टीका—बुध १०११ राशिका होवे और शनि उसको देखता होवेतो गद्गद वाक् ( प्रेमसे जैसे गद्गद स्वरहोक बोलता है वैसीही गद्गद कंठसे बोलने वाला ) होता है ॥ ३१६ ॥

लल्लोरोक्तियोग

धर्मशे शुके लल्लोक्तिः ॥ ३१७ ॥

धनेशे त्रयल कुरांशे लल्लोक्तिः ॥ ३१८ ॥

पापेधने वा पापदृष्टे कुरांशे पापयुते लल्लोक्तिः ॥ ३१९ ॥

टीका—नवमेस्थानका स्वामी शुक्र होवेतो लल्लोक्ति ( जिसभक्षरपर जयानटभक्तनाव उसभक्षरपर बहुतदेरतक जयानचलेकरे और पीछे बोलसके एसा ) भटक के बोलनेवाला होता है ॥ ३१७ ॥

केवल नवमेश्वर शुक्रहोनेसे ये याग मिलना असंभव है ।

धनेशनिर्घली होवे और क्रूरग्रह के नवाशमें होवेतो लल्लोक्ति ( जादे भटक के बोलने वाला ) होता है ॥ ३१८ ॥

धनस्थानमे पापग्रह होव अथवा धनस्थान को पापग्रह देखतेहावे क्रूर ग्रहके नवाशमे होव और पापग्रहसे युतहावे तो लल्लोक्ति ( जादे

अटक के बोलने वाला ) होता है ॥ ३१९ ॥

परुष वाक्ययोग.

मंदेन्दुयोगे परुषवाक् ॥ ३२० ॥

टीका-शनि, चंद्रका योग कोइंभिस्थानमे होवेतो परुषवाक् (बठोर, चिन बोलने वाला ) होता है ॥ ३२० ॥

दंतविकारयोग

गोजधनेगे क्रुरैदृष्टे वा युते दंतविकारः ॥ ३२१ ॥

सप्तमेपापाः सौम्यैरदृष्टा दंतविकृतिः ॥ ३२२ ॥

चंद्राकर्यर्का वा पापा अस्ते दशनाभिघातः ॥ ३२३ ॥

सप्तमेशाद्धनेराहौ स्थूलदंतः ॥ ३२४ ॥

धनारीशौयुतौ सपापौ दंतरोगी ॥ ३२५ ॥

सुतेगेराहौ दंतुरो दंतरोगीवा ॥ ३२६ ॥

टीका-पापाग्रहोसे दृष्ट अथवा युक्त वृषभ,मेष, वा धन राशि कालग्न होवे तो दंतविकार ( दांतमे बीमारी ) होती है ॥ ३२१ ॥

सातमे स्थान मे गये हुवे पपाग्रहोको शुभग्रह नहिदेसतेहोवे तो दंतविकृति ( दांतमे विकार ) होता है ॥ ३२२ ॥

चंद्र शनि और सूर्य सातमे स्थान मे जाय अथवा पपाग्रह सातमे बैठे होवे तो दातगिरजावे अथवा टूटजातेहै ॥ ३२३ ॥

सप्तमेश से दूसरे स्थान मे राहुहोवे तो मोटेदांतवाला होताहै ३२४

धनेश और पपेश येदोनो, पपाग्रहो से युतहोवेतो दंतरोगी होताहै ३२५

पांचमे अथवा लग्नमे राहुहोवे तो बडे दातवाला दंतुर, अथवा दंत रोगी होताहै ॥ ३२६ ॥

हस्तनाश हस्तपीडा योग

शकुत्रुजीयुतौ दिवातुर्थगे शुक्रेच हस्तनाराः ॥ ३२७ ॥

शन्यारैराहुमुखे चारीगौ हस्तनाशः ॥ ३२८ ॥

द्वेष्येक्ष मंदेशुक्रयुते हस्तनाराः ॥ ३२९ ॥

मंदेन्द्रकाः पष्ठाष्टमगा हस्तपीडा ॥ ३३० ॥

टीका—शनि १ मंगल २ बुध ३ गुरु ४ ये चारो भेकस्थानमेयुतहोवे दिनके समयका जन्महोवे और चौथे स्थानमे शुक्र स्थितहोवे तो हातकानाश होता है ॥ ३२७ ॥

शनिऔर मंगलराहुके भोग्याशमें स्थितहोवे और छठस्थान में जावे तो हस्तनाश होताहै ॥ ३२८ ॥

छठे स्थानमे शत्रुराशिका शनि शुक्रसेयुतहोवे तो हस्तनाश होताहै ॥ ३२९ ॥

शनि चंद्र और सूर्य ये तीनोंही छठे वा भाठमे स्थानमे स्थितहोवे तो हातमे पीडाहोती है ॥ ३३० ॥

कुञ्जयोग

तुर्थेङ्गेशे वक्रभेल्यांशे कुञ्जः ॥ ३३१ ॥

टीका—मेषतथा वृश्चिक राशिका लग्नेश्वर चतुर्थस्थानमे जावे और घट्ट वृश्चिकराशि के नवाशमे स्थित होवे तो कूयडा होता है ३३१

कठिन चित्त योग

रंध्रेस्थिरे ज्ञेज्यशुक्राः कठिनचित्तः ॥ ३३२ ॥

टीका—बुध गुरु और शुक्र येतीनोंही भाठमे स्थानमे स्थिर राशि २१ ५८ ११ के होवे तो कठोरचित्तवाल होता है ॥ ३३२ ॥

विरुद्धचित्तयोग.

सुखेकूरे क्रूरान्वितेसुखेशे विरुद्धचित्तः ॥ ३३३ ॥

टीका—चतुर्थस्थानमे क्रूरग्रह स्थितहोवे और सुखेश क्रूरग्रहसे युत होवेतो विरुद्धचित्त होताहै ॥ ३३३ ॥

भट्टवृद्धियोग

रंध्रगौ शुक्रारौ वातादण्डवृद्धिः ॥ ३३४ ॥

भौमर्क्षगौशुक्रारौ वातादण्डवृद्धिः ॥ ३३५ ॥

इद्वच्छौ भौमर्क्षगौ मंदेज्यद्रष्टौ कललजाण्डवृद्धिः ३३६

सगुलिकेशे ज्ञमात्रदष्टे स्थलाण्डः ॥ ३३७ ॥

टीका-शुक्र और मंगल भाठमेस्थानमे युक्तहोवे तो वायुके कोपसे अंडवृद्धिहोतीहै ॥ ३३४ ॥

शुक्र और मंगल मेष अथवा वृश्चिक राशिकेहोवेता वायुसे अंडवृद्धि होतिहै ॥ ३३५ ॥

चंद्र और शुक्र मेष अथवा वृश्चिक राशिमे होव और उनको शनि गुरु देखतेहोवेतो कललज ( रक्तऔर जलधार्य के कोपसे ) अंडवृद्धि होतिहै ॥ ३३६ ॥

कारकांश लग्नमे गुलिक युक्तहोवे और केवल बुधहीउसको देखता होवेतो स्थूल ( बडे ) अंडका होताहै ॥ ३३७ ॥

जंघाक्षतियोग.

पूर्णेन्दारौपष्टे जङ्घाक्षतिः ॥ ३३८ ॥

शनीन्द्वाराव्यये जंघाक्षतिः ॥ ३३९ ॥

टीका- पूर्णचंद्रमा और मंगलका योग छठेस्थानमेहोवेतो जंघाक्षति ( पीढलीमे पीडा ) होती है ॥ ३३८ ॥

शनि चंद्र और मंगल वारमे स्थानमे स्थितहोवेतो जंघाक्षति ( पि-ढलीमेपीडा ) होतीहै ॥ ३३९ ॥

पंगुयोग.

ज्ञपाल्यजकर्कर्मृगान्यतमगौइन्द्रर्कजौ सपापौनवमपंचमगौ वा पंगुः ॥ ३४० ॥

पष्टसूर्यारमंदाः पंगुः ॥ ३४१ ॥

मंदारीशौव्यये पापदष्टौ पंगुः ॥ ३४२ ॥

रंघांकेशौ सपापौ तुर्ये पंगुः ॥ ३४३ ॥

कर्कचंद्रार्कजौ शुभादष्टौ पंगुः ॥ ३४४ ॥

मंदाच्छयुतौ शुभादष्टौ पंगुः ॥ ३४५ ॥

दारेशेसौरेमपापे पंगुः ॥ ३४६ ॥

इति प्रथमविवेक.

टीका—मीन १२ वृश्चिक ८मेघ, १ बर्क ४मकर १० इन राशिमे से कोईभी राशिमे चंद्र शनि पापग्रहो से युक्तहोवे १ अथवा पापग्रहोसे युक्तचंद्रशनि ९।५ मे स्थानमे स्थितहोवे २ तो पगु ( पागला ) होताहै ॥ ३४० ॥ सूर्य मंगल और शनि छठेस्थानमे एकत्रित होवेतो पगु ( पागला ) होताहै ॥ ३४१ ॥

शनि और षष्ठेशये दोनो वारमेस्थानमेहोवे और पापग्रह इनको देखते होवेतो पगु होताहै ॥ ३४२ ॥

अष्टमेश और नवम स्थानका स्वामियेदोनो चौथेस्थानमे पापग्रह से युक्तहोव तो पगु होताहै ॥ ३४३ ॥

चंद्र शनि कर्क राशिमे स्थितहोवे और शुभग्रह उनको नहि देखते होवतो पंगु होताहै ॥ ३४४ ॥

कोईभी स्थानमे शनि शुरु का योग होवे और उनको शुभग्रह नहि देखते होवतो पंगु होताहै ॥ ३४५ ॥

सप्तम स्थानकास्वामि शनि, पापग्रहसे युक्तहोवेतो पंगुहोताहै ३४६

पावपर १२ वा स्थान मीनराशी ओर शनि का अमलहै इसकारण येतानो पापग्रहोस युत दृष्टहोवे नीचतथा शत्रुमिराशी वेहो और ऊपर केदुवेयोगवनतहावेतो अवश्यपगु वा पापमेकोईभी तरहकी पढिा-होनेका समभवहै

### इसके शिवाय और क्यादेखना ?

उपरोक्त यागोके शिवायम भाई कोलाभ, भाईकपुत्रकीस्त्री, माताका पिता ( नाना ) माताकाराज्य, मीत्रकाबाप, पुत्रकाशाला, पुत्रकेछोटे-भाईकीस्त्री, पुत्रकाभाग्य, सालकापुत्र, मालिककीमाता, बापकीमाता, ( दादी ) सुसरेकापिता, मामकामृत्यु, काकेकामारवेश, गुरुकापुत्र, सुसरेकाराज्यव्यापार, सासुकीमाता, भादि का विचारभी उपरकहे हुध यागोके अनुसारही प्रथम भावमे देखना

॥ शरीर के लक्षणोंपरसे ।

लग्नचंद्र और ग्रहोंकी परिक्षा करना अतिमहत्वका कामहै और वह प्रथमभावस रूपधरस्तता है अत यहाउस्का दिग्दर्शनकरादेना भीभावश्यक है ।



शरीर और शरीरके अवयव, वर्ण, चेहरा, नेत्र, स्वर, दंतपंक्ति, वाणी केश, हाव भाव शरीर के उपरकेचिन्ह आदि के सहायतासे लग्न व चंद्र और ग्रहोंकी परिक्षा होतीहै इसमें कुछभी शंका नहींहै किंतु अवलोकनशक्ति जिसमानकी होतीहै उसीमानसे इसकाममें यशमिलताहै.

अतएव शरीर लक्षणपरसे यहपरिक्षा कैसे करना ऐसे उपयोगी विषयका परिज्ञान सर्व साधारणोंको प्राप्त होनेके लिये कईवार अनेक मनुष्यों पर अनुभव कियेहुवे योग सर्वसाधारणों केअनुभवार्थ प्रकाश करतेहै जिससे लग्न खराहै किवा खोटा इसका निर्णयभी भलीप्रकारकुंडली तथा शरीर लक्षणपर से करसकेगे।

नीचेलिखे हुवे लक्षण जिस जिस समय जिन २ के शरीरपर देखनेमें आवे उसी उसी समय अमुक लग्न व अमुक राशी है ऐसा निःशंका कहनेमें हरकत नहीं इन लक्षणोंमें सर्व मनुष्यमात्र आसकेगे ऐसा कह नहींसके क्योकि ईश्वरीकृतीका वर्गीकरण करणां अत्यंत कठिणही नहीं किंतु अशक्य है। अतः आज पर्यंत जितने समझमें और अनुभवमें आयेहै उतनेही योग लिखेहै अभ्यासि मनुष्योंने इनका योग्य उपयोग करके अपना अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिये।

मेघ—अश्विनी, भरणी, कृतिका का अेकचरण मिलके मेघराशी होतीहै, ऐसेही प्रत्येक राशी २। नक्षत्रोंकी होतीहै इन प्रत्येक नक्षत्रोंके स्वरूप भिन्न २ है इसकारण इसराशीके तथा प्रत्येक राशीयोंके लक्षण जो जो लिखेहै उनमें परस्पर विरोध देखने में आवेगा। अमुक नक्षत्र का अमुकलक्षण कहनेमेंआना कठिणहै तथापि प्रत्येक राशीयोंके मनुष्यों में जो जो लक्षण देखने में आयेहै वे सर्व लिखेहै इसकारण विरोध के तरफ नक्षत्रोंके भिन्नत्वसे देखके विचार करना।

चालचलन बावले के समान एकांत अधिकप्रिय, हसना बहुत कम और वहभी सिर्फ चेहरेपर दिखनेवाला, बोलना अटकतेहुवे, जादे बोलनही, शब्दफिका घोरा ( रौत्या मनुष्यके समान ) होठके बाहर नीकलेहुवेदांत फिया दांतों केसाथ दुसरी छोटीलाइन वा दांतोंके पीछे एयदोतीन एकके पीछेएक ऐसेदात होवे, दांतोंकी नीचेकी पच्चीवकरी

केदांत के समान छोटी व गोलहोवे, शरीर की मुद्रा गुस्सेवाले मनुष्य केसमान, बढातेजचलनेवाला और दोडनेवाला, दूरदूर की मुसाफरी करनेवाला, धारंवारस्थलांतर करनेवाला, फिरणेका उद्योग धंधा करने वाला, शरीरपतला, वर्णतात्रकेसमान, दांतोमेसेखूनपढनेकीपीडा, किंवा अन्यकोईभी प्रकारका दंतरोगवाला, जितना बहे उतनाहि काम करने वाला (सुदकीगुद्धि नहि) स्वतःविचारनकरतेहुवे दूसरा बहे उस माफिक सुनके भलमकरनेवाला क्रोधविशेष परंतु क्रोधको आविर्भाव अत्यतकम, नेत्रलालरंगके, तथा कछपीले (पिंगट) मस्तकतथा प्रस्र अथवाकोनसेहिशिरोभागपराकेसीभीतरहकीनिशानीहोवे प्रकृति उष्ण, बहुधा ज्वरका तथा रक्तका विकारवाला, तामसी, इनग्रही, अपना हृदयंतपर्यंत चलानेवाला, मनमेभावे उसका कुछ विचारनकरते कामकरनेवाला, शरीरके अवयव मजबूत, ऐसा इसराशीका स्वरूपहै।

सर्वराशिपोमे यह राशी नल्दी पहचानमे आसकीहै और इस राशीमे मनुष्यभी बहुत देखनेमे आतेहै ।

इसराशीमे यदि रवि होवेतो सफेद, हरा, और कालामिले हुवे रंगके जैसे किसी किसी अंग्रेजो के नेत्र होतेहै वैसे नेत्रहोवे, राव और मंगल एकत्रहोवेतो विशेष उपरोक्तरंग केनेत्र होवे, केवल मंगलहोवेतोनेत्रव केश तांबकेसमानव पिंगटहावे, इसराशीमे जो अकेलारखी लगनमे होवे तो वह मनुष्य ऊंचा शरीरका और संतप्तहोवे, व मस्तकशूलकीपीडारहै, इसराशीके लग्नमे केवलमंगल होवनाशरीरके कोईभी भागसे रक्तघ्रावका विकारहोवे, मुख बछातीका भाग विशेषलालहोवे, मस्तकमे गूमडेचट्टे टाट चगेरा विकारहोके उस की निशानीरहै, किंवा पडनेसे जखमहोवे उसकी निशानीरहै, अथवा माताके वणहोवे, ।

रवि किंवा मंगल इसराशीमे दूसरेस्थानमेहोवतो विशेषकाला हरा और सफेदामिलेहुवेरंगकेनेत्र ( कोईरअंग्रेजोके जैसेहोतेहै वैसे )होवे, व दुखी मनुष्यके सरखिहोवे, और नेत्रपीडा (आंखआनेकी) विशेषे आदतरहै ।

चांधे अथवा छठे स्थानमे ये ग्रह होवेतो अपघातहोवे, आग्निभय होवे, पेट पर दाग (डामके) निशानहोवे, भयंकर तापभावे, छोटी माता तथा बहीमातसे विशेषपीडाहोवे अम्लपित्तरोगहोवे वा अग्निसे जलनेका दुःखहोवे, ।

इसराशीमें लगभग शनिहोवेतो थोलेसमय जवानविशेषे भटके अथवा दूसरी कोईभी खोहहोवे दांतबंदकरके बोले किंवा टट्टामुंह करके बोले नेत्रमैले बारीक व ऊँडेहोवे और कुछ पिंगट होवे ।

शनिकेसाथ रवि अथवा मंगलकायोग होवे किंवा रवि मंगल दोनुका योग होवेतो नेत्र मांजरे (बिल्लीकेनेत्रके समान) होवे, इसराशीमें रवि अथवा शनीकोईभी स्थानमें होवेतो शब्द फीका खोखरा होताहै ।

वृषभ-कृत्तिका के तीन चरण रोहणी व मृगके दोचरण मिलके वृषभ राशी होती है इसराशी के मनुष्य क्वचित मिलते हैं ।

शरीरकावांया खुबसूरत व मध्यमऊंचा, दांतसफेत, वर्णसफेत, गौर व तेजस्वी, चेहरामोहक, व सुंदर, नेत्रसफेतहोके तेजस्वी प्रकृति निरोगी गालऔर हातकामणीबंध ( कलई ) गोल और भरीहुई, विशेषतः शरीरमें बर्तुलत्व तेजयअतिस्वच्छता येगुण विशेष नजरआते हैं चेहरेपर छायाका चिन्हभीहोजावे इसराशी किछिया अति तेजस्वी और गौर होती है.

इसराशीमें गुरु चंद्र किंवा शुक्रहोवेतो शरीर का और दांतका वर्ण स्पष्टिक के समान शुभ्र व तेजस्वी होताहै.

उपरोक्त वर्णन जैसा रोहिणी भागमें अच्छामिलेगा वैसाइतर भागमें नहीं मिलेगा.

मिथुन-मृगके दो चरण, आर्द्रा व पुनर्वसूके तीनचरण मिलके मिथुनराशी होती है इसराशी के मनुष्य बहुत नजरआते हैं

चेहरासुंदर और दाढीकेभागकीतरफ छोटापन मस्तकपीछेकेभाग की तरफ नारलसरीसालंबा शरीर दुबलापतलाव ऊंचा, वर्णहरामिलाहुवा काला, नेत्रकाले, केशबारीक, स्वरमंजुल, वाणीस्पष्ट, विशेष बोलनेवाला, वक्ता (व्याख्यानदाता) विद्वान, विद्यव्यासंगी, भाषाशास्त्र उच्चमजानने वाला, शास्त्री, पुराणी, इलोक दोहे कहावत बगोरा का उपयोग बोलने में विशेष करने वाला, और कमरबाहर निकालकेनमवाहुवा चलने वाला होवे, ऐसेइस राशी के लक्षण हैं-

कर्क-पुनर्वसु का एकचरण, पुष्य व अश्लेषा मिलके कर्क राशी होती है. प्रवाशी उन्नम पानीमेंतिरनेवाला, बाग बगीचे का शौकीन, जलाशय,

केनजकि जन्म पानेवाला अथवा रहनेवाला, फिरनेका धंधाकरने वाला, गायन जानने वाला, आगेके दांत चोड़े व मोठे, और कुठेक बाहरदिखनेसरीखे, चेहरा गोलऔरमोहक, हातकेपंजेउगलिये और पांव ये भव्यवचढेहोवे, बढातेजदोडनेवाला जल्दी परंतु वाके पांवरखके चलनेवाला, शूर, अभद्र धोलने वाला, चैनकरने वाला, स्त्रीयोका शोकीन देखियोवाला, वर्णकालासांवला, बांधासाधारण मजबूत, बंधायिमध्यम, व्यसनी और अनेक स्त्रीयोको भोगनेवाला, इस प्रकार के लक्षण इस राशी के है.

इस राशी के लग्न मे गुरु होवेतो वर्णगोरा व बांधाशरीर का अच्छा होता है और निर्व्य शनी होता है, इस राशी मे शुक्र व चंद्र होवे लग्न मेतो अती चैनी होता है, और गाने का बजाने का तथा नाटक का विशेष शोकीन होता है, मंगल शनी व राहु होवेतो व्यशनी हलके विचार का व रोगी प्रकृति का होता है, चतुर्थ तथा षष्ठ स्थान मे इस राशी मे ये ग्रह होवेतो दुःख दारिद्र और विपत्ति भोगने वाला बहुधा पेटमे दुखने का तथा उदर रोग वाला होता है.,

**सिंह**—मघा पुर्वा व उत्तरा का १ चरण मिलके सिंह राशी होती है, दांतआतिशय मजबूत, छाति चोडी व भरदार, कपाल विस्तीर्ण और कुठेक आगे निकला हुवा, चेहराभोवेके पाससेसूक्ष्म दृष्टी से देखने से सिंह सराखा दीखे, नाकबुचरा, शरीरमजबूत, कसाहुवा शरीर, वर्णकाला, शब्दमोठा, निधटकछातिका, बेडर, प्रमुखपणेसे अग्रगण्य होके घ(द्वार)मे नियमितचलने, वाला अधिकारि ( आफि सर ) प्रकृयात, छातिकोआगे निकालके चलने वालाऔर खडारहने वाला, बडा मजबूत बलवान, किल्ला परत और अरण्य इनमे कोईभी कारण वश निवास करने वाला, व इनमे प्रीतिरखने वाला, इस प्रकार इस राशी का स्वरूप है ।

इस राशी मे गुरु चन्द्र शुक्र बुध ये ग्रह होवेतो वर्णगोरा होता है, चेहरेका दूसरेपर सहज मे रोब ( दबदबा ) बैठ जाता है कपाल भव्य चाडा व मस्तरु का भागभी बडा होता है.

रुग्नि होवेतो बहुधा वर्ण काला होता है, पण शरीर मजबूत व आतिशय सुडोल होता है, मंगल होवेतो प्रकृति अति उष्ण होती है, शरीर बहुत 77

धान मजबूत होता है, वर्ण तांबेके समान होता है, नेत्र पीले, शरीर का दिखाव लड़ाउमनुष्य के समान, और अति गर्भीरदिश्रता है, दूसरे मनुष्य को अपने ताबेमें रखनेवाला कपाल अधिक आगे निकला हुआ और कपाल पर उंचापणा, तेजस्वी, झुरस्वभावका, अमलदार, ( बड़ा भाफिसर) सनापाति होने योग्य, अपघात, दुःस्वाप्ति, और रक्त घ्राय इनका भय विशेष, ऐसा होता है.

शनि किंवा राहु होवेतो शरीर परिश्रम सहन करने की शक्तिवाला होता है परंतु रोगिष्ठ रहता प्रमुखत्व प्राप्त नहीं होवे शत्रुभय विशेष होवे.

कन्या—उत्तरा के तीनचरण हस्त और चित्राके दोचरण मिल के कन्या राशी होती है. लजावाला खड़ा रहे और चले उस वक्त गर्दन टेढ़ीरखे, भालसी, धीमा, चलते समय हातजादे हिलावे, हंसताहुवा बोले, चेहराचौड़ाव गोल, चालहातीसरीस्त्रीधूमती, स्त्रियों के लक्षण. विशेष, स्वरबारीक, विद्वान, हस्तकलाकुशल, पहनने के कपडे वगेरा का विगड ने करने की विशेष चिंता नहीं करने वाला, इस प्रकार का इस राशी का स्वरूप है.

तुला—चित्रा के दो चरण स्वाती और विशाखा के तीन चरण मिलके तुल राशी होती है. चेहरा, हात, पांवकी नलिये भारएकंदर शरीर अधिक लंबा होता है, पांवकी नलिये बाकदार, शरीरउंचा और दुबला पतला, वर्ण बहुधा काला, स्वर पतला, मुंह बंद करके हंसने वाला, अनुकरण करने योग्य, गिनतीके और तुलहुवेवचन ठहरके बोलने वाला, वृत्तिसात्विक बोलते समय उर्भीगर्दनजादे हिलाता है खड़ा रहे और चले उस समय कमर नमाके आगे झुका हुआ दिखता है, विद्वान, और शास्त्रज्ञ, ऐसा इस राशी का स्वरूप है ।

लग्न मे रवि इसराशी का होवेतो शरीर विशेष उंचा व काला होता है, चंद्र होवेतो शरीर के अवयव जादे लंबे और गारे होते है, गुरु शुक्र व बुध होवेतो दिखनोटा सुंदर शरीर होता है.

वृश्चिक—विशाखा का एक चरण अनुराधा ज्येष्ठा मिलके वृश्चिक राशी होती है. कमर के उपर के भांगकी अपेक्षा नीचे का भाग छोटा होता है, और लसी प्रमाणे कितनेक अवयवभी छोटे होते है, ऊंचाई

कम होती है नाक मोटा और फूजा हुआ स्वभावगहरा और सुन्नस रखने वाला, सर्वदातबडे, वर्णगोरा, मुखकाजवाडा मोठा, इस तरह का इस राशी का स्वरूप है.

धनु—मूल पूर्वाषाढा और उत्तराषाढाका एक चरणमिलके धनराशी होती है छाति भागे करके घूमते चलनेवाला कमाहुवा शरीर, शरीरकी आकृति विशेषमजबूत और सुडोल, मोक चपेकीकलीके समानतीखा शरीरनदुबला न जादेपुष्ट, बहुतहीमजबूत, गला व दाढी ये भाग मानो किसीने हातसे दुरुस्त किये होंवे जैसे कोरदारसुन्दर गरदन जाडी भरी हुई, भुजदंडभरेहुवे, पहलवान के समान, और हाथकी कलाई जाडी घाटेपर बैठनेवाला, लडाईं दंगे मे पीछे न हटने वाला, बोलने मे बलका गर्व विशेष रखनेवाला, वर्णसाधारणगोरा, लडाईं मे बहादुर, नेत्रपीले, ऐसा इस राशी का स्वरूप है

इस राशी मे मंगल होयेतो प्रकृति अत्यत उष्ण होती है और अर्श ( ववाशीर ) अथवा दूसरा रक्त विकार का कोईरोग, अपवात किंवा कोईभी दुख की प्राप्ति होतीरहे, शुक्रहोयेतो शरीर तेजस्वी होवे दैवी मनुष्यकेसमान दिखनेवाला होता है, बुध वा गुरु इस राशी मे होयेतो साफसुपरा तेजस्वी सुन्दर स्वरूप वाला होता है, शनि वा राहु होयेतो सुडोलसशक्त होवे परंतु रोगिष्ठ रहे

मकर—उत्तराषाढा केतीनचरण, श्रवण, धनिष्ठाके दोचरण मिलकर मकर राशी होती है, कितनेक वस्त्र शरीर पतला, छोटा गर्दन उट सरीखी लंबी, असबद्ध और अविचार से बोलनेवाला एकही बात मे मन गुया जानेवाला, अंगविशेष हास्यास्पद, एकदम बडे आवाज से और मध्यमे बहुतधीरप से भाषण करने वाला, कितनेक समय शरीर अति लठ्ठ, ( मजबूत ) शरीर के कितनेक अग्रयन वाजवीकी अपक्षा अधिजजाडे, वायूसे जफडा हुआ शरीर, स्नान संध्यादि कर्म भक्तिपर सर करने वाला, परमेश्वरकी सगुण भक्ति करने वाला, जमा खच के तरफ विशेष लक्ष देने वाला, बडी बडी, गुच्छेदार मूछे रखनेवाला, भाँपेके केश करडे, दूर दूरदेशोकी मुसाफरी करने वाला जगडामगरके सरीखा किंवा बहुतवारीर, शरीरके मान स मरनक बहुत बडा, इसप्रकार का इस राशी का स्वरूप है.

इस राशी में जब मंगल अंतके भागमें होवेतो शरीर बड़ा भारी व भाति लठ्ठ होता है वर्ण, ताँबेके समान होवे और शरीर पर भतिशय केशहोते है.

**कुंभ**—धनिष्ठा के दोचरण शततारका, पूर्वाभाद्रपदाके तीन चरण मिलकेकुंभ राशी होतीहै, शरीर सूक्ष्म, बहुधा मस्तकपर तालुके भागमें केशनहीहोवे, कपालके दोनुवानुके भागजादे छोटे दिसतेहे, चेहरा दिसाउ सुंदर, विद्याव्यासंगी, बडाकल्पना करने वाला, गंभीर व तात्त्विक विचार करने वाला, कायदेकापंडित इस प्रकार इस राशीका स्वरूप है. इसराशीका शनि लग्नमें होवेतो शरीरपुष्ट, उंचा, और मजबूत, होताहै.

**मीन**—पूर्वा भाद्रपदा का अेक चरण उत्तरा भाद्रपदा व रेवती मिल के मीन राशी होती है. शरीर विशेषपठेगणा, मस्तक व कितनेक शरीर के अवयव बहुत छोटे, जननेंद्रियचारीक, वर्णसाधारणगोरा, इसप्रकार के इस राशी के लक्षण है.

इस प्रमाणे राशी के सामान्य लक्षण हैं एक राशी के सर्वही लक्षण एक ही मनुष्य में मिल जावेगे ऐसा नही समझना चाहिये किंतु जिस समय एक दो लक्षण स्पष्ट देखने में आवे उस समय उस राशी का निश्चयात्मक ज्ञान होवेगा ।

लग्न अमुक राशिका व चन्द्र अमुक राशीका है ऐसा निश्चयात्मक कहते आना मुश्किलहै तथापि दोनों मेंसे एक कायम होने वाद दूसरे का ज्ञान उत्तम होसकेगा इस काममें अवलोकन व विचार शक्ति बढाने का ज्यों ज्यों विशेष अभ्यास होता जावेगा त्यो त्यो लग्न व चन्द्रकी परिक्षा होने में परिज्ञान अधिक बढता जावेगा ।

#### ग्रह परिक्षा-

कुंडली में ग्रह कहींभी क्यों बैठेहो राशीपरत्व और स्थानपरत्व शरीरपर परिणाम अवश्य करते है इस परिणाम का वरोवर ज्ञान होने से किसी समय लग्न का ज्ञान नहीभी होवेतो वह इस परसे होसका है इस कारण थोड़ेसे अनुभव किये हुवे योग नीचे दिये है.

१ कपाल अधिक भागे दिखेती सिंह राशीका मंगल लग्न में हे एसा जानना-

२ नेत्र पीले और लाल दिखते तो अग्नि राशी ( मेष-सिंह-अथवा धनु ) में रवि अथवा मंगल ग्रह है ऐसा जानना नेत्र बहुत बड़े और आगे आये हुये ( निकल हुये ) दिखने के लक्षण मंगल के ही है यह निश्चय जानना—

३ नेत्र गाल होवे और भाग हुये दिखते होवेतो सप्तम में मंगल है ऐसा समझना

४ फपाल में दर्द, अर्श ( बवाशिर ) नेत्रों में भारत्तपणा, चेहरे पर अधिक लाली, ऐसा लक्षण होवेतो मंगल लग्न में है ऐसा जानना

५ गर्दन के भाग पर लाल रंगका दाग, किसी भी कारण से उत्पन्न हुये जखम का निशान होवे अथवा जल जानना तथा रक्त विकार के गाठ वगैरा का चिन्ह हावे माताके रंगका चिन्ह होवे इस प्रकार के लक्षण देखन में भावतो लग्न में अथवा चन्द्र के पास मलग होगा और ये याग मेष राशी पर हुवा होगातो अवश्य कुछ निशान होवे हीगा

६ नेत्र में पीडा होती रहती हावे विशेषत आसोकी पलकों में दान पड़ना का विकार होवतो मंगल धनस्थान में है ऐसा जानना

७ शरीर का कोनसाहि भाग टुटा हुवा काटा हुवा अथवा जलाया हुवा होवेतो धन राशी में मंगल है ऐसा जानना

८ काला हरा और सफेद मिल हुवा रंग के नेत्र जैसे किसी २ अंग्रेज के हाते है वैसे हावेतो रविमंगल किंवा हर्शलमंगल ये नेत्र स्थान में अथवा कुडली में कहीं भी एकत्र होवेग

९ नेत्र अति तेजस्वी स्वच्छ काले व पाणीदार होवेतो शुक दूसरे स्थान में अथवा नेत्रस्थान में होवेगा ऐसा समझना

१० नेत्र मलिन अतिकाले गडूल रंगके ( गुगले ) छोटे उडे इस प्रकार के होवेतो लग्नमें अथवा दूसरे स्थान में चद्रसे युत शुक जानना

११ शुक के समानही चद्रकेही नेत्र होत है यह अत्रलोकन अभ्यास शक्ती से इनदोनो ग्रहोका फरक समझनेमें आताहै लिखते नहीं बनता ।

१२ नेत्र में हरेपणा अधिक हावेतो रवि शनि, मंगल शनि, व हर्शल शनि, का याग लग्नमें अथवा दूसरे स्थानमें कर्क, सिंह, धन, मेष, राशी में है ऐसा जानना

१३ दात शत्रु स्वच्छ व तेजस्वी हावेतो चद्र गुरु और शुक लग्न तथा दूसरे स्थान में समझना



१४ भार्द्रमुख व होठपर चर्बी व लालपणा विशेष होवेतो लग्नमे तथा दूसरे स्थानमे चंद्रसमझना.

१५ बोलते वखत अटकताहोवे तथा जीभ मे विकार होवेतो लग्नमे अथवा दूसरेस्थानमे राहूपापयुत समझना.

१६ दातबंदकरके अथवा मुखजादे नहीखोलके मुहमेही बोलताहोवे तो लग्नमे शनिहै ऐसाजानना.

१७ लिखनेके समय मुहवांकाटेड़ा करके लिखताहोवे तो दूसरस्थानमे राहु का संभव जानना.

१८ जिवान भागे करके बोलता होवे रकारका उच्चार उत्तम नहीकर सका होवे किंवा अन्यकोई बोलने की खोड होवेतो चंद्रराहुसयुक्तजानना अथवा लग्नमे राहुजानना.

१९ दंतपंक्ति धनुष्या कार व अतिशय वांकदार होवेतो लग्नमे राहु होताहै.

२० दमा सर्दीका विकार व वातवद्ध शरीर होवेतो शनिचंद्र जल-राशीमे एकत्र समझना.

२१ बोलतेवखत स्फारताहोवे व वारंवार खांदेसे गरदन घसंताहोवे तो चंद्र शनि कुंभराशीमे एकत्र जानना.

२२ हमेशा सरदी सेनाकबहुता होवे वा बहुधा बोलते समय नाकमे कुछ अटकगयाहोवे वैसा करेतो शनिचंद्र मकर राशिमे अथवा जल-राशि ( कर्क वृश्चिक मीन ) मे जानना.

२३ पेट बहुतबढादिसे किंवा पेटपर बहुतसेकेश होवेतो चौथेस्थान मे चंद्र अथवा गुरु इनदोनोमेसे एक का संभव जानना.

२४ अम्लपित्तका रोगहोव तो रविमंगल ये दोनो भेषराशी के होके लग्न चतुर्थ वा षष्ठ स्थानमे जानना.

२५ अपस्मार ( मृगी ) होवेतो चंद्रमा शनिसे युक्तहै और सामने मंगलहै किंवा चंद्रमा मंगलसे युक्तहै और सामने शनिबैठाहै वा छठे स्थानमे चंद्र और वारमे स्थानमे मंगल गया है एसा जानना.

२६ वस्त्रा भरणसे शरीरको सजानेवाला, न्यारे न्यारे रंगके अनेक प्रकार के पोषाख पहननेवाला, और शोकीन, ऐठवाज, अत्तरकाशोकीन, ऐश करनेवाला होवेतो लग्नमे शुक्रहोनका संभव जानना.

२७ डूँड ( तोड़ ) वाला शरीर, गौरा, सत्यगुणी, श्रेष्ठबुद्धिका, कफ प्रकृति, विनम्र कामकरनेवाला, स्मरणशक्तिअपूर्ण, अश्रान्तशमकरने वाला, भव्य, बिलकुलनिर्व्यगनी, गंभीर, मध्य कीर्तीमान्, विद्वान्, सफेदकपड़ेपहननेवाला, दाँत व नेत्र स्वच्छ, विद्याव्यासंगी, प्रौढ विचारका होवेतो लग्नमे गुरु जानना.

२८ अंडगुड्डी का विकार होवेतो वृश्चिक राशिके शनिको मंगल देखना है किंवा वृश्चिक राशिमे गधेहुवे चंद्रको शनि और मंगल देखते होंगे एसा जानना.

२९ जाली फूल पत्ते कतरना बलणदार [ मरोडदार सुन्दर ] अक्षर लिखना नामनसे अक्षर लिखना द्राइंग वगेरा कोईभी तरहकी हस्त कोशल्यका काम करताहोवे तो कन्याराशिमे शुक्र अथवा चंद्रमाका संभव जानना.

३० वकील बेरीस्टर सोलीसीटर वा जज होवेतो मिथुन कन्या, किंवा मकर कुंभ, किंवा धन मीन, इनलग्नमे जन्म जानना.

अथवा इन लग्नमे जन्मनहीहोवेतो बुध गुरु व शनि तो अशुभ उपरोक्त राशिमे समझना—तथा शनि और गुरु ये दोनो ग्रह उसकी कुंडलीमे मुख्यत्वसे तीन स्थितीमे अशुभ होवेगे.

१ शनि गुरु एकराशिमे बहुत नजीक नजीक अंशमेहोवे.

२ शनि गुरु परस्पर एकसे दूसरा सातमे स्थानमे होवे.

३ येही ग्रह परस्पर नवम पंचमहोवे और मेष तुल मिथुन धन कुंभ किंवा सिंह राशिके होके १।७।२।८।९।११।३।९ स्थान मेगये है एसाजानना.

३१ इंजिनियर तथा एल. सी. परिक्षा पास कियाहुवा ओव्हर सियर होवेतो उसके मिथुन तुल वा कुंभ राशिवा मंगल और शुक्र १।२।९।१।३।११ मे स्थानमे है, रवि और शुक्र एक राशि मे नजीक नजीक अंशके है, और लग्न अथवा चंद्र चरराशिके है एसा जानना. ।

३२ शिक्षक का धंधा करनेवाला होवेतो लग्न अथवा चंद्र से नवमे स्थानमे गुरु समझना.

३३ जंगल दाँ नोकरी करने वाले गाहँ राउंड गाहँ किंवा रेजर ( इन्सपेक्टर ) होवेतो मेष लग्न किंवा मेषका चंद्रहै एसा समझना

३४ स्नान संध्या पूजा सोला वगेरा का विशेष आडंबर होवेतो मकर

राशीमें गुरु अथवा चंद्रहै ऐसाजानो

३५ राजकीयसंकट आयेहोवे तो रवि अथवा चंद्र इनका और शनि किंवा हर्शल का केंद्रयोगहै अथवा रवि वा चंद्र शनि अथवा हर्शल से युतहै ऐसाजानो

३६ सजर्न डाक्टर होवेतो वृश्चिक राशीमें चंद्र मंगल अथवा गुरुहै अथवा वृश्चिक राशी लग्नमें वा दशमेहै ऐसाजानो ।

३७ निपुत्रिक होवेतो शनि व गुरु एकराशीपर है ऐसाजानना ।

३८ संतती मूलमें होतिही नहीहोवे अथवा बहुत कम होतिहोवेतो पंचम भावके आरंभमें सिंह कुंभ अथवा मेष राशीहै ऐसाजानो

३९ संतती जल्दी जल्दी होतीहोवेतो पंचममें कर्क मकर वृश्चिक वा मीनराशिहै ऐसा समझो

४० कन्या प्रजा अधिक होतीहोवेतो लग्न चंद्र पंचम स्थान व गुरु ये कर्क मकर वृश्चिक वा मीन राशीमेंहै ऐसाजानो

४१ लडके अधिक मरते होवे तो गुरु व मंगल ये एक राशी पर बहुत नजीक नजीक अंशके अथवा मंगल की पूर्ण दृष्टि योग में गुरु है ऐसा जानना ।

४२ गर्भपात होते होवे बालक जन्म के बाद अल्प काल में मरते होवे स्त्री के प्रसूती समय में बालक अडताहोवे किंवा बालक को काट के निकालनेका प्रसंग आताहोवेतो पंचमस्थानमें वा एकादश स्थानमें राहु मंगल व हर्शल ये ग्रहहै ऐसाजानना. परंतु कर्क, वृषभ मेष, राशी का राहु होवेतो संतान जल्दी देताहै और हानीभी नहीकरता

४३ सर्वे लडकेहि होतेहोवेतो पंचममें पुरुष राशि है और गुरु चंद्र भी पुरुष राशी में है अथवा पांचमें व एकादशस्थानमें पुरुषग्रह है ऐसाजानन.

४४ संतती एकवस्तु होने बाद फेर बहुत वर्ष पीछे बालक होवेतो पंचममें तथा एकादशमें शनिहै ऐसाजानना.

४५ पीठपर बहुत भाई बहन होवेतो तीसरे स्थानमें कर्क, मकर, वृश्चिक, मीन, ये राशी है ऐसाजानो.

४६ पीठपरके भाई बहन जिविते नहीहोवेतो तीसरे स्थानमें मेष सिंह धन वा वृश्चिक राशिका, होनेका संभवहै.

४७ ज्येष्ठ व पीठपरका ( छोटा ) भाई व बहन मृतहोवे अथवा उन के गर्भगत हुवेहोवेतो तीसरे स्थानमे रवि वा मंगल हे एसा जानना.

४८ भाइयामे एक्कता नहीहोवे किवा भाइयोका कोईभी तरह का सुख नहीहोवेतो तीसरे अथवा ९ नवमे स्थानमे मंगल हे एसाजानना

४९ कानसे कम सुनताहोवे तो मिथुन तुल वा कुंभ राशीका शनि तीसरे ग्यारमे अथवा नवमे स्थानमे जानना.

५० कान फुटाहोवेतो शनि मंगल व रविये ग्रह तीसरे ग्यारवे किवा नवमे स्थानमे एकत्र अथवा, उलट पुलट ये एक एक ग्रह एक एक स्थानमे होने का संभव जानना ।

५१ जन्म होनेके पश्चात् ७ सात वर्षके भीतर किंचित पहले कोईभी समय जो कुटुंबमे एक अथवा अधिक अकस्मात् मृत्यु हुवे होवेतो दूसरे स्थानमे दर्शल है एसा जानना ।

५२ दर्शल का स्वाभाविक धर्म एसाहै कि वह जन्म कालमे जिस स्थानमे होवे उस स्थानपर जिस व्यक्तिका विचारकिया जाताहै उसी व्यक्तिका अकस्मात् मृत्यु होताहै ।

५३ मा बाप का मृत्यु एकसाथ एकही समयमे होवेतो चतुर्थ स्थान में शनि चंद्र योग होवे और चौथे अथवा दशमे स्थानमे दर्शल होना चाहिये-इससंबंधके औरभी योगहै वे इसप्रथमे क्रमसे अगेभावेगेही

५४ जिनके भगंदर सर्वांगने जस्रम किवाग्रग, गर्मी व दूसरे भयंकर जननेद्रियके विचार होवेतो उनके छठेस्थानमे वृश्चिक राशीमे शनि किवा मंगल होवेगा ।

५५ लग्नकार्यमे जो भांजगडपहीहोवे किवा अकस्मात् लग्न निश्चय हुये हुये विस्तरजावे किवा अन्य विघ्न भांयहोवे तो सप्तममे दर्शल होनेका संभवहै

५६ जिनका दिगंत कीर्ति प्राप्तहोतीहै उनके नवम स्थानमे गुरु चंद्र योग होनाहै ।

५७ जो मनुष्य अपने पाले अपना नाम रायम रखने वालेहोतेहै उनके नवमस्थानमे अथवा चंद्रसे नवमस्थानमे शनि, गुरु रवि व दर्शल इन बडेग्रहोमसे एकादा भी ग्रह, बलवान गये विनारह जाननी

५८ साधारणतः श्रीमंत मनुष्योके ग्रह उदीन ( सप्तमसेलग्नपर्यंत )

भागमें किंवा धनभाग ( नवमेसे तीसरे स्थानके आरंभ पर्यंत ) में बहुत ग्रह स्थित होतेहैं ।

५९ द्रव्य कितनाही मिले तथापी हातमें टिकतानही विनाकारण मर्चहोजावे कर्जहोजावे वगेरा बातें संपत्ति संबंधमें बनतीहोवे तो लग्न के तथा चंद्रके दूसरे स्थानमें मंगल होनेका संभवहै वाजवी रीतीसे खर्च करतेहुवेभि पैसा की तंगीरहे और कर्जा करनापडता होवेतो लग्नमें अथवा चंद्रसे चारवे स्थानमें मंगल होनेका संभवहै ।

६० कुटुंब बढाहोवे किंवा बहुत मनुष्यो का उपजीवन स्वतःके आधारपरहोवे तो दूसरेस्थानमें गुरु होने का संभव होताहै

६१ कुटुंब में कलह होदारहताहोवे तो दूसरेस्थानमें रवि होनेकासंभवहै

६२ बडीलार्जित संपत्ति के संबंधका झगडा पैदाहोवेतो दूसरेस्थानमें मकर राशिका रचिहोनेका संभवहै.

६३ वाहन ( सवारी ) तथा चतुष्पदका व वगीचिवगेरा कृपी का शोख होवेतो चतुर्थस्थानमें गुरु शुक्र अथवा बुध होनेका संभवजानना

६४ नाक मुख दांत पेट्टीये वगेरा मेंसे कोईभी अवयवसे रुधिर जोनका विकार होवतो मेषराशीके २६ अंशके भागे का लग्न होताहै ।

६५ स्त्री अति सुंदर व गोरी होवेतो सप्तममें अथवा लग्नमें शुक्रहोवे अथवा गुरुहोवे क्वचित् चंद्रभीहोता है ।

६६ स्त्री तान्रवर्णकी दुबले पतलेबांधेकी और बडी संतप्तक्रूरस्वभाव की होवेतो सप्तममें अथवा दुसरे स्थानमें मंगल होताहै ।

६७ बालवच्चे सुस्वरूप होवेतो पांचमें अथवा एकादश स्थानमें गुरु हानेका संभवहै ।

६८ बच्चे रोगी रहते होवे तो पांचमें स्थानमें शनि अथवा मंगल होनेका संभवजानना ।

६९ कथा बान्धेवाला तथा व्याख्यान दाता शास्त्री किंवा वैप्याकरणी होवेतो मिथुन राशीका लग्न अथवा चंद्र होताहै ।

७० स्त्रीलठके चली गई होवे किंवा किसीभीकारणसे स्त्रीसे वैवनाव होवेतो सप्तम स्थानमें हशोल जानना ।

७१ यदिकोई मनुष्य किसीके गोद ( दत्तक ) गयाहोवेतो उसकी कुंडली में नीचे लिखेहुवे योगोंमेंसे एकभाद योग निश्चय होवेगा ।

- ( १ ) कर्क किंवा सिंह राशीमें पापग्रह.
- ( २ ) चंद्र किंवा रवि ये पापग्रहोंसे युक्त भयवा दृष्ट
- ( ३ ) चतुर्थ भयवा दशम में पापग्रह.
- ( ४ ) मेष सिंह धन किंवा मकर इन राशियोंमेंसे कोईभी भेद राशी चतुर्थ भयवा दशम स्थानमें.
- ( ५ ) चंद्र के चतुर्थ स्थानमें पापग्रह.
- ( ६ ) रविके दशमें भयवा नवमें पापग्रह.
- ( ७ ) चंद्र भयवा रवि ये शत्रुक्षेत्री शत्रुग्रहसे युक्त

७२ जोडले ( दोबच्चे साथहोवे ) बच्च बहुधा एकलग्न और एकही राशीमें जन्मपाते है उनके लग्नमें राहु होताहै और वह राहु कन्या मीन मियुन भयवा धन राशी में होताहै मीन और मियुन ये राशी राशि चक्रमें सुगम ( जोडली ) राशीहै इसकारण जोडले बालकोंकी कुंडली में इनराशीमें लग्न, चंद्र, राहु, किंवा शुक्र, भयवा लग्न स्वामी, होतेहै ऐसा देखनेमें आताहै कन्या और धन ये राशी अनुक्रमसे । मीन और मियुन राशी की सातमी राशी है इसकारण उपरोक्त लग्न चंद्र राहु आदि इन राशियोंमें भी देखनेमें आतेहै ।

७३ ललाई लिये हुवे गौर काती, मुखपर व छातीपर लाली, नेत्र पाणीदार, चित्र विचित्र पोषाख धारण करने का हौस निर्मलता, तेजस्विता, घुंटा, स्टार्किंग घट्याल, छत्री, लकड़ी ये वापरने का हौस होवे तो शुक्र और मंगल का योग होने का संभव होता है ।

७४ चेहरा ऊचाक्रम, चौडाजादा, हास्यमुख, टाप टीपसे चलने वाला बकतृत्प्रतिशेष स्वच्छ वस्त्र पहिनने का व शरीर स्वच्छ रखने का और पिछा व्यासगका हौस होवे ता लग्न में बुध है एसा जानना ।

७५ शरीर दुबला पतला रफ प्रकृती, गौरा व पाणीदार अतिचंचल बेलन वस्त्र जिसके मुहमेंसे थूक उडता होवे वा लाल पडती होवे दानस्वच्छ पोषाख मलिन नेत्रसफेद, प्रवासी, अलंकार व सुगंधीपदार्थ धारण करनेवाला ये लक्षण होवेता लग्नमें चंद्र होनेका संभवहै ।

७६ निर्धनशनी होयतो लग्नमें बुध गुरु शुक्र भयवा चंद्र इनमें से कोई भी एक ग्रह समझना ।

७७ जगतमें लोग भगवे गिनेजातेहो जो राजा, संस्थानिक, जाहागिरदार, इनामदार, किंवा बड़ी तनख्वाह के सरकारी मोठे नोकर, ( बडे भांफिसर ) बहुतलोकोपर अधिकार रखनेवाला, तथा बहुतलोग जिसको मानदेवे और अपने उपर मुख्यामाने तथा जोलोग खासगीधंधा चलानेवाले होवे उनको भी जगतमें राजा भयवा प्रजाके पाससे मोठा मान मिले, प्रजाकेलोको के तरफ से यही अपना खरा अग्रगण्य है ऐसा समझ राजा सरीखा मान जिसको मिलताहो, उत्तम व्याख्यान दाता, उत्तमपुराणिक, बडा शास्त्री, उत्तम हरीदास, वगेरा मानपानेवाले लोक तथा जिनके हाथनीचे विशेष लोक काम करतेहो, जो प्रधान होके कोईभी मुख्य पदपर रहनेवाले होते है, उनकी कुंडली में सिंह अथवा कर्क ये राजाराशि अवश्य बलवान् हुये बिना रहती नही । और जैसा जिसका अधिकार और मान बडा होवे उसी माफिक इन राशिमें रवि चंद्र गुरु बुध किंवा शुक्र ये सर्व ग्रह किया इनमेंसे एकभी कोई ग्रह युक्त हुये बिना रहतानही.

- ( १ ) लग्न सिंह होवे इस राशि में रवि, चंद्र, गुरु, बुध किंवा शुक्र मेंसे कोई एक ग्रह वा सर्वग्रह युक्त होवे और दशमें इनमें से कोई ग्रह होवेतो मुख्यत्व प्राप्त करनेका कारण होताहै.
- ( २ ) मंगल सिंह राशि का होवे वा दशमें सिंह राशिका जायतो उस मनुष्य को मुख्यत्व शीघ्र मिले और उसका मान अधिकार और तनख्वाह जल्दीर बढ़तीजातीहै
- ( ३ ) सिंहराशि में राहु शनि ये दो ग्रह मात्र अच्छेनहीहै ये ग्रह होवे तो मनुष्य जिस खाते में होवे उस खाते में मुख्य की जगह उसको जल्दी मिलने वाली नही और तरक्की ( प्रभुशन, पगार बढ़ना ) भी जल्दी होता नही
- ( ४ ) सिंहराशि १३।४।५।९।१० स्थान में स्वाभाविक बलवान् हे इन स्थानोंमेंसे कोई भी स्थानमें ये राशि होने और इसमें गुरु, मंगल रवि, चंद्र बुध, वा शुक्र होवे तो अनुक्रम उत्तोर पहिले की अपेक्षा दूसरा निबल योग होताहै
- ( ५ ) सिंहराशि में कोई भी ग्रहनही होवे तोभी केवल सिंहराशि ही उपरोक्त स्थानमें होवेतो मुख्यपद देतीहै उपरोक्त बडे मनुष्यो

कि कुंडली में सिंहराशि कोई भी उपरोक्त स्थिती में जोनही होवेतो फिर फल ज्योतिष का महत्वही क्या है ।

( ३ ) जिस प्रमाणे सिंहराशि का वर्णन किया है उसीप्रमाणे कर्क राशि का भी महत्व है फल इसराशिमें कोईभी पापग्रह का योगनही होना चाहिये शुक्र, बुध, चंद्र, गुरु, ये ग्रह इसराशिमें उतरोत्तर बलवान होते हैं

( ७ ) कुंडलि में ये दोन [ ४।५ ] राशि उत्तम स्थितीमें होवेतो भति उत्तम योग होता है

एक राशि बलवान दूसरी निग्रह होवेतो उत्तम योग

एकराशि बलवान दूसरी बलहीन होवेतो मध्यम योग

परंतु कर्क राशि बलवान और सिंह निर्बल होवेतो निर्बल योग

( ८ ) लग्न बलवान होवे और इन दोनुराशि का पूर्वोक्त योग कुंडलीमें कहींभी होवे तो इनके फलका अनुभव स्थान बलके योग्यतानुसार मिलेगा ।

लग्नबलवान नही होवे और ये राशि कुंडलीमें कहींभी बलवान होवेतो जो हल के पगार की मुख्यपणे की जगह होवे वह जगह मिलती है परंतु जिनके लग्न बलवान नही होवे और ये राशि भी बलवान नही होवे तो उसका जीवनतो निरर्थक ही होता है.

इनके शिवाय जितने अनेक योग इस पुस्तकमें लिखे हैं उन सब योगोंका इसी प्रमाणे मनुष्य के शरीर लक्षण सुख दुःखादि जीवन कृमके योग मिलाके अनुभव करने का सतत अभ्यास करते रहने से कुंडली देखनेकी जिसमानकी अवलोकन व विचार शक्ति ज्यो ज्यो अधिक बढ़ेगा त्यो त्यो बुद्धतफल कहनेका और सहजमें मनुष्य की कुंडली के ग्रहोंकी परिक्षा करनेकी योग्यता उतनेही मानसे बढ़ती जावेगी । इतिशम्

इति प्रथम विवेक टीका समाप्तः



## अथ धनविवेक.

धनेगेशे खेलाभये धनेशांशेशे शुभे नामतोधनी ॥ १ ॥

चंद्राच्छुभै रुपचयगैः सद्योधनी ॥ २ ॥

स्वार्थपौ युतौ केंद्र कोणगौ सद्योधनी ॥ ३ ॥

खेशांशेशायेशौ युतो सद्योधनी ॥ ४ ॥

सिहासने धनेशे धनी ॥ ५ ॥

धनेशात् धनांगपेशौ केंद्रगौधनी ॥ ६ ॥

चतुर्षु स्वर्क्षगेपुधनी ॥ ७ ॥

बल्यर्थेशः स्वायांकगो धनी ॥ ८ ॥

चंद्रार योगे धनी ॥ ९ ॥

अवधन भावका विचारकहतेहै

टीका-लग्नेश धन २ स्थानमे, लाभ ११ पति दशमस्थानमे धनस्थान केस्वामि का नवमाशका स्वामि शुभ ग्रहोवे तो नाम मात्र से धनवान् होताहै अर्थात्पास कुछनहि होते हुवेभी धनवान समझानावेगा ॥ १ ॥

चंद्रमासे ३६।१०।११ स्थानमे शुभग्रह स्थितहोवेतो शीघ्रधनवान होताहै ॥ २ ॥

दशमे स्थानका और धनस्थान का स्वामि एक राशिमे युतहोके १।४।७।१०।५।९ मे स्थानमे स्थित होवेतो शीघ्र धनवान होताहै ॥ ३ ॥

दशमस्थान के स्वामि का नवाश का स्वामि और लाभ ११ स्थान का स्वामि एकत्र युतहोवे तो शीघ्र धनवान होता है ॥ ४ ॥

धन २ स्थानका स्वामि सिहासनाश मे होवेतो धनवान होताहै ॥ ५ ॥

धनस्थान का स्वामि जाहावेठाहोवे उससे दूसरेस्थानका स्वामि और लग्नका स्वामि येदोनो १।४।७।१० मे स्थानमे जावे तो धनवान होताहै ६

चारग्रह स्वराशि मे गये होवेतो धनवान होताहै ॥ ७ ॥

बलवान धन २ स्थानका स्वामि १०,११,१९ मे स्थानमे जावेतो धनवान होता है ॥ ८ ॥

चंद्र और मंगलका योग होवेतो धनवान होता है ॥ ९ ॥

स्वल्प धन योग

केंद्र कोणेशे कूरपष्टचंशे स्वल्पधनं ॥ १० ॥

लाभेशांशे कूरपष्टचंशे शुक्रजीवान्यतरयुतदृष्टे

स्वल्पधनी ॥ ११ ॥

टीका-दूसरे स्थानका स्वामि कूर पष्टचंशे मेहोवे और १,४,७,१०,१५ म स्थानमे स्थितहोव तो स्वल्पधनी होताहै ॥ १० ॥

लाभेश जिसग्रह के नवाशमे होवे वहग्रह कूर पष्टचंशे होवे और शुक्रअथवा गुरु से युत दृष्टहोवे तो स्वल्पधनी होताहै ॥ ११ ॥

बहुधन योग या महाधनी याग

सौम्यै रूपचयगै बहु धनः ॥ १२ ॥

लग्नेशांशे शांशे बलाढ्ये वैशेषिकांशे शुभदृष्टे बहुधनः १३

त्वशांशे वैशेषिकांशे सार्थेश लाभेश दृष्टयुते बहुधनी १४

केंद्र चतुष्टये शुभान्विते महाधनि । १५ ॥

लग्नार्थापेशा वैशेषिकांशे महाधनी ॥ १६ ॥

कर्केजे मंदेलाभे महाधनी ॥ १७ ॥

स्वर्क्षसुते लाभे मंदे महाधनी ॥ १८ ॥

लाभे जीवे स्वर्क्षके पंचमे महाधनी ॥ १९ ॥

स्वर्क्षगुरौ पुत्रे चंद्रे महाधनी ॥ २० ॥

सिहेर्केजे गुर्वारयुते महाधनी ॥ २१ ॥

कर्केजे चंद्रे गुर्वारयुते महाधनी ॥ २२ ॥

भौमगे स्वर्क्षे मन्दाच्छयुते महाधनी ॥ २३ ॥

१२ का गुरु होनेसे ५ मे कर्क का चंद्र हो सकता है इससे दोनो स्वक्षेत्रि का नवम पंचम योग होता है और इन दोनो क्षेत्र त्रिकोणा धिपोका दृष्टी सचध होता है सो मीन लग्न मे यह योग अधिक बलवान जानना चाहिय ।

सिंह राशि का सूर्य लग्नमे गुरु मंगलसे युत होव तो महा धनिहोता है २१  
ककराशि का चंद्रमा लग्नमे गुरु मंगल से युतहावेतो महाधनी होता है ॥ २२ ॥

स्वराशि १।८ का मंगल लग्नमे होवे और शनि, शुक्र, बुध, इनतीनो स युतहाव तो महा धनी होता है ॥ २३ ॥

स्वराशि ९।१२ का गुरु लग्नमे होवे और चंद्र मंगल स सयुत होव तो महा धनी होता है ॥ २४ ॥

स्वराशि( २।६ ) कावध लग्नमे शनि शुक्रसे युहोव वा दृष्टहोवे तो महाधनी होता है ॥ २५ ॥

स्वराशि(२।७)काशुक्रलग्नमे होवे औरचंद्रसूर्य से युतदृष्टहोवतो महाधनी हाता है ॥ २६ ॥

कन्या राशिमें शनि,मंगल राहु और, शुक, ये चारोग्रह स्थितहोवेतो महाधनवानहोताह ॥ २७ ॥

सहस्रनिष्के शयोग ।

लग्नपाशेरोधनपाशेरोच सौन्येगुरुदृष्टे सहस्रनिष्केशः २८

लग्नपथे लाभेशोर्भगे गुरुदृष्टे सहस्रनिष्केराः ॥ २९ ॥

अंगशांशेशे गोपुरे कर्भेश दृष्टेसहस्रनिष्केशः ॥ ३० ॥

टीका- लग्नेज वनपाशकास्वामी औरधनेशकेनवाशकास्वामी शुभ ग्रहहाथ आर उनको गुरुदृष्टताहोवेतो एक हजार निष्कका स्वामा हाता है ॥ २८ ॥

निष्क = असार्फि (मोहर) को कहते है भ्रमरभे लिखा है " दीनारेऽपिच निष्कौस्त्री" कोई २लोग निष्क का अर्थ रुपया भीकरत है परत शास्त्रदृष्ट्या और अनुभवसे निष्कका अर्थ असार्फि हीहाना युक्ति युक्त है इसमाण टसत्र,थमे जहा निष्क शब्द आये वहा असार्फि जानना ।

टीका- लग्नके नवांशकास्वामि और भाग्येश येदोनो परम उच्चांश मेजावे और लाभेश वैशेषिकांशमेस्थित होवेतो कोटीश ( एक करोड का स्वामी ) होताहै ॥ ४० ॥

बाल्ये बहु धन लाभयोग ।

सांकार्धेशौ केंद्रगौ लग्नेशस्यांशेशस्येश्वरेणदृष्टौ बाल्ये  
बहुधनलाभः ॥ ४१ ॥

लग्नार्थायगैः शुभैर्बलाढ्यैर्धनेशस्यांशेशेनदृष्टैर्बाल्येबहुधन  
लाभः ॥ ४२ ॥

टीका- नवमेश और धनेशकायोग १।४।७।१०मे स्थानमेसे कोई भी स्थानमे होवे और उनको लग्नेशके नवांशका स्वामि जिसराशीमे होवे उसराशीका स्वामी देखता होवेतो बालपणेकी अवस्थामे बहुतधन कालाभ होताहै ॥ ४१ ॥

लग्न १ धन २ और ग्यारमे भावमे सर्वशुभग्रह बलवान् होके स्थित होवे और उनको धनेश के, नवांशका स्वामी देखताहोवेतो बालपणेकी अवस्थामे बहुतधनका लाभहोताहै ॥ ४२ ॥

निध्याप्तियोग

लाभेशेङ्गे लग्नेशेर्धे धनेशेलाभे निध्याप्तिः ॥ ४३ ॥

लग्नेशेशुभेर्धे निध्याप्तिः ॥ ४४ ॥

कोशेशे रंध्रेनिध्याप्तिः ॥ ४५ ॥

टीका-लाभेश लग्नमे, लग्नेश धनस्थानमे, धनेश लाभस्थानमे, होवेतो गढेहुवे धनकालाभ होताहै ॥ ४३ ॥

लग्नका स्वामी शुभग्रह धन २ स्थानमे स्थित होवे तो गढेहुए खजाने की प्राप्ति होतीहै ॥ ४४ ॥

धन स्थानका स्वामि भाठमे स्थानमे स्थितहोवेतो गढे हुवे धनका लाभ होताहै ॥ ४५ ॥

स्वोपार्जित धनाप्तियोग.

सर्वग्रहाधिकबले लग्नपेकेंद्रे जीवयुते वैशेषिकांशेथशे स्वो-  
पार्जितधनः ॥ ४६ ॥

अंगेशांशेशोबली धनपमित्रं सत्केंद्रकोणगः स्वो० ४७

लग्नायपयुक्तोर्थेशः केंद्रकोणेशुभदृष्टः कालबलान्वितः  
स्वोपार्जितधनः ॥ ४८ ॥

टीका—लग्नका स्वामि सर्वग्रहोसे अधिक बलवान् होके १।४।७।१०  
में स्थानमे गुरुसे युक्तहोवे और धनेश वैशेषिकांशमे स्थितहोवेतो  
अपने बलपराक्रमसे कमायाहुवा धन प्राप्तहोताहै ॥ ४६ ॥

लग्नेशके नवांश का स्वामि बलवान् होवे तथा धनभाव के स्वामिका  
मित्र शुभग्रहहोवे और केंद्रकोण (१।४।७।१०।९।५) स्थानमेस्थित होवे  
तो अपने बलपराक्रमसे कमायाहुवा धन प्राप्तहोताहै ॥४७॥

धनभाव का स्वामि लग्नेश और लाभेश से युक्तहोके केंद्रकोण ( १।४  
७।१०।९।५) स्थानमे स्थितहोवे और शुभग्रह से दृष्टहोवे, कालबलसे  
युक्तहोवे तो अपने बलपराक्रम से कमायाहुवा धनप्राप्त होताहै ४८

भ्रातृधनाप्तियोग.

बलान्वितौसोत्थगौ धनाङ्गणौ पुंग्रहदृष्टयुक्तौ वैशेषिकां-  
शग सोत्थेशतयुतदृष्टौ भ्रातृधनाप्तिः ॥ ४९ ॥

टीका—धनेश और लग्नेश ये दोनो बलवान् होके तीसरे स्थानमे  
स्थितहोवे पुरुषग्रहसे युक्त भयगा दृष्टहोवे और वैशेषिकांशमे स्थित,  
कृत्तीपिश से युत वा दृष्टहोवे तो भाईका धनप्राप्तहोता है ॥ ४९ ॥

मातृधनलाभयोग.

तुर्येशयुतदृष्टे धनेशे जननी धनलाभः ॥ ५० ॥

टीका—धनेश चतुर्थस्थानके स्वामी से युत वा दृष्टहोवे तो माताका  
धन मप्तहोता है ॥ ५० ॥

बंधुतः कृपेर्वाधनलाभयोग.

धनेशसुखेशयुतदृष्टे वैशेषिकांशे बन्धुतः कृपेर्वाधनलाभः ५१

टीका-धनेश चोपेस्थानके स्वामिसे युक्त वा दृष्टहोवे और वैशेषिकांशमे होवेतो बंधु से वा कृषिकर्म से धनलाभ होताहै ५१

पुत्रतः धनाप्तियोग.

सुतेशतत्कारकाभ्यां युते दृष्टे वार्थेशे बलिनि सुततो धनाप्तिः ५२

टीका-धनस्थान का स्वामि पंचम स्थानके स्वामि से और पंचमके कारकसे युत वा दृष्टहोवे वा धनेश बलवानहोवे तो पुत्रसे धनप्राप्ति होतीहै ॥ ५२ ॥

सुपुत्रार्जित धनाप्तियोग.

वैशेषिकांशे लेशे बलाढ्ये सुपुत्रार्जितधनाप्तिः ॥ ५३ ॥

टीका-लग्नेश वैशेषिकांशमे होवे और बलवानहोवे तो सुपुत्रार्जित धनकीप्राप्ति होतीहै ॥ ५३ ॥

शत्रुतो धनाप्तियोग.

पष्टेशतत्कारकयुतदृष्टे र्थेशे बलिनि शत्रुतो धनाप्तिः ५४

टीका-पष्टेश से तथा उसके कारकसे धनेश युत वा दृष्टहोवे और बलवानहोवे तो शत्रुसे धन प्राप्तिहोती है ॥ ५४ ॥

भार्यातो धनाप्तियोग.

जायेश तत्कारकयुतदृष्टे र्थेशे बलिनि भार्यातो धनाप्तिः ५५

टीका-बलवान् धनेश सप्तम भावके स्वामि और सप्तम भावके कारकसे युत वा दृष्टहोवेतो स्त्री से (स्त्री संबंधसे) धनाप्तिहोती है ५५  
पितासे धनाप्तियोग.

खेशतत्कारकयुतदृष्टे र्थेशे बलिनि पितृतो धनाप्तिः ॥ ५६ ॥

टीका-बलवान् धनभावका स्वामि दशमेश और दशमभावके कारक ग्रह से युत वा दृष्टहोवेतो पितासे धनकी प्राप्तिहोतीहै ॥ ५६ ॥

तुर्यर्के पितृधनाप्तिः ॥ ५७ ॥

टीका-चतुर्थ म्यानमे सूर्य स्थितहोवेतो पिताके धनकी प्राप्ति होतीहै ॥ ५७ ॥

## धनाप्तियोग

कोशेशेचलवतियस्यकारकेण यद्भावेशेनवा युतेदृष्टे तद्वारा  
धनाप्तिः ॥ ५८ ॥

टीका—धनस्थानका स्वामि बलवान् होकर जिस भावके कारक से अथवा जिस भावके स्वामी से युत वा दृष्टहोवे उसभावसे जिस २ पितृ मातृ भ्रात्रा दिव्यनिका विचार कियाजाता है उस २ व्यक्तिकेद्वाराधन की प्राप्ति होवेगा ऐसाजानना ॥ ५८ ॥

## धनलाभ प्राप्तिदिशा

लाभेश दिशायाधनाप्तिः ॥ ५९ ॥

लाभ गत राशि दिशातो धनाप्तिः ॥ ६० ॥

टीका—लाभ ११ स्थानका स्वामि जिस दिशाका मालिक होवे उसी दिशासे धन प्राप्ति होतीहै दिशाके स्वामी बृहजातकमे “प्रागाद्यारपि शुक्र लाहित तम शौरिदु वित्सूरय ”इस प्रकार कहेहै अर्थात् लाभेश रवि हावेतो पूव दिशासे शुक्रहावे तो भग्निकोणसे मंगलहावेतो दक्षिणदिशासे राहु हावेतो नैऋतकोणसे शनिहावे तोपश्चिम से चंद्र हावेतो वायुकोणसे बुध हावेतो उत्तरसे गुरुहावेतो ईशान कोणसे धनलाभ हाताहै ॥ ५९ ॥

एव लाभस्थान मे जो राशी स्थितहोवे उसराशी की जो दिशा होवेउसी दिशासे धनकी प्राप्ति कहना अर्थात् १। २ राशिहावेतो पूर्वसे ३ भग्नि कोणसे ४। ५ हावेतो दक्षिणसे ६ हावेतो नैऋतसे ७। ८ हावेतो पश्चिमसे ९ हावेतो वायुकोणसे १०। ११ हावेतो उत्तर दिशासे १२ मीन राशि होवे लाभ स्थानमेतो ईशान कोणसे धनलाभहोवेगा कितनोका यहमिमतहैकि १। ५। ९ राशिहावेतो पूर्वसे २। ६। १० दक्षिणसे, ३। ७। ११ पश्चिमसे, ४। ८। १२ उत्तर से प्राप्ति होतीहै ॥ ६० ॥

## धनलाभयोग

लाभेशे केंद्र कोणे लाभपापे धनलाभः ॥ ६१ ॥

लाभपेधने धनपेलाभे धनलाभः ॥ ६२ ॥

धनापपौ केंद्रगौ धनलाभः ॥ ६३ ॥

लाभपेपारावताद्यंशे धनलाभः ॥ ६४ ॥

लाभेशंशे केंद्रकोणे शुभसंबंधे धनलाभः ॥ ६५ ॥

शुभांतरे लाभेशंशे धनलाभः ॥ ६६ ॥

लाभपस्यांशेशे शुभसंबंधे धनलाभः ॥ ६७ ॥

जाच्छा वर्थे धनलाभः ॥ ६८ ॥

ग्रंथेसौम्या धनलाभः ॥ ६९ ॥

मेपे चंद्रे घटेमंदे नक्रे शुक्रे चापेके पैतृकं धनं नलभते ७०

टीका—लाभेश १।४।७।१०।१।५ मे स्थान मे स्थितहोवे और ग्यारहवें स्थानमे पापग्रह बैठेहोवे तो धनलाभ होताहै ॥ ६१ ॥

लाभेश धनभावमे और धनेश लाभ भावमे स्थितहोवेतो धनलाभ होताहै ॥ ६२ ॥

दूसरे २ और ग्यारहवे ११स्थानके स्वामी १।४।७।१० मे स्थानमे स्थित होवे तो धनलाभ होताहै ॥ ६३ ॥

लाभ (११) भाव का स्वामी पारा वतादि भंशमे होवेतो धनलाभ होताहै ॥ ६४ ॥

लाभ ११ भावका स्वामी कारकांश कुंडली मे १-४-७-१०-९-५ मे स्थानमे स्थित होवे शुभग्रह से संबंध कर ताहोतो धनलाभ होताहै ६५

लाभ ११ भावेश कार कांश लग्नमे शुभ ग्रहो के मध्यमे होवेतो धनलाभ होताहै ॥ ६६ ॥

लाभेशका नवांशका स्वामि शुभग्रह सेसंबंध करताहोतो धनलाभ होताहै ॥ ६७ ॥

युध और शुक्र धन भाव मेगये होवेतो धनलाभ होताहै ॥ ६८ ॥

आठमे भावमे शुभ ग्रह गयेहोवेतो धनलाभ होताहै ॥ ६९ ॥

मेप राशि मे चंद्रमा, कुंभ राशिमे शनि मकर राशिमे शुक्र, धनराशि मे सूर्य क्रमसे स्थितहोवेतो पिताका धन [ संपत्ति ] नहिमिलेगा ॥७०॥

परांगना भासक्तिमे द्रव्यनाश योग

अंशांदेकेराहीपरांगनासक्तेद्रव्यनाशः ॥ ७१ ॥



टीका-मार काश लग्नसे ९ नममे स्थानमे राहु होवेतो परस्त्री की भासन्ती के वारण से धनका नाश होनाहै ॥ ७१ ॥

ज्ञाति विवाद स धनहानी योग

व्ययेज्ञे ज्ञातिविवादाद्धनहानीः ॥ ७२ ॥

टीका-वारह १२ के स्थानमे बुध स्थित होवेतो जाति संगधी विवाद से धनहानि दानिहै ७२

मिथ्याकोशांतकृतयोग

मक्रूरंत्येरो मिथ्याकोशांतकृत ॥ ७३ ॥

टीका-व्यय १० स्थान का स्वामि पापग्रह से युत होवेतो फजूल कामम धन का खर्च करके सपत्ति कानाश करनेवाला होताहै ॥ ७३ ॥

राजदंडाद्धनक्षययोग

लग्नेशेल्पमलेमूर्ययुतेर्थरांत्येनीचेना पापदष्टे राजदंडाद्धन  
क्षयः ॥ ७४ ॥

लाभेशेत्पेन्त्येगेथे त्रिकेथेरो वा नीचगे राज० । ७५ ।

पष्टेथेगे मपापे नीचगे राजकारकयुते वा राज० ॥ ७६ ॥

धनगंत्ये व्ययेरोथे मपापेगेशेभिंराजदं० ॥ ७७ ॥

लाभेशेरोगेशयुते दुःपठचंशे राजदं० ॥ ७८ ॥

टीका-लग्नेश अल्प बलीहोवे धनस्थानका स्वामी वारवे १० स्थानमे सूर्य से युतहोवे और नीचराशि का होवे अथवा पापग्रहसे दृष्टहोवेतो राजदंड ( जुर्माना देनेसे ) धनका नाशहोता है ॥ ७४ ॥

लाभश वारवे १२ स्थानमे और वारवस्थानका स्वामि २ धनभाजमे होवे १ अथवा धनेश ६।८।१२ मे स्थानमे नीचराशी का होवेतो राजदंड से धननाश होताहै ७५ ( इससुत्रमे २ योग रहेहै )

धनभाजका स्वामि नीचराशी मे स्थितहो के ठठे स्थानमे पापग्रह के साथ युक्त होवे अथवा राजकारक ग्रह से युतहोवे तो राजदंड से धनक्षयहोताहै ॥ ७६ ॥

धनस्थान कास्वामी १२ वारहवे स्थानमे, वारमे स्थानका स्वामीधन स्थान मे होवे और पापग्रह सेयुत लग्नका स्वामीछुटे स्थानमेहोवेतो राजदंडसे धनक्षयहोताहै ७७

दशम भावका स्वामि ग्यारवे ११ स्थानमे लग्नेश से युत होवे और वह दुष्ट [ अशुभ ] पञ्चम मे होवेतो राजदंड से धनक्षय होताहै ७८  
चौराग्नि भूप कृत धन नाशयोग.

धनायपौ कुजदृष्टौ पापांशगौ हीनबलौ सपापौ चौराग्नि  
भूपकृतो धननाशः ॥ ७९ ॥

धनेशांशे शांशेशेसपापेत्रिके लग्नेशदृष्टे चौराग्नी भूप कृतो  
धननाशः ॥ ८० ॥

टीका-धन २ और लाभ ११ भावके स्वामि ये दोनोही भौमसे दृष्ट होवे पापग्रह के नवांश मे होवे, निर्बली होवे, और पापग्रह से युत होवे तो चौरसे अग्निसे वा राजा से धन का नाश होताहै ७९

धनभावकास्वामी जिस ग्रह के नवांशमे होवे उसके नवांशका स्वामि पापग्रह से युत होकर ६।८।१२ स्थानमे स्थितहोवे और उस्को लग्नकास्वामि देखता होवेतोचौरसे [ चोरिहानेसे ] अग्निसे (लायलगनेसे) राजा से ( राजाकि नाराजीसे ) धनका नाश होताहै ८०

लोकाप वाद मूलसे धनक्षययोग.

सपापे स्वेशोरिगेऋपप्यंशे धनायपयुते लोकापवाद मूल  
क धनक्षयः ॥ ८१ ॥

टीका- दशम भाव का स्वामी छुटे स्थानमे पापग्रह संयुतहोवे क्रूर पञ्चममे होवे धन २ और लाभ ११ भावके स्वामी योसे युतहोवेतो लोकापवाद के कारण धननाशहोताहै. ८१

निर्धनयोग

धनेशांशेशे त्रिके सपापे ऋपप्यंशे निर्धनः ॥ ८२ ॥

सपापा धनधनेशापेशा निर्धनः ॥ ८३ ॥

व्ययेशांशेशे धनेश युतदृष्टे निर्धनः ॥ ८४ ॥

नीचेक केंद्रे सपापे निर्धनः ॥ ८५ ॥

कोशेशांशे शांशेशे कालदंडांशे निर्धनः ॥ ८६ ॥

लाभे लाभपे वा पाप संबंधे निर्धनः ॥ ८७ ॥

टीका—धनश का नवाशका स्वामि जिसराशिमें स्थित होवे उसका स्वामी ६।८।१२ में स्थानमें पापग्रह से युतहोवे और करपष्टचंद्रशमे होवे तो निर्धन होताहै ८२

धने २ भाव धनभाव का स्वामि और लाभ ११ भावपति येतीनो पाप ग्रह से युत होवे तो निर्धन होताहै ८३

वारवे स्थानके स्वामीका नवाशका स्वामि धनेश से युत होवे वा दृष्ट हावेतो निर्धन होताहै ८४

नीचराशि का सूर्य केंद्र ( १।४।७।१० ) में पापग्रह से युत होवेतो निर्धन होना है ८५

धनश के नवाशका स्वामि का नवाशका स्वामि कालदंडाशमें होवे तो निर्धन होताहै ८६

लाभेश लाभ ११ भावमें पापग्रह सेसंबंध करताहोवेतो निर्धन होताहै ८७

पाप मूलक धननाश योग

व्यये व्ययेशे वा पापमंबन्धे पापमूलक धनक्षयः ॥ ८८ ॥

टीका—व्यय १२ स्थानका स्वामि वारमें स्थानमें होवे अथवा पापग्रह से संबंध करताहोवेतो पापकर्ममें धननाश होताहै ८८

धर्म मूलक धनक्षय योग

अंत्येत्येशेना शुभसंबंधे धर्ममूलक धनक्षयः ॥ ८९ ॥

शुक्रेज्यौ वा चंद्रज्ञौ व्यये धर्ममूलक धननाशः ॥ ९० ॥

टीका—वारमें स्थानका स्वामि वारवे स्थान में स्थित होवे अथवा शुभग्रह से संबंध करता होवेतो धर्म कार्यमें धनक्षय होताहै ८९

\* शुक्र गुरु अथवा चंद्र बुध व्यय १२ स्थान में स्थित होवे तो धर्म ५ में धन का नाश होता है ९०

भ्रातृकृत धननाशयोग

अंत्येशेल्यत्रले भौमसंबंधे भ्रातृकृतो धननाशः ॥ ९१ ॥

टीका—व्ययम्यानकास्वामि निर्वलीहोवे और मंगल से संबंध करता होवेतो भाई धनकानाश करताहै ॥ ९१ ॥

मातृकृतधननाशयोग

सुखेश संबंधेत्येशे मातृकृतो धननाशः ॥ ९२ ॥

टीका—चारमे स्थानका स्वामि निर्वलीहोवे और सुखेश ४ से संबंध करताहोवेतो माता धननाशकरतीहै ॥ ९२ ॥

पुत्रकृतधननाशयोग

व्ययपेल्यत्रले पुत्रेश संबंधे पुत्रकृतो धननाशः ॥ ९३ ॥

टीका—व्ययेश निर्वलीहोवे और पुत्रेश (पंचमेश) से संबंध करताहोवेतो पुत्र धनको नाशकरताहै ॥ ९३ ॥

शत्रुकृत धन नाश योग.

व्ययेशे बलहीने गुलिकादियुते वा पण्डेशसंबंधे शत्रु  
तो धननाशः ॥ ९४ ॥

धनेशोरिगे शत्रुकृतो धननाशः ॥ ९५ ॥

टीका—व्यय १२ स्थानका स्वामि निर्वली होवे और गुलिक ग्रहि मंगल राहु आदिपापग्रहसे युतहोवे अथवा पण्डेश से सम्बंध करता होवे तो शत्रु क सबब से धनका नाश होताहै ॥ ९४ ॥

टीका—धनस्थानका स्वामि छठेस्थानमें जायतो शत्रु धनका नाश करताहै ॥ ९५ ॥

जाया कृत धननाशयोग

क्रुरांत्येगेल्यत्रलेजायेशमम्बंधेजायाकृतो धननाशः ९६

टीका—चारमे स्थानका स्वामि क्रुर ग्रह [ म० म० श० ] केनवांश में स्थितहोकर निर्वली होवे और सप्तमेश से सम्बंध करता होवे तो स्त्री धनकानाश करती है ॥ ९६ ॥

## पितृकृतधननाशयोग

व्ययेशे स्वेश संबंधे पितृकृतो धननाशः ॥ ९७ ॥

टीका-व्ययेश अल्पवलीहोवे और दशमेशसे संबंधकरताहोवेतो पिता धनकानाशकरताहै ॥ ९७ ॥

## धननाशयोग

धनेने चंद्रदृष्टे धनहानीः ॥ ९८ ॥

क्षीणेदावर्थे ज्ञदृष्टे संचित धननाशः ॥ ९९ ॥

राहर्कजायर्थे शुकेदुयुतराशीशयुते कुमार्गव्ययः १००

कोशकुजेथनाशोग्निचौरादितः ॥ १०१ ॥

त्रिकोणेजीवे भोजने धननाशः ॥ १०२ ॥

कोणेश संबंधी योर्धगेहेग्रह स्रिके शयुतो धननाशकः १०३

टीका-धनभावमेबुध, चंद्रमासे दृष्टहोवेतो धनहानि होतिहै ॥ ९८ ॥

क्षीणचंद्रमा धनभायमे होवे और उस्कोबुधदेस्रता होवेतो संचित कियेहुवे धनका नाश होताहै ९९

धनभायमे राहु शनि शुक्र और चंद्रमा, निसराशिके होवे उस के स्वामी से युत होवेतो कुमाग मे धनका सर्व अधिक होताहै १००

धनभाय मे मंगल होवेतो अग्नि भयया चौर यगेरा से धनकानाश होताहै १०१

नयमे पांचमे भावमे गुरुहोवेतो भोजन के ( जीमने जिमाने के ) काममे धनकानाश होताहै १०२

जोग्रह धनभावमे, नयमे पाचमे स्थानके स्वामी से सम्बध करताहोवे और ६।८।१२ स्थानके स्वामी से युत होवे वहधननाश कारक जानना १०३

## निर्धनयोग

लाभार्थात्येग्राहुः शयने निर्धनो जमतेमहीम् ॥ १०४ ॥

लानेगर्धेग्रेरोगे मार्गेशयुते निर्धन. ॥ १०५ ॥

षष्टेशेगे लग्नेशेषष्ठे मारकेशयुते निर्धनः १०६

चंद्रार्काविंगेमारकेश युतदृष्टे निर्धनः १०७

टीका-शयना वस्थान मे गयाहुवाराहु ग्यारवें दूसरे अथवा चारमे भावमे जायेतो धनकेलिये भूमिपर भटकताफिरता रहनेपरभी निर्धन होताहै १०४

लग्नेश भाठमे और अष्टमेश लग्नेमे दूसरे तथा सातमेस्थानके स्वा मीसे युत होवेतो निर्धन होता है १०५

छठेस्थान का स्वामि लग्नेमे और लग्नका स्वामी छठेस्थान मे दूसरे तथा सातमे स्थानके स्वामी से युत होवेतो निर्धन होताहै १०६

लग्नेमे चंद्र और सूर्य ये दोनो दूसरे तथा सातमे स्थान के स्वामि से युत तथा दृष्टहोये तो निर्धन होताहै ॥ १०७ ॥

दरिद्रियोग.

धनकारकात् धनेवेदेशरेपापे दरिद्री १०८

स्वकारकात् त्रिपष्टे शुभे दरिद्री १०९

श्वेशुभा धनेपापा दरिद्री ११०

टीक-धनकारक ( गुरु ) से दूसरे, चौथे, तथा पांचमे, स्थानमे पापग्रह होवेतो दरिद्री होताहै ॥ १०८ ॥

धनकारक [ गुरु ] से तीसरे, छठे स्थानमे शुभग्रह होवेतो दरिद्री होताहै ॥ १०९ ॥

दूसरे भावमे पापग्रह और दशमे शुभग्रह होवेतो दरिद्री होताहै ११०

महादरिद्रियोग.

धर्मशान्त्येत्येशैर्ये तृतीयगेपुपापेपु महादरिद्री १११

केंद्रगाश्वंद्रेज्यमंदागुंलिकारौसुतांत्याष्टमगौमह्लादरिद्री ११२

एकभस्थौ पुष्पवंता वन्योन्यांशगौ सदादरिद्री ११३

पुष्पवंतोघ्ने शेपानीचर्क्षगा राजपुत्रोपि दरिद्री ११४

ज्ञेद्वारयमा नीचगा मृगेशुक्केराजपुत्रोपि दरिद्री ११५

### नीचेर्ककोणे रंध्रेभौमे राजपुत्रोपि दरिद्री ११६ ,

टीका-नवमे स्थानका स्वामि वारमे, वारमे भावका स्वामी धनभावमे, और तीसरे भावमे दोतीन पापग्रहजाये तो महादरिद्रीहोताहै १११

चंद्र गुरु और शनि १।४।७।१० मे स्थानमे जाये और गुलिफ व मंगल ये दोनो पाचवे वारवे तथा भाठमे स्थानमे हावेतो महादरिद्री होताहै ११२

सूर्य और चंद्रमा य दोनो एक राशीमे होवे और सूर्य, चंद्रके नवाश मे व चंद्रमा भूयके नवाशमे ( वरके राशीके नवाश मे सूर्य और सिंह राशी के नवाशमे चंद्रमा ) होवेतो सदादरिद्री होताहै ११३

सूर्य और चंद्रमा ये दोनो कुंभराशीमे होवे और शेष सर्व ग्रह नीच राशीमे गय हावे तो राजाका पुत्र हानता भी दरिद्री होताहै ११४

बुध, चंद्र, मंगल, शनि ये चारो नीचराशीके होवे और मकर राशी का शुक्र हावे ता राजकापुत्रहोवे तो भी दरिद्री होताहै ११५

नीचराशीका सूर्य नवमे तथा पाचमे होवे और भाठमे भावमे मंगल होवेतो राजाकापुत्रभी दरिद्रीही होताहै ११६

सर्व संपत्तमान् योग

अंगेशोगुरु ज्ञकवियुतः केन्द्रगः सर्वसम्पदन्वितः ११७

स्वोच्चेस्वामित्रेवा शुभभे शुभैर्दृष्टेङ्गेशो संपत्तिमान् ११८

धनेरोज्यौ धनेर्केन्द्रे संपत्तिमान् ११९

देवलोकारोके सवलेङ्गेशो सम्पत्तिमान् १२०

लग्नेशेवलवाति शुभमर्गकेन्द्रपयुते सम्पत्तिमान् १२१

लग्नेके शुभैर्दृष्टे स्वङ्गेशो सम्पत्तिमान् १२२

केन्द्रार्थकोणे लग्नेशेज्ययोगे सम्पत्तिमान् १२३

लाभोस्येषुसौम्येषु सम्पत्तिमान् १२४

धर्मशेङ्गे तुयकेशो स्वभावानलोपिनौ सम्पत्तिमान् १२५

टीका-लग्नका स्वामि गुरु, बुध गुरु से युक्त होके ११४।७।१० मे स्थानमे स्थित होवेतो सर्वसम्पदन्वित होताहै ११७

लग्नेश्वर स्व, उच्च, तथा अपनि मित्र, राशीका अथवा शुभ ग्रहकी राशी फा होवे और उस्को शुभग्रह देखते होवेतो सम्पत्तिमान् होताहै ११८

धनभावका स्वामी और गुरु ये दोनो १।२।१४।७।१० स्थानमे जावे तो सम्पत्तिमान् होताहै ११९

देवलोकाश मे सूर्यहोवे और लग्नेश्वर बलवान् होवे तो सम्पत्तिमान् होताहै १२०

लग्नेशबलवान् होवे शुभग्रहोके वर्गमे जावे केन्द्रके स्वामि से युत होवे तो सम्पत्तिमान् होताहै १२१

लग्नमे सूर्य शुभग्रहोसे दृष्ट होवे और लग्नका स्वामी दशम भावमे हावेतो सम्पत्तिमान् होताहै १२२

लग्नेश्वर और गुरु इन दोनुका एकराशिमे योग १।४।७।१०।२।१।५ स्थानमे होवेतो सम्पत्तिमान् होताहै १२३

ग्यारमे और पाचवे स्थानमे सर्व शुभग्रह गयेहोयेतो सर्व सम्पत्तिमान् होताहै १२४

नवमस्थानका स्वामि लग्नमे होवे चतुर्थका स्वामि चतुर्थ को और नवमका स्वामि नवमभावको देखता होवेतो सम्पत्तिमान् होताहै १२५

बहुकुटुंबीयोग

सप्तौम्येथंशेथे केन्द्रेवा कुटुम्बी १२६

धनेधनेशे वा शुभमभ्यन्धे कुटुम्बी १२७

टीका-धनभावका स्वामि शुभग्रह से युक्त होके दूसरे भाव मे होवे अथवा केन्द्र १।४।७।१० स्थानमे जावेतो कुटुम्बवाला होताहै १२६

धनभावका स्वामि धनभावमे होवे अथवा धनेश शुभग्रहसे सम्बंध करताहोवेतो बडेकुटुम्बवाला होताहै १२७

विंशतिजन पालक योग.

धनेरो शुभैर्युते परावतांशे विंशतिजनपालकः १२८

टीका- धनभावका स्वामी शुभग्रहोसे युत होवे और पारावतांशमे स्थित होवे तो वीस मनुष्यो को पालनेवाला होताहै १२८



पंचाशज्जनपालकयोग.

धनेशगोपुरांशे धनेशांशपेशुभे सिंहासनांशे पञ्चाशज्जन

पालकः १२९

टीका-धनेश गोपुरांशमे होवे और धनभाक्के स्वामीका नवांशका स्वामि शुभग्रहहोवे और वह सिंहासनांशमे गयाहोवेतो पचास मनुष्यो को पालने वाला होताहै १२९

त्रिशतजनपालकयोग.

धनेशसिंहासने वा पारावतांशे जीवयुतदृष्टे त्रिशत जन

पालकः १३०

टीका-धनभावपति सिंहासनांशमे होवे अथवा पारावतांशमेहोवे और गुरुसे युत किंवादृष्टहोवे तो तीसरो मनुष्यो को पालन करनेवाला होताहै १३०

अनेकजनपालकयोग.

सिंहासनांशेजीवे गोपुरांशेशुके धनेशे ऐरावतांशे अनेकजन

पालकः १३१

टीका-सिंहासनांशमे गुरु, गोपुरांशमे शुक्र, और ऐरावतांशमे धनेश होवेतो अनेक मनुष्योको पालन करनेवाला होताहै १३१

अनादरयोग.

सपापेष्टमेशे पादृष्टे पापांतरे पापक्षेवा रन्ध्रे वातथाभूते

पारिभवान्वितोन्यथा तद्धीनः १३२

टीका-अष्टमेश अथवा अष्टमस्थान पापग्रहसे युतहोवे, पापग्रहसे दृष्टहोवे, पापग्रहको बीचमेहोवे वा पापग्रहकी राशीमे गयाहोवे तो अनादर पनेवाला होताहै ( कर्हाभी आदरनही होवे ) और शुभग्रहसे युतदृष्ट शुभग्रहको बीचमे शुभग्रहकी राशीवा अष्टमेश अथवा अष्टम भागहोवेतो संत्र आदरपानेवाला होताहै १३२

सम्पत्तीनयोग.

वृगर्के मीनेचन्द्रे मेपेमन्दे कर्केभीमे सम्पत्तीनः १३३

भाग्येशे व्यये केन्द्रेपापे धनादिहीनः १३४

टीका—वृषभराशी का सूर्य, मीन का चंद्र, मेष का शनि, और कर्क का मंगल, होवेतो संपदारहित होताहै १३३

नवमे भावका स्वामी वारमे होवे और १।४।७।१० स्थानमे पापग्रह गये होवेतो धनादि सम्पत्तीहीन होताहै १३४  
परिवारक्षय योग.

लग्नान्त्यारते सर्वे परिवारक्षयः १३५

इतिद्वितीय धनविवेकः

टीका— लग्नमे वारमे और सातमे स्थानमे सर्व ग्रह गयेहोवे तो परिवारकाक्षय होताहै (परिवारके सर्वलोकोका नाश होजाताहै) १३५

विशेषप्रकारके धनयोग

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ( १ ) भाग्येश लाभेशयोग.    | ( १२ ) लाभेश धनेशयोग.      |
| ( २ ) भाग्येश दशमेशयोग.    | ( १३ ) लाभेश चतुर्थेशयोग.  |
| ( ३ ) भाग्येश चतुर्थेशयोग. | ( १४ ) लाभेश लग्नेशयोग.    |
| ( ४ ) भाग्येश पंचमेशयोग .  | ( १५ ) लाभेश पंचमेशयोग.    |
| ( ५ ) भाग्येश लग्नेशयोग.   | ( १६ ) लग्नेश धनेशयोग.     |
| ( ६ ) भाग्येश धनेशयोग.     | ( १७ ) लग्नेश चतुर्थेशयोग. |
| ( ७ ) दशमेश लाभेशयोग.      | ( १८ ) लग्नेश पंचमेशयोग.   |
| ( ८ ) दशमेश चतुर्थेशयोग.   | ( १९ ) धनेश चतुर्थेशयोग.   |
| ( ९ ) दशमेश लग्नेशयोग.     | ( २० ) धनेश पंचमेशयोग.     |
| ( १० ) दशमेश पंचमेशयोग.    | ( २१ ) चतुर्थेश पंचमेशयोग. |
| ( ११ ) दशमेश धनेशयोग.      |                            |

ये इकतीस प्रकारके और भी विशेष धनयोगहैं येसर्वयोग व्ययस्थान केसिवाय धनभागमेहोवे भयवा चतुर्थपंचम स्थानमेहोवे तोपूर्णउत्तम फल देनेवालेजानना ।

७ सातमे स्थानमे धनयोगहोवेतो पूर्णफलभाठमेवारमे होवेतो आधाफल ६ छठेहोवेतो चतुर्थांशफल दातासमझना. अथवा ग्रहबहुतनजीक २ ( बहुतनां ५ भंशकेफरकसे ) होवेतभियोगजानना.

## दारिद्र्ययोग.

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| [ १ ] पष्टेश धनेशयोग.     | [ १२ ] व्ययेश सप्तमेशयोग. |
| [ २ ] पष्टेश लग्नेशयोग.   | [ १३ ] पष्टेश भाग्येशयोग. |
| [ ३ ] पष्टेश चतुर्थेशयोग. | [ १४ ] पष्टेश तृतीयेशयोग. |
| [ ४ ] व्ययेश धनेशयोग.     | [ १५ ] व्ययेश भाग्येशयोग. |
| [ ५ ] व्ययेश चतुर्थेशयोग. | [ १६ ] व्ययेश तृतीयेशयोग. |
| [ ६ ] व्ययेश लग्नेशयोग.   | [ १७ ] पष्टेश लाभेशयोग.   |
| [ ७ ] पष्टेश दशमेशयोग.    | [ १८ ] पष्टेश अष्टमेशयोग. |
| [ ८ ] व्ययेश दशमेशयोग.    | [ १९ ] व्ययेश लाभेशयोग.   |
| [ ९ ] पष्टेश पंचमेशयोग.   | [ २० ] व्ययेश अष्टमेशयोग. |
| [ १० ] पष्टेश सप्तमेशयोग. | [ २१ ] पष्टेश व्ययेशयोग.  |
| [ ११ ] व्ययेश पंचमेशयोग.  |                           |

ये इकतीस प्रकारके विशेष दारिद्र्ययोगहै. येयोग धनस्थानमे वा दारिद्र्यभागमेहोचितो पूर्णबलवान्जानना व्ययस्थानमेहोचितो पादोन ( पोन ४५ ) और दुसरेस्थानमे ह्यतो अर्धबलजानना.

उपरोक समस्त धन और दारिद्र्य योगों का विचार करने से जितने जोभोग भावे वे क्रमसे (धनयोग) धनयोगके तरफ और दारिद्र्ययोग दारिद्र्ययोगके तरफ जुदे २ अक २ याजु क्रमसे लिखना और उनके बला बलका विचार करके देखना यदि धनयोगकी अपेक्षा दारिद्र्य योग अधिक बलवान् होगये होवेतो धनयोग होतेहुवेभी दारिद्र्य योगकी प्रबलता ही रहेगी। अत्र यदि दारिद्र्य योगकी अपेक्षा धनयोग अधिक संख्या का और बलवान् होवेतो धन योगकी प्रबलता होनेके कारण दारिद्र्य योग होतेहुवेभी धनयोग की ही प्रबलता होवेगा.

इसप्रकार उभय योगोंमेसे जोयोग बलवन्तर होवे वही फल बलाबल के तारतम्यानुसार जानना.

इनमेभी विशेष सूक्ष्म विचार पूरक देखने से धन और दारिद्र्य योग के बलाबल के तारतम्य भेदसे ही श्रीमंतका दरिद्री और दरिद्री वा श्रीमंत तथा श्रीमंतके महा श्रीमंत और दरिद्री के महा दरिद्री होतेहै उनका विचार इसप्रकार जानना.

गरीब क्रिया श्रीमंत स्थिति मेसे कोईभी स्थितिमे जन्म क्योंहो

परंतु इतना निश्चिन है कि गरीब स्थिती में जन्म होके जो मनुष्य श्री मंत होजाते हैं उनके धनयोग श्रीमंती की स्थिति में जन्म पानेवाले मनुष्यके धन योगसेभी बलवत्तर होते हैं। ऐसे दोमनुष्यों कि कुंडली देखनेसे जान पड़ेगा कि पहिला श्रीमंत व दूसरा चोढ़ कितनाही श्री मंत है तथापि सामान्य दिखेगा। इसी प्रमाणे जन्मभर सामान्य स्थिति भोगने वाले कि अपेक्षा किंवा जन्म दरिद्री मनुष्यकी अपेक्षा जो मनुष्य श्रीमंत के यहां जन्म लेके भागे बिलकुल दरिद्री होनेवाले हैं उन के यह दारिद्र्य योग करने वाली स्थितिमें अधिक बल वत्तर होंगे।

देशकाल व जातिपरत्व से धनयोग के फल मिलते हैं हिंदुस्थान में जन्म पाये हुए मनुष्य के जो उत्तम धनयोग होवे वही योग जो आज के समय में अमेरिका जर्मन भयवा इंग्लंड देशोंमें किसी मनुष्य के होवेतो वह कौटचाधीशहोये बिना रड़ेगानही और हिन्दुस्थान में उसी उत्तम धनयोग वाला बहुत हुआ तो लक्षाधिश होजाताहै ऐसहि यह हिंदुस्थान मभी यदि किसी भिल्ल वगैरा नीच जातीवाले के भाजावे तो वह बहुत हुआतो बेफिक्री से पेटभर खाने कमाने वाला होसकता है इससे अधिक उसकी श्रीमंतीकी दोह जानेवाली नहीं सारांश, धन योग का फल परिस्थिती के प्रमाणसे प्राप्तहोवेगा।

ज्योतिष शास्त्र से हि इस बातका निर्णय होना चाहिये यह बात बराबरहै परंतु इतनी सूक्ष्मता समझने कि मनुष्य में सामर्थ्य नहीं इस लिये अपनेका देश, काल, जाति, परिस्थिती, के तरफ लक्ष देके विचार करने के शिवाय दूसरा साधन नहीं.

कुंडलोंमें भाग्यभवन को भादिले धनभाव पर्यंत ६ स्थान "धनभाग" और सहजभावसे अष्टमभावपर्यंत ६ स्थान "दारिद्र्यभाग" के जानना १ धनयोग और दारिद्र्ययोग ये दोनोंयोग यदि धनभागमेंहों और धनयोग उत्तम प्रबल बनेहोवेतो मनुष्य गरीब के घरमें जन्मपाकर भी गरीबी की स्थिती से निकलके श्रीमंतों (उन्नतों) पायेबिनारड़ेगानही परंतु यदि दारिद्र्ययोग की शक्ति अधिकहोवेतो वहकितनाहि उलट मुलट प्रयत्नकरेगा तथापि मूलकी स्थितिमें विशेष बदलाता होनेवाला नहीं, और दारिद्र्ययोग यदि बिलकुलही नहींहोवेतो वहमनुष्य भाग्य गान श्रीमंतीभोगगा और रंककारान हुयेबिना रड़ेगानही, धनयोगही मूलमेंहीहोवेतो किसी तरसे कष्टसे पेट भरवा रहेगा.

२ धनयोग और दारिद्र्ययोग यदि ये दोनूनों का योग दारिद्र्यभागमें हुये होवे ऐसे समय यदि धनयोग की शक्ति अधिक बलवान् होवे तो मनुष्य गरीब स्थितिमें होतुहुवे भी उन्नतिपानेमें अग्रसर होवेगा परंतु उसका स्वरूप ( मर्यादा ) सामान्य रहेगा और समयभी अधिक लगेगा ऐसा मनुष्य नं० १ के योग के मनुष्यों की अपेक्षा कम योग्यताका होवेगा. और यदि दारिद्र्ययोगमूलमें ही नहीं होवे तो मनुष्य मूलमें गरीब होवे तो प्रयत्न से धनवान् होवेगा और धनवान् स्थितिका होवे तो किंचित् धन बढ़ावेगा अथवा जो स्थितिमें वही कायम रहेगा। धनयोग बिलकुल नहीं होवे तो आमरण दारिद्र्यभागकरेगा अथवा श्रीमान के कुलमें जन्म लिया होवेगा तो दिनादिन कंगाल होता जावेगा।

धनयोगकी अपेक्षा दारिद्र्ययोगकी शक्ति अधिक होवे तो किसी समय ठीकस्थिति किसीसमय दुःखी स्थिति भोगना पड़ेगा.

३ धनभागमें धनयोग व दारिद्र्यभागमें दारिद्र्य योग सम समान शक्ति के होवे तो मनुष्य किन्नेक दिन गरीब स्थितिको व किन्नेक दिन श्रीमंती स्थिति को भागेगा। यदि धनयोग की शक्ति अधिक होवे तो गरीबीसे निकलके उन्नति पावेगा और धनवान् स्थितिका होवे तो किंचित् धनबढ़ानेवाला होवेगा। दारिद्र्ययोग की शक्ति अधिक होवे तो उसके नसीबमें या जन्म दारिद्र्यभागना पड़ेगा.

यदि ये योग धनवान् के होवे तो "भरमभारी और टिपारा खाली" ऐसी स्थिति उसके आयुष्यमें जावेगा, अर्थात् पईसा नहीं रहेगा और केवल भरम बनारहेगा।

४ दारिद्र्यभागमें धनयोग व धनभागमें दारिद्र्ययोग होवे तो मनुष्य सधनवरमें जन्म पावे तो आगेदरिद्रीहोवेगा व जन्ममें दारिद्री होवे तो बहुत समय बाद किंचित् दारिद्र्यसे पिढुटुटेगा.

ये योग जिसप्रकार जन्म लग्नपर से देखे वैसीही चंद्र कुंडली पर भी देखना और तारतम्यसे सापत्तिक स्थितिका विचार करना।

इसप्रकार धनयोगका विचार करके निर्णय करने से जो अनुमान ठेरायाजावेगा वह सहसा चुम्नेरालानही यह विचार ज्योतिषीकी अपेक्षा जिसका जो स्वयं करेगा तो बिनचूक अनुमान बंधसकेगा।

धनयोगों के शिवायमे धनभावमे भाईकी स्त्री का मामा, भाईकी काकीसासु, भाईको गुराफरी वा धनहानि स्वप्न, मामाकि भाईकीस्त्री, माताकाँलाभ. मित्रकं पुत्रकीस्त्री, मित्रकाँलाभ, पुत्रकीसासु, पुत्रके मित्रकी स्त्री, पुत्रकाँराज्यसुख. शत्रुके भाईकीस्त्री, स्त्री की मृत्यु, दादा की मृत्यु, दादीकाँ धन सुख, सुसराकाँलाभ, आदिवातोका भि विचार करना.

इतिद्वितीय धनविवेकटीका समाप्तः

## अथ सहजविवेकः ।

बहुभ्रातृभगिनीयोगः,

लग्नलग्नेशान्यतरत द्वावगै र्ज्ञेन्द्वारेज्यै बहुभ्रातरः केतौ-  
तुबहु भगिन्यः ॥ १ ॥

सोत्थेशे स्वर्क्षसौम्यदृष्टे भ्रातृमान् ॥ २ ॥

सोत्थपे सशुभेकेन्द्रे भ्रातृमुखम् ॥ ३ ॥

सोत्थेशुभैर्पुते वा दृष्टे सोत्थपेबलिनिभ्रातृलाभः ॥ ४ ॥

भ्रातृपे कारके वा बलिनी शुभमम्बन्धे भ्रातृलाभः ॥ ५ ॥

जोपुरे सोत्थेशे कारके बिहासने शुभर्क्षे भ्रातृलाभः ॥ ६ ॥

परावने भ्रातृपे केन्द्रे शुभयुतदृष्टे भ्रातृलाभः ॥ ७ ॥

सोत्थपे सौम्यभांशे भ्रातृलाभः ॥ ८ ॥

सोत्थेशोत्थपे बलाब्धे भ्रातृलाभः ॥ ९ ॥

मृदंशादियुते सोत्थपे शुभयुतदृष्टे भ्रातृलाभः ॥ १० ॥

वैशेषिकांशे सोत्थपे शुभयुतदृष्ट भ्रातृलाभः ॥ ११ ॥

पुंभांशे सोत्थकारकेशौ पुंग्रहदृष्टौ भ्रातृलाभे-

वैपरित्येभगिनीलाभो मिश्रे उभयलाभः ॥ १२ ॥

टीका-लग्न तथा लग्नेश से तीसरे और ग्यारवे स्थानमे बुध चन्द्र मंगल गुरु जावे तो बहुत भाई का सुख होताहै और केतु गया होवे तो बहुत भगिनी का सुख होता है. १

तीसरे भावका स्वामि स्वराशिका होवे शुभ ग्रह देखते होवे तो भाई का सुखवाला होताहै २

तीसरे भावका स्वामि शुभग्रह से युतहोवे और केद्र ( १४।७।१० ) स्थानमे गयाहोवे तो भाई का सुखहोता है ३

तीसरा भाव शुभग्रहो से युतहोवे अथवा शुभग्रहो से दृष्टहोवे तीसरे भावका स्वामि बलवान् होवेतो भाई का लाभहोता है ४

तीसरे भावका स्वामि अथवा भ्रातृकारक बलवान् होवे शुभग्रह से सम्बंध करताहोवे तो भाईकी प्राप्ति होती है ५

तीसरे भावका स्वामि गोपुराशमे होवे भ्रातृकारक सिंहासनाशमे होवे और शुभग्रह का राशी मे गयाहोवे तो भाई की प्राप्ति होतीहै ६

भ्रातृस्थान का स्वामि पारावताशमे होवे और केद्र (१४।७।१०) स्थान मे स्थितहोकर शुभग्रह से युत दृष्टहोवेतो भाई का लाभ होताहै ७

तीसरे भावका स्वामि शुभराशी और शुभराशी के नवाशमे होवेतो भाई का लाभ होताहै ८

तीसरे स्थानमे तीसरेभावका स्वामी गयाहोवे बलवान् होवेतो भाई का लाभहोता है ९

तीसरे भावका स्वामि मृदंशादिक से युतहोवे और शुभग्रह से युत दृष्ट होवेतो भाई लाभ होताहै. १०

तीसरे भावका स्वामि वैशेषिकाशमे होवे शुभग्रहसे युतदृष्ट होवेतो भाई का लाभ होताहै ११

तीसरे भावका स्वामि और भ्रातृकारक ग्रह ये दोनों पुरुपराशी (१।३।५।७।९।११) और पुंरुपराशी के नवाशमे गये होवे इनको पुरुग्रह ( र. मं गु ) देखते होवेतो भाईका लाभहोवेगा और इनसे विपरीत

होवे अर्थात् दोनोग्रह स्त्री राशी और स्त्री राशी के नवाशमे गये होवे और इनको स्त्री ग्रह ( चं. शु. श. ) देखते होवेतो भगिनी का लाभ होवेगा । और मिश्रग्रह देखते होवे मिश्रराशि नवाशमे दोनो ग्रहगये होने तो दोनो का ( भाई बहनका ) लाभ होवेगा १२

भ्रातृ भगिनी संख्या विचार.

मोत्थराश्यंश वशाद्भ्रात्रादि संख्या ॥ १३ ॥

सोत्थग्रह स्यांशका द्भ्रात्रादि संख्या ॥ १४ ॥

सोत्थेशकारयुत भांशवशाद्वातसंख्या ॥ १५ ॥

मोत्थेशयुतभांशवशा त्तसंख्या ॥ १६ ॥

स्त्री खैटैर्धर्मगै भगिन्यो नृखैटैर्भ्रातरः ॥ १७ ॥

ज्ञेज्यौधने कन्यायांराहौ भ्रातृत्रयम् ॥ १८ ॥

टीका-तीसरे स्थानमे जितनी राशीहोवे वा जितने नवांश गये होवे उतनेहि भाई बहन की संख्या जानना १३

तीसरे भावमे गयेहुवे ग्रहके नवाश की संख्या के अनुसार अर्थात् जितने नवाशगये होवे उतनेहि भाई बहन की संख्या जानना १४

तीसरे भावका स्वामि और कारक ये दोनो जितनी संख्याके राशी अथवा नवाशमे होवे उतनीही संख्या भाई बहनकी जानना १५

तीसरे भावका स्वामि जितनी राशी और नवांशमे गयाहोवे उसके वशात्भाईबहन की संख्या जानना १६

नवमे भावमे जितने स्त्री ग्रह गयेहोवे उतनीही संख्या बहिन जानना और जितने पुरुषग्रह गयेहोवे उतनीही संख्या के भाई जानना यदिग्रह वक्रअथवा उच्चरशी के होवेतो तीनगुनी संख्या जानना एवं स्वक्षेत्री होवेतो द्विगुण संख्या जानना ऐसेहि नीच शत्रुक्षेत्री होवेतो आधी संख्या जानना १७

वृथ गुरु धनभावमे गयेहोवे और कन्यारशिका राहु होवेतो तीन भाई जानना १८



भ्रातृहीनयोग.

विक्रमेशारौ त्रिकस्थौ भ्रातृहीनः ॥ १९ ॥

पष्टेसोत्थपारौ पापभगौ पापयुतौवा भ्रातरउत्पद्यनश्यंति २०

भ्रातृकारके नीचक्षशे पापदृष्टे दुःपष्टचशे भ्रातृहानिः २१

सोत्थेपापयुत दृष्टे भ्रातृहानिः ॥ २२ ॥

भ्रात्रीशेषापांतरे भ्रातृहानिः ॥ २३ ॥

पपांतरेसोत्थे नीचस्वेटान्विते वा शुभादृष्टे भ्रातृहानिः २४

सोत्थपांशेशे पष्टे नीचास्तारिगे भ्रातृहानिः ॥ २५ ॥

भ्रातृकारके पापान्तरे भ्रातृहानिः ॥ २६ ॥

भ्रातृपे सोत्थे क्रूरपष्टचशे पापदृष्टे भ्रातृहानिः ॥ २७ ॥

सहजेशशेशेश्वरशेशेपष्टे भ्रातृहानिः ॥ २८ ॥

सोत्थेशशेशेश्वरांशेशे नीचास्तारिभेभ्रातृहानिः ॥ २९ ॥

सोत्थेपे वा कारकेत्रिके पापेक्षितयुतेस्वोच्चेवा भ्रातृहानिः ३०

सोत्थगैःशपैर्बाल्ये भ्रातृहानिः ॥ ३१ ॥

सोत्थपेतत्कारके वा पापैर्युते वा भ्रातृहानिः ॥ ३२ ॥

सिंहेकेङ्के भ्रातृहानिः ॥ ३३ ॥

धनगाःपापाःसहजेराहौ भ्रातृहानिः ॥ ३४ ॥

भोमात्सोत्थेपापे भ्रातृमुखंन ॥ ३५ ॥

टीका—तीसरे भावका स्वामि और मंगल ये दोनु ६।८।१२ स्थानमे

येहोवेतो भ्रातृहीन होवे १९

तीसरे स्थानका स्वामि और मंगल ये दोनोग्रह छठेस्थानमे पाप-

की राशीकेहोवे भयया पापग्रहसे युक्तहोवेतो भाई उत्पन्नहोके नाश

भ्रातृकारकग्रह नीचराशी तथा नीचराशी के नवांशमें होवे, पापग्रह से दृष्टहोवे दृष्ट पष्ट्यंश में होवे तो भ्रातृहानि होवे २१

तीसरा भाव पापग्रह से युत दृष्टहोवे तो भ्रातृहानि होवे २२

तीसरे भावका स्वामि पापग्रहाके मध्यमें ( बीचमें ) होवेतो भ्रातृहानिहोवे २३

तीसरा भाव पापग्रहों के बीचमेंहोवे नीचराशीमें गयेहुवे ग्रहसे युत-होवे अथवा शुभग्रहोंसे अदृष्टहोवेतो भ्रातृहानि होवे २४

तीसरे भावके स्वामिका नवांशका स्वामी छठेस्थानमें नीच अस्त तथा शत्रुराशी में गया होवे तो भ्रातृहानि होवे २५

भ्रातृकारक ग्रह पापग्रहों के बीचमें होवेतो भ्रातृहानिहोवे २६

तृतीयेश तृतीयभावमें पापग्रहोंसे दृष्टहोवे वा कूरपष्ट्यंशमेंहोवे तो भाईयाका नाशहोवे २७

तृतीयेश के नवांशके स्वामीका नवांशका स्वामी छठेस्थान में पाहोवे तो भ्रातृहानिहोवे २८

तृतीयेश के नवांशका स्वामी जिसराशी के नवांशमें होवे उसका स्वामी नीच अस्त तथा शत्रु ग्रह की राशिमें गयाहोवेतो भ्रातृ हानि होवे २९,

तीसरे भावका स्वामि अथवा कारकग्रह त्रिकस्थान ( ६।८।१२ ) में पापग्रह सेयुक्त दृष्टहोवे अथवा अपनी उच्चराशीमें स्थितहोकेभि.

।८।१२ स्थानमें पापग्रहसे युक्तदृष्टहोवेतो भ्रातृहानि होवे ३०

तीसरे भावमें पापग्रहोंका योग अधिक होवेतो बाल्यावस्थामें भ्रातृहानि होवे ३१

तीसरे भाव का स्वामी अथवा भ्रातृकारकग्रह पापग्रहों से युत होवेतो भ्रातृ हानिहोवे ३२

सिहराशी का सूर्य नवमें होवेतो भ्रातृहानिहोवे ३३

धनभावमें दो तीन पापग्रह गयेहोवे और तीसरे भावें राहु होवेतो भ्रातृ हानिहोवे ३४

मंगल से तीसरे स्थानमें पापग्रह गये होवे तो भाई का सुख नहीहोवे ३५

अनुजोत्पातियोग..

लग्नांत्यगौषापी अनुजोत्पत्तिः ॥ ३६ ॥

टीका-लग्न और चारमें भावमें पापग्रहगये होवे तो छोटे भाईका मृत्यु होवे ३६

अनुजहीनयोग.

सोत्थेमंदे भौमदृष्टे अनुजहीनः ॥ ३७ ॥

टीका—तीसरे भावमे शनि जावे उसको मंगल देखता होवेतो छोटा भाई नहीहोवे कदाचित होवेभीतो जीवित नहीरहे ३७

भ्रातारोगीयोग

महजेज्ज वर्गे भौमदृष्टे भ्रातारोगी ॥ ३८ ॥

टीका—तीसरे भाव मे चंद्रमाका वर्ग अधिक होवे और उसको मंगल देखता होवे तो भाई रोगी रहे ३८

भ्रातृत स्नेहयोग

सोत्थांगेशौमित्रे भ्रातृतस्नेहः शत्रूचेद्वैरम् ॥ ३९ ॥

टीका—तीसरे भवका स्वामी और लग्न का स्वामी येदोनो ग्रह परस्पर मित्र होवेतो भाई के साथ मित्रता रहेगा और येदोनो परस्पर शत्रुग्रहहोवे तो भाई केसाथ शत्रुता रहेगा ३९

राजप्रेष्ययोग.

अशे रविशुक्रदृष्टे गजप्रेष्यः ॥ ४० ॥

अंशात्वे ज्ञदृष्टेयुते राजप्रेष्यः ॥ ४१ ॥

टीका—करकाश लग्नको रविशुक्र देखतेहोवेतो राजाकी नोकरी करने वालाहोताहै ४०

कारकाश लग्नसे दशम भाव शुभसेयुतदृष्ट होवेतो राजाकी नोकरी करने वाला होताहै ४१

वियरण—दलकारा, चपराशी, सिपाही, हवालदारको, भादिले नीचे-दजेके मुत्सद्दीगिरी की नोकरी करनेवालोमेसे कोईभी काम कर ने वालेको प्रेष्यकहतेहै ।

भृतकयोग ।

सुरारभदैः शुभदृष्टिहीनैः कर्मगैर्भृतकः ॥ ४२ ॥

मन्दांशे नीचभेशुके व्ययेचंद्राको भृतकः ॥ ४३ ॥

दशमगैः पापैः सौम्या दृष्टैर्भृतकः ॥ ४४ ॥

टीका-सूर्य, मंगल, शनि, येतीनों दशमे भावमे जावे और इनको शुभ ग्रहनही देखतेहोवे तो कोई भीतरहकी मजूरी करनेवाला होताहै ४२

नीचराशी का शुक्र शनिके राशी के नवांशमे होवे और चंद्र सूर्य वारधेस्थानमे गयेहोवेतो कोईभीतरहकी मजूरी करनेवाला होताहै ४३

दशमे भावमे दोतीन पापग्रहजावे औरउनको कोई शुभग्रहनही देखताहोवे तो कोईभी तरहकी मजूरी करने वालाहोताहै ४४

दासान्वितयोग

पट्टेशमाने खेशेमन्द्युत केन्द्रे दासान्वितः ॥ ४५ ॥

राज्ये शुभदृष्ट्याधिक्ये दासान्वितः ॥ ४६ ॥

टीका-छठेस्थानका स्वामीदशमे भावमेहोवे दशमेभावकास्वामि मानीसे युतहोवे केन्द्र (१।४।७।१०)स्थानमे गयाहोवेतो नोकर चाकरोसे युतहोवे ४५

दशमे भावपर शुभग्रहो कीदृष्टि अधिकहोवतो नोकर चाकरो से युतहोवे ४६

बहुदासान्वितयोग.

कर्मेशांशो मंदे पट्टपसंबंधे बहुदासान्वितः ॥ ४७ ॥

नृपेके शुभकर्मपट्टे बहुदासान्वितः ॥ ४८ ॥

टीका-दशमे भावके स्वामिके नवांशकास्वामिशानि छठे भावके स्वामिसे संबंध करताहोवेतो बहुतनोकरोसेयुतहोवे ४७

दशमे स्थानमे सूर्य होवे औरउस्को दशमेस्थान का स्वामि शुभग्रह देखनाहोवेतो बहुत दासो ( नोकरो ) वालाहोताहै ४८

विक्रमीयोगे.

सहजे शुभ दृष्ट्याधिक्ये वा पापयुते वा सहजपे बला-  
ढर्य विक्रमी ॥ ४९ ॥

सहजपे केन्द्र कोणे विक्रमी ॥ ५० ॥

सोत्थांगेशयोगे विक्रमी ॥ ५१ ॥

टीका—तीसरे भागपर शुभग्रहोक्ति अधिक दृष्टि होवे १ अथवा तिसरे भागमें पापग्रह युतहोवे २ अथवा तिसरे भागका स्वामी बलवान होवेतो पराक्रमी होताहै ॥ ४९ ॥

तिसरे भागका स्वामी केंद्रकोण ( १।४।७।१०।१।५ ) स्थानमें जावे तो पराक्रमी होताहै । ५० ॥

तीसरे भागका स्वामि और लग्नका स्वामि इन दोनों का योगहोवे ( दोनों भेक राशिमि ५ अंश के अंतर से अधिक अंतर के नहींहोवे ) तो पराक्रमी होताहै ॥ ५१ ॥

प्रसिद्ध कर्मा जीवी योग

अंशे मंदे प्रसिद्ध कर्मा जीवी ॥ ५२ ॥

टीका—कार काश लग्नमें शनि गयाहोवे तो प्रसिद्ध कर्म करके जीवन व्यतीत करने वालाहोवे ॥ ५२ ॥

काष्ठ पापाणादि विक्रेता योग

पेटशे सोत्थे काष्ठ पापाणादि विक्रेता ॥ ५३ ॥

टीका—छठे स्थानका स्वामि तीसरे भागमें जावेतो लकड़ीवा लकड़ी का बनाहुवा सामान और पापाण (फत्यर) वगैरा का सामान बचनेवाला होताहै ( स्टेशनरी सामान बचनेवाला भी इसी योगमें हाताहै ) ५३

भिक्षुकयोग

मेघचंद्रे भौमदृष्टे भिक्षुकः ॥ ५४ ॥

चंद्रे शुभग्रहीने दासोथवा भिक्षुकः ॥ ५५ ॥

सर्व ग्रहे नीच मूढांशगैः कर्मान्यगै भिक्षुकः ॥ ५६ ॥

अंत्ये गुरौ केंद्रेशनी लग्नेज्जे भिक्षुकः ॥ ५७ ॥

टीका—मेघराशि में चंद्रमाहोव उसको मंगल देखता हावेना भिक्षुक ( भीखमाग के पेटभरने वाला ) होता है ५४ ॥

चंद्रमाको शुभग्रह नहींदेखत हावता दास अथवा भिक्षुक होताहै ५५ सर्वग्रह नीचराशि अथवा नीचराशिके नवाशके तथा भस्नक होवे और दशमे स्थानके बिना दूसरे कोई भी स्थानमें जावेतो भिक्षुक होताहै ॥ ५६ ॥

वारमे भावमे गुरु, केंद्रमे शनि, लग्नमे चंद्रमा गयाहोवेतो (भिक्षु) भीक्षमांगकेपेट भरने वालाहोताहै ॥ ५७ ॥

निन्द्यकर्मा जीवी तथा नीच कर्माजीवीयोग.

चन्द्राद्धेनपुत्रेजीवे ष्टमेशुभे वा पापेनिन्द्य कर्माजीवी ५८

एकस्मिन्ग्रहे मित्रभगेपराजीवी ॥ ५९ ॥

राज्येङ्गेशे त्रिकोणार्थे मन्देपापैर्मृत्युगै नीचव्रत्याजीवी ६०

टीका—चंद्रमासे दूसरे अथवा पांचमेस्थानमे गुरुहोव, और भाठमे स्थानमे शुभ अथवा पापग्रह गयाहोवेतो निन्द्यकर्मकरनेसे आजीविका होवे ॥ ५८ ॥

एकभीग्रह अपने मित्र ग्रह की राशिमे गयाहोवेतो, पराजीवी अर्थात् दूसरेके आधारपर निर्वाहचलाने वालाहोताहै ॥ ५९ ॥

लग्न का स्वामि दशमे स्थानमे और २।५।९ स्थानमे शनि और भाठमे स्थानमे पापग्रहगये होवेतो नीचवृत्तीके कर्मसे जीवननिर्वाह करने वालाहोवे ॥ ६० ॥

पित्रादितःअर्थाप्तियोग.

लग्नाद्वाचंद्रा दर्काद्यैर्दशमगैः पितृ जननां शत्रुमित्रभ्रातृ

स्त्री भृत्ये भ्योऽर्थाप्तिः ॥ ६१ ॥

टीका—लग्नसे अथवा चंद्रमासे दशमे स्थानमेंसूर्य गयाहोवेतो पितासे, चंद्रमाहोवेतो मातासे, मंगलहोवेतो शत्रुसे, बुधहोवेतोमित्रसे, गुरुहोवेतोभ्रातासे, शुक्रहोवेतोस्त्रीसे, शनिहोवेतानाकराकरसे, धनकी प्राप्ति होतीहै ६१

सारावली में विशेषफल इसीप्रकार लिखाहै

चंद्रसं दशमें सूर्य होवेतो—सिद्धारंभ, धनसमृद्ध, उत्तमसत्व, नृपति, जानश्रयवात् पुष्टदेहिहोवे.

” ” भौमहोवेतो—साहसनिरत, प्रत्यंतनिवासी, विषयलुब्ध, क्रूर निषादचरितहोवे.

” ” बुधहोवेतो—विद्वान्, धनवंत, बहुश्रुत, नृपतिसंमत, ख्यात, शिल्पज्ञ, प्राज्ञ, होवे.

चंद्रसे दशमे गुरुहोवेतो—सिद्धार्थ, धार्मिक, धनसमृद्ध, उत्तमचरित.  
नरेन्द्रसाचिव, प्रख्यातहोवे.

” ” गुरुहोवेतो—सुभग, ललितस्वर, पित्तवंत, सिद्धारभ,  
नृपपूजितहोवे.

” ” शनिहोवेतो—रोगी, नि स्व, दुःखान्वित, प्रजाहीन, कर्ममे,  
नित्योद्विग्नमनहोवे.  
वृत्तिविचार.

लग्नेन्दुर्केऽप्यः खेशस्यांशेशा वशाद्वृत्तिवदेत् ॥ ६२ ॥

टीका— लग्न चंद्र और सूर्य इनतीनों मेंसे जो अधिक बलवान् होवे उससे दशम स्थान के स्वामी का नवाश का स्वामी जोग्रहहोवे उसीकधर्मानुसारवृत्ति ( धंधा ) कहना अर्थात् यह जिन० धनवस्तुधातु दिशा समय आदिका कारकहोवे उन्हीउन्ही वस्तुओंके व्यवसाय ( धंधाकरने ) वालाहोवेगा । कितनेककामतहैकि धंधेकाविचार “ भेदका स्पदपतिगाशनाथवृत्त्या ” “ कर्मेंशस्यनवाशराशिपवशाद्वृत्तिवदेत् ” इत्यादिवचनसे रवि चंद्र येजिस ग्रहके नवाशमेहोवे उससे धर्मानुसार धंधाकहना, तीसगामतयहहैकि कुडलीमें लग्नचंद्रमेसे जोबलवानहोवे उससेजोदशमस्थानहै उसकाअधिपति जिसग्रहके नवाशमे होवे उसकेधर्म प्रमाणसेधंधाकहना । इनतीनोंमेंसे प्रथमरीति लग्न चंद्र और सूर्य मेंसे जो अधिकबलसम्पन्नहोवे उससेदशमस्थानका अधिपति जिस राशिके नवाशमे हो उससेस्वामी के धर्मप्रमाणे धंधा कहना यहिपूर्वोक्तकल्पना अधिकभारुठ औरगुन्ति युक्त है अतएवे इसप्रमाणे धंधेकी कल्पनाकरना

ग्रहोकाधर्म

सूर्यांशे भैषज्य सुगन्धिसुवर्णोर्णा मुक्तामणिपण्येन मंत्रोपदेश  
रसवाद विनोद मार्गे वृत्तिः ६३

चंद्रांशेशङ्घ मुक्ता प्रवालादि वाणिज्येन कृषि मृद्वाग्निनोद  
मार्गे राज्याङ्गना श्रयेन वृत्तिः ६४

भौमांशे मनःशिला हरितालहिगलुकाङ्गनादिभिः स्वङ्गचक्र

कुन्त चापतोमराद्यैः साहसै र्निग्निक्रियया स्वचल क्रियारम्भे  
धनाप्तिः ॥ ६५ ॥

ज्ञांशेऽक्षराविन्यासेन गणितेन यत्र योगेन काव्येन चित्रपुस्तक  
पत्रच्छेद बाणमाल्यरचना गन्धयुक्तिप्रभृतिभिर्वृत्तिः ६६  
जीवांशे देवब्राह्मण पंडितेभ्यः सुवर्ण लवणांजन गजायाकरे-  
भ्यः क्रियावादेन यज्ञदानतीर्थोपवासगुरुसेवनादिभ्यो वृत्तिः ६७  
शुक्रांशे वज्रमरकत पद्मरागेन्द्र नीलप्रभृतिः रौप्येण लोहै  
र्गाभिः श्रेष्ठमहिषिभिः सुवर्ण गजाश्वव्यापारेण वृत्तिः ६८  
शन्यंशे अध्वगमना दिकेन वध्यघातिक्रिया स्वशरीर ताड-  
नाद्येन भारवाहेण स्वकुलानुचितं कर्मभिः वृत्तिः ॥ ६९ ॥

टीका—लग्नचंद्र तथा सूर्यसे दशम स्थान के स्वामि का नवांश का  
स्वामि सूर्य होवे तो—वैद्यकी ( वैद्य भयवा डाक्टरों का मसे, ) अत्तर  
तेल वगेरा सुगंधी पदार्थोंसे, सुवर्णके लेनदेनसे, ऊनी कपड़ोंके व्यापार  
से, मोति मणि वगेरा की दुकान से अच्छी सलाह या राय देनेसे, घी  
गुद्द शक्कर वगेरा षड्रस के व्यापारसे, मुकद्दमेवाजीसे, हसी मुग्गी  
के खेल तमाशोंके रस्तेसे अथवा कितनोक का मत है कि इनके शिवाय  
घास लकड़ी और धान्यके व्यापारसे वृत्ति होवे ६३



व्यापारसे तलवार चक्र भाला घनुष्य तोपर बन्दूक तोप आदि  
अस्त्र शस्त्रोंके व्यापारसे साहस कर्मोंके करनेसे, अग्नि के सहा-  
यनासे होनेवाले सुनार, लुहार, आदिके काम से लड़ाई से  
वाद विवाद आदि स्वबल क्रियारंभसे तथा कितनेक के मतसे चोरी,  
सिपाहि, विजली, सम्बन्धी कामकरने से, रसोई करनेसे, तथा छटीक  
का काम करने से वृत्ति होवे ॥ ६५ ॥

लग्न चन्द्र अथवा सूर्य से दशमे स्थान के स्वामी का नवाशका स्वामि  
बुधहोवेतो—मुन्दर अक्षर लिखनेस गणित के कामसे (द्विसाक्षके कामसे),  
यंत्रकला कौशल्य के काम से कविता करने से दूर्द्धिग (चित्र लेखन)  
के कामसे पुस्तककी बधाई पुस्तकबनाई आदि कामसे पत्रके फुल  
पत्ती आदि काटके बनानेके कामसे बाणरचना तथा पुष्पके द्वार  
गजरे गेद पंख शय्या आदि रचना के कामसे धूप भगरपत्ती उबटना  
आदि सुगंधी पदार्थोंके व्यापार से तथा कितनेक के मतसे वक्तृत्व  
(व्याख्यान तथा बालनके कामसे) शास्त्राध्ययन और ज्योतिष के  
धंधासे तथा बुद्धिसामर्थ्यके धंधेसे शिक्षक के कामसे बुकसेलर के  
कामसे कागद के व्यापारसे वपासन अथवा नेमणुक लेकर रहनेवाला  
ऐसा धंधा करने से वृत्ति होवे ॥ ६६ ॥

लग्नचंद्र अथवा सूर्य से दशमे स्थानके स्वामिके नवाशका स्वामि  
गुरुहोवेता—देव ब्राह्मण तथा पंडित के सबधी देवपूजन यज्ञ याग  
अनुष्ठान तथा शास्त्रीय पुराण कथा बार्ता व्याख्यानादि धर्मोपदेशक  
कामसे सुवर्ण लवण सुरमा आदिके तथा द्वाधी के व्यापारसे भूगर्भस्थ  
खदानोंके व्ययसायसे कमकाटादि क्रियावाःसे दान तीर्थ उपवास गुरु  
सेवनादि कायस तथा शिक्षक संन्यासी वेदाती योगी हरदास बन्नील  
बेरिस्टर सोलीसीटरके कामसे मसलतदार भक्त साधु भाइदेदार  
मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीश के कामसे व लोकमें मुख्या आदि के  
काम से वृत्ति (धंधा) होवे ॥ ६७ ॥

लग्न चंद्र तथा सूर्य से दशमेस्थान के नवाशका स्वामि शुक्रहोवेतो—  
हीरा मरकतमणि पद्मराग इद्रनीलमणि आदिके व्यापारसे चादी,  
लोहा, सोना, मुंदर गौ, भैंस, गज, भश्व, आदि के व्यापारसे तथा दूध  
दही गुड व स्त्रारपदार्थ के व्यापारसे तथा कितनेक के मतसे दारुके

काममे रहने वाला, कपड़े सुगंधीपदार्थ व फूल बेचने वाला नाटक मे पार्टलानेवाला अलंकारदागदागीनेबेचना तथातप्पार करनेका धंधाकरनेवाला होवे ॥ ६८ ॥

लग्न चंद्र तथा सूर्य से दशमे स्थान के स्वामिके नवांश का स्वामी दानिहोवेतो-चपरासी इलकारा तथाजिन को रस्तेमे जादा चलना फिरनापडे जैसे कामकरनेवाला, आंइदेदारकेकाममे स्न हिंसा व चोरी करने से अपने शरिर को ताडनादि दुःखदेनेसे डमाली मजूरी आदि स्वकुलानुचिन कर्म करनेसे तथा छापाखाने का मालिक अथवा उसमे नोकरी करनेसे खेती व बागवगीचेका काम करनेसे देवालयेमे नोकरी करने से कभी कभी ईश्वरभक्ति मंदिरमेपूजा करनेका और सम्वाद पढुवानेका धंधा करनेवाला हावे ॥ ६९ ॥

पाश्चात्यलोक धंधाकेविचार करने मे जन्म कुंडली मे दशमस्थानमे गई हुई राशी तथा चलवान् राशि और राशियामे गयेहुवे ग्रहोके धर्माः नुसार वृत्तिका निर्णय करते है । उनलोगोका कथन है कि मेष, वृषभ, सिंह, व मकर य राशी धातु इमारतबांधना सोनारगा काम और यांत्रिकविद्या इनका बोधकरती है.

मिथुन तुल व कुंभ ये तीनो शास्त्रीय राशिये है इसकारण निसकानने तर्क, शास्त्र, व बुद्धिचातुर्य का उपयोग विशेषहोवे वेरे काम के करने वाले लोक उत्पन्न करती है.

मेष सिंह धनये अग्निराशि अग्निसे अथवा वाफसे अथवा बिजलीसे चलनेवाले कारखानेका धंधे करनेवाला, हथियारोंका कारखाना चलाने वाला लुहार व भयंकर रितिके कामकरनेवाले लोक तय्यार करती है। जब बहोतसे ग्रह इन राशियों मे बलवान् होयें तो ऐसा धंधा करने वाला होता है.

जब बहुतसे ग्रह कर्क वृश्चिक और मीन इन जलराशियोंमें गयेहोवेतो पाणीसरीखी पतलीद्वा सोडावाटर लिमॉनेट, भर्क, गुलाबजल, लवेटर और तेरहवार अनेक प्रकारकी दारुचबनेवाला बलालीका धंधा करनेवाला तथा मच्छीका बेपारी होताहै.

जो बहुत ग्रह शास्त्रीय राशियोंमें गयेहोवेतो उक्तप्र विद्वान् पुस्तक लिखक संपादक अथवा कपडेका बेपारी होवेगा.

जो बहुतग्रह पृथ्वी (वृष कन्या मकर) राशियोंमेंहोवेतो इमारत बांधनेका काम खेतीका काम भूमि संबंधका व्यवसाय करने मे प्रवीण होताहै.

जब बहुत ग्रह मेष सिंह धन इन अग्निराशियोंमें गये होवेतो लुहार सुतार सोनार कारीगर का कामकरनेसे घोंटा बगेरा चतुष्पदका व्यापारी चाबुकसवार ईजनीयर व लोह का काम करनेवाला दलाल और सेनामें हरके प्रकार की नोकरी करने वाला होताहै।

बुध मंगल व शनि बलवान् होकर एकत्र होवेतो मनुष्य चोर लुटारु चदमाशवे कायदे शिर काम करने वाला बहुत बुरे लोकों का भगुभा होताहै.

शुक्र बुध मंगल एकत्र होवेतो खोदाइका वारीक नकाशीका काम करनेवाला चित्र कारीका काम करने वाला कारीगर मनुष्य होताहै.

चंद्र शनीसे दुषित हुवा होवेतो उस मनुष्यने स्वतंत्र धंधाकरना नही पांतीदार होवेतो उसमे भागेहोना नही ऐसा मनुष्यने नोकरी करनाहि अच्छाहै इसीमे भाग्योदयहोवेगा.

पश्चात्त्य ज्योतिषी इसतत्त्व के आधारपर धंधेकी कल्पना करते है। राशिवग्रह इतका उपरोक्तनत्वानुसार विचार करके लग्न चंद्र व सूर्य से दशमस्थानगनराशि, उरुकास्वामी, उसके तवांशकीराशि, और उसराशा का स्वामी, दशम स्थानस्थग्रह, और अधिक ग्रह जिनराशियोंमें जावे उनका विचार करके, धंधे का विचार देशकाल जाति कुल रिवाज और परिस्थितीको ध्यानमें रखके करनेसे बहुत करके धंधे की कल्पनाठीक होवेगा।

लग्नाद्दशमेश श्रावशाद्यस्मिन्नंवाशे वर्तते तदीशोक्तावृत्तिः  
प्रत्यहं ॥ ७० ॥

द्रव्यदा मित्रारिस्वभान्यतरत्रयत्रगतास्तादृशमित्रांजरिध्वो-  
द्योगद्वाराधनातिः ॥ ७१ ॥

धनदोर्कं स्तुङ्गे बलिनि स्वविक्रमा धनम् ॥ ७२ ॥

लग्नार्थायगै स्तौम्यै बलिभिर्बहुप्रकारैर्धनातिः ॥ ७३ ॥

इति तृतीय विवेकः

टीका- जन्म लग्नसे दक्षिण स्थान का स्वामी गे.चरमे राशि धर्मण-  
वशात् जिस समय जिसराशी के नवागमे होवे उसके स्वामिके धर्मा  
नुसार प्रत्यह वृत्ति कहना ॥ ७० ॥

द्रव्य देनेवाला ग्रह अपने मित्र ग्रहकीराशिमें गयाहोवेतो मित्र द्वारा  
शत्रु रीराशिमें गयाहोवेतो शत्रुद्वारा स्वराशिमें गया होवेतो अपने  
उद्योग द्वारा धन प्राप्तिहातीहै ॥ ७१ ॥

धन देने वाला सूर्य अपनी उच्चराशिमें गयाहोवे बलवानहोवे तो अपने  
परा क्रमसे धनकी प्राप्ति होवेगा ॥ ७२ ॥

लग्न धन और लाभ स्थानमें बलवान् शुभ ग्रह गये होवेतो बहुत  
तरहसे धनाप्ति हावेगा ॥ ७३ ॥

इसके सिवाय पराक्रम, भाइके सालेकापुत्र, भाइकेपुत्रकीस्त्रीका  
भाई, मामाकापिता, माताकाव्यय, माताकाकाका, माताकोमुसाफरी,  
माताकीपामी, मित्रकीमामी, मित्रकाकाका, मित्रकाव्यय, पुत्रकेपुत्र-  
कीस्त्री, पुत्रकालाभ, शत्रुकापिता, शालेकीस्त्री, स्त्रीकाभाग्य, नोकर-  
चाकर, उरुत्थल, पिताकारोगशत्रु, दादीकाभाई, दादाकानान्य,  
भादिकाविचारभी तीसरे भावसेदिकरना ।

इति तृतीय विवेक टीका समाप्ता ।



अथचतुर्थविवेकः

मातृदुग्धशोषयोग.

वृश्चिकांशे मानुर्दुग्धशोषः ॥ १ ॥

सोत्थपेत्रिके सचन्द्रेपरस्त्री स्तन्यानि ॥ २ ॥

टीका-चारकांश लग्न वृश्चिकराशिका होवेतो माताका दुग्ध सूक्ष्मावे  
अर्थात् माताके दुग्ध कमतीउतरे ॥ १ ॥तीसर भावका स्वामी ६।८।१२स्वान में होवे और चंद्रमा सप्तुन-  
होवेतो परस्त्रीका स्तनपानकरके परवरीश होवेगा ॥ २ ॥

मातृसुख नाशयोग

खेकुजेष्टमेजीवे बलाढ्ये मातृ सुखन ॥ ३ ॥

पष्टेष्टमेचंद्रे स्तेभौमे सपापे मातृ सुखन ॥ ४ ॥

शुके वाचद्रेनापान्तरे पापयुतदृष्टे मातृसुखन ॥ ५ ॥

सुखे सुवेशे वापापांतरे पापयुतदृष्टेवा मातृसुखन ॥ ६ ॥

चंद्रादस्ते सपापे शुके मातृसुखन ॥ ७ ॥

मंदे पापयुते पापक्षे मातृसुखन ॥ ८ ॥

पुत्रेचंद्रे मातृसुखन ॥ ९ ॥

चन्द्रारौखे धर्मरा मातृसुखन ॥ १० ॥

सपाप चंद्रेस्ते मातृसुखन ॥ ११ ॥

गुरावंगे धनेमन्दे राहौयूने मातृसुखन ॥ १२ ॥

जीवेङ्गेर्येभंदे सोत्ये राहौ माता नजीवति ॥ १३ ॥

सोत्येस्तेके लग्नेभौमे माता नजीवति ॥ १४ ॥

पापांतरेचंद्रेवाचंद्रानुर्यनगस्थाः पापामाता नजीवति १५

सुखे मंदे पाप दृष्टे शीघ्र मातृ नाशः ॥ १६ ॥

टीका- दशमे भावमें मंगल भाठमे स्थानमे चलघात्र गुरुहोवेतो-  
माताका सुखनही होवे ॥ ३ ॥

छठे अथवा भाठमे स्थानमे चंद्रमा होवे और पापग्रह संयुत मंगल-  
सातमे गया होवेतो माताका सुखनही होवे ॥ ४ ॥

शुक्र अथवा चंद्रमा पाप ग्रहोंके बीचमें होवे अथवा पाप ग्रहों-  
संयुत दृष्ट होवेतो माताका सुखनहीहोवे ॥ ५ ॥

सुखेश सुख भावमे गया होवे अथवा सुखेश पाप ग्रहोंके बीचमें-  
होवे वापापग्रहोंसे युतदृष्ट होवेतो माताका सुख नहींहोवे ॥ ६ ॥

चंद्रमासे सातमे स्थानमे पापग्रहसंयुतशुक्र गया होवेतो माता-  
कासुख नहींहोवे ॥ ७ ॥

शनि पापग्रहोंसे युतहोवे और पाप ग्रहकी राशी मंगयाहोवेतो  
माताका सुख नहींहोवे ॥ ८ ॥

चंद्रमा पांचमे स्थानमे गयाहोवेतो माताका सुख नहींहोवे ॥ ९ ॥

चंद्र और मंगल येदोनो नवमे अथवा दशमे भावमे गयेहोवेतो माता  
कासुख नहींहोवे ॥ १० ॥

पाप ग्रह संयुत चंद्रमा सातमे स्थानमे गयाहोवेतो माताका सुख  
नहींहोवे ॥ ११ ॥

लग्नमें गुरु धनमें शनि सातमेराहु होवेतो माताका सुखनहीहोवे १२

लग्नमेगुरु धनमेशनि तीसरे स्थानमेराहु गया होवेतो माता  
नहींजीवे ॥ १३ ॥

तीसरे अथवा सातमे स्थानमे सूर्य और लग्नमें मंगल गयाहोवेतो  
मातानहींजीवे ॥ १४ ॥

पापग्रहोंके बीचमें चंद्रमा होवे अथवा चंद्रमासे चांघे औरसातमे  
स्थानमें पापग्रह गयेहोवेतो माता नहींजीवे ॥ १५ ॥

सुख (४) स्थानमे शनि पापग्रहसे दृष्टहोवेतो शीघ्र माताका नाश  
होवे ॥ १६ ॥

मातुर्दीर्घायुयोग.

सुखेमदे शुभदृष्टे चिरेण मातृनागः ॥ १७ ॥

सुखेशुभकारकेशुभयुतेबलाटयेनामुत्तेमातुर्दीर्घायुः १८

चंद्रे बलाढ्ये वा शुके शुभयुतदृष्टे मातुर्दीर्घायुः ॥ १९ ॥

शुके वाचन्द्रे शुभांशे केन्द्रे मातुर्दीर्घायुः ॥ २० ॥

सुखपांशेशांशपे के द्रे बलाढ्ये मातुर्दीर्घायुः ॥ २१ ॥

टीका- चोपेस्थान मे शनि शुभ ग्रह से दृष्टहावेतो माताका नाश-  
बहुत वर्षे पीठे हावे ॥ १७ ॥

चतुर्थ भावमे शुभग्रह होये बलवान्मातृकारक ग्रह शुभग्रहसेयुत  
होवे अथवा बहमातृ कारकग्रह सुखस्थानमे गयाहोवेतो माता दीर्घायु  
होवे ॥ १८ ॥

चंद्र बलवान् होवे अथवा शुक्र शुभग्रहसे युत दृष्ट होवेतो माता  
दीर्घायुहोवे ॥ १९ ॥

शुक्र अथवा चंद्रमा शुभग्रहाके राशिके नवाशमे द्वारे और चंद्र  
(१४।७।१०) स्थानमे गयहोवेतोमाता दीर्घायुहोवे ॥ २० ॥

चतुर्थ स्थानके स्वामि केनवाशका स्वामी जिसग्रहक नवाशमेहोय  
बहग्रह बलवान् हाकर केंद्र (१४।७।१०) स्थानमे जावेतोमाता-  
दीर्घायुहोवे ॥ २१ ॥

पिता मात्रा सहैव मृत्यु योग

लग्नाम्बुर्देशास्त्रिकोणकेन्द्रगाःपितानात्रासहैवम्रियते २२

टीका-लग्न चतुर्थ और नवम स्थानके स्वामि १४।५।७।९।१०  
इनस्थानोमेगये होवेता पिताकिमृत्यु माताके साथहीहोवे ॥ २२ ॥

मातृ वधगो

रात्रौ चंद्रात्रिकोणे मन्दे मातृवधः ॥ २३ ॥

टीका रात्रिके समय जन्महावे और चंद्रमासे ९।५ स्थानमे शनि  
गयाहावेतो माताका वधहोवे ॥ २३ ॥

माता पतिव्रता योग

सुखेशेङ्गे बलाढ्ये माता पतिव्रता ॥ २४ ॥

सुपत्ने वैशेषिकाशे शुभदृष्टे माता पतिव्रता ॥ २५ ॥

तुर्पेशे शुभार्कदृष्टे माता पतिव्रता ॥ २६ ॥

टीका- लग्नमे बलवान् सुखेश होवेतो माता पतिव्रता होवे ॥ २४ ॥

सुखेश वैशेषिकांशमे होवे शुभग्रहों से दृष्ट होवेतो माता पतिव्रता-  
होवे ॥ २५ ॥

चतुर्थेश शुभग्रहहोवे वस्को शुभग्रह और रवि देखता होयतो माता  
पतिव्रता होवे ॥ २६ ॥

माता जारिणियोग.

षष्ठेश कुजेनयुते चंद्रसुखे पापदृष्टे माता जारिणी ॥ २७ ॥

सुखे राहुयुते सपापे माता जारिणी ॥ २८ ॥

टीका-षष्ठेश और मंगल इनदोनो से युत चंद्रमा सुख स्थानमे जावे  
और इनको पाप ग्रह देखेत होवतो माता जारिणी (पति व्रत धर्महीना)  
होवे ॥ २७ ॥

सुख स्थानका स्वामि राहु और पापग्रहोसे युत होवेतो-माता  
जारिणी होवे ॥ २८ ॥

मातृ स्नेहयोग.

लग्न सुखेशा वन्योन्यमित्रे शुभेक्षित युते मातृस्नेहः २९

तुर्येशे केन्द्रेक्षेशदृष्टे राशुभ द्ययुते मातृस्नेहः ३०

टीका-लग्न और सुख स्थान का स्वामि येदोनो परस्पर मित्रग्रह होवे  
और शुभाग्रहों से युत तथा दृष्ट होवेतो मातासे प्रीति अच्छि रहेंगा २९

चतुर्थेशकेन्द्र (१।४।७।१०) स्थानमें गया होवे और-वस्को-  
लग्नेश देखता होवे भयग केन्द्रमें गया हुवा सुखेश शुभग्रहसे युत दृष्ट  
होवेतो मातासे खेद रहेगा । इनयोगोके विपरीत होयतो मातासे वैर  
होवेगा ऐसा जानना ॥ ३० ॥

द्विषि मतायोग.

तुर्येषापे द्वित्रामातरः मौम्ये एका ॥ ३१ ॥

टीका-चतुर्थ स्थानमें पापग्रहगया होवेतो दोतीन माताहोवे और-  
शुभ ग्रहगया होयतो एक माता होवे ॥ ३१ ॥

चतुष्पदसुखयोग ।

वृषांशे चतुष्पदाः सुखदाः ॥ ३२ ॥

सुखे शुभ दृष्ट्याधि कपे चतुष्पदाः सुखदाः ३३



टीका-चारकांश लग्न वृषभ राशिका होयेतो चतुष्पद ( गाय भैरव  
पोटा वगेरा ) का मुख हागगा. ॥ ३२ ॥

मुखस्थानार शुभग्रहाके दृष्टि अधिक होयेतो चतुष्पदका मुख  
होवगा ॥ ३३ ॥

चाल्येमुखीयोग.

जीवेकेन्द्रेङ्गे पारावने चाल्येमुखी ॥ ३४ ॥

धर्मशुभेङ्गेरापे र्थशुभेदेवलोके चाल्येमुखी ॥ ३५ ॥

टीका-गृह कद्रस्थानमे हावे और लग्नका स्वामि पारावतांशमे  
गयाहोवेतो चाल्यावस्थामे मुखी रहगा ॥ ३४ ॥

नवम भावमे शुभग्रह लग्नमे पापग्रह धनभावमे शुभग्रह देरलांकांश  
मे होवेतो चाल्यावस्थामे मुखी रहगा ॥ ३५ ॥

नृशाब्दात्परंमुखीयोग.

शुभरेङ्गे शोभोभे वा गोपुरेनृशाब्दात्परंमुखी ३६

टीका-लग्नका स्वामि शुभग्रहकी राशिमेत्रावे शुभग्रहा स दृष्टहावे  
अथवा गोपुरांशमे गयाहोवेतो ३६ सालावषकी उमर ज्ञानवाद मुखी  
होवगा ॥ ३६ ॥

त्रिंशतिवर्षोर्ध्वंमुखीयोग

लग्नेशोचापे वा लग्नेशांशपे वा तथास्थितेलाभेशे त्रिंश-  
तिवर्षेभ्यः परंमुखी ॥ ३७ ॥

टीका-लग्न कास्वामि धनराशिका हावे १ अथवा लग्नस्वक  
नराशका स्वामि धनराशिका होये २ अथवा लाभश वा लाभ स्थानक  
स्वमिज्ञानवाशका स्वामि धनराशिन गयाहोवेतो ( इन्नीनोंयोगो-  
मेसकाइ भीअरु योगहोयेतो ) तीस वर्षकी उमर इनके पादमुखी  
होवेगा ॥ ३७ ॥

त्रिंशद्वर्षतः परंमुखीयोग ।

लग्नेशांशेतेकेन्द्रे तथालाभेशांशे वा त्रिंशद्वर्षतः परं-  
मुखी ॥ ३८ ॥

टीका- लग्नके स्वामीका नवांशका स्वामी केन्द्र ( १।४।७।१० ) गया होवे १ तथा लाभ (११) स्थानके स्वामीका नवांशका स्वामी केन्द्र ( १।४।७।१० ) गेगयाहोवेतो २ तीस वर्षकी उमर होजाने केपश्चात् सुखी होवेगा ॥ ३८ ॥

भाद्रवपसिमुखयोग.

लग्ना दातुरीयगाः शुभाभाये वयंसि सुखम् ॥ ३९ ॥

लग्नेशुके पूर्वार्द्धिसुखी ॥ ४० ॥

केन्द्रस्था गुरुजन्मतनुपा यौवने सुखी ॥ ४१ ॥

टीका- जन्मलसंचतुर्थभावपर्यंत ( १।२।३।४ ) शुभग्रह गयेहोवेतो उमरके आदिभागमें सुखीहोवेगा ॥ ३९ ॥

लग्नभेशुक गयाहोवेतो भायके पूवाद्धमें सुखीरहेगा ॥ ४० ॥

केन्द्र ( १।४।७।१० ) स्थानमें गुरु और जन्मलग्नका स्वामिगयाहोवेतो यौवना वस्यामें सुखीरहेगा ॥ ४१ ॥

वाल्येदुःखीततःसुखीयोग.

पापाधने केन्द्रेशुभे लग्नेशेउत्तमांशे वाल्येदुःखिततः सुखी ॥ ४२ ॥

टीका- धनभावमें पापग्रह, केन्द्र ( १।४।७।१० ) मेंशुभग्रह गयेहोवे और लग्नेश उत्तमांशमें होवेतो बाल्यमें दुःखीरहे और पीछेसुखीरहेगा. ॥ ४२ ॥

मध्यवयसीसुखीयोग.

पञ्चमादाष्टमगाःशुभामध्यवयसिसुखी ॥ ४३ ॥

टीका- पंचमस्थानसे आठमेंस्थान पर्यंत ( ५।६।७।८ ) सर्वशुभग्रह गयेहोवेतो मध्यवयसा में सुखीरहेगा ॥ ४३ ॥

भाद्रमध्यवयसोसुखीयोग.

शुभत्वगैर्लग्नान्त्यलाभगैः केन्द्रेसिंहासनेजीवे आय मध्यवयसोः सुखी ॥ ४४ ॥

लग्नार्थसोत्थे शुभं दृष्टियुते शुभेङ्गे जीवेपारावते आद्यमध्य  
वयसो सुखी ॥ ४५ ॥

टीका- लग्न (१) व्यय (१२) और लाभ (११) स्थानमे रुघं शुभ  
ग्रहगोहोवे और रिंहासनांशमे गयाहुवा गुरु बेद्र (१।४।७।१०)  
स्थानमे गयाहोवेतो भाद्य और मध्यदाना भवस्थामे सुखी रहेगा ४४  
लग्नधन और तृतीयस्थान शुभग्रहोसे युतदृष्टहोवे लग्नमंशुभग्रहकी  
राशिहोवगुरुपारावतांशमे गयाहोवेतो भाद्य और मध्यदानो भवस्थामे  
सुखी रहेगा ॥ ४५ ॥

अंत्यतथामध्यांतवयसोः सुखीयोग.

धर्मादारिःकगाः शुभा अन्त्येवयासिसुखी ॥ ४६ ॥

देवलोकांशेशुके गोपुरे लग्ने शुभदृष्टे मध्यान्त्य वयसोः  
सुखी ॥ ४७ ॥

टीका- नवमस्थानसे बारमेस्थान पर्यंत (९।१०।११।१२) सर्वं शुभ  
ग्रहगयेहोवेतो अंत्यावस्थामे सुखीहोवे ॥ ४६ ॥

देवलोकांशमे शुक्रहोवे गोपुरांशमे लग्नहोवे भागशुभमहसे दृष्टहोवेतो  
मध्य और अंत्यदानो भवस्थामे सुखी रहेगा. ॥ ४७ ॥

आजीव सुखीयोग.

वर्गोत्तमेङ्गेशे वा स्वोच्चांशके वा स्वभिन्नत्रयेशे वा शुभयु-  
तदृष्टे आजीवसुखी ॥ ४८ ॥

टीका- लग्नका स्वामी वर्गोत्तमांशमे ( जिसराशिका जन्मकुंडलीमे होवे  
उत्तराशिका नवांश कुंडलीमे भी ) होवेतो १ अथवा लग्नका स्वामी  
अपनि स्वराशि व उच्चराशि के नवांशमे होवे २ अथवा लग्नका स्वामी  
अपने मित्रग्रहके द्रष्टाणमे होवे अथवा शुभग्रहो से युतदृष्ट होवेतो  
आजन्म ( जीवे जहांतक ) सुखी रहेगा ॥ ४८ ॥

सुखीयोग.

शुभेङ्गेशुभदृष्टे पापयोरगहिते सुखी ॥ ४९ ॥

पञ्चसुखीशेषु महासुखी ॥ ५० ॥



दुःखी योग.

ज्जराव्हर्काः सुतग्रथा स्तर्येभौमे रन्ध्रेमन्दे दुःखी ॥ ६१ ॥

लग्नगाः पापा दुःखी ॥ ६२ ॥

पापे तुर्येजीवे ल्पबलिनिसधनोपिदुःखी ॥ ६३ ॥

सपापे सुखपे ऽबले सधनोपिदुःखी ॥ ६४ ॥

पापांशेम्बुपेनीचगे सधनपुत्रोपिदुःखी ॥ ६५ ॥

सभौमार्काम्बुपे क्रूरांशे शुभहृग्घीनेनित्यं दुःखी ॥ ६६ ॥

भौमार्कोनीचारिभागगौ सुखपापदृष्टौ क्रूरांशेप्रमादा दृहार्थ

नाशोदुःखीच ॥ ६७ ॥

रंघ्रेशेलाभे बाल्येदुःखी ॥ ६८ ॥

लग्नेर्कजे घमेराहौ पष्टे भौमे दुःखी ॥ ६९ ॥

पापान्तरे चन्द्रे दुःखी ॥ ७० ॥

लग्नेशेन्त्ये खेपापे चंद्रार योगे दुःखी ॥ ७१ ॥

टीका- पंचमस्थानमे बुधराहुर्भौरसूर्य, चौथेस्थानमेभौम, आठवे-

स्थानमे शनि गयाहोवेतो दुःखीहोवे ॥ ६१ ॥

लग्नमे पापग्रहगय होवेतो दुःखीहोव ॥ ६२ ॥

सुखस्थानमे एकपापग्रहनाव भौर गुरू अल्पबलीहोवे तोसधन

होतेहुवेभीदुःखीहोवगा ॥ ६३ ॥

सुखस्थानका स्वामि पापग्रहसे युतहोवे भौरवहनिर्वलीहोवे तो

सधन होतेहुव भी दुःखीहोवे ॥ ६४ ॥

सुखस्थान का स्वामि नीचराशी मे गयाहोवे भौर पापग्रहकी राशी

के नवाशमे होवेतो सधन भौर पुत्र वालाहोतेहुवे भी दुःखीहोवगा ६५

सुखस्थान का स्वामि पापग्रह केनवाशनेहाव सूर्यमगलसेयुतहोव

भौर शुभग्रहोसे दृष्टनहीहोवेतानित्य दुःखीरहेगा. ॥ ६६ ॥

सूर्य भौर मगल येदेनो नीचशत्रु भौर पापग्रहकी राशिकनवाशमे

स्थितहोकर मुखस्थानमें जावे और पापग्रहोंसे दृष्टहोवेतो अपने प्रमादसे  
गृह धन आदि का नाशहोवे और दुःखीहोवे ॥ ६७ ॥

अष्टमस्थान का स्वामि ग्यारवे स्थानमें गयाहोवेतो बाल्या वस्थामे  
दुःखीहोवे ॥ ६८ ॥

लग्नमें शनि, भाठमें राहु, छठे स्थानमें भौम, स्थितहोवे तो दुःखीहोवे ६९

पापग्रहोंके मध्यमें चन्द्रमागयाहोवे तो दुःखी होवे ॥ ७० ॥

लग्नेशवारमें स्थानमें, और पापग्रह दशमें स्थानमें, गयाहोवे और चंद्र  
मंगलका योग कोई भी स्थानमें हुवा होवेतो दुःखी होवे ॥ ७१ ॥

मूषिका मार्जार श्वादिदुःखदयोग.

मेपांशे मूषिका मार्जारं दुःखदम् ॥ ७२ ॥

सिंहांशे श्वावदयो दुःखदा ॥ ७३ ॥

कन्यांशे ग्निकणा दुःखम् ॥ ७४ ॥

टीका-कारकांश कुंडलीमें मेष राशिका लग्नहोवेतो मूषिका (चूहे)  
और बिल्ली दुःखदेवेगे ॥ ७२ ॥

कारकांश कुंडलीमें सिंहराशिकालग्न होवेतो श्वान वगैरा दुःख  
देवेगे ॥ ७३ ॥

कारकांशलग्न कन्याराशिका होवेतो अग्निकेकण ( तण्डुया )  
वगैरासे दुःखहोवेगा ॥ ७४ ॥

प्रसादवात्रयोग.

तुर्यैशाच्चन्द्राच्छौ प्रासादवान् ॥ ७५ ॥

तुर्यैशादुच्चग्रहे प्रासादवान् ॥ ७६ ॥

अंशान्तुर्यैराहर्कजौ प्रासादवान् ॥ ७७ ॥

टीका-कारकांश कुंडलीमें चतुर्थस्थानमें चन्द्रशुक्रकायोग होवेतो  
प्रासाद ( राजाओंके महल के समानमहल ) वालाहोवे ॥ ७५ ॥

कारकांशलग्नसे चतुर्थस्थानमें उच्चराशिका ग्रहगया होवेतो प्रासाद  
वालाहोवे ॥ ७६ ॥

कारकांश लग्नसे चतुर्थस्थानमें राहु शनिकायोग होवेतो प्रासाद  
वाला होवे ॥ ७७ ॥

## इष्टिकाग्रहयोग.

केतवारौतुपैशा दिष्टिकाग्रहं ॥ ७८ ॥

टीका—कारकांशलग्नसे चतुर्थस्थानमें केतु मंगल का योग होवेतो ईष्टसेबनाहुवा मकानहोवे ॥ ७८ ॥

## काष्ठग्रहयोग.

सुरैश्राज्जीवे काष्ठग्रहम् ॥ ७९ ॥

टीका—कारकांश लग्नसे सुखस्थानमें गुरुगयाहोवेतो लकड़ीका मकान ( जिस्में लकड़ीजादे लगीहोवे वैसामकान ) होवे ॥ ७९ ॥

## तृणग्रहयोग.

सुरैश्रा दर्के तृणग्रहम् ८०

टीका—कारकांश लग्नसे सुखस्थानमें सूर्यगयाहोवेतो तृणग्रह ( फूस काघर ) होवे ॥ ८० ॥

## विचित्रग्रहयोग

धर्मपेकेन्द्रे गेहेशेस्वोच्चमित्रगे तुर्येतुंगगेग्रहेविचित्रग्रहम् ८१

स्वतुर्येशौ चन्द्रमन्दयुतौ विचित्रम्वेश्म ८२

टीका—नवमेभाषकास्वामी केन्द्र ( १४।७।१० ) स्थानमें, चतुर्थस्थान कास्वामी स्ववच्च अथवामित्रराजिका होवे और चतुर्थभावमें उच्चराशिमें गयाहुवा कोईभी ग्रहस्थितहोवे तो विचित्रग्रहहोवे ॥ ८१ ॥

दशम और चतुर्थका स्वामि यदोनो चन्द्रशानिस युतहोवे तो विचित्रग्रहहोवे ॥ ८२ ॥

## हर्म्यप्राकारादियुतग्रहयोग.

सोत्थेसौम्ये तुर्येशेचलिनि गृहेशेशे चलर्पुर्गे हर्म्यप्राकारादियुतग्रहम् ८३\*

तुर्यपेसिंहासने गोपुरे मृदंशे वा हर्म्यप्राकारादियुतग्रहम् ८४

टीका—तीसरेभावमें शुभग्रहहोवे चतुर्थेश चलवावहोवे और चतुर्थस्थानके स्वामिका स्वामि ( चतुर्थभावकास्वामिजिसराशिमेंगयाहोव उसकास्वामी ) पूर्णचलवावहोवे तो देवता, राजा, और बढेधनवानोक रहनेयोग्य चागिर्दंजिलेसंबेष्टित उत्तममहलहोवे ॥ ८३ ॥

चतुर्थभास्का स्वामि सिंहासनांश गोपुरांश भयवा मृदंशमें गयाहोवे तो रानाभंकेरहनेयोग्य उत्तम महल होवे ॥ ८४ ॥

दैविकवेदमयोग.

गृहेशे पारावते गोपुरे वा चन्द्रगुरुदृष्टे दैविकंवेश्म ८५

लग्नांश्वर्थेशा यावन्तः केन्द्रकोणेतावन्तो गृहाःशोभनाः ८६

टीका—चतुर्थभास्कास्वामि पारावतांशमें भयवा गोपुराशमें होवे और वह चन्द्रगुरुसे दृष्टहोवे तो देवनाभंकेसमान यद्वादिवतायुक्त उत्तम महलहोवे ॥ ८५ ॥

लग्नेशचतुर्थेश और घनेश इन तीनोंग्रहोमेसे जितनेग्रह केन्द्रकोण ( ११४।५।७।९।१० ) स्थानमें गयेहोव उतंतहीगृह भच्छे सुंदरहोवे ८६

गृहलाभयोग.

लग्नेशेभ्युगे सुत्वेशेङ्गे गृहलाभः ८७

गेहेशेवलाढये केन्द्रे शुभदृष्टे गृहलाभः ८८

सुत्वेशे वैशेषिकांशे परमाच्चगे गृहलाभः ८९

तुर्थशांशेषांशेशे केन्द्रे गृहलाभः ९०

लाभार्थेशौ तुर्थेतुर्थपे वैशेषिकांशे शुभदृग्योगेबह्वर्थगृहं

लभ्यते ९१

टीका—लग्नेशचतुर्थभास्वमें और चतुर्थेशलग्नेमे गयाहोवेतो गृहलाभहोवे ॥ ८७ ॥

चतुर्थेश बलवान्दोके केन्द्र ( ११४।७।१० ) स्थानमें गयाहोवे शुभग्रहसे दृष्टहोवेतो गृहलाभहोवे ॥ ८८ ॥

परमाच्चराशिमे गयाहूवा सुत्वेश वैशेषिकाशमे गयाहोवेतो गृहलाभहोवे ॥ ८९ ॥

चतुर्थेश के नवांशका स्वामी जिसराशिमें गयाहोवे उसराशी के स्वामी वा नवांश वा स्वामी केन्द्र ( ११४।७।१० ) स्थानमें गयाहोवे तो गृहलाभ ( घरकालाभ ) होवे ॥ ९० ॥



गृहलाभहोत्रिगा । जोलोग दत्तकगयेहै अथवाजोजानेवालेहै उनकी-  
जन्मकुंडलीमें इन ७ योगोंसे अेक दो तीनयोग अवश्यदेखनेमें  
आवेगा, यदि अेकमी योगनहीदेखनेमें आवे तां जोतिषको झुठामान-  
नेवालोका कथन सत्यसमझना ।

गृहनाशयोग.

यावन्तः पापाः स्वाम्बुस्वान्त्यनाथैः सहिता द्विकस्था  
स्तावन्तो गृहा वन्हिनादह्यन्ते ॥ ९३ ॥

राहर्कोअंशे कुजमात्रदृष्टे गृहदाहः ॥ ९४ ॥

तुर्येशेषष्ठे पापदृष्टेगेहनाशः ॥ ९५ ॥

गेहेशांशेषष्ठे गेहनाशः ॥ ९६ ॥

तुर्याङ्गार्थेशा यावत्पापैर्युता स्तावन्तां गेहानानाशो-  
नतुशुभदृष्टे ॥ ९७ ॥

केन्द्र केण्डके गेहे शैथिल्यप्रयुक्त पात भयम् ९८

तुर्येशैरन्ध्रे स्वयमेव गेहं पातयति ९९

टीका-जितने पापग्रह दशम, चतुर्थ, धन, और वारमे, भावके स्वामि-  
योसे युक्त होके ६।८।१२ स्थानमेगये हवे उतने हीघर अग्निसे जलजा  
वगे ७३

कारकांश लग्नमे राहु सूर्यगयेहोवे और इनको केबल मंगलही देखता  
होवे तो अग्निसे घर जलेगा ९४

चतुर्थेश छठेभावमें पापग्रह से दृष्टहोवेतो घरका नाशहोवे ९५

चतुर्थेश के नवांश का स्वामीछठे स्थानमे गयाहोवे तो घरकानाश-  
होवे. ९६

चतुर्थ लग्न ओ धन इनतीभाव के स्वामि जितने पापग्रहो से  
युतहोवे उतनेही घरों का नाशहोवे औरयदि ये शुभग्रहोसे दृष्टहोवेतो  
घरकानाशनही होवेगा ९७

केन्द्र कोण ( १।४।५।७।९।१० ) स्थानमें रविस्थितहोवेतां पुराना  
घरहोनेकेसबवसे पड़नेका भयरहै ९८

चतुर्थेश भाठमे भावमें गयाहोवेतो खुदही घरकोपादताहै १९

बहुगृहवासयोग

तुर्यतत्पौचरक्षे कारके वा तथा बहु गृहवासः १००

टीका—चतुर्थभाव और उसका स्वामि ये दोनो चर राशी के होवे अथवा चतुर्थभावका कारक ( चंद्र बुध ) चरराशी का होवे तो बहुत घरमे रहनवाला (भकघरमे कभी स्थिरवास नही करने वाला)होवे १००

स्थिरवासयोग

गृहत्तशौ स्थिरे तथा कारके वा स्थिरवासः १०१

शुभपष्ठचंशे तुर्ये स्थिरवासः १०२

टीका—चतुर्थभाव और उसकास्वामी येदोनो स्थिरराशीके होवे अथवा चतुर्थभावका कारक [ चंद्रबुध ] स्थिरराशीके होवेतो भेकही घरमे स्थिरवास करनेवालाहोवे. १०१

चतुर्थभाव शुभपष्ठचशमे होवे तो भेकही घरमे स्थिरवास करने-वालाहोवे १०२

बहुक्षेत्रवात् योग

खे सुखेशे कर्मेंशेम्बुगे बलिनिभौमे बहुक्षेत्रवान् १०३

बलाढ्यौ खाम्बुपौ परस्परसुहृदौ बहुक्षेत्रवान् १०४

तुर्यतत्पौ शुभयुतौ बहुक्षेत्रवान् १०५

तुर्येशेसुते गोपुराचंशे बहुक्षेत्रवान् १०६

टीका- चतुर्थेशदशमेभावमें और दशमेशचतुर्थस्थानमे गयाहोवेमंगल-बलवानहोवेतो बहुतजमीनवाला ( बढानागरिदार ) होवे १०३

दशम और चतुर्थ भावके स्वामी बलवानहोवे और आपसमेंदोनो मित्रमहहोवे तो बहुतजमीन वालाहोव १०४

चतुर्थभाव और चतुर्थ भावकास्वामि येदोनो शुभग्रहसेयुत होवेतो बहुत जमीनवालाहोवे १०५

चतुर्थेश पचमभावमें गोपुरादि भंशमे गयाहोवे तो बहुत जमीनवाला ( बढानागरिदार ) होवे १०६

क्षेत्राप्तियोग.

बलिन्यङ्गेशेम्बुगे बलिन्यम्बुपेङ्गे शुभग्रयोगे स्वपराक्रम-  
मात्क्षेत्राप्तिः १०७

भातृपेण तत्कारकेण वा युते तुर्येशे भातृतःक्षेत्राप्तिः १०८

स्त्रीकारकेम्बुगे क्षेत्रपेद्युने तयोर्मैत्र्यां कलत्रतःक्षेत्राप्तिः १०९

षष्टेशेतुर्ये तत्पेपष्टे षष्टेशतःक्षेत्रपेधिकबलेशत्रुतःक्षेत्राप्तिः ११०

गेहेशेस्वराशौ बलिन्युपचयगेशुभदृष्टे बहुक्षेत्राप्तिः १११

टीका-बलवान्लग्नेशसुखभावमें, औरबलवान्चतुर्येश लग्नमेंगयाहोवे  
शुभग्रहसे युतदृष्टहोवे तो अपनेपराक्रमसे जमीनकी प्राप्ती होवे १०७

तृतीयभावकेस्वामीसेभयवातृतीभावकेकारक( मंगल )संचतुर्य भाव  
कास्वामि युतहोवेतोभाईसँ जमीनकीप्राप्तिहोवे १०८

स्त्रीकारकग्रह [ शुक्र ] सुखभावमें औरसुखभावकास्वामी सातमें  
भावमें गयाहोवे यदोनो परस्परमित्रग्रहहोवेतो स्त्री से भयवा स्त्रीके  
संबंधसे जमीनकीप्राप्ती होवे. १०९

छठेभावका स्वामि चतुर्यभावमें औरचतुर्यभावकास्वामि छठेभावमें  
गयाहोवे छठेभावके स्वामीसँ चतुर्येश अधिक बलवान् होवेतो शत्रूसँ  
जमीनकी प्राप्तिहोवे ११०

चतुर्येश स्वराशिकाहोवे और बलवान्होकर ३।६।१०।११में भावमें-  
शुभग्रहसे दृष्टहो के गयाहोवे तो बहुतजमीनकी प्राप्तिहोवे १११

क्षेत्रादिनाशयोग

गेहेशेनीचारातिमृदगेपापान्तरेपापदृष्टेक्षेत्रादि नाशः ११२

पापान्तरे कुजे पापदृष्टे क्रूरशेक्षेत्रादिनाशः ११३

तुर्येशे क्रूरषष्ट्यंशे तुर्यपापे क्षेत्रादिनाशः ११४

तुर्येशेत्रिके क्षेत्रादिनाशः ११५

गेहेशेर्षे सपापे नीचारिभे क्षेत्रादिनाशः ११६

कर्मशेम्बुगे सपापे क्षेत्रनाशः ११७

क्रूरमृत्युयमायंशे सपेसुखे क्षेत्रनाशः ११८

खेससूर्येम्बुपे राजकोपात् क्षेत्रनाशः ११९

वित्तेशांशेशिश्वरेणसहितेसपापेम्बुपे राजकोपात्

क्षेत्रनाशः १२०

टीका—चतुर्थेश नीच शत्रु राशीका भयवा भस्तंगतहोवे पापग्रहोके बीचमे और पापग्रहोसे दृष्टहोवे तो जमीनजायदादका नाशहोवे ११२  
पापग्रहोके मध्यमे मंगलगयाहोवे पापाग्रहोसे दृष्टहोवे और क्रूरग्रहकी राशिकेनवांशमे होवेतो जमीनजायदादका नाशहोवे ११३

चतुर्थेश क्रूरपृष्ठचंश ( पापपृष्ठचंश ) मेंहोवे और चतुर्थस्थानमे पापग्रहगयाहोवेतो जमीनजायदादका नाशहोवे ११४

चतुर्थेश ६।८।१२मे भावमेगयाहोवेतो जमीनवगैराका नाशहोवे ११५

चतुर्थेश धनभावमे पापग्रहस युतहोवे नीच तथा शत्रुराशिमे गयाहोवे तो जमीन जायदादआदि सम्पत्तिकानाशहाय ११६

दशमभावका स्वामि पापग्रहस युतहोके चतुर्थभावमे जावेता जमीनका नाशहावे ११७

क्रूर, मृत्यु, यम, आदि दृष्टपृष्ठचंशमे गयाहुवा दशमभावका स्वामी चतुर्थभावमे गयाहोवेतो जमीनका नाशहावे ११८

सूर्य और चतुर्थभावका स्वामी येदोनो दशमे भावमेगये जावता राजा के कोपसे जमीनका नाशहोवे ( राजाजमीननप्तकरलवे ) ११९

धनेश के नवांशका स्वामी जिसराशिके नवांशमे होवे उसके स्वामी से और पापग्रहसे चतुर्थभावका स्वामी युतहोवे तो राजाके कोपसे जमीनका नाशहावे १२०

भूमिविक्रेतायोग

गेहेशेतुङ्गे र्थेशेपापेनीचारिभे भूमिविक्रेता १२१

टीका—चतुर्थेश उच्चराशिमे और नीच तथा शत्रु राशिमे गयाहुवा

धनभावक स्वामि पापग्रहहोवे तो जमीन बेचने वालाहोवे १२१  
पुत्रतःमित्रतायोग.

सुताङ्गेशमित्रत्वे पुत्रोमित्रम् १२२

टीका-पंचमेश और लग्नेशके मित्रताहोवेतो पुत्रसे मित्रतारहे १२२  
स्त्रीतःप्रीतियोग.

द्यूनाङ्गेशमित्रत्वे स्त्री मैत्री १२३

टीका-सप्तमेश और लग्नेशके मित्रताहोवेतो स्त्रीसे मित्रतारहे १२३  
बहुजनमैत्रीयोग.

सुखाङ्गेशमित्रत्वे बहुजनमैत्री १२४

सुखेशुभदृष्ट्याधिक्येबहुजनमित्रता १२५

टीका-सुखेश और लग्नेशके मित्रताहोवेतो बहुत मनुष्यो से मित्रताहोवे १२४

चतुर्थ भावपर शुभग्रहोंके दृष्टि अधिकहोवे तो बहुतजनोंसे मित्रताहोवे १२५

सुहृत्पोष्ययोग.

द्वयोर्मित्रक्षेत्रगयोः सुहृत्पोष्यः १२६

टीका- कौडभी दोग्रहमित्रराशिमै गयेहोवेतो मित्र का पोषणकरने वालाहोवे १२६

बन्धुपूज्ययोग.

सुखेसौम्ये सौम्यदृष्टे सुखकारकेबलिनि बन्धुपूज्यः १२७

गहेजावे गहपे शुभयुते जावदृष्टे बन्धुपूज्यः १२८

तुयेंस्वाच्चे स्वामित्रभे वा खेटे गुरुदृष्टे बन्धुपूज्यः १२९

त्रिभिस्स्वर्क्षगै बन्धुपूज्यः १३०

टीका-चतुर्थभावमें गयाहुवा शुभग्रह, शुभग्रह से दृष्टहोवे और सुखकारक[ चंद्र बुध ]ग्रह बलवान् होवेतो बन्धु वर्गका पूज्य (माननाय) होवे १२७

चतुर्थ भावमें गुरुगयाहोवे चतुर्थभावका स्वामि शुभग्रह से युत और गुरुसे दृष्टहोवे तो बन्धु वर्गकापूज्य ( माननीय ) होवे. १२८

लग्नेशत्रिक ( ६।८।१२ ) स्थानमें गयाहोवेतो शयनका सुखनहीं होवे १४२

लग्नेश मीनराशी का होवे तो शयनका सुखनहींहोवे १४३

लग्नेश शानि शुक्रिक तथा राहुसंयुतहोवेतो शयन का सुखनहीं होवे १४४

इसकोसिवाय गांडकेधनकाबिचार' पुत्रकाव्यय, पुत्रका मुसाफरी' पुत्रकाशयनसुख, स्त्री का पिता, मालिककीस्त्री' हृदय, दादाकाशय मानव्यपार, दादीकी माताका सुख, दत्तकभानेकाबिचार आदिविषय भीचतुर्पभाषसेदेखना ।

इतिचतुर्पविवेकस्यटीकासमाप्ताः



अथपञ्चमविवेकः ।

बुद्धिमाश्रयोग.

सुतर्क्षेशुभे शुभदृष्ट युते बुद्धिमान् १

सुतेशेतुक्के वा शुभान्तरे बुद्धिमान् २

गुरौकेन्द्रे कोणे बुद्धिमान् ३

शुभमे सुतेरो सुतेजीवे बुद्धिमान् ४

जे सुते वा मुतेरो बलिनि केद्रेवा बुद्धिमान् ५

टीका-पंचम भाषमें शुभग्रह की राशी शुभग्रहमें युतदृष्ट होवेतो बुद्धिमान् होवे १

पंचम भाषका स्थानि भवनी उच्चराशिमें गयाहोवे भवना शुभग्रहो के मध्यमें होवे तो बुद्धिमानहोवे २

गुरु केन्द्र कोण [ १।४।७।१०।१।५ ]स्थानमें गयाहोवे तो बुद्धिमान् होवे ३

पंचमेश शुभग्रहकीराशि [ ३-६।२-७।९-१२।४ इनराशि योमेंसे कोई-भीराशी ] मगयाहोवे और पंचम भाषमें गुरु होवे तो बुद्धिमान् होवे ४

सुध पांचमे भागमें गयाहोवे १ अथवा पंचमेशबलधारहोवे २ अथवा पंचमश बलधारहोके केन्द्रमें गयाहोवे ३ ता बुद्धिमात्र होवे ५

विशेष बुद्धिमान् योग.

पुत्रेशे केन्द्रे शुभान्विते धारणादिपटुः ६

सुतेशे कारके स्रद्धंशादियुते शुभदृग्युते धारणादिपटुः ७

सुतो गोपुरादी धारणादिपटुः ८

सुनकारके गोपुरादी पराङ्गितज्ञो मेधावी ९

टीका-पंचमेश केन्द्र ( १५५१० ) स्वानमे शुभग्रहसे युत होवेतो धारणादिपटु [ कार्यभीवात भेदकरन सुनलेनेसे याद रखने समझने भादिमे विशेषचतुर बुद्धिवाला ] होवे ६

पंचमेश और पंचमका कारक [ गुरु ] मृदुभादिशुभपष्टवंशमे होवे और शुभग्रहसे दृष्टहोवे तो धारणादिपटु होवे ७

पंचमेश गोपुरादि भगमें होवेतो धारणादिपटु होवे ८

पंचमका कारक [ गुरु ] गोपुरादि भगमें होवेतो दूसरेके अभिप्राय को ठसकीचष्टा परसेहीसमझलेने वाला और मेधावी (धारणावति-बुद्धिवाला) होवे ९

क्षिप्रोत्तरदानशीलयोग.

शेन्द्राराणा मुपरि बलिग्रह दृष्टो क्षिप्रोत्तरदानशीलः १०

टीका-सुध चंद्र और मंगल इनतीनापहोपर बलवान् शुभग्रहकादृष्टि होवेतो हानरमबाव ( तुरंतउचिन जवाबदेनेवाला ) होवे १०

चंचल धी योग.

लग्न कोणे चन्द्रार्कौ चंचरुर्धाः ११

केन्द्रे जीवे चंचरुर्धाः १२

सौम्यैर्ये ऽवृत्ते पाददृष्टे चरुचित्तः १३

टीका-लग्नमे तथा १५ भागमें रवि चंद्र गेहोमेतो चंचल बुद्धि वालाहाव ११

केन्द्र स्वानमें गुरुगयाहोवे तो चंचरु बुद्धिवालाहोवे १२

- धनभावमे बुध निर्वलीहोके गयाहोवे और वह पापग्रहसे दृष्टहोवेतो  
बलचित्त [ अस्थिरचित्त वाला ] होवे १३  
सात्विकयोग.

सप्तोत्थपे ज्ञे सात्विकः १४

टीका-तृतीय भावके स्वामीसे बुध युक्तहोवे तो सात्विक प्रकृति  
वाला होव १४

सुवाख्ययोग

व्ययेशेङ्गे सुवाक् १५ -

टीका-व्ययश लग्नमे गयाहोवे तो भच्छा सुदर बोलने वाला होवे १५  
विस्मयशीलयोग

त्रिके चन्द्रे शुक्र दृष्टे विस्मयशीलः १६

सपापे सुतपे विस्मयशीलः १७

धी कारके सपापे वा क्रूरपृथ्वशे विस्मयशीलः १८

टीका-त्रिकस्थान [ ६८।१० ] में गयाहुवा चंद्रमा शुक्रसे दृष्टहोव  
ता विस्मरण बुद्धिवाला होव १६

पचमश पापग्रहसे यत्नहोय ता विस्मरण बुद्धिवालाहोवे १७

बुद्धिकारक ग्रह ( बुध गुरु ) पापग्रहसयतदाय भयवा बुद्धिकारकग्रह  
क्रूरपृथ्वशमे गयाहोवेतो विस्मरण बुद्धिवाला होव १८

हीनधीयाग

लग्ने चन्द्रे मन्दारदृष्टे हीनधीः १९

सुतेशे क्रूरपृथ्वशे हीनधीः २०

मंदारार्का चन्द्र पश्यन्ति मौर्यकराः २१

टीका-लग्नमेगयाहुवा चंद्रमा शानमगल से दृष्टहोवे बुद्धिहीनहावे १९  
पचमेश क्रूरपृथ्वशमें हावतो बध्दिहीनहावे २०

शानि मगल और सूर्य येतीनो चन्द्रमाको देखने होयनो मूर्खहाव २१  
जटयोग

केन्द्रगा मन्देन्दु गुलिका जठः २२



धनेगुलिकाकौ पापदृष्टौ वा सार्कजेसोत्थपेजडः २३

सपाप धनेशे खे सभाजडः २४

सतमसि सोत्थपे जडः २५

सुतेमन्दे लग्नेशे मन्ददृष्टे सुतेशेसपापेजडः २६

गुलिकार्कजौसुते शुभयोगहीने जडः २७

सुतेजीवे मेधानाशः २८

टीका-शनिचंद्र और गुलिक येतीनो केन्द्र ( १।४।७।१० ) मंगयेहो-  
वेतो जडबुद्धि [ महामूर्ख ] होवे २२

धनभायमें गुलिक और सूर्य गयेहोवे इनदोनो कौ पापग्रहदेखतेहोवे  
१ अथवा तृतीयभायका स्वामि शनिसयुतहोवेतो जडबुद्धिहोवे २३  
पापग्रहसेयुतधनेश दशमे भायमें गयाहोवेतो सभामेजडहोवे अथवा  
सभामेकु उचालनहोसके २४

तीसरभायका स्वामि राहुसे युत होवेतो जडहोवे २५  
पंचमभावमेंगयाहुवा शनि, लग्नेश कौ देखताहोवे और पंचमेश  
पापग्रहसेयुतहोवे तो जडहोवे २६

पंचमभायमें गुलिक शनिकायोग किसीशुभग्रहसेयुतनहोहोवे तो  
जडहोवे २७

पंचमभायमें गुरुगयाहोवेतो मेधानाश ( धारणाबलियुद्धिकानाश )  
होवे २८

याज्ञिकयोग.

अंशकेतौशुक्रमात्रदृष्टेयात्रिकः २९

टीका-काशग लग्नेमे केतु केवलशुक्रसे दृष्टहोवे तो यज्ञादिकमें  
काह करानेवालाहोवे २९

मात्रिकयोग

अंशात्कोणे पापद्वये मान्त्रिकः ३०

अंशात्कोणे पापद्वये पापदृष्टौभूतादिनिग्रहकर्ता ३१

अंशात्कोणेपापे शुभदृष्टेनुग्राहकः ३२

टीका-कारकाशलग्नसे पाचमे और नवमे स्थानमे क्रमसे भेकक पापग्रह दानोस्थानमे गयेहावेतोमात्रिक ( मन्त्रवेत्ता ) हावे ३०

कारकाशलग्नसे नवमेपाचमे दानास्थानमेएकर पापग्रहगयेहावे और उनको पापग्रह देखत होवेता भूतादिकों का निग्रह ( प्रतिबन्ध ) करनेवालामात्रिक होर ३१

कारकाशलग्नसे नवमे पाचमेस्थानमें गयहृवदोन। पापग्रह शुभग्रहमें दृष्टहावता लाकापरमत्रादिद्वारा अनुग्रह करनेवालाहाव ३२

भिषक्याग

अंशे जेन्दुशुकदृष्टे वा धनेभिषक् ३३

शुकेन्दुदृष्टेशे रसवादी ३४

सशुभराव्हर्काविशेषापयुतौविषवैद्यः ३५

टीका-कारकाश लग्नको बुध, चंद्र, शुक य तीनों ग्रहदेखते होवे १ भयवा धनभावको ये तीनोंग्रह देखते हाव तो भिषक [ वैद्य ] हावे ३३ कारकाशलग्न शुकचन्द्रसे, दृष्टहोवनोरसायनका उपयोग करने वाला रसवैद्य होवे ३४

कारकाशलग्न में राहु रवि शुभ और पाप दोनो ग्रहोसे युत होवतो विषवैद्य [ विषका विशिष उपयोग करनेवाला वैद्य ] हावे ३५

लग्न, रवि, चंद्र, मंगल, और दशम भाव इन पाचामें स भेक दो तीन भिवा पाचोहि वृश्चिक राशिमें भयवा वृश्चिक राशिके नवाशमे किवा वृश्चिकराशिके गुणक अंशमेंगयहाव तथा अग्निराशिमें तथा हस्तकला कुशलराशि [ ६ ] में तथा ३।६ राशिके अंशमें होवेता डाक्टर हावेगा

वैद्याकारणयाग

अर्धसुतयो रंशाज्जीने वैद्याकरणः ३३

बलिनिगुरौतद्रेषे रविशुकदृष्टेशाब्दिकः ३७

१ मयगशिका ८ २० २१ वृषभका ७-१७ २९ मयुनका ६ १८ ३ कर्कका ५ १७ २९ सिंहका ४ १६ २८ कन्यका ३ १५ २७ तुलाका २ १४ ६ वृश्चिकका ४ १३ २१ धनका १२ २४ मकरका ११ २३ कुमका १०-१२ मानका ९-२१ मा अश वृश्चिक राशिमें गुणक लशहै ।

टीका- कारकांशलग्नसे धनभावम तथा पांचमे गुरुगया होवेनो वैयाकरण होवे ३६

धनभावका स्वामी गुरु पूर्णबलवान् होवे और उसको रवि, शुक्र देखते होवेतो वैयाकरण होवे ३७

मीमांशकयोग.

धनेसोत्थे शुतेशाज्जेज्यौ मीमांसकः ३८

टीका-कारकांशलग्नसे दूसरे तीसरे तथा पाचमें स्थानमे बुध गुरु गयेहोवे तो मीमांशा शास्त्रज्ञहोवे ३८

तर्कज्ञयोग.

अंशात्सुतार्थसोत्थे जीवारौ तार्किकः ३९

जीवाच्छौधनेशौरव्यार दृष्टौतार्किकः ४०

जीवाच्छौतुङ्गस्वर्क्ष त्रिकोणगौ तार्किकः ४१

टीका-कारकांशलग्नसे दूसरे तीसरे तथा पांचमे भावमे गुरु मंगल गयेहोवेतो तर्कशास्त्री होवे ३९

द्वितीय भावका स्वामि गुरु भयवा शुक्र होवे और उसको रवि मंगल देखते होवेनो न्याय शास्त्री होवे ४०

गुरु और शुक्र ये दोनो अपनो उच्च, स्व, भयवा मलत्रिकोण राशिमे गये होवेतो न्यायशास्त्रज्ञ होवे ४१

सांख्यज्ञयोग.

अंगाद्धने पुत्रे सोत्थे जीवेन्दू सांख्यज्ञः ४२

टीका-कारकांशलग्नसे दूसरे तीसरे तथा पांचमें भावमे गुरु चंद्र गयेहोवेतो सांख्यशास्त्रज्ञ होवे ४२

गणितज्ञयोग.

अंशात्सोत्थे सुतेर्ये केतुजीवौ गणितज्ञः ४३

धनेभौमे शुभदृष्टे गणितज्ञः ४४

चंद्रारौधने ज्ञदृष्टौ केन्द्रेनुधे वा कुजे गणितज्ञः ४५

धनेशेजेस्वोच्चे गुरौलग्नेऽष्टमे मंदे गणितज्ञः ४६

जीवेकेन्द्रकोणे स्वोच्चेशुकेज्ञेथेशे वा धने गणितज्ञः ४७

टीका—चारकाश लग्नसे दूसरे, तीसरे अथवा पांचमं भावमें केतु और गुरु गये होंवे तो गणितशास्त्र का जाननेवाला होवे ४३

धनभावमें मंगलगया होवे और वह शुभ ग्रहसे दृष्टहोवे तो गणितशास्त्रका जानने वालाहोवे ४४

धनभावमें चंद्र मंगल का योग होवे और उनको बुध देखताहोवे १ अथवा केन्द्रस्थानमें बुध किंवा मंगल गयाहोवे तो गणितशास्त्रका जाननेवाला होवे ४५

धनभावका स्वामि बुध अपनी उच्चराशि ( कन्या राशिमें १५ अंश तक ) में, गुरुलग्नमें, और शनि भाठमें भावमें गयाहोवेतो गणितशास्त्र जानने वालाहोवे ४६

गुरुकेन्द्र त्रिकोणस्थानमें शुक्र अपनी उच्चराशि ( मीन ) में और बुध धनभावकास्वामीहोवे वा धनभाव में गया होवे तो गणितशास्त्र जाननेवाला होवे ४७

जिसके गणितज्ञ योग होताहै वह गणितका जाननेवाला ज्योतिषी अथवा गणितशास्त्री, किंवा हिसाबतपासनेवाला [अकाउन्टेन्टनरल] वा इंजिनियर, ओवरसीयर, सेटलमेन्टभाषीसर, रवेन्युभाषिसर, साइन्सजाननेवाला, पैमायज्ञजाननेवाला, रोकडूचा, खजानची, हिसावरखनेवाला, जमाखर्चनविश, आदि गणितसे सवधरखनेवालेकार्योर्गें स ग्रहवाग के चलचल तारतम्यभेदके अनुसार कोईभी गणितकारनाम करनेवाला होवेगा ।

ज्योतिर्विद योग

ज्ञाच्छो सोत्थार्थगौ ज्योतिर्विदांश्रेष्ठः ४८

धनेशेचलिनि केन्द्रायकोणेजे ज्योतिर्विदांश्रेष्ठः ४९

स्वोच्चेधनेजीवे ज्योतिर्विदांश्रेष्ठः ५०

टीका—बुध गुरु का योग दूसरे तथा तीसरे भावमें होवे अथवा इन दोनोंमें से एक दूसरे और दूसरा तीसरे भावमें गयाहोवे तो ज्योतिर्विदांश्रेष्ठहोवे ४८

धनभावका स्वामि चलवान् होवे और केन्द्रत्रिकोण स्थानमे ग्रह गया होता ज्योतिर्विदामे श्रेष्ठहोवे ४९

सञ्चाशी ( कर्क ) कां ग्रह धनभावमें गयाहोतो ज्योतिर्विदामे उत्तम ज्योतिषी होवे ५०

सर्वार्थमें एक यह भी योगलिखाहै कि धनभावका स्वामि सूर्य वा मंगल होवे और यह ग्रह शुरु से दृष्टहोवे ग्रह पारावतांशमे गया होवे तो ज्योतिष की युक्ती जाननेमे तत्परहोवे ५१

भविष्यवत्तायोग.

धीकारके केंद्र कोणे शुभदृष्टे भविष्यद्वक्ता ५१

टीका-बुद्धिकारकग्रह ( ग्रह ) केन्द्रत्रिकोणस्थान में गयाहोवे और शुभग्रहसे दृष्टहोवेतो भविष्यफल कहनेवाला ज्योतिषीहोवे ५१

त्रिकालज्ञयोग.

जीवेस्वांशमृदंशे त्रिकालज्ञः ५२

जीवेगोपुरे शुभदृष्टे त्रिकालज्ञः ५३

टीका-ग्रह भवनि स्वराशी १/१२ के नवांशमेहोवे और मृदुसंज्ञकभंशमे गयाहोवेतो त्रिकालज्ञ ( भूत भविष्य वर्तमान तीनोंकाल के फल जानने वाला ) ज्योतिर्विद होवे ५२

ग्रह गोपुरांशमें गयाहोवे और शुभग्रहसे दृष्टहोवे तो भूत भविष्य वर्तमान कालका फल जाननेवाला त्रिकालज्ञ होवे ५३

वेदांतसंगीतज्ञयोग.

अंशाद्धनेपुत्रेसात्थे जीवाकौवेदांत संगीतज्ञः ५४

टीका-कारकांश लग्नसे दूसरे तीसरे तथा पांचमें भावमें ग्रह सूर्य गये होवे तो वेदान्त शास्त्र और संगीतशास्त्र ( गायन शास्त्र ) जानने वाला होवे ५४

वेदांतज्ञयोग.

धनेशेज्ञेतुंगे गोपुरेर्कजे सिंहासनेजीवेच वेदान्तज्ञः ५५

पारावतेमन्दे ज्ञेन गुरौदृष्टे वेदान्तज्ञः ५६

केंद्रकोणेजीवे वेदान्तज्ञः ५७

उत्तमांशे भृगौलग्ने वेदान्तज्ञः ५८

देवलोकेचंद्रे उत्तमांशेभृगौकेन्द्रे वेदान्तज्ञः ५९

कोशेशे कोशेशे पारावते वेदान्ती ६०

शोचेशे कोशेशे पारावते व्ययेशुकेवेदांती ६१

टीका-धनेशसुख अपनी उच्चराशि ( वन्याके १५ ) में, शनि गोशु-  
राशमें, और गुरु सिंहासनाशमें, गयाहोवे तो वेदांत शास्त्र जानने  
वाला होवे ५५

परावताशमें शनि होवे और गुरुको सुख देखता होवेतो वेदान्त  
शास्त्रज्ञहोवे ५६

गुरु केन्द्र त्रिकोण स्थानमें गयाहोवे तो वेदान्त शास्त्रज्ञ होवे ( इस  
योगमें यदि गुरु स्व, उच्च वा मित्र राशिकाहोवेतो योग मिलेगा ) ५७  
उत्तमाशमें गयाहुवा शुक्र लग्नमें गयाहोवे तो वेदान्त शास्त्र जानने  
वालाहोवे ५८

देवलोकाशमें चंद्रमा, और उत्तमाशमें गयाहुवा शुक्र ये दोनो केन्द्र  
स्थानमें गयेहोवे तो वेदान्त शास्त्र जाननेवाला होवे ५९

लग्नेशघनमें और धनेशपारावताशमें होवेतो वेदांती होवे ६०

अपनि उच्चराशि में गयाहुवा स्व लग्नमें, और पारावताशमें, गया-  
हुवा धनेश शक्र चारमें भावमें गयाहोवे तो वेदान्तीहोवे ( ये योग  
वन्या लग्न में जन्महोवे उसके होवेगा ) ६१

ब्रह्मनिष्ठयोग

खेशेदेवलोके शुभदृष्टे ब्रह्मनिष्ठः ६२

भाग्ये पारावते शुभदृष्टे ब्रह्मनिष्ठः ६३

टीका-दशम भावका स्वभि देवलोकाशमें गयाहोवे और वह शुभ  
ग्रहसे दृष्टहोवे तो ब्रह्मनिष्ठहोवे ६२

नवम भावका स्वामि पारावताशमें होवे और वह शुभ ग्रहसे दृष्टहोवे  
तो ब्रह्मनिष्ठहोवे ६३

कवियोग.

स्वशैगेकविः ६४

लाभेशे लाभेकविः ६५

टीका-दशमेभावका स्वामि लग्नमे गयाहवे तो कवि ( कविता करने वाला ) होवे ६४

लाभेश लाभ भावमे होवेतो कविहोवे ६५

विदुषारंजकः

सारज्ञे शुभर्क्षे विदुषां रञ्जकः ६६

ज्ञारौमंदमे कट्टौ राजविदुषो रञ्जकः ६७

टीका-शुभघटकी गशीमे बुध मंगल का योग होवेतो विद्वानोको प्रसन्न करने वाला होवे ६६

शानिकी राशि ( १० या ११ ) में गयाहुवे बुध मंगल को सूर्य देखता होवेतो राजा और विद्वानोको प्रसन्न करने वाला होवे ६७

उन दोनो योगो मे मंगल बुध का योग का स्थान नही बताया है परंतु यदि ये योग धन अथवा पंचम भावमे होवेतो अधिक बलवात् होवेगा ।

विद्वान तथा पंडित योग.

बलीसुतेश केन्द्रकोणे विद्वान् ६८

धनेलाभेक्षेशे पण्डितो धर्मवित् ६९

स्वलाभेसुतेशे पंडितः ७०

टीका-स्व, टच्च, मित्र राशिमे गयाहुवा बलवात् पंचमेश केन्द्र या त्रिषोण ( १४।७।१०।१५ ) स्थानमे गया होवेतो विद्वानहोवे ६८

लग्नेश धन मे अथवा लाभ भावमे गया होवे तो धर्मका जानने वाला पण्डित होवे ६९

पंचमेश दशमे अथवा लाभ भावमे गयाहोवे तो पण्डितहोवे ७०

पट्टशास्त्रवद्धमयोग.

केन्द्रेजांवे सिंहासनेशुके धनस्थामांशे जेगोपुरे पट्टशा-  
स्त्रवद्धमः ७१

कोशेशस्थानेश्वरांशेशेभंदे वा भौमेसपावे केन्द्रकोणगे  
पट्टशास्त्रवद्धमः ७२

सूर्यांशेशो वैशेषिकांशे बलिन्पथे पट्टशास्त्रवद्धमः ७३

गुरोर्बलिन्पथेधने राशिशेकेन्द्रे शुभदृष्टे पट्टशास्त्रवद्धमः ७४

टीका-गुरुकेन्द्रस्थानमें, शुक्रसिंहासनांशमें, और धनभावमें जो राशि  
होवे उसराशिके नवांशमें गयाहुवा बुध गोपुराशमें होवेतो पट्टशास्त्र  
जाननेवाला विद्वान् होवे ७१

धनेश जिसराशिके स्थितहोवे उसके स्वामिना नवांशका स्वामि  
शनि भयया मंगल होवे और वह पापग्रहसे युतहोकर केन्द्र त्रिकाण  
( १४४७१०१९५१ ) स्थानमें गयाहोवे तो उहाँ शास्त्रोंके जाननेवाला  
विद्वान् होवे ७२

सूर्य जिसराशिके नवांशमें हो उसका स्वामि वैशेषिकांशमें गया  
होवे और धनभाव बलवान् ( भवनेस्वामि या शुभग्रहसे युत ) होवेतो  
पट्टशास्त्रज्ञहोवे ७३

स्व, उच्च, मित्र राशिके गयाहुवा बलवान् गुरु धनभावमें और  
धनेशके नवांशका स्वामि केन्द्रमें शुभग्रहसे दृष्टहोवे तो पट्टशास्त्र वेत्ता  
विद्वान् होवे ७४

अथकर्तायोग

अंशात्सुते सपापौ चंद्रेज्यौ ग्रंथकृत् ७५

टीका-कारकांश लग्नमें पांचमे भावमें पापग्रहसे युत चंद्र गुरु गये  
होवेतो अथकर्ताहोवे ७५

शूद्रोपि विद्वान् योग.

श्वजाहिभंदैः सहितेज्ये शुभेक्षिते शूद्रोपिविद्वान् ७६



टीका-राहु भयवा केतु और शनिसे युतगुरु शुक्रसे दृष्टहो तो शूद्रजातिमे बत्पन्नहुवा हो तोभी विद्वान् होवे ७६ सर्वविद्यायोग.

चंद्रात्कोणेजीवे ज्ञात्कोणेभौमे सर्वविद्याः ७७

टीका-चन्द्रमासे ९-५ भावमें गुरु और बुधसे ९-५ भावमें मंगल गयाहोतो सर्वविद्या जाननेवाला होवे ७८ इंग्रेजी पारसी भरवी विद्यायोग.

पंचमेराविणामभौमे ऋषिमंदतमाभपि पापग्रहेण संदृष्टाविद्या ताम्रमुखी भवेत् १ लग्नस्थितोनिशानाथः सुतेशेपापसंयुते पंचमेभवने पापः पारसी मारवी पठेत् २ ज्योतिषश्याम संग्रह पत्र १०२

ज्योतिषश्यामसंग्रहमें लिखाहै कि—रविसे पांचमे भावमे मंगल गुरु, शनि, और राहु इनचारों मे से कोईभी भेक, दो वा तीन ग्रह गयेहो और पापग्रह से दृष्टहो तो इंग्रेजी विद्या जानने वालाहोवे । लग्नमे चंद्रमाजावे पंचमभाव और पंचमेशपापग्रहसे युतहोवेतो पारसी भयवा भरवी विद्या जाननेवाला होवे । २

जज, बेरिस्टर, प्लीडर, किवा वकील योग.

कुंडलीविज्ञाननेलिखाहैकि—जिनके जन्मलग्नसे १-७।२-८।५-१।३-९ स्थानमे से कोईभी स्थानमे गुरु और शनि एकराशिमे भतिममीप के भंशोमे गयेहोव १ भयवा परस्पर ( शनि से गुरु ) सातमे स्थानमे गयेहोव २ भयवा परस्पर नवमे पांचमे स्थानमे उपरोक्त भावोमे गयेहोवे ३ और मेष, तुल, मिथुन, धन, कुंभ, किवा सिंहराशिके हो तो जज, बेरिस्टर, सॉलिसीटर, प्लीडर किवा वकील बीए एल. एल बी. आदि उंचीपरिक्षामेपास कियाहुवा मनुष्य होवे ।

जैसा गुरु शनि के योग का फल है वैसाही शनि बुध के योगका भी फल उपरोक्त स्थान और राशी मे गुरु शनिकी स्थितिके समान हो तो होताहै परंतु शनि और बुध इनकायोग बकतृत्वताके लिये उत्तम नहीहोता कारण यह है कि बुध वाणीकारकग्रहहै उसका शनिसे योग होवेतो मनुष्य अच्छा वक्ता होनेवाला नही इसलिये जिसके जन्म

\* गणक्षोभ पसहान न होने का समय जाननाहो तो हमारा लिखा " परिक्षा विचारकी " पुस्तक मंगा देखिये ।

कुंडलीमें ये योग दृष्टोद्भवह वकील अल्पभाषी होताहै ।

उपरोक्त ( गुरु शनि वा वृष शनि ) ग्रहोंका योग पंचमस्थान में स  
वोत्तम होताहै ९ भेस्थान में हो तो मध्यम और लग्नमें वा धनभावमें  
होतो कनिष्ठ होताहै ।

सभामूकयोग.

तुर्येशेगस्ते पंडितोपेसभामूकः ७८

टीका—चतुर्थेश लग्न अथवा सप्तम भावमें गया होतो पंडित होते  
हुवे भी सभामें मूककेसमान होजावे अथवा सभामें बोलनही सके  
( सभाक्षोभ होजावे ) ७८

अनन्ययोग.

विविध्याः सर्वेनपत्यता ७९

टीका—सर्वग्रहनिर्बली ( नीच, शत्रु, राशीमें, वाभस्तंगत तथा ६।  
८।१२ स्थानमें गये हो वा केशवामें कटे हुवे षट्चल में हीन बली ) हो  
तो पुत्र किंवा पुत्री कोई भी संतान नहि होवे ( संतान रहित होवे ) ७९  
गर्भानुत्पादयोग.

लग्नेके स्तेमन्दे वा द्युनेर्कशनी खेजीवदृष्टे गर्भानुत्पादः ८०

मन्दारौ षष्ठे वा तुर्ये गर्भानुत्पादः ८१

सारीशो र्कजः षष्ठे चन्द्रे चास्ते गर्भानुत्पादः ८२

टीका—लग्नमें सूर्य, और सातमें शानि गया हो १ अथवा सातमें  
भावमें रवि शनी गये हो और दशमे भाव कौं गुरुदेखता हो तो गर्भ  
ही उत्पन्न नही होवे ( गर्भोत्पत्ती भी नहि होवे ) ८०

छठे अथवा चतुर्थ भावमें शनि मंगल का योग हां तो गर्भोत्पत्ती  
भी नहीहोवे ८१ .

छठे भाव का स्वामी और शनी येदोनो छठे भावमें जावे और सात  
में भावमें चंद्रमा गया हो तो गर्भोत्पत्ती भी नहीहोवे ८२

गर्भच्युतियोग .

सुतेपापयुतदृष्टे गर्भच्युतिः ८३

पुत्रस्थनर्वाशो यावत्पापदृष्टः शुभादृष्ट स्तावद्गर्भपातः ८४

टीका-पंचमभाव पापग्रह ( रू. मं. श. रा. के. ह. ने. और इनसे युत बुध ) से युत और दृष्टहो तो गर्भपातहोजावेगा ८३

पंचमभावमें जिसराशी का नवांशहोवे उसराशीको यदि कोई शुभग्रह देखता नही हो तो जितने पापग्रह देखते होवे उतनेही गर्भका नाश [ पात ] होवे ८४

सर्पशापाद्विपुत्रयोग.

सुतेराहौ भौमदृष्टे भौमभे वा सर्पशापाद्विपुत्रः ८५

यमेसुते चन्द्रदृष्टे सुतेशेराहयुते सर्पशापाद्विपुत्रः ८६

सराहौपुत्रकारकेपुत्रेशेऽत्रलेभौमांगेशौयुतौसर्पशापाद्विपुत्रः ८७

सुतकारकेसारे राव्हंगे पुत्रेशेत्रिके सर्पशापाद्विपुत्रः ८८

पुत्रेशेजे सारेकुजांशे राहुमांदियुते मेचसर्पशापाद्विपुत्रः ८९

सुतेशेभौमे सुतेराहौ सौम्यदृष्टे सर्पशापाद्विपुत्रः ९०

सुतांगेशौविवलौ सजेज्यासुतेपापाः सर्पशापाद्विपुत्रः ९१

लग्नेशेराहयुते पुत्रेशेभौमयुते कारकेराहदृष्टे सर्पशापा-

द्विपुत्राः ९२

टीका-पंचम भावमें गयाहुवा राहु मंगल से दृष्टहो किंवा पंचमभावमें मंगलकी (भेष, वृश्चिक) राशीमें राहुगयाहो तो सर्पके शापसे पुत्रनही होवे ८५

पंचम भावमें गयाहुवा शानि चन्द्रसे दृष्टहो और पंचमेश राहुसे युतहो तो सर्पके शापसे पुत्रहीनहोवे ८६

पुत्रकारकग्रह [ गुरु ] राहुसे युतहो, पंचमेश-निर्बली हो, और लग्नेश मंगलसे युतहो तो सर्प के शापसे पुत्ररहितहोवे ८७

पुत्रकारकग्रह ( गुरु ) मंगलसे युतहो लग्नमेंराहु, और पंचमेश ६।८।१२ भावमें गयाहो तो सर्प के शापसे पुत्रहीनहोवे ८८

पंचमभावका स्वामि बुध, मंगल से युतहो कर मंगलके ही नवांशमे गयाहो और राहु गुलिक लग्नमे गये होवेतो सर्पके शापसे पुत्रहीन होवे ८९

पंचमभावका स्वामि मंगलहोत्रे और पंचम भावमे गयाहुआ राहु  
बुधसे युत बिंवा दृष्टहो तो सर्पके शापसे त्रिगुणहोवे ९०

पंचमेश और लग्नेश ये दोनो निबंलीहोवे पंचमभावमें सर्वपापग्रह  
बुध गुरु से युत होकर गयेहो ( पंचमे २. मं श रा बु गु. गयेहोवे )  
तो सर्पके शापसे पुत्रहीनहोवे ९१

लग्नेश राहुसे व पंचमेश मंगलसे युतहो और पुत्रकारकग्रह [ गुरु ]  
राहुसे दृष्टहो तो सर्पके शापसे पुत्रहीनहोवे ९२

पितृशापाद्विपुत्रयोग.

पुत्रपेके क्रूरान्तरे त्रिकोणगणयुतदृष्टे पितृशापाद्विपुत्रः ९३

सुतेकेपापान्तरे मन्दाशेनीचगे पितृशापाद्विपुत्रः ९४

सिहेज्ये पुत्रशेकयुते पुत्राङ्गौपापौ पितृशापाद्विपुत्रः ९५

सूर्यरन्ध्रेसुतेमन्दे पुत्रेशेराहुयुते पितृशापाद्विपुत्रः ९६

व्यपेक्षेरन्ध्रेपुत्रे स्वपेरन्ध्रे पितृशापाद्विपुत्रः ९७

टीका-पंचमभावकास्वामि सूर्य ९ में तथा ५ में भावमे पापग्रहके  
बीचमे गयाहो और पापग्रहसे युतदृष्टहो तो पितृकेशापसे पुत्रहीन  
होवे ९३

पंचमभावमे नीचराशिका सूर्य, गनिके नवांशमे तुल राशिके ४-५  
में नवांशमे ) गयाहो और पापग्रहके मध्यमे स्थितहो तो ( पितृ )  
के शापसे पुत्रहीन होवे ९४

सिहराशामे गुरुगयाहो, पंचमेश सूर्यसे युतहावे और पंचमभावमें  
व लग्नमे पापग्रहगये होतो पितृकेशापसे पुत्रहीनहोवे ९५

भाठमेभावमें रवि, व पंचमभावमे शनि, गयाहो और पंचमेश राहु  
से युतहा तो पितृकेशापसे पुत्रहीनहोवे ९६

वार्षेभावकास्वामि लग्नमे, भष्टमभावकास्वामी पंचम भावमें और  
दशमभावकास्वामी भाठमेभावमे गयाहो तो पितृके शापसे पुत्र-  
हीनहोवे ९७

मातृशापाद्विपुत्रयोग

पुत्रपेचन्द्रेनीचगेवापापान्तरे सुताम्बुगौपापौमातृशापाद्विपुत्रः ९८

- लाभेमन्दे तुर्येपापाः पुत्रेनीचगेचन्द्रे मातृशापाद्विपुत्रः ९९  
 सुतेशेत्रिके लग्नेरोनीचेपापयुतेचन्द्रेमातृशापाद्विपुत्रः १००  
 सुतेशेचन्द्रे मन्दराव्हारयुते मातृशापाद्विपुत्रः १०१  
 सुखेशेभौमेराव्हर्कजयुतेलग्नेपुष्पवन्तौमातृशापाद्विपुत्रः १०२  
 सुखेशेष्टमेपुत्राङ्गेशौषष्टेस्वारीशौलग्नेमातृशापाद्विपुत्रः १०३  
 पुत्राङ्गाष्टारिगाराव्हर्कारमंदालग्नेशेत्रिकेमातृशापाद्विपुत्रः १०४  
 राव्हारेज्यास्त्रिकस्था मन्दचन्द्रौपुत्रे मातृशापाद्विपुत्रः १०५

टीका-पंचमभावका स्वामि चंद्रमा नीचराशिका हो भयवा पापग्रहोके मध्यमे ( पापाकर्तरीमे ) हो और चतुर्थ व पंचमभावमे पापग्रह गयेहो तो माताके शापसे पुत्रहीनहोवे ९८

लाभभावम शनी, व चतुर्थभावमे २।३ पापग्रह गयेहो और पंचमभावमे नीचराशी ( ८ ) का चन्द्रमा गयाहो तो माताके शापसे पुत्र हीनहोवे ९९

पंचमेश ६।८।१२ भावमें गयाहो लग्नेश नीचराशी का हो और चंद्रमा पापग्रह से युतहो तो माताके शापसे पुत्रहीनहोवे १००

पंचमेश चंद्रमाहोवे और वह शनि राहु व मंगल से युतहो तो माताकेशापसे पुत्रहीनहोवे १०१

सुक्लेश मंगल हो और वह राहु व शनि से युतहो और लग्नेमे सूर्य, चंद्रमा, ये दोनो गयेहोतो माताकेशापसे पुत्रहीनहोवे १०२

सुक्लेशभाठमे भावमे, पंचमेश व लग्नेश ये दोनो छठेभावमें तथा दशमेश और षष्ठेश ये दोनो लग्नेमे गयेहोतो माताके शापसे पुत्र हीन होवे १०३

राहु सूर्य मंगल और शनि ५।१।८।६ इनभावोंमें यथाक्रम कींवा व्युत्क्रम गयेहो और लग्नेश ६।८।१२ भावमें गयाहो तो माताके शापमे पुत्रहीन होवे १०४

राहु मंगल और गुरु ये तीनो ६।८।१२ भावमें गयेहो और पंचम भावमे शनि चन्द्रमाका योग हो तो माताकेशापसे पुत्रहीनहोवे १०५

कुलदेवदोषा द्विपुत्रयोग

मन्दोरिगेहे ज्ञेन्दुसूर्यदृष्टे लग्नेपापदृष्ट कुलदेवदोषाद्विपुत्रः १०६

मन्दर्क्षेसूर्येपापदृष्टे वा पापवर्गेङ्गे कुलदेवदोषाद्विपुत्रः १०७

टाक-छत्रेभावमेंगयाहुवाशनि, बुध चंद्र और सूर्य से दृष्टहो लग्नको पापग्रह देखतेहोतो कुलदेवकेदोषसे पुत्रहीनहोवे १०६

शनि की राशी ( १०।११ ) में गयाहुवा सूर्य पापग्रहसे दृष्टहोवे भववा लग्नमे पापग्रहोका घर्ग अधिक होतो कुलदेवक दोषसे पुत्र हीनहोवे १०७

सुतहीनयोग.

सूर्येङ्गे सुतेभौमे सुतहीनः १०८

जीवात्सुतेशो गिकेपुत्रङ्काङ्गेशालग्नान्त्रिकस्था सुतहीनः १०९

जीवेपञ्चमे जीवात्सुतेमूरे सुतहीनः ११०

दाराङ्गेपुत्रपेवलिनि पष्ठेशयुनदृष्टेऽपुत्रः १११

धीधर्मशौ सदारेशौ दुस्थानगौ हीनवर्तौ सुभादृष्टेसुते

बहुदारोप्यपुत्रः ११२

मन्दारौखेधर्मेवाऽपुत्रता ११३

मन्दारशुक्रादारगा अपुत्रः ११४

शत्रुभेलग्नपे ज्ञेन्दुदृष्टे पष्ठार्थे सूर्ये विपुत्रः ११५

सुतेशेस्वाशे पापयुते विपुत्रः ११६

गुरौसुतेशे सपापेऽवलेविपुत्रः ११७

सपापेङ्गेरो त्रिकेसुतेशे विपुत्रः ११८

कोणेगुरौ पापयुतेविपुत्रः ११९

लग्नेशेकुजक्षेपष्टेपुत्रेशे विपुत्रः १२०

व्यपेशेस्वाथेविपुत्रः १२१

कन्याङ्गसूर्ये भौमेसुतेविपुत्रः १२२

सुतेशुकभौमान्यतराऽदृष्टे द्वित्रिविवाहेष्वप्य संतानः १२३

लाभेसेन्दौमन्देऽप्रजत्वम्ः १२४

टीका-लभमें सूर्य और पांचमे मंगल गयाहोतो सुतहीनहोवे १०८

जिसराशीमे गुरु स्थितहो ८सराशीसे पंचम भावका स्वामि जो ग्रहहो वह ६।८।१२ भावमे गयाहो और जन्मलग्नेसे भी पंचम नवम व लग्नके स्वामी ६।८।१२ भावमें गयेहो तो पुत्रहीनहोवे १०९ .  
पंचम भावमें गुरुगयाहो और गुरुसे पांचमे भावमें पापग्रह गयाहो तो पुत्रहीनहोवे ११०

पंचमेश सप्तमभावमें भयवा लग्नेमे गयाहो और वह बलवात् पेशेस से युतदृष्टहो तो पुत्रहीनहोवे १११

नवम, पंचम और सप्तम भावके स्वामी निर्वली होकर ६।८।१२ भावमें गयेहो और पापग्रहोसे युतदृष्टहो तो बहुतस्त्रियेहोवे तोभी पुत्र-नहीहोवे ११२

शनि और मंगल ये दोनो नवमे तथा दशमें भावमें गयेहो तो पुत्र-हीनहोवे ११३

शनि मंगल और शुक येतीनो सातमे भावमें गयेहो तो पुत्रहीन होवे ११४

लग्नेश छठे स्थानमें शत्रुग्रहकी राशीमे हो, और वह बुधचंद्र से दृष्टहो छठे भयवा दूसरे भावमे सूर्यगयाहो तो अपुत्रहोवे ११५

पंचमेश के नवांश कास्वामी अस्तकाहो और वह पापग्रहसे युतहो तो पुत्रहीनहोवे ११६

पंचम भावका स्वामि गुरु पापग्रहसेयुत हो और निर्वली हो तो पुत्रहीनहोवे ( पंचम भावमे धन भीन राशीहोवेतो ये योगहोताहै ) ११७

लग्नेश पापग्रह से युतहो और पंचमेश ६।८।१२ में गयाहो तो पुत्रहीनहोवे ११८

पापग्रहसे युतहोकर गुरु ९ में तथा ५ में भावमे गयाहोतो पुत्र-हीनहोवे ११९

लग्नेश मंगलकी राशा ( १।८ ) में गयाहो और पंचमेश छठे भाव-मे होतो पुत्रहीनहोवे १२०

धावे भावकास्यामी दशमे किंवा लग्नमें गयाहो तो पुत्रहीनहोवे १२१  
कन्याराशीके लग्नमें सूर्यहो और पांचमें भावमें मंगल गयाहो तो  
पुत्रहीनहोवे १२२

शुक्र किंवा मंगल इनदोनोंमेंसे यदि एक भी पंचमभावकों नहीं देख  
ताहो तो दो तीन विवाह करलेनेपरभी संतान नहीं होवे १२३

तात्पर्ययह है कि पंचम भावको शुक्र किंवा मंगल किंवा दोनों देखते  
होता संततीहोवेगा । कारण—बिर्षका स्वामि शुक्रहै और रितुका स्वामि  
मंगल है जब रितु रेत के स्वामिकी दृष्टि गर्भस्थान ( पंचम ) पर  
होवेगा तभी गर्भ रहेगा और इन की दृष्टि नहींहो तो ५ किंवा १०  
स्त्रियोंसे विवाह करलेने परभी संततीहोना असंभवहै ।

लाभभावमें चंद्र शनी का योग ( युती ) हो तो संतती नहींहोवे १२४  
पुत्रनाशयोग.

पापांतरेसुतभेवातदीशे वाकारके पापसंयुते पुत्रनाशः १२५

स्त्रीधर्मपुत्रेशांशपाः पापांशगाः पापयुताः पुत्रनाशः १२६

पुत्रेशेरूरांशे नीचास्तभे पापदृष्टे पुत्रनाशः १२७

व्ययेशांशेशस्य व्यंशेशेनयुते वा दृष्टेसुतेशे पुत्रनाशः १२८

पुत्रेकेप्रकाशे जातंजातंम्रियते १२९

पापाःपञ्चमे जातंजातंम्रियते १३०

सुतेसूर्ये मृतापत्यः १३१

कोणगाःपापाः क्षाणिन्द्रङ्गे मन्दर्क्षेजीवेमूढे पुत्रसुखंभूत्वा  
नश्यति १३२

ज्ञेपञ्चमलग्नेसुखेपापे पुत्रसुखं भूत्मानश्यति १३३

टीका—पंचमभाव, अथवा पंचमेश, किंवा पंचमभावका कारकग्रह  
[ गुरु ] पापग्रहोंके मध्यमें ( पापकर्तरीमें ) हो और पापाग्रहसे युत  
हो तो पुत्रनाशहोवे ( पुत्रप्राप्ती तो होवेगा किंतु जीवेगानहीं ) १२५



पंचमेश, सप्तमेश, और नवमेश, ये तीनोंग्रह जिस जिस ग्रहके नवाशमेहोवे वेग्रह पापग्रहके नवाशमे गयेहो और पापग्रहसे युतहो तो पुत्रनाशहोवे [ पुत्रहोकर मरजावे ] १२६

पंचमेश क्रूरग्रह के नवाशमे गयाहो और वह नीचराशी का वा भस्तगतहोकर पापग्रह से दृष्टहो तो पुत्रनाशहोवे १२७

व्ययेशके नवाशका स्वामि जिसराशीके द्रेष्काण मे हो उसराशीके स्वामी से पंचमेश युत किश दृष्टहो तो पुत्रनाशहोवे १२८

प्रकाशावस्थामे गयाहुआ सूर्य पंचमभावमे गयाहो तो जितने संतान जन्मतेजाय उतनेही मरतेजाय ( संतान जीवित रहेनही ) १२९

तीन चार पापग्रह पंचमभावमे गयेहो तो जितने संतान जन्मतेजावे उतनेही मरतेजाय १३०

पंचमभावमे सूर्य गयाहो तो मृतापत्य होवे १३१

नवमे पाचमे भावमे पापग्रह, लगामे क्षीणचंद्रमा, और शनि की राशी ( १०-११ ) मे गयाहुवा गुरु भस्तका हो तो पुत्रकामुख होकर नाशहोजावे १३२

पंचमभावमे बुध गयाहोवे और लग्न तथा सुख इनदोनो भावमे पाप ग्रह गयेहोतो पुत्रका सुखहोके नाशहोजावे १३३ येसवयोग भल्पायु-प्रजाहोनेकेहै ।

पुत्रार्ति वा पुत्रसुख रहित योग ।

क्रूर पृथ्वंशे पुत्रपे पाप दृष्टयुते पुत्रार्तिः १३४

सोत्थेश चंद्रौ केन्द्रकोणगौ पुत्रसुखं. १३५

सिंहेर्कजारौ सुतगौ सुतेरोपष्टे सुतसौख्यं १३६

भौमर्क्षेसुतेराहौ भौमदृष्टे सुतसौख्यं. १३७

नीचेगुरौ भृगौवा समेजे विपमेर्के सुतसौख्यं १३८

धीस्थेमंदे पुत्र सुखं १३९

व्यन्त्याङ्गार्थ सुतेसहजपे सुतसुखं १४०

पञ्चमे जीवर्क्षे सुतसुखं १४१

मन्दज्ञावङ्गे लौशुक्रेज्यौ सुतसुखंन १४२

जीवात्सुतेपापे मन्तान सुखाभावो नान्यथा १४३

टीका-पचमेश क्रूरपुंश्चशमे होवे और पापग्रहसे युतकिंवा दृष्ट होतो पुत्र कामुख नहींहोव ( पुत्रहोते हुवेभीउसका सुखनही होवे ) १३४

तृतीयेश और चंद्रमाये दोनो १।४।७, १०।९।५ भावमेगये होतो पुत्रसुखनही होवे १३५

सिहराशिमै गयेहुवे शनि मंगल पंचमभावमे स्थितहोवे और पचमेश उठे भावमे हो तो पुत्र सुखनही होवे १३६

पंचम भावमे मंगल की राशि ( १-८ ) में गया हुवाराह, मंगलसे दृष्टहोवे तो पुत्रका सुख नहीं होव १३७

गुरु और शुक अपनी नीचराशी ( १०-६ ) मे गयेहोवे अथवा बुध समराशी ( २-४-६-८-१०-१२ ) मे और सूर्य विषम राशी ( १-३-५-७-९-११ ) में गयाहोव तो पुत्रका सुखनहीहोवे १३८

पंचम भावमे शनिगया हो तो पुत्रका सुखनही होवे १३९

तृतीयभावका स्वामी ( ३-१२-१-२-५ ) भावमेगया होतो पुत्र का सुखनहीहोवे १४०

पंचम भावमे गुरुकी राशी ( ९।१२ ) होतो पुत्रकामुखनही होवे १४१

बुध शनि लग्नम गयहो और वृश्चिक राशिमै गुरु शुकका योग होतो पुत्रका सुखनही होवे १४२

गुरु से पाचमे भावमे पापग्रह गयाहो तो संतान सुख नहींहोवे और शुभग्रह गयेहोव तो संतानका मखहोवेगा १४३

पुत्रसुखहीनयोग मे पुत्रहोवेनही, १ किंवा पुत्रहोकर मरजावे २ अथवा पुत्रहोतेहुवे भा पुत्रका सुखनहीहोवे ३ ( पुत्रहुभा और नहींहुभा सरीखाहीहोवे ) ये तीनप्रकारके पुत्रसुख नहींहोनेके भेदहै इनमेसे जिनके पुत्र हीन किंवा पुत्रनाश, किंवा वंशविच्छेदयोग, प्रबलहुवा होवे उनके तो पुत्रहोवगाहीनही किंवा होके मरजावेगा । और केवल पुत्रसुखहीन योग ही होवे और दूसरे उपरोक्त योग नहीं हो तो पुत्रहोत हुवेभी पुत्रका सुखनहीहोवेगा ।

वंशविच्छेदयोग.

ज्ञाङ्गणौ लग्नेतर केन्द्रगौवंशविच्छेदः १४४

पापग्रहा व्ययसुताष्टमगा वंशविच्छेदः १४५

चन्द्रेज्यौलग्ने दूनेमन्दे वा भौमे वंशविच्छेदः १४६

सुखेपापा वंशविच्छेदः १४७

लग्नान्त्य सुताष्टमगैः पापैर्वंशच्छेदः १४८

सुतेचन्द्रे पापारन्धाङ्गान्त्यगा वंशविच्छेदः १४९

ज्ञाच्छौमेदे सुखेपापे सुतेजीवे वंशविच्छेदः १५०

चन्द्राष्टमेपापा वंशविच्छेदः १५१

पापेङ्केसुखेचन्द्रेसुतेङ्केशे सुतपेऽल्पबले वंशविच्छेदः १५२

पञ्चमेपापा वंशविच्छेदः १५३

शुकेस्मरे खेचन्द्रेसुखेपापा वंशविच्छेदः १५४

भौमेङ्के मन्देरन्ध्रे सुतेर्के वंशविच्छेदः १५५

टीका-बुध और लग्नेश ये दोनो लग्नके विना दूसरे केन्द्रस्थान ( ४७१० ) में गयेहो तो वंशविच्छेद होवे १४४

वारमे, पांचमे, और भाठमे, भावमें पापग्रह गयेहो तो वंशविच्छेदहोवे १४५

लग्नमें चंद्र गुरु का योगहोवे और सातमें भावमें शनि किंवा भंगल गयाहो तो वंशविच्छेद होवे १४६

संपूर्ण पापग्रह चतुर्थ भावमें गयेहोवे तो वंशविच्छेद होवे १४७

जन्मलग्नमें, वारमें, पांचमें, और भाठमें भावमे संपूर्ण पापग्रह गये हो तो वंशविच्छेद होवे १४८

पंचम भावमे चंद्रमा गयाहोवे और भाठमें, लग्नमें, वारमे, भावमें संपूर्ण पापग्रह गयेहो तो वंशविच्छेद होवे १४९

सातमें भावमें बुध शुक, चतुर्थ में पापग्रह, और पंचम भावमें गुरु गयाहोवे तो वंशविच्छेद होवे १५०

वैशेषिकांशे जीवे तथा पुत्रेशे च शुभदृष्टे पुत्राप्तिः १६९

वित्तेशे सुते बलाढ्ये गुरुदृष्टे पुत्राप्तिः १७०

पुत्राङ्गपौपरस्परं पश्यतः पुत्राप्तिः १७१

पुत्राङ्गपावन्योन्यमगौ वा युतौ पुत्राप्तिः १७२

सुताङ्गेशौ केन्द्रगौ शुभान्वितौ धनेष्वलिनिपुत्राप्तिः १७३

पुत्रेशांशे शुभघृतदृष्टे पुत्राप्तिः १७४

धर्माङ्गेशौ सप्तमे धनेशेङ्गे पुत्राप्तिः १७५

सुतेशे मृद्वंशादिगे पुत्राप्तिः १७६

गोपुरादौ सुतेशे पुत्राप्तिः १७७

पुत्रांशेशेङ्गे लग्नेशांशे सुते पुत्राप्तिः १७८

जीवांशे शकेन्द्रे पुत्राप्तिः १७९

धर्माय सुतेशः पारावतादिगाः शुभदृष्टाः पुत्राप्तिः १८०

लग्नाद्वा चन्द्रात्पंचमे शुभक्षेत्रे शुभसम्बन्धे पुत्रसम्भवो नान्यथा १८१

टीका—सप्तमेश के नवाशका स्वामी लग्नेश, धनेश, और नवमेश, इन तीनों ग्रहोंसे दृष्ट हो तो पुत्रप्राप्ती होवेगा १६९

पंचमेश किंवा पंचमभाव अथवा पंचमका कारकग्रह (गुरु) शुभ ग्रहसे युत और दृष्ट हो तो पुत्रप्राप्ति होवेगा १६६

लग्नेश पंचम भावमें गया हो, पंचमेश और गुरु ये दोनों परिपूर्ण बलवान् हों तो पुत्रप्राप्ति होवेगा १६७

पंचमेश गुरु पूर्णबलवान् होवे और उसको लग्नेश देखता हो तो पुत्रप्राप्ति होवेगा १६८

गुरु अथवा पंचमभावका स्वामी वैशेषिकांशे गया होवे और शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो पुत्रप्राप्ति होवेगा १६९

धनभावका स्वामी बलवान् होकर पंचमभावमें गया हो और गुरु से दृष्ट हो तो पुत्रप्राप्ति होवेगा १७०

पंचमेश और लग्नेश ये दोनोपरस्पर भेक दूसरे को देखते होते पुत्राप्तिहोवेगा १७१

पंचमश और लग्नेश ये दोनो अन्योन्यराशीमे ( पंचमेशकी राशीमे लग्नेश और लग्नेशकी राशीमे पंचमेश ) गयाहो भयवा पंचमश और लग्नेश ये दाना भेकराशीमे युतहोतो पुत्राप्तिहोवेगा १७२

लग्नश और पंचमेश ये दानो शुभग्रहसे युतहो कर केन्द्र [ १४। ७। १० ] स्थानमे गयेहा, और धनशबलवानहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७३

पंचमेश के नवाशका स्वामी शुभग्रहसेयुत और दृष्टहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७४

नवमेश और लग्नश ये दोनो सप्तम भावमे गयेहो और धनेशलग्न मे गयाहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७५

पंचमेश मृदुशादि शुभाशम गयाहोतो पुत्राप्तिहोवेगा १७६

पंचमश गोपुरादि भंशमेगयाहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७७

पंचमभावका नवाशका स्वामी लग्नमे और लग्नश के नवाशका स्वामी पंचमभावमे गयाहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७८

गुरु नवाशका स्वामी केन्द्र ( १४। ७। १० ) मे गयाहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १७९

नवम, लग्न, और पंचमेश, ये तीनोग्रह पारावतादि भंशमगयेहावे और शुभग्रहसे दृष्टहो तो पुत्राप्तिहोवेगा १८०

लग्नसे भयवा चन्द्रमासे पाचमे भावमे शुभग्रह की राशि शुभग्रह से युत दृष्ट हाता पुत्रहोवेगा और इससे विपरीत होवेतो नही होवेगा १८१

कन्या प्राप्तीयोग।

सुतमे समर्शवर्गे ज्ञमन्दान्यतरयुते शुक्रचंद्रान्यतर दृष्टे कन्या प्रजावान् १८२

पुत्रेज्ञे नेत्रपाणौ पुत्रहानिः कन्यातिथ्य १८३

पुत्रेदूनेज्ञे सभावस्तागे कन्याधिक्यं १८४

शुक्राब्जवर्गे सुतमे समर्शे शुक्राब्जदृष्टे बहुकन्यावान् १८५

सुतेशेर्धेष्टमे बहुकन्या १८६

लाभेज्ञे शुकेचन्द्रेण कन्याप्रजाः १८७

ज्ञेन्द्रच्छानामन्यतमे सुते कन्योत्पादः १८८

टिका—पंचम भाष मे समराशी ( २।४।६।८।१०।१२ ) और सम राशिका नवांश बुध किंवा शनी से युतहोवे और शुक्र भयवा चंद्रसे किंवा इनदोनोंसे दृष्टहो तो कन्या प्रजा वाला होवे १८२

नेत्र पाणि भवस्था में गयाहुवा बुध पंचमभावमे गयाहो तो पुत्रकी हानी और कन्याकी प्राप्ति होवेगा १८३

सभावस्ता मे गयाहुवा बुध पांचमे भयवा सातमे भाषमे गयाहो तो बहुत कन्या होवेगा १८४

पंचम भाष समराशी ( २।४।६।८।१०।१२ ) का होवे और वह शुक्र चंद्र के दशवर्ग मे होकर शुक्र चंद्रसे ही दृष्टहो तो बहुत कन्यावा का होवे १८५

पंचमेश धनमे भयवा भाठमे भाषमे गयाहोनो बहुत कन्या होवेगा १८६

लाभभाषमे बुध, शुक्र, किंवा चंद्रमा इनतीनोंमेसे ( भेकभी ग्रह गया होतो कन्याप्रजावाला होवे १८७ ( नितने अधिक ग्रहका योग होवे बतनाही योग धलवान होताहै )

बुध, चंद्र, और शुक्र इन तीनोंमेसे एकभी पांचमे भाषमे गयाहो तो कन्या प्रजा का जन्म होवेगा १८८

भस्वापत्य योग ।

कर्केचन्द्रेसुतेकन्यावान्वात्पापत्यः १८९

नीचे पुत्रेशे पृष्ठादित्रयगे पापयुते काकषन्ध्या १९०

पुत्रेशे नीचे मन्दयुते काकषन्ध्या १९१

टीका—कर्क राशी का चन्द्रमा पंचम भाषमे गयाहो तो कन्यावा का किंवा भस्व संतान वाला होवे १८९

पंचमेश नीचका होकर ६।८।१२ मे भाषमे गया हो और पाप ग्रहसे युतहोतो काकषन्ध्या होवे ( भेकवार संतान होकर किरनही होवे ) १९०

पंचमेश नीचका होकर शनीसे युतहो तो काकषन्ध्या होवे १९१

बहुप्रम योग.

सुतेशुकभांशी वा शुक्रदृष्टेबहुप्रजः १९२

टीका—पंचम भावमें शुक्र की राशी ( २-७ ) और नवांश हों  
कीया बलवान् शुक्र पंचम भाव की देखता हो तो बहुप्रम ( बहुत  
संतान वाला ) होता है १९२

पुत्र पुत्री संख्या योग.

पुत्रे यावत्पुंमहदृष्टि स्तावत्पुत्राः १९३

कोणेशुक्रक्षेपेन्दोवेकपुत्रः १९४

सुतेराहु केतु कुपुत्रः १९५

धोस्येके शुभदृष्टे त्रिपुत्रः १९६

मृगेकजेसुते त्रिपुत्रः १९७

सुते मृगगे भौमे त्रिपुत्रः १९८

कुंभेमन्दे सुते पञ्चपुत्रः १९९

सुतेसूर्यभौमगुर्वन्यतमेक्रमा देक त्रि पञ्च पुत्रोत्पत्तिः २००

सितेन्दुवर्गपुत्रक्षे ओजभे सितेन्दुयुते बहुपुत्रः २०१

पुत्रेस्त्रीग्रह दृक्तुल्या कन्या २०२

सुते चन्द्रज्ञ सितशनयो द्वित्रि पञ्चसप्तकन्योत्पत्तिः २०३

टीका— पंचम भावपर जितने पुरुष ग्रह की दृष्टिहोवे उतनेही पुत्र  
होवेगे १९३ ( जिस ग्रहकी दृष्टी होवे वह स्व राशिका होना द्विगुण  
उच्च मूल त्रिकोण राशी का होतो त्रिगुण संख्या कहना ) अथवा  
पंचम भावमे जितने नवांश गयेहोवे उनने संतान कहना शुभ ग्रहसेदृष्ट  
होतो उससे द्विगुण संख्या जानना । अथवा कितनेक विद्वान पुत्र  
स्यान में गई हुई राशी के अंकके संख्याके समान किंवा पुत्रस्थानेश  
की फिरण की संख्या के समान भी संतानकी संख्या कहते है ।

शुक्रकीराशी ( ७-२ ) मे गयाहवा चंद्रमा नवम किंवा पंचम  
भावमें गयाहोतो एकपुत्र होवेगा १९४

पंचम भावमे राहु भपवा केतु गयाहेवे तो एक कुपुत्र होवे १९५  
 पंचम भावमे गयाहुवा सूर्य शुभ यहसे दृष्ट होतो तीनपुत्रहोवे १९६  
 मकर राशी मे गयाहुवा मंगल पंचमभावमे होतो तीनपुत्रहोवे १९७  
 मकर राशी का शनी पंचमभावमे गयाहोतो तीनपुत्रहोवे १९८

कुंभ राशी का शनी पंचमभावमे गयाहोतो पांचपुत्र होवेगे परंतु  
 सूत्र २०९ के अनुसार इसी योगमे दत्तपुत्र योगभी होजाताहै इस-  
 कारण यदि मकर राशीका पंचम भाव ६ अंश ४० कलासे अधिक अंश  
 का होवे और उसमे शनीगया होतो तीन पुत्र होवेगे एवं कुंभराशीका  
 पंचम भाव १० अंश ० कलासे १६ अंश ४० कला पर्यंत के ६ अंश ४०  
 कलाके अति रिक्त शेष अंशका होवे और उसमे शनीगयाहोतो पांच  
 पुत्र होवेगे अन्यथा नही होवेगे । तात्पर्य यहहै कि मकरके ६अंश ४०  
 कला पर्यंत के पंचम भावमे मकर का शनि, तथा कुंभ क १० ही अंश  
 से १६ अंश ४० कला पर्यंत के पंचम भावमे कुंभका शनि, जावेगा तो  
 दत्त पुत्र ही लाना पड़ेगा तीन तथा पांच पुत्र नही होवेगे १९९

पंचम भावमें सूर्य गया होतो १ एक पुत्र, मंगल गयाहोतो ३  
 तीन पुत्र, गुरु गया होतो ५ पांचपुत्र, होगा । सूर्य मंगल दोनोहोवे  
 तो ४ सूर्य गुरु होव तो ६ मंगल गुरु होवतो ८ सूर्य मंगल गुरु ये  
 तीनों गये होवेतो ९ पुत्र का जन्म होवेगा २००

विषम राशी १।३।५।७।९।११का पंचमभाव शुक्र और चंद्रके दशमर्गमें  
 गया होवे और वह शुक्र चंद्रसे युत होवेतो बहुत पुत्रवालाहोवेगा २०१

पंचम भावपर जितने स्त्री ग्रहकी दृष्टी होवे उतनीहीकन्याहोवेगा २०२  
 पंचमभावमें चंद्रगयाहोता ३ शुक्र गया होतो ५ शनीगयाहोवेतो  
 ७ कन्याका जन्महोवेगा ( और ये ग्रह दो तीन समुक्त होवे तो उनकी  
 संख्या के एवमके अनुसार कन्याका जन्म समझना ) २०३

बृहस्पाराशरीमे संतान संख्याके औरभीविशेष योग इसप्रकार लिखेहैकि  
 लग्नमेराहु, पांचमेगुरु, नवमेशनि, गयाहोतो १ पुत्र होवगा ।

धनेश पंचमेशका योग पंचम भावमे हुवा होतो ६ पुत्र होवेगा  
 उनमे ३ मरजावेगा ।

नवमे भावमे शनि गया हावे और नवमेश पंचम मे होतो ७ पुत्र  
 होवेगा जिनमे दो, गभ यमल ( जोडले ) बालकके होवेग ।



गुरु ९ में किंवा ५ में भावमें व धनेश १० में भावमें गयाहो और पंचमेश बलवान होवेतो ८ पुत्र होवेगा ।

परमोच्चराशी का गुरुहो व धनेश राहुसे युत होवे और नवमेश ९में गयाहोतो ९ पुत्र होवेगा ।

परमोच्चराशी में गया हुना पंचमेश लग्नेशसे युतहोवे और गुरु शुभग्रहसे युतहोतो १० पुत्र होवेगा ।

पंचम भावमें पापग्रह गयाहोवे और गुरुसे पांचमें जनीगया हो तो दूसरा विवाह करने से ( दूसरी स्त्री के ) पुत्र होवेगा और ३ स्त्री का सुख रहेगा.

प्रथम पुत्र किंवा पुत्री जन्म योग ।

व्यर्थाङ्गे लग्नपे प्रथमः सुतः २०४

द्विस्व भावगा श्वन्दारशुक्राः प्रथमः सुतः २०५

लाभेपापे पंचमे चन्द्राच्छौ प्रथमः कन्याः २०६

पुत्रेशे पुंभाशगे पुंग्रहे प्रथमं पुत्रोन्यथा कन्या २०७

टीका-लग्नेश लग्नमें किंवा दूसरे तीसरे भावमें गयाहोतो प्रथम पुत्रहोवेगा २०४

चंद्र, मंगल, और शुक, ये तीनों द्विस्वभाव राशी में गयेहोतो प्रथम पुत्र होवेगा. २०५

लाभ ( ११ ) भावमें पापग्रह गयाहोवे और पांचमें भावमें चंद्र शुक का योग होतो प्रथम कन्या होवेगा २०६

पंचमेश पुरुष ग्रह होवे और वह पुरुष राशी ( १।३।५।७।९।११ ) में, पुरुष बीराशी के ही नवांश में गया होवे तो प्रथम पुत्रहोवेगा ।

और पंचमेश यदि स्त्री ग्रह हो वे और स्त्री राशी ( २।४।६।८।१०।१२ ) में स्त्री राशी के ही नवांशमें गया होतो प्रथम कन्या होवेगा २०७

औरस पुत्र योग ।

पंचमेएकतमे गुरुवर्गे शुभराशावौरसः पुत्रः २०८

टीका-पंचमभावमें केवल गुरुका दशवर्ग होवे किंवा पंचम में शुभ ग्रह की राशी शुभग्रह के वर्ग में शुभग्रह से दृष्ट होतो और सपुत्र ( सगे पुत्र ) का सुख होवेगा २०८

अथ पट्टविवेकः ।

ज्ञातिशत्रु योग ।

षष्ठेशे षष्ठे ज्ञातिः शत्रुः १

टीका-छठे भाव का स्वामी छठे भावमही जावेतो जातिके लोग शत्रुहोवे १

सुतः शत्रुयोग ।

अन्त्यारिगे सुतेशेसुतःशत्रुः २

पुत्रोदयेश शात्रवे वा पुत्रपेपष्ठे लग्नेशदृष्टे पुत्रःशत्रुः ३

टीका-पंचमेश छठे भयवा चारमे भावमे जावेतो पुत्र शत्रु होवे २  
लग्नेश पंचमेश के परस्पर शत्रुता होवे भयवा पंचमेश छठेभाव में गयाहो और वसकों लग्नेश देखता हो ता पुत्र शत्रुहोवे ३

मातृवैरयोग ।

लग्नेशस्य सुखापेशौ शत्रु चेन्मातृवैरम् ४

सुखेपे पापदृग्युते मातृवैरम् ५

तुर्येपे लग्नपतः षष्ठे वा तुर्येशे षष्ठे मातृवैरम् ६

टीका-सुख और लाभ भावके स्वामी लग्नेशके शत्रु हांतो माता से वैरहोवे ४

सुखेश पापदृहसे युत दृष्टहोतो मातासे वैरहोवे ५

सुखेश लग्नेशने छठ भावमें गयाहो भयवा सुखेश छठभावमेगयाहो वो मातासे वैर होवे ६

पिता शत्रु योग ।

लग्नखेशयोः शात्रवं वाख्येते लग्नतो लग्नपतो वा षष्ठे

पिताशत्रुः ७

सुतेशोत्रिके लग्नेशदृष्टे पितृदूपकः ८

पुत्रेशे त्रिकेराह्वार दृष्टे पितृदूपकः ९

टीका—लग्नेश दशमेश के परस्पर शत्रुताहो अथवा दशभावका स्वामी लग्नसें वा लग्नेशसे छुटैभावमे गया होतो पिता शत्रुहोवे ७

पंचमेश ६।८।१२ स्थानमें गयाहो और उसको लग्नेश देखता हो तो पिताको दूषण लगाने वाला होवे ८

पंचमेश ६।८।१२ स्थानमे गयाहो और वह राहु मंगल इन दोनो ग्रहो से दृष्टहो तो पिताको दूषण लगाने वालाहोवे ९

शत्रुपीडायोग.

षष्ठेशकेन्द्रे पापदृष्टे शत्रुपीडा १०

षष्ठेपापा वा लग्नेशः षष्ठे षष्ठेशके शत्रुपीडा ११

षष्ठेष्वले पापदृष्टे पापांतरे वा शत्रुपीडा १२

टीका—षष्ठेश केन्द्रेमे गयाहो और पापग्रह से दृष्टहो तो शत्रुकी पीडा होवेगा १०

छठे भावमे पापग्रह युतहो अथवा लग्नेश छुटैभावमे और षष्ठेशलग्न में गयाहोतो शत्रुकी पीडाहोवेगा ११

षष्ठेश निर्बली होकर पापग्रह से दृष्टहोवे अथवा पापग्रहोके मध्यगत हो तो शत्रुकी पीडाहोवेगा १२

श्री शत्रु योग ।

लग्नदारपयोः शत्रवे स्त्रीशत्रुः १३

टीका—लग्नेश सप्तमेश के परस्पर शत्रुता होतो श्री शत्रुहोवे १३  
वैरिहन्ता तथा शत्रुनाश योग ।

षष्ठेशो वैरिहन्ता १४

षष्ठेशे बलाढ्ये वैरिहन्ता १५

षष्ठेशुभ दृष्ट्या धिक्ये वैरिहन्ता १६

षष्ठेशत्रिके नीचमूढारियुते लग्नेशबलिनि शत्रुनाशः १७

लग्नेशादरीशेल्पबले शत्रुनाशः १८

षष्ठेके कौतुके शत्रुनाशः १९

टीका-पष्टेश लग्नेमे गयाहोतो वैरिनाश करनेवाला होवे १४  
 पष्टेश बलवान होवतो वैरिहन्ता होवे १५  
 पष्टस्यानपर शुभमहों कि दृष्टि भविकहोतो वैरिहन्ता होवे १६  
 पष्टश ( ६।८।१२ ) त्रिकस्थानमे हा नाच, भस्त्र तथा शशुराशी  
 के ग्रहसे युतहोवे भोर लग्नेश बलवान होतो शशुका नाश होवे १७  
 लग्नेश से पष्टेश भस्त्र बली होतो शशु का नाश होवे १८  
 छठे भावमे सूर्य कौतुकावस्थामे गया होतो शशुका नाशहोवे १९  
 ब्रगपिठिकादि पीडायोग ।

भौमेलौ गुहसितदृग्घाने ब्रगपिठिकापीडा २०

केत्वर्कजा वस्ते ब्रगपीठिका पाडा २१

लग्नपारौ त्रिके ग्रन्थिशस्त्रज ब्रगपीडा २२

सपापेरीशे लग्नेत्रिके शरीरेव्रगः २३

मंदारा वरिगौ वा व्ययगौ ब्रगः २४

सार्केरीशेङ्गे वाष्टमे शिरोब्रगः २५

लग्नेशेकुजेपुत्रेपापान्वितेपापदृष्टेशिलाशस्त्रजंघंगंमस्तके २६

भौमिंगे घुनेजीवे वा शुके ब्रगांकितशिरः २७

सचंद्ररीशेगे वाष्टमे मुखब्रगः २८

भौमारीशाबंगे वाष्टमे कंठब्रगः २९

जीवारीशा बंगे वाष्टमे नाभिमूलेब्रगः ३०

ज्ञारीशौरंधेगेवा हृदय ब्रगः ३१

शुक्रारीशौ लग्नेरंधे नेत्रमूले ब्रगः ३२

मंदारीशौ रंधे देहे पादब्रगः ३३

राहु केतु युतारीशोष्टमे देहे अधरब्रगः ३४

ज्यायारिगेभौमे व्ययेशुके वामपार्श्वेब्रगः ३५

व्ययेगुरौविधौ ज्ञे स्यायारिगेगुदा व्रणः ३६

पष्टेवाराकिंयोगे सौम्यादृष्टे गंडमालादयः ३७

सपापे कर्मगेशि पापदृष्टे वा यदंगराशौ तदंग व्रणः ३८

टीक - वृश्चिक रांशिमि गयेहुवे मंगलको गुरु शुक्र नहीं देखने होवेतो जखम फोड़ा फुनसी की पीड़ाहोवे २०

कतु और शनि ये दोनो सातमे भावमें गयेहोतो जखम फोड़ा बगेरा की पीड़ाहोवेगा २१

लग्नेश और मंगल ये दोनो ६।८।१२ भावमें गयेहोवेतो गठान की और शस्त्र के जखमकी पीड़ा होवेगा २२

पापग्रहसँ युत षष्ठश लग्नमे तथा त्रिकस्थानमें गयाहोतो शरीरमे घाव ( जखम ) होवेगा २३

शनि और मंगल ये दोनो छठे अथवा वारमे भावमें गयेहोतो घावकी पीड़ा होवेगा २४

षष्ठेश सूर्यसँ युतहोकर लग्नमें वा भाठमें भावमें जावेतो मस्तकमें जखमहोवेगा २५

लग्नेश मंगल होवे और वह पंचम भावमें पापग्रह सँ युतदृष्टहो तो पाषाण तथा शस्त्र से मस्तकमें जखम हावेगा २६

लग्नमें मंगलहो और सातमें भावमें गुरु अथवा शुक्र गयाहोतो व्रणाक्षित शिरहोवे अर्थात् मस्तकमें बहुत जखमो के चिन्ह होवे २७

षष्ठेश चंद्रते युतहोकर लग्नमे अथवा भाठमें भावमें गया होवेतो मस्तपर व्रण ( घाव ) होवे २८

मंगल सँ युत होकर षष्ठेश लग्नमें वा भाठमें भावमें गयाहोवेतो घंठमें जखम होवे २९

गुरुसँ युतहोकर षष्ठेश लग्नमें वा भाठमें भावमें जावेतो नाभीके नीचे व्रण हावेगा ३०

शुभसे युतहोकर षष्ठेश लग्नमें वा भाठमें भाव में गयाहोवेतो हृदयमें व्रणहोवेगा ३१

शुक्रसे युत होकर षष्ठेश लग्नमे वा भाठमें भावमें गया होवेतो नेत्र के मूलमें जखम होवे ३२

शनीसे युतहोकर षष्ठेश लग्नमें वा आठमें भावमें गयाहोवेतो पांच  
मे व्रण होवे ३३

राहु वा केतुसे युतहोकर षष्ठेश लग्नमें अथवा आठमें भावमें गया  
होती आष्ट पर व्रण होवेगा ३४

मंगल ३-११-६ भावम गयाहो और चारमें भावमे शुक्रहोतो  
षाम पार्श्व में व्रण हावे ३५

चारमे भावमे गुरु और चंद्र दोना गये हो और बुध ३-६-११  
भागमे होतो गुहा के समीप व्रण होवे ३६

मंगल और शनि का योग छठे अथवा चारमें भावमें होवे और  
सनकों शुभग्रह नों देखते होतो गंदमाला रोग ( कंठम होताहै बड )  
होवे ३७

पापग्रहसे युत अथवा दृष्ट षष्ठेश लग्नमें भावमे जिसराशीमें जावे  
वह राशिकालगुरु के अगम जिस अंगकी हावे उसी अगमे जखम  
( घाव ) होवेगा अर्थात् मेषराशी होतो मस्तक मे वृषभ होतो मुखपर  
हत्यादि क्रमसे राशीके अंग के अनुसार व्रणवा स्थान मानना ३८

वापगण्ड योग ।

लग्नेशको विके वापगण्डः ३९

टीका-लग्नेश और राबि इन दोनो का योग ६।८।१२ भावमें हो  
तो वापगण्ड ( दाहयुक्त गलगण्ड ) रोगहोवे ३९

जलग गण्ड योग ।

चंद्राक्षरौ विके जलग गण्डः ४०

लग्नषष्ठेशचंद्राक्षिके जलगगण्डः ४१

मकरांशे दुष्टग्रन्थि गण्डादि ४२

टीका-चंद्र और लग्नेश इनदोनोका योग ६।८।१२ भावमे होतो  
जलसे सत्पन्न हुआ गलगण्ड रोगहोवे ४०

लग्नेश, षष्ठेश, और चंद्रमा ये तीनों ६।८।१२ भावमे गयेहोवेतो  
जलगगण्ड ( कफजाने गलगण्ड ) रोग होवे ४१

कारकाशलग्न मकर राशीका होतो दुष्टग्रन्थि रोग वा गलगण्ड  
रोगादि होवे ४२

पित्तरोगीयोग.

लग्नेशज्ञौ त्रिके पित्तरोगी ४३

टीका-लग्नेश और बुध का योग ६।८।१२ भावमें होतो पित्तका रोग होवे ४३

आमरोगीयोग.

जीवांगेशौत्रिके आमरोगी ४४

टीका-गुरु और लग्नेश का योग ६।८।१२ भावमें हो तो आम रोगी होवे ४४

क्षय रोगी योग ।

शुक्राङ्घ्रेणौ त्रिके क्षयरोगी ४५

अंशात्तुर्यात्यगौ क्रमात्कुजराहू क्षयरोगी ४६

भौमाकर्ष्य दृष्टे लग्ने श्वासक्षयादिः ४७

चंद्राकां वन्योन्य भांशगौ क्षयी ४८

सिंहेवा कर्कचंद्राकां क्षयी ४९

रुपमे चंद्रे भौमदृष्टे ग्रहणिजः क्षयी ५०

कर्केजे क्षयी ५१

टीका-शुक्र और लग्नेशका योग ६।८।१२ भावमें होतो क्षयरोगी होवे ४५

कारकाश लग्नसे चतुर्थभावमें मंगल और वारमें भावमें राहु गये हो तो क्षयरोगीहोवे ४६

मंगल और शनि लग्नको देखते होतो श्वास क्षयादिरोग होवे ४७

चंद्र और रवि परस्पर अन्योन्य राशी और नवांशमे गयेहोवे अर्थात् चंद्रकी (कर्क) राशीमे कर्क राशीके नवांशकारविशे और रवि की (सिंह) राशीमें सिंह राशीके नवांशका चंद्रमा हो तो क्षय रोगी होवे ४८

सिंह राशीमें भयमा कर्कराशी में रवि चंद्रकायोग होतो क्षयरोगी होवे ४९

शनिसे युक्त चंद्रमा को भौम देखता हो तो संग्रहणी रोग जनित क्षय रोग होवे ५०

ककराशी में बुध गया होवे तो क्षयरोगी होवे ५१

चौरांत्यज जनित रोगयोग ।

लग्नेशनमह शनि राहु केत्वन्पतमस्त्रिके चौरांत्यज जनि तो रोगः ५२

टीका-लग्नेश से शनि, राहु, शिवा केतु इनतीनों ग्रहों में से कोईभाभेक ग्रह युतहोकर ( ६।८।१२ ) त्रिकस्थानमें गयाहोतो चौर तथा भंग्यज जातिके मनुष्य के सबसे रोगहोवगा । ५२

हृदोगीयोग ।

तुर्धगा इज्यागर्कजाहृदोगी ५३

टीका-गुरु शनि और शनि ये तीनों ग्रह चतुर्थ भावमें गयेहोतो हृदोगी होवे ५३

व्याधियुत नित्यरोगी तथा नाना रोगवान् योग.

मंदे पापयुतदृष्टेन्त्ये वा त्रिकोणे व्याधियुतः ५४

त्रिकेष्टमेशे नित्यरोगी ५५

लाभेशोपष्ट नानागेगवान् ५६

टीका-पापग्रहेत युत दृष्ट होकर शनि चारवें भावमें हो किंवा १।५ भाव में गयाहोतो व्याधियुत ( रोगी ) होवे ५४

भाठवें भावका स्वामी ६।८।१२ स्थानमें गयाहोतो नित्य रोगी होवे ५५

लाभेश छठे भावमें गयाहो तो अनेक रोग बाला होताहै ५६

स्त्री रोग योग ।

शुक्रारौ सप्तमे स्त्री रोगः ५७

टीका-शुक्र और मंगल का योग सप्तम भाव में होतो स्त्री संबंधी दुःखका रोगहोवे ५७

दीर्घ रोगी योग ।

शन्यारौषष्ठे राहुर्क दृष्टौ लग्नेशोऽपले दीर्घ रोगी ५८



टीका-छठेभावमें गयेहुवे शनि मंगल रवि व राहु से दृष्टहो और लग्नेश बलहीन होतो बहुत दिनतक भाराम नही होनिवाला ( दीर्घ ) रोग होवे ५८

उदर रोगी योग ।

मदेराहु केतू उदररोगः ५९

रंध्रमंदे लग्ने चंद्रे उदररोगः ६०

टीका-सातमें भावमें राहु किंवाकेतु गयाहोतो उदर (पेटमें) रोगहोवे ५९

आठमें भाव में शनि और लग्न में चंद्रगया होतो उदर रोग (पेटका रोग अर्थात् मंदाग्नी पेटमें दुखना जलोदर कठोदर आदिरोग ) होवे ६०  
दंतरोगी योग.

लग्ने गुरु राहु दन्तरोगी ६१

पष्ठे राहु केतू दन्ते धरे वारोगी ६२

टीका-लग्नमें गुरु राहु का योगहो तो दंतरोगी (दातके रोगवाला) होवे ६१

छठेभावमें राहु किंवा केतुगया होतो दांतमें वा भोष्टमेंरोगहोवे ६२  
स्मररोगी योग

मन्दाराकेन्दुपु रंध्रारिवित्तान्त्यस्थेषु स्मररोगी ६३

टीका-शनि, मंगल, रवि, और चंद्रमा ये चारोग्रह ८।९।१०।१२ इनचारो भावों में क्रमसे वा कोईभी स्थान में चारो अंक राशा में वा न्यारे न्यार गये होतो काम संबंधी ( दीर्घ विकारवा ) रोगहोवे ६३  
नाभिरोगी योग ।

गोत्येर्गणे नाभिरोगी ६४

टीका-छठभाव का स्वामी ३ तीनों भाव में गयाहोतो नाभिरोगी ( नाभी में रोगहो वा नाभसरकारने की पीडा ) होवे ६४

पाद रोगीयोग

मंदेरिगे पादरोगी ६५

टीका-उठेभाव में शनिगयाहोतो पांव में रोगवाला होताहै ६५

टीका-तीसरे भाव का स्वामि बुधसे युत होतो गलेमे रोगहोवे ८१  
 तीसरे भाव में पापग्रह गयेहोतो गलेमे रोगहोवे ८२  
 तीसरे भाव में गुलिक गयाहोतो अबश्य गलरोग होवे ८३  
 पापग्रह से युतचंद्रमा मुखभाव मे गयाहोतो कंठमे रोगहोवे ८४  
 मस्तक रोग योग ।

सोत्येशेरोश्वरारोशे केदेशायुत दृष्टे मस्तकरोगः ८५

यमारराहब एकक्षगा मस्तकरोगः ८६

टीका-तीसरे भावके स्वामी के नवांश का स्वामी जिसराशि के नवांश मे होवे उसका स्वामि १।४।७।१० भाव मे गयाहो और पापग्रह से युत दृष्ट होतो मस्तकमें रोग होवे ८५

शनि, मंगल, और राहु ये तीनोंग्रह एकराशिमें गयेहोतो मस्तक मे रोगहोवे ८६

मुखरोगयोग.

कुजशेगेशे ज्युते मुखरोगः ८७

कोशेकारो मुखरोगः ८८

टीका-मंगलकी राशी ( १।८ ) में गया हुआ लग्नेश बुध से युत होतो मुख मे रोग होवे ८७

धनभावमे रवि मंगलका योग होतो मुख में रोग होवे ८८

कर्णरोग योग

सोत्ये प्रेत पुरीपांशे भौमे कर्णरोगः ८९

सोत्ये गुलिकार्कजौ शुभदग्धानौ कर्णरोगः ९०

सोत्ये कूरपृष्ठचंरो कर्णरोगः ९१

अंशे केतौ पापदृष्टे कर्णच्छेदः कर्णरोगो वा ९२

टीका-प्रेत पुरीष संज्ञक पृष्ठचंशमें गयाहुवा मंगल तीसरे भावमें गया होतो कानमे रोग होवे ८९

तीसरे भावमे गुलिक और शनि गये हो और इनको कोई शुभ ग्रह नहीं देखना होतो कानमे रोगहोवे ९०

टीका-छठेभावमें गयेहुबे शनि, मंगल रवि व राहु से दृष्टहो और लग्नेश बलहीन होतो बहुत दिनतक भाराम नही होनेवाला ( दीर्घ ) रोग होवे ५८.

उदर रोगी योग ।

मदेराहु केतु उदररोगः ५९

रंध्रमंदे लग्ने चंद्रे उदररोगः ६०

टीका-सातमें भावमें राहु किंवाकेतु गयाहोतो उदर (पेटमें) रोगहोवे ५९

भाठमें भाव में शनि और लग्न में चंद्रगया होतो उदर रोग (पेटका रोग अर्थात् मंदासी पेटमें दुखना जलोदर कठोदर आदिरोग) होवे ६०  
दंतरोगी योग.

लग्ने गुरु राहु दन्तरोगी ६१

पष्ठे राहु केतु दन्ते धरे वारोगी ६२

टीका-लग्नमें गुरु राहु का योगहो तो दंतरोगी दातके रोगवाला) होवे ६१

छठेभावमें राहु किंवा केतुगया होतो दांतमें वा ओष्ठमेंरोगहोवे ६२  
स्मररोगी योग

मन्दारार्केन्दुषु रंध्रारिवित्तान्त्यस्थेषु स्मररोगी ६३

टीका-शनि, मंगल, रवि, और चंद्रमा ये चारोग्रह ८।६।२।२ इनचारो भावों में क्रमसे वा कोईभी स्थान में चारों भेक राशी में वा न्यारे न्यार गये होतो काम संबंधी ( वीर्य विकारका ) रोगहोवे ६३  
नाभिरोगी योग ।

सोत्थेरशे नाभिरोगी ६४

टीका-छठेभाव का स्वामी ३ तीसरे भाव में गयाहोतो नाभिरोगी ( नाभी में रोगहो वा नाभसरकरने की पांढा ) होवे ६४  
पाद रोगीयोग

मंदेरिगे पादरोगी ६५

टीका-छठेभाव में शनिगयाहोतो पांव में रोगवाला होताहै ६५

टीका-तीसरे भाव का स्वामि बुधसे युत होतो गलेमे रोगहोवे ८१

तीसरे भाव में पापग्रह गयेहोतो गलेमे रोगहोवे ८२

तीसरे भाव में गुलिक ग राहोतो भक्ष्य गलरोग होवे ८३

पापग्रह से युतचंद्रमा सुखभाव में गयाहोतो कंठमे रोगहोवे ८४

मस्तक रोग योग ।

सोत्थेशेशेश्वरारोशे केद्रवायुत दृष्टे मस्तकरोगः ८५

यमारराहव एकक्षगा मस्तकरोगः ८६

टीका-तीसरे भावके स्वामी के नवांश का स्वामी जिसराशि के नवांश में होवे उसका स्वामि १।४।७।१० भाव में गयाहो और पापग्रह से युत दृष्ट होतो मस्तकमें रोग होव ८५

शनि, भंगल, और राहु ये तीनोंग्रह एकराशिमें गयेहोतो मस्तक मे रोगहोवे ८६

मुखरोगयोग

कुजक्षैगेशे ज्युते मुखरोग. ८७

कोशेकारौ मुखरोगः ८८

टीका-भंगलकी राशि ( १।८ ) में गया हुवा लघ्नत सुख से युत होतो मुख मे राग होव ८७

धनभावमे रवि भंगलका योग होता मुख मे रोग हावे ८८

कर्णरोग योग

से त्ये प्रेत पुर्गपांशे भौमे कर्णरोगः ८९

सोत्थे गुलिकार्कजौ शुभदृघानौ कर्णरोग. ९०

सोत्थे चूरपृष्ठचंशे कर्णरोगः ९१

अंशे केतौ पापदृष्टे कर्णच्छेद कर्णरोगो वा ९२

टीका- प्रेत परीष संज्ञक पृष्ठचंशमें गयाहुवा भंगल तीसरे भावमें गया होतो कानमे रोग होवे ८९

तीसरे भावमे गुलिक और शनि गये है और इनको फोड़ शुभ ग्रह नहीं देखता होतो कानमें रोगहोवे ९०

तीसरे भावका स्वामिऋषपग्रहमेंगयाहो तोकानमेंरोगहोवे ९१  
 चारवांश लग्नमें गयेहुवे केतुको पाप ग्रह देखते होतो कानकटजावे  
 भयवा कानमें रोग होवे ९२

पानसरोग याग.

षष्ठेचंद्रे रंध्रभंदे न्त्यपापेलग्रहेपापांशे पानसरोगः ९३

टीका-छठे चंद्रमा, आठमे शनि, व चारमें पापग्रह, गये हो और छ-  
 शंश पापग्रहके नवांशम होतो पानस रोग होवे ९३

पिशाच पाहायोग.

रंध्रचंद्रे समंदे बले पिशाचपीडा ९४

तमोर्कजां लग्ने पिशाचपीडा ९५

टीका-आठमे भावमें चंद्रमा शनीसे युत हो और निर्बली होतो  
 पिशाचपीडा होवे ९४

राहु और शनि का योग लग्नमे होतो पिशाचपीडाहोवे ९५

चातुर्थिक ज्वरयोग.

रंध्रेशसराहुकेतौचातुर्थिकज्वरः ९६

टीका-अष्टमेश राहु किवा केतुसे युत हो तो चातुर्थिक ज्वरका रोग  
 होवे ९६

देहवैकल्य योग ।

व्ययेरो बले क्रूरभांरो नीचांरो वा देहवैकल्यम् ९७

व्ययेगाभा वा व्ययेशः पापयुतो देह वैकल्यम् ९८

सूर्या द्वितीयेभंदे खेचंद्रे सप्तमेभौमे देहवैकल्यम् ९९

टीका-चारमें भावका स्वामि निर्बली हो और पापग्रहकी राशीमें  
 नव शमे अथवा नीचराशी क नवांशमें होतो देह में विचलताहोवे ९७

चारमें भावमे पापग्रह गये हो अथवा व्ययेश पापग्रहासे युतहातो  
 देहमें विचलता होवे ९८

सूर्यसे दूसरे भावमे शनि, दशमेचंद्रमा, और सातमे भावमे मंगल  
 गया होतो देहमें विचलता होवे ९९

तनुशोष, गुल्म, संग्रहणी, भतिसार रोग योगाः

चंद्रार्का इत्योन्यर्क्षगौ तनुशोषः १००

कर्कालिघटांशे चंद्रे समंदे गुल्मरोगः १०१

अंशात्सुते केतौ संग्रहणी १०२

कोशे मदे वा राहौ संग्रहणी १०३

लग्नेतमोज्ञौ घृनेयमारौ अतिसाररोगः १०४

टीका—चंद्रकी राशी ( ४ ) में रवि और रविकी राशी ( ५ ) में चंद्रमागयाहो तो तनुशोषरोग ( शरीरमूर्च्छताजावे यह रोग ) होवे १००

कक वृश्चिक किंवा कुंभराशीके नवांशमें गयाहुवा चंद्रमा शनिसे युत होतो गुल्म रोग ( गोलाबदनको बिमारी ) होवे १०१

कारकाश लग्नसे पाचमें भावमें केतु गयाहोतो संग्रहणीरोग होवे १०२

धनभावमें शनि किंवा राहु गयाहोतो संग्रहणी रोग होवे १०३

लग्नमें राहुबुध और सातमे भावमें शनि मंगल गये होतो भतिसार-रोग होवे १०४

अग्नि विषादित तथा शीत रुक् योग.

धर्म कुजेग्नविषादितः १०५

सपापे पापदृष्टे चंदौ लग्ने शीतरुक् १०६

टीका—नवमे भावमें मंगलगयाहोतो अग्नि तथा विषके सब से दुखी होवे १०५

पापग्रहसे युत और दृष्ट चंद्रमा लग्नमें गयाहोतो सरदीका रोग होवे १०६

प्रमेहरोग योग.

मंदार्कशुक्राः पंचमस्याः प्रमेहः १०७

लग्नके मदेभावे प्रमेहः १०८

सोभावे शनि युत दृष्टे प्रमेहः १०९

टीका-शनि, रवि, और शुक्र ये तीनों ग्रह पंचमस्थानमें गये हों तो प्रमेहरोग ( सुजाक वा परमिया ) होवे १०७

लग्नमें रवि और सातमें मंगल गयाहो तो प्रमेह रोग होवे १०८

दशमें भावमें मंगल शनिसे युत किंवा दृष्ट होता प्रमेहका रोग होवे १०९

वातरोग योग

समंदरीशे नीचे अनिलरोगः ११०

इज्येङ्गे मदे मंदे वाताधिक्यं १११

त्रिकोणास्ते भीमे मंदेङ्गे वाताधिक्यं ११२

क्षीणेन्दु मन्दौ व्ययगौ वाताधिक्यं ११३

टीका-नीचराशिमि गयाहुया पष्ठेश शनीसे युत होता वात रोग होवे अर्थात् ८४ प्रकारके वायुके रोग हे उनमेंसे कोईभी रोग होवे ११०

लग्नमें गुरु और सातमें भावमें शनिगयाहो तो वायु अधिक होवे १११  
नवमें पाचमें तथा सातमें भावमें मंगल और लग्नमें शनिगया  
हो तो वात रोग अधिक होवे ११२

क्षीणचंद्र और शनीका योग वारमें भावमें होता वात रोग अधिक होवे ११३

मूत्र कृच्छ्ररोग योग ।

जलभेचंद्रे तत्पेषु जलक्षग जदृष्टे मूत्रकृच्छ्ररोगः ११४

पापाः पष्ठे वा सप्तमे मूत्र कृच्छ्ररोगः ११५

टीका-जलराशिका चंद्रहो उसचंद्रकी राशीका स्वामी छठे भाव में गयाहो और उसको जलराशा में गयाहुया बुधदस्त्रताहो तो मूत्रकृच्छ्र रोग ( पेशाब महाकष्ट से उतरे वह रोग ) होवे ११४

छठे भववा सात म भावमें ३।४ पापग्रह गयेहो तो मूत्र कृच्छ्ररोग होवे ११५

कुष्ठयोग

मेषेत्ते खेञ्जे शनि भीमं योगे कुष्ठी ११६

- युगमर्क भीनांशे चंद्रे यमार दृष्टयुते कुटी ११७  
 कर्काळि वृष मृगशैः पापै खिकोणे दृष्टे वायुते कुटी ११८  
 ज्ञेन्दु लगनपा राहु केतुं यताः कुटी ११९  
 कुजेङ्गे रन्ध्रके तुयेर्कजे कुटी १२०  
 मंदारेन्द्रच्छेषु क्रूरादितेषु जलभगेषुसजलकुटी १२१  
 मंशकार युतौ रक्तकृष्णारुष कुटी १२२  
 पष्टेरो सारंगे पित्तकुटी १२३  
 समन्देरीरोङ्गे कफकुटी १२४  
 सूर्य पष्टेशांगे रक्तकुटी १२५  
 अंशात्तुयेचंद्रे केतुदृष्टे नीलकुटी १२६  
 अंशात्तुयेचंद्रे कुजदृष्टे महाकुटी १२७  
 चंद्राच्छौ सपापौ जलभगौ श्वित्रि १२८  
 अंशात्सुखे चंद्रे शुक्र दृष्टेश्वित्रि १२९  
 ७- लग्नेश इन्द्रारौ वा राहुकेत्वन्यतर युतौ एकत्रश्वित्रि १३०  
 मंदारचंद्रा भेषवा वृषे श्वित्रि १३१  
 सौरारयोरिः फवनस्थयोः क्रमा लग्नेचंद्रे सूर्येस्ते श्वित्रि १३२  
 टीका-मेपराशी का बुध, दशमे चंद्रमा, और शनि भौमका एकरा  
 शिमें योगहोतो कुष्ठरोग थाला हावे इसयोग मे शनि भौमके योग का  
 स्थाननही कहाहै परंतु यदि ये योग दशमें भावमे चंद्रमा से युतहोतो  
 विशेष बलवान होवेगा ११६  
 मिथुन, कर्क, तथा मीन राशी के नवाश में गयाहुवा चंद्रमा शनि  
 मंगल से यु। किवा दृष्टहोतो कुष्ठ रोगथाला होवे ११७  
 कर्क, वृश्चिक, और मकर, राशीमे पापग्रह गये हो और उनसे  
 १५ भावयुत भयवा दृष्टहो तो कुष्ठरोगी हावे ११८



बुध, चंद्र, और लग्नका स्वामी ये तीनों राहु किंवा केतु से युत हो तो कुष्ठ रोगी होवे ११९

लग्नमें मंगल, भाटमें भावमें रवि और चतुर्थभावमें शनि गया होतो कुष्ठ रोगी होवे १२०

शनि, मंगल, चंद्र, और शुक्र ये चारों ग्रह पापग्रहसे युत वा दृष्ट हो आर जलराशी में गये हो तो जिस कुष्ठरोगमें पानी चुयाकर वैसा सजल कुष्ठ रोगवाला होवे १२१

शनि रवि और मंगल का योग हो तो रक्तकृष्ण नामका कुष्ठ होवे । इस योग में स्थान नहीं कहा है परंतु ये योग १।४।८ भाव में होतों बलघाव जानना १२२

षष्ठेश लग्न में मंगल से युत होतो पित्तकुष्ठी होवे १२३

षष्ठेश लग्नमें शनि से युत होतो कफ कुष्ठी होवे १२४

षष्ठेश लग्नमें सूर्य से युत हो तो रक्तकुष्ठी होवे १२५

कारकांशलग्नसे चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतुसे दृष्टहोतो नील कुष्ठी होवे १२६

कारकांशलग्नसे चतुर्थभाव में गयाहुय चंद्रमा मंगल से दृष्ट होतो महा कुष्ठी होवे १२७

जलराशी में गये हुवे चंद्र शुक्र पापग्रहों से युतहोतो सफेद कोढ़ का रोग होवे १२८

कारकांश लग्नसे चतुर्थभाव में चंद्रमा शुक्रसेदृष्ट होतो सफेद कुष्ठ रोग होवे १२९

लग्नेश किंवा चंद्र मंगल, राहु भयवा केतुसे युत होतो कोईभी शरीरके एक भागमें सफेद कुष्ठ होवेगा १३०

शनि मंगल और चंद्रमा ये तीनों मेष भयवा वृषभ राशी में गये होतो सफेद कुष्ठ रोग होवे १३१

वारमें शनि, धनमें मंगल, लग्न में चंद्रमा, और सातमें सूर्य क्रमसे गये होतो सफेद कुष्ठ रोग होवे १३२

कुष्ठरोग १८ प्रकारका होता है उनमेंसे ग्रहयोगोंके यत्नानुसार कोईभी जातका कुष्ठ रोग होता है ।

शूलरोगी योग ।

पण्डान्त्यगौ मन्दारौ शूलरोगी १३३

सिंहे चंद्रे पापार्दिते शूलरोगी १३४

लाभेशे सोत्थे शूलरोगी १३५

केद्र कोणे सिंहगेशुके सोत्थेजीवे शूलरोगी १३६

टीका-छठे किंवा चारमें भावमें शनि मंगल गयेहो तो शूलरोग बाला होता है १३३

सिंहराशीमें गयाहुवा चंद्रमा पापग्रहोंसे युत दृष्ट होतो शूलरोगी होवे १३४

लाभेश तीसरे भावमे गया होतो शूलरोगी होवे १३५

सिंहराशामें गयाहुवा शुक्र केन्द्रकोणस्थान ( १४।७।१०।१५ ) में और गुरु तीसरे भावमें गया होतो शूल रोगी होवे १३६

पामान योग ।

सपाप चंद्रे नवमे पामानः १३७

टीका-पापग्रहसे युत चंद्रमा नवमे भावमें गयाहोतो पाम ( स्राज ) रोग बाला होवे १३७

भ्रशरोग योग ।

मन्देन्त्ये पाप दृष्टेऽर्शसः १३८

मन्दे लग्ने कुजेस्तेऽर्शसः १३९

यूनैरंघ्रेरो क्रूर शुभादृष्टेऽर्शसः १४०

मंदेस्तेलौ भौमेद्वेऽर्शसः १४१

मन्देन्त्ये यूनगौ लग्नपारौ अर्शसः १४२

व्ययेर्कजे भौमांगेशदृष्टेऽर्शसः १४३

टीका-चारमें भावमें शनि पापग्रहसे दृष्ट होतो भ्रश ( चवाशरिका ) रोग होवे १३८

शनि लग्नमें और मंगलसातमें भावमें होतो भ्रश रोगी होवे १३९

भृष्टमेश क्रूरग्रह होकर सातमें भावमें गयाहो और शुभग्रहसे दृष्ट नहो तो भर्श रोगी होवे १४०

शनि सप्तमभावमें और बुधकराशिका मंगलनवमे भावमें गया हो तो भर्श रोगी होवे १४१

शनिचारमें भावमें और लग्नेश व मंगल ये दोनो सप्तम भाव मे गये होतो भर्श रोगी होवे १४२

चारवे भाव में गयाहुवा शनि, मंगल और लग्नेश दोनोसे दृष्टहोतो भर्शरोगी अर्थात् बवाशीर के रोगवाला होवे १४३

कफरोग योग ।

मंदार्क योगे कफरोगः १४४

टीका-शनि सूर्यका योगहोतो कफका रोगहोवे १४४

प्लीहरोग योग ।

पष्ठेशचंद्रे पापयुते प्लीहरोगः १४५

लग्नेशेस्ते क्रूरदृष्टे शुभदुर्घोने प्लीहरोगः १४६

चंद्रेश पष्ठेशौ क्रूरमात्रदृष्टौ प्लीहरोगः १४७

कामांगेशे चंद्रेक्रूरमात्र दृष्टे प्लीहरोगः १४८

सौरारमध्यगे चंद्रे मृगेके प्लीहश्वासादिः १४९

सुतगौमंदचंद्रौ प्लीहरोगी १५०

टीका-पष्ठेश चंद्रमा पापयुत होतो प्लीहरोगी ( तिल्लीबटनेका रोग ) होवे १४५

लग्नेश सप्तम भावमे क्रूर ग्रहसे दृष्टहो और किसी शुभग्रहसे दृष्ट नहिंहोतो प्लीहरोगहोवे १४६

चंद्रमा निसराशिमे गयाहो उसराशी का स्वामि और पष्ठेश ये दोनो क्रूर ग्रहमात्र से दृष्ट होतो प्लीहरोग हावे १४७

सप्तम भावका किवा लग्नका स्वामी चंद्रमा हो और वह क्रूरग्रह मात्र से दृष्टहोतो प्लीह रोगहोवे १४८

शनि और मंगल के मध्यमे चंद्रमा गयाहो और मकरराशीचारवि-  
होतो प्लीह ( तिल्ली बटनेका ) वा श्वास कास का रोगहोवे १४९

पंचम भाव मे शनि चंद्रमा गयेहोतो प्लीहरोगवाला होवे १५०  
दुद्रोग योग ।

कोशेजलक्षे चन्द्रे मन्ददृष्टे दद्रुः १५१

लग्नेर्के दद्रुः १५२

टीका—जलराशीमे गयाहुवा चंद्रमा धनभावमे गयाहो और उसको शनि देखता हो तो दद्रु [ दादका ] रोगहोवे १५१

लग्नमे रवि गयाहोतो दुद्रोग होवे १५२

जलभययोग ।

कर्काशे जलभयम् १५३

अष्टमे चन्द्रे जलभयम् १५४

लग्नेञ्जे पापदृष्टे जलभीः १५५

टीका—कारकाश लग्न कर्कराशी का होतो जलका भय ( जलघात ) होवे १५३

भाठमे भाव मे चंद्रमा गयाहोतो जलका भय होवे १५४

लग्नमे गयाहुवा चंद्रमा पापग्रह से दृष्टहोतो जलका भयहोवे १५५  
सर्प भययोग ।

चंद्रारौषष्टेऽष्टमेवा सर्पभयम् १५६

तमस्यर्थे गुलिकयुतदृष्टे सर्पभयम् १५७

सोत्थेशे राहुयुतेङ्गे सर्पभयम् १५८

टीका—चंद्र और मंगल छठे भयवा भाठ में भाव में गये होतो सर्प का भयहोवेगा १५६

धनभावमे गयाहुवा राहु गुलिक से युतदृष्टहोतो सर्पका भयहोवेगा १५७

तीसरे भाव का स्वामि और राहु कायोग लग्न में होतो सर्पका भयहोवे १५८

चौर तथा भग्नि भय योग

पापेङ्गे त्रिकोणे गुलिके चौर भयम् १५९

केतावङ्गे पापयुत दृष्टे पिशाचचौरभयं १६०  
 सराहुकेतौ पण्डेशे सर्पपीडाचौराग्निभीर्वा १६१  
 धर्मेशे पण्डे पण्डेश दृष्टे चौराग्निभीः १६२  
 पण्डेशे मंदारयुते चौराग्निभीः १६३

टीका-लग्नमें पापग्रह, और ९-५ भावमें गुलिक गया होता चौर-  
 का भय होवे १५९

लग्नमें गयाहुवा केतु पापग्रहसे युत और दृष्ट होतो पिशाचका  
 तथा चौरकाभय होवे १६०

पण्डेशराहु से किंवा केतुसे युत होतो सर्प पीडा अथवा चौरभय  
 वा अग्निका भय होवे १६१

नवमें भावका स्वामि छठे भाव में पण्डेशसे दृष्ट होतो चौर किंवा  
 अग्निका भय होवे १६२

पण्डेश शनि मंगलसे युत होतो चौर किंवा अग्निका भय होवे १६३  
 स्फोट अग्नि तथा खल भय योग.

लग्नाष्टास्तेके भौमदृष्टे स्फोटाग्निखलभीः १६४  
 सप्ताष्टाद्यार्थे भौमे सूर्यदृष्टे स्फोटाग्निखलभीः १६५  
 लग्नान्त्यारिमदे गुलिकारौ सूर्यदृष्टौस्फोटाग्निखलभीः १६६  
 सारेपण्डेशेऽग्निभीः १६७  
 कूर्गे पापयुतदृष्टेऽग्निभीः १६८

टीका-लग्नमें आठमें अथवा सातमें भावमें गयाहुवारवि मंगल से दृष्ट  
 होतो फोडाफुन्सिका तथा अग्निका वा दुष्ट मनुष्यका भय होवे १६४

सातमें आठमें लग्नमें अथवा धनभावमें गयाहुवामंगलसूर्यसे दृष्ट हो  
 तो फोडा फुन्सिका तथा अग्नीका अथवा दुष्ट मनुष्यकाभय होवे १६५

लग्नमें वारमें छठे अथवा सातमें भावमें गुलिक मंगलका योग  
 हो और उनको रवि देखना होतो फोडाफुन्सि तथा अग्नीका अथवा  
 दुष्टमनुष्यका भय होवे १६६

षष्ठेश मंगल से युत होतो भग्निका भय होवे १६७  
 लग्नमें गये हूवे कर ग्रह पापग्रहसे युत और दृष्टहो तो भग्निका  
 भय होवे १६८

श्वान भय योग.

धनेमन्देषापट्टयुते शुनोभयम् १६९

मन्देधनेशयुक्तदृष्टे शुनोभयम् १७०

टीका-धनभावमें शनि पापग्रहसे युत और दृष्ट होतो श्वानका  
 ( कुत्ता ) भय होवे १६९

शनि धनेशसे युत और दृष्टहोतो श्वानका भय होवे १७०

शृगालादि भय योग.

गुलिकारौ धनेष्टमे वा धनेश दृष्टौ शृगालादिभिः १७१

यमे षष्ठेशे सूर्ययुते शृगालादिभिः १७२

टीका-गुलिक और मंगल धनमें भयवा भाठमें भावमें गये हो  
 और धनेशसे दृष्ट होतो शियाल लोमड़ी आदि जंगली जानवरोंका  
 भय होवे १७१

धनभावमें षष्ठेश सूर्यसे युतहोतो शियाल बगेरा जंगली जानवरों  
 का भयहोवे १७२

चतुष्पदभययोग.

लग्नेजीवसोत्थणौ चतुष्पदभीः १७३

चंद्रार्कभेराहौ चंद्रार्कयुतेपशुभीः १७४

टीका-गुरु और तीसरे भावका स्वामी ये दोनों लग्नमें गयेहोतो  
 चतुष्पद ( गाय भैस गधा आदि ) का भयहोवे १७३

कर्क किंवासिंह राशीमें गयाहुक, राहु रांघचंद्रसे युतहोतो पशुका  
 भयहोवे १७४

मृगभययोग.

षष्ठेशे मन्दे राहुकेतुयुते मृगभीः १७५

टीका-षष्ठेशशनि, राहुकिंवा केतुसे युतहोतो हरिणका भयहोवे १७५

गजभययोग.

पष्टांगपौजीवयुतौगजभीः १७६

टीका-पष्टेश और लग्नेश ये दोनो गुरुसे युतहोतो गजका भयहोवे १७६  
अश्वभययोग.

लग्नारीशौ चंद्रयुतौ अश्वभी १७७

टीका-लग्नेश और पष्टेश ये दोनो चंद्रमासे युतहोतो अश्वकाभय-  
होवे १७७

गेहशैथिल्यभययोग.

रंध्रकोणैर्गेहशैथिल्यभयम् १७८

टीका-रवि आठमें नवमें किंवा पांचमें भावमें गयाहो तो पुरानेघरका  
पढ़नेका भयहोवे १७८

क्षेत्रचिंतायोग.

स्वे भौमेक्षेत्रचिंता १७९

टीका-इशमे भावमे मंगल गया होतो क्षेत्र संबंधकी चिंता रहे १७९  
सौख्यचिंता याग.

त्रिके भौमे सौरुपचिंता १८०

टीका-मंगल ६।८।१२ भावमें गया हो तो सुखकी चिंता रहे १८०  
वाहनाभरणवस्त्रचिंतायोग.

जीवेत्रिके वाहनाभरणवस्त्रचिंता १८१

टीका-गुरु ६।८।१२ भ.व में गया होतो वाहन भाभूषण और वस्त्रा-  
दिककी चिंता रहेगा १८१

छत्र चामर चिंता योग.

त्रिके चंद्रे वा सिने चामर छत्र चिंता १८२

टीका-चंद्र अथवा शुक ६।८।१२ में भावमे गया होतो चामर  
( चंवर ) व छत्रकी चिंता रहे १८२

पुत्र चिंता योग.

घुने कोणे जीवे पुत्र चिंता १८३

युद्धोत्साही युद्धकुशलयोग ।

सोत्थेशे सिंहासने पारावत गोपुरे मृदंगे वा शुभदृष्टयुते

उत्साहो युद्धकौशलं च ६

सोत्थपेतुङ्गे सशुभे युद्धाभिलाषी ७

सोत्थपे वैरोपिके सवले मृदंगशेङ्गे वा युद्धाभिलाषी ८

टीका-तृतीयेश सिंहासनांश, पारावतांश, गोपुरांश, मे किंवा मृदंग  
शर्म शुभग्रहस युद्ध होवे तो युद्ध मे जानेका उत्साह और युद्धकार्य  
में कुशल ( प्रवीण ) होवे ६

तृतीयेश अपनी उच्चराशिमें शुभग्रहसं युत होवे तो युद्धकी अभि-  
लाषा करनेवाला और युद्धकार्य मे प्रवीण होवे ७

तृतीयेश वैरोपिकाशमें बलवान् होवे अथवा मृदंगमें स्थितहोकर  
लग्न में गया हो तो युद्धकी अभिलाषा करनेवाला युद्ध विद्या विशा-  
र ६ होवे ८

सेनापति योग ।

शुभर्क्षे सुत्थेशे धर्मपयुते सेनाबाहुल्यम् ९

पद्सु मित्रभगेषु सेनापतिः १०

भौमे सवले सेनापतिः ११

टीका-चतुर्थभाषका स्वामी शुभ ग्रहकी राशामे नवमेशसं युत हो  
तो अधिक सेना वाला होवे ९

७ ग्रह भवने मित्रराशिमें गये हो तो सेनापति होवे १०

मंगल बलवान् होवे तो सेनापतिहोवे ११ अर्थात् सूवेदार केप्टन  
मेजर जनरल, जनरल, आदिभधिकार वाला सेनाध्यक्ष होता है ।

व्यभिचारीयोग ।

शुक्रज्ञो स्वास्ताष्टान्पतर्भे व्यभिचारी १२

स्वास्तगो भौमाच्छौ व्यभिचारी १३

सांभुषोकव्यारौ व्यभिचारी १४



- चंद्रात्स्वशुके ततः स्वे मंदे व्यभिचारी १५  
 स्वास्तगाः शुक्रभस्था ज्ञाच्छार्कज्ञाव्यभिचारी १६  
 षष्ठेशे त्रिके व्यभिचारी १७  
 दारार्थ कर्मशाः स्वे व्यभिचारी १८  
 सराहुकेतौ दारेशे पापदृष्टे व्यभिचारी १९  
 शन्यारवर्गे शुके भौमार्कदृष्टे व्यभिचारी २०  
 अंशादन्त्ये शुक्रारौ व्यभिचारी २१  
 अंशादङ्के केतावामरणं परांगनाशक्तिः २२  
 धनेशे सोत्थे तुर्ये विक्रमी व्यभिचारी च २३  
 द्युनेशेङ्गस्ते व्यभिचारी २४  
 मन्दारवर्ग मात्रगे भृगौ मत्तमेमन्दारदृष्टे व्यभिचारी २५  
 लग्नारीषौ पापयुतौ व्यभिचारी २६  
 क्षीणेन्दौ पापयुतेस्ते वा रन्ध्राङ्केशयोगे व्यभिचारी २७  
 सपापे दारपे विशेषेण व्यभिचारी २८  
 सप्तमेज्ञे व्यभिचारी २९  
 शुकेज्यौ सपापौ धनास्तारिणौ व्यभिचारी ३०  
 लग्नपेसपापे व्यभिचारी ३१

टीका-शुक्र बुधका योग दशमे, सातमे, अथवा आठमे, भावमें होतो व्यभिचारी होवे १२

शुक्रभौरमंगल दशमे अथवा सातमे भावमें गये हो तो व्यभिचारी होवे १३

दशम और चतुर्थ भावके स्वामि शुक्र मंगल हो ते व्यभिचारी होवे १४

चंद्रमा से दशमे भावमे शुक्र और शुक्र से दशमे भावमें सनिगया हो वो व्यभिचारी होवे १५

शुक्रवा राशी ( ७१२ ) में गये हुवे बुध शुक्र और शनि दशमे भ-  
यवा सातमे भावमे गये हो तो व्यभिचारी होवे १६

षष्ठेश ६।८।१२ में भावमें गया हो तो व्यभिचारी होवे १७

सप्तमेश धनेश और दशमेश ये तीनों ग्रह दशमे भाव में गये हो तो  
व्यभिचारी हवे १८

राहु भयवा कतुसे युक्तसप्तमेश पापग्रहसे दृष्टहोतो व्यभिचारीहोवे १९  
शनि और मंगल के दशवर्गमें गयाहुवा शुक्र, रवि और मंगल से  
दृष्टहोतो व्यभिचारी होवे २०

कारकाशलग्नसे धारवे भावमे शुक्रमंगल गयेहो तो व्यभिचारीहोवे २१  
कारकाश लग्नसे नवम भावमें केतुगयाहोतो मरणपर्यंत परस्त्रीमें  
भासत्तरहे २२

धनेश तीसरे भयवा चतुर्थभावमे गयाहोतो पराकनी और व्यभि-  
चारीहोवे २३

सप्तमेश लग्नमें भयवा सप्तम भावमें गयाहोतो व्यभिचारी होवे २४  
शनि और मंगलके ही वर्गमें गयाहुवा शुक्र सप्तमभावमें गयाहो  
और शनि मंगलसे दृष्टहोतो व्यभिचारोहोवे २५

लग्नेश और षष्ठेश ये दोनो पापग्रहसे युतहोतो व्यभिचारीहोवे २६  
पापग्रहमें युक्त क्षीणचंद्रमा सप्तमभावमे गयाहो भयवा अष्टमेश  
नवमेश का एकराशीमे योगहोतो व्यभिचारीहोवे २७

सप्तमेश पापग्रहमें युतहोतो विशेष व्यभिचारीहोवे २८

सप्तम भावमे बुधगयाहोतो व्यभिचारी होवे २९

शुक्र और गुरु यदोनो पापग्रहसे युक्तहोकर दूसरे सातमे भयवा  
छठे भावमें गयेहोतो व्यभिचारीहोवे ३०

लग्नेश पापग्रहसे युक्तहोतो व्यभिचारीहोवे ३१

दंपतिजायोग

भौरारानस्ते सेदू स्त्रियासह व्यभिचारी ३२

चंद्रारार्कियोगे दम्पतीजारौ ३३

टीका-शनि मंगल और चंद्रमा ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में गये  
हो तो दोनो स्त्री पुरुष व्यभिचारी होवे ३२

चंद्र मंगल और शनिका योग एकराशमें कोई भी भाव में हो तो दोनो स्त्री पुरुष वधनिचारी होंगे ३३

नानास्त्रीगमन योग.

मदेशेन्त्येथे नाना स्त्री गमनं ३४

टीका-सप्तमेश वारमें भयवा धनभाव में गया हो तो भनेक स्त्रियों से गमन करने वाला होवे ३४

मातृ गमन योग.

केन्द्रे चन्द्रवाशुक्रेपापान्वितदृष्टे क्रूरशिवाऽररोहशिमातृगमनम् ३५

चन्द्रार्कौ पापदृष्टयुतौ केन्द्रे मातृगमनम् ३६

सुखेपापाः पापदृष्टा मातृगमनम् ३७

सुखे पापदृष्टयुते शुभदृग्धीने दारेशतोक्नेशोत्पबले

मातृसमानागामी ३८

टीका-चंद्र भयवा शुक्र केन्द्रस्थान में ( १४।७।१० ) पापग्रहसे युत दृष्ट हो और क्रूरशुक्रके नवांश में भयवा भवरोहांशमें गया हो तो माता से गमन करने वाला होवे ३५

चंद्र और सूर्य ये दोनो पापग्रहसे युत दृष्ट होकर केन्द्र स्थान ( १४।७।१० ) में गये हो तो माता से गमन करने वाला होवे ३६

चतुर्थ भाव में पापग्रहसे दृष्ट पापग्रह गये हो तो मातासे गमन करने वाला होवे ३७

पापग्रहसे युत दृष्ट सुखेश कोई भी शुभग्रहसे दृष्ट नहीं होवे और सप्तमेश से लग्नेश भयव बली होवे तो माताके समान स्त्री से गमन करने वाला होवे ३८

भगिनी गमन योग.

दारेशसुखे सपापे वा पापदृष्टे क्रूरषष्ठ्यशे भगिनीगमनं ३९

५ भावशोभा ३-४-५-६-७ राशी के भावको कहते हैं अथवा १५ भागके उतरांत राशी के उतरार्धके उतराते भागको भी अत्रही भाग कहते हैं ।

सुखे मन्देपापदृष्टे भगिनी गमनम् ४०

टीका—सप्तमेश पापग्रहसे युत होकर सुख भावमें गया हो। भयवा पापग्रहसे युत सप्तमेश पापग्रहसे दृष्ट वा क्रूरपृष्ठत्रंश में गया हो तो भगिनी से गमनकरने वाला होवे ३९

अतुर्य भाव में गयाहुवा शनि पापग्रहसे दृष्ट हो तो भगिनी (वहन) से गमन करने वाला होवे ४०

बंध्या भयवा रजस्वला संग योग।

दारे सूर्ये बंध्यासंगः ४१

चूने भौमे बन्ध्या रजस्वला सङ्गः ४२

टीका—सप्तम भाव में सूर्य गयाहो तो बंध्यास्त्री से संग करने वाला होवे ४१

सप्त भावमें मंगल गया होतो बंध्या और रजस्वला स्त्री से संग करने वाला होवे ४२

वैश्यासंगयोग।

मदेन्त्ये शै वैश्यासंगः ४३

टीका—सातवें किंवा चारवें भाव में बुधगया हो तो वैश्य जातिकी स्त्री से संग करने वाला होवे ४३

ब्राह्मणीसंगयोग.

गुरावस्ते ब्राह्मणीसङ्ग ४४

टीका—सप्तम भावमें गुरुगयाहोतो ब्राह्मणजातिकी स्त्रीसे संगकरनेवाला होवे ४४

गर्भिणीसंगयोग।

मदेभृगौ राहौवा गर्भिणीसंगः ४५

टीका—सप्तम भावमें शुक्रकिंवा राहुगयाहोतो गर्भिणी स्त्रीसे संग करनेवाला होवे ४५

कृष्णवर्ण कुब्जासंगयोग।

यूनेशनी कृष्णवर्ण कुब्जासंगः ४६

टीका-सप्तमभावमें शनिगयाहोतो कालेवर्ण की तथा कुचड़ी स्त्रीसे संगकरनेवालाहोवे ४६

गुरुतल्पगयोग.

सपापे चन्द्रेद्गे गुरुतल्पगः ४७

सपापे शुक्रेद्गे गुरुतल्पगः ४८

सपापौ चन्द्राकेशौ वा शुक्राद्गेशौ गुरुतल्पगः ४९

धर्मेशे नीचगे तदंशगशुक्रयुते गुरुतल्पगः ५०

धर्मेशे नीचे गुरु संबंधी स्त्री गमनम् ५१

टीका-पापग्रहसे युत चन्द्रमा नवमे भाव में गयाहो तो गुरुतल्पग ( गुरुकी स्त्री, गुरुकीकन्या अपनि सापरनमाता बहिन और कन्या आदि से गमन करने वालेको गुरुतल्पकहते है ऐसा भगम्यागमन करने वाला ) होवे ४७

पाप ग्रहसे युत होकर शुक्र नवमे भाव में गयाहोतो गुरुतल्पग. होवे ४८ चंद्र और नवमेश अथवा शुक्र और नवमेश ये दोनों ग्रह पापग्रहों से युक्त हों तो गुरुतल्पग होवे ४९

नवमेश अपनी नीचराशोंमें गया हो और नवमेशके नवांशमें गयेहुवे शुक्रसे युक्त होतो गुरुतल्पग होवे ५०

नवमेश नीच राशिमि गया हो तो गुरुके संबंधकी स्त्री स गमन करने वाला होवे ५१

वयोधिक स्त्री गमन योग.

धर्म चन्द्रे वयोधिक स्त्री गमनं ५२

टीका-नवमे भावमें चंद्रमा गयाहोतो अपनी उमरसे अधिक बयकी स्त्री से गमन करने वाला होवे ५२

पशु गामी योग.

पापयुक्तदृष्टे कंटक चतुष्टये पशुगामी ५३

सपापगुलिके मदे पशुगामी ५४

मदेके सुखे भौमे पशुगामी ५५

राहोदारे मुखे आरे पशुगामी ५३

धनेशे भौमर्षे शुक्रदृष्टे पशुगामी ५७

केन्द्रत्रये पापयुने पशुवन्मैथुनशीलः ५८

टीका-चारो ही केन्द्र ( ११५७१० ) स्थान पापग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो पशुगामी ( पशुसे गमन करने वाला ) होवे ५३

पापग्रहसे युक्त गुलिक सातम भावमे गया हो तो पशुसे गमन करने वाला होवे ५४

सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र भाव में मंगल गया हो तो पशुगामी होवे ५५

सप्तम भाव में राहु और शुक्र भाव में मंगल गया हो तो पशुगामी होवे ५६

सप्तमेश मंगलकी राशी ( ११८ ) में गयाहो और उसको शुक्र देखता हो तो पशुगामी होवे ५७

केन्द्रके तीन स्थानम पापग्रह युक्त हो तो पशुके समान संगम करने वाला होवे ५८

भगवन्मैथुनशील योग.

भृग्वस्नेशौभौमर्षे भगवन्मैथुनशील ५९

कर्मेशे भौमर्षे शुक्र युते मन्ददृष्टे भगवन्मैथुनशील ६०

लग्नेरो वा धनेरो नीचभांशोऽबले भगवन्मैथुनशीलः ६१

टीका-शुक्र और सप्तमेश मंगलकी राशी ( ११८ ) में गये हो तो भगवा चवन करने वाला होवे ५९

शुक्रमें युक्त दशमेश मंगलकी राशी ( ११८ ) में गयाहो और शनीसे दृष्ट हो तो भगवा चुम्बन करने वाला होवे ६०

लग्नेश भयवा धनेश भयनी नीचराशों और नीचराशिके नवाशमें निबन्धी हो तो भगवा चुम्बन करने वाला होवे ६१

विवाहसंख्या योग.

यावन्तोधिकबलादयूनगाः स्वगा यूनेशदृष्टा वा रंध्रे यावन्तः

स्यदा रंध्रेराष्ट्रास्तावन्तो विवाहाः ६२

**सप्तमेशांशसंख्यानार्यः ६३**

टीका-जितने अधिक बलवान् ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भावमें गये हो अथवा जितने अधिक बलवान् ग्रह अष्टमेशसे दृष्ट होकर अष्टम भावमें गये हो उतनेही विवाह होवेगे ६२

सप्तमेशके नवांशकी संख्याके अनुसार स्त्रीकी संख्या जानना अर्थात् सप्तमेश जितनी संख्याके नवांशमें होवे उतनी ही स्त्रीय होवेगा ६३

एकविवाह योग.

कामार्थेशौ नीचर्क्षगौमीम्याःकेंद्रकोणगाएकोविवाहः ६४

वक्राकर्शित्तेज्यौ एको विवाहः ६५

ज्ञे ज्यांरो सप्तमे एको विवाहः ६६

टीका-द्वितीय और सप्तम भावके स्वार्थि अपनी नीचराशीमें गये हो और शुभग्रह केंद्र कोण स्थान ( १४४७१०१५ ) में गये हो तो एक विवाह होवेगा ६४

मंगल तथा रविके नवांशमें बुध गुरु गयेहो तो एकविवाह होवेगा ६५

सप्तम भावमें बुध किंवा गुरुका नवांश होतो एकविवाह होवेगा ६६

द्विभार्य योग.

लग्नेशेक्षे द्विभार्यो जारो वा ६७

रंधेरोक्षे स्ते द्विभार्यः ६८

पण्डेक्षे द्विभार्यः ६९

धनेशे पण्डे दारपापे द्विभार्यः ७०

जायेरो शुभयुतेरिनीचगे सप्तमेपापे द्विभार्यः ७१

जापाकारके पापयुते वा नीचारिमूढभांरो द्विभार्यः ७२

पापाः सप्तमे द्विभार्यः ७३

टीका-लग्नेश लग्नेमें गया हो तो द्विभार्य (दो स्त्रीबाला) अथवा व्यभिचारी होवे ६७

अष्टमेश लग्नमें अथवा सप्तम भावमें गया हो तो दो स्त्री से वि-  
वाह होवेगा ६८

लग्नेश छठे भावमें गया हो तो दो स्त्री होवेगा ६९

छठे भावम धनेश और सप्तम भावमे पापग्रह गयाहो तो द्वि-  
भार्या ( दो स्त्री स विवाह ) होवेगा ७

सप्तमेश शुभग्रह से युत होकर अरनी शत्रुही तथा नीच राशी में  
गया हो और सप्तभावमें पापग्रह गया हो तो द्विभार्या ( दो स्त्रीसे  
विवाह ) होवेगा ७१

स्त्रीकारक ग्रह ( शुक्र किंवा चरवाकमेनोस्त्रीकरकहुवाहो ग्रह )  
पापग्रहसे युत होवे अथवा अपनी नीच, शत्रु, अस्त राशी भंश में  
गयाहो तो दो विवाह होवेगा ७२

पापग्रह सप्तमभाव मे गये होवे तो दो विवाह होवेगा ७३  
कलग्न त्रय योग

धनगः पापैर्धनेशादृष्टः कलग्नत्रयं ७४

पापाः कलग्ने जायेशा दृष्टाः कलग्नत्रयं ७५

लग्नार्थदाराः पापयुता दारेसे नीचारिमूढाश्चकलग्नत्रयम् ७६  
टीका—वनभाव मे बहुत पापग्रह गयेहो और धनेश भी पापग्रहोंसे  
दृष्टहोतो तीनस्त्री से विवाहहोवेगा ७४

सप्तम भाव मे बहुतपापग्रह गयेहो और सप्तमेश भी पापग्रहोंसे  
दृष्टहो ता तीन स्त्री से विवाह होवेगा ७५

लग्न, धन, और सप्तम भाव पापग्रह से युक्त होवे और सप्तमेश  
अरनी नीच शत्रु किंवा अस्तराती में गयाहातो तीन स्त्री से विवाह  
होवगा ७६

बहुदारा योग ।

लग्ने उच्चग्रहे लग्ने स्योच्चगे वा बहुदाराः ७७

चंद्राच्चौ बलिनी युतौ बहुदाराः ७८

यामित्रे बलिशुक्रदृष्टे बहुदाराः ७९

सपापा लग्नार्थागिशाः सप्तमे बहुदाराः ८०



दारेशे सौरे सपापे बहुदाराः ८१

दाराशाहिक्रमे बलिनिचंद्रे बहुदाराः ८२

स्वांत्यपौमोत्थगौ गुरुणा धर्मपेण वाट्ट्यौ बहुदाराः ८३

दारपे केंद्र कोणे शुभवर्गे कर्मपट्टे बलिनिबहुदाराः ८४

दारापपौ युतौ वान्योन्येक्षितौ बहुदाराः ८५

मदायेशौ बलिनौ कोणगौ बहुदाराः ८६

टीका-लग्नमे उच्चराशी का ग्रहगयाहो भयवा लग्नेश अपनी उच्च राशीमे गयाहो तो बहुत स्त्रीगला ( नीनसे भविक स्त्रीवाला ) होवे चलन चंद्र और शुक्र एकराशी में युक्त होतो बहुत स्त्रीपेहोवे ७८ चरवान शुक्र सप्तम भावको पूणटाष्टि से देखता हातो बहुत स्त्रीपे होवे ५९

सप्तम भावमे पापग्रह सेयुत होकर लग्नेश धनेश और पशुश येतीनो उहगये होतो बहुत स्त्राये होवे ८०

सप्तमेश शनि पापग्रह : से युत होतो बहुत स्त्री वाला होवे ८१

सप्तमेश से तीसर भाव मे चरवान चंद्रमा गयाहोतो बहुत स्त्रीयो-वाला होवे ८२

धन और वषप ( चाचा ) इनदोनो भावके स्वामी तीसरे भाव में गये हो और गृहते भयवा नवम भाव के स्वामीसे दृष्टहोतो बहुत स्त्रियो वाला होवे ८३

शुभग्रहोक्त वर्गमे गयाहुवा सप्तमेश १।४।७।१०।१५ मे भावमें गया हो और दशम भाव के स्वामी ने दृष्ट होतो बहुत स्त्रियोवाला होवे ८४

सप्तम और लाभ भावके स्वामी एकराशी में युक्त होवे भयवा सप्तमेशलाभेशको और लाभेशसप्तमेशको परस्पर देखते हो तो बहुत स्त्रीयो वाला होवे ८५

सप्तम और लाभ भावके स्वामी चरवान होकर नवमें वा पांचमे भावमें गये हो तो बहुत स्त्रीयो वाला होवे ८६

शत स्त्री गामी योग ।

दारेशांशे शांशपेसौम्ययुते पारावतादौ बलिनि शतसौगापी ८७

टीका-सप्तमेशके नवांशका स्वामी जिस राशी के नवांशमें हो उसका स्वामी शुभग्रह से युक्त होकर पारावतादि शुभांशों में गया हो और बलवान होवे तो भेक सो ( १०० ) स्त्री से गमन करनेवाला होवे ८७

सुंदर स्त्री योग

यूनैशाद्गुरु चंद्रौ स्त्री सुंदरी ८८

टीका-कारकाश लग्नसे सप्तम भावमें गुरुचंद्रमा गये हो तो स्त्री सुंदर रूपवती हावे ८८

वयाधिका स्त्री योग ।

अंशादस्ते सौरे वयोधिका स्त्री ८९

टीका-कारकाश लग्नसे सप्तम भावमें शनि गया हो तो अपनी उमरसे अधिक उमरकी स्त्री से विवाह होवेगा ८९

विकलांगी स्त्री योग ।

अंशादस्ते भौमे स्त्री विकलांगी ९०

टीका-कारकाश लग्नसे सप्तम भाव में मंगल गयाहो तो विकल शरीर वाली स्त्री से विवाह होवेगा ९०

कलावती स्त्री योग ।

ज्ञेस्तेशात्कलावती स्त्री ९१

टीका-कारकाश लग्नसे सप्तम भाव में बुध गया हो तो अनेक प्रकारकी कला जानने वाली चतुर स्त्री से विवाह होवेगा ९१

रोगार्त स्त्री योग ।

ज्ञाशिक्षिनौ लग्ने स्त्री रोगार्ता ९२

शारभगौ भंदारौ वा लग्नगौ नासिकारोगवती स्त्री ९३

ज.येशेष्टमे सरोगा क्रोधिनी स्त्री ९४

टीका-लग्नमें बुध केतुका योगहोतो रोग से पीड़ित स्त्री मिलेगा ९२ शनि मंगल, बुधवापिवा मंगलकी राशी में गये हो अथवा लग्नमें गये हो तो नासिकारोगवती स्त्री मिलेगा ९३

सप्तमेश भाठमें भावमें गयाहो तो रोगि और क्रोधी स्त्री से विवाह होवेगा ९४

पुनर्भार्या ऋभयोग.

स्मरे मन्दज्ञौ पुनर्भू भार्या लाभः ९५

चंद्र शनी कलत्रे पुनर्भू भार्या लाभः ९६

टीका—सप्तमस्थानमें शनि बुधका योग हो तो पुनर्विवाहित स्त्रीवाला होवेगा ९५

सप्तमभावमें चंद्र शनीका योग होतो पुनर्विवाहित स्त्रीवालाहोवे ९६ पतिव्रता स्त्री योग.

मदेशेम्बुगे वा दशमे स्त्री पतिव्रता ९७

दारपे वा कारके गुरुयुतदृष्टे बलिनि स्त्री पतिव्रता ९८

रवौ दारपे शुभदृष्टे स्त्री पतिव्रता ९९

यूनेशे भृगौ शुभदृष्टे स्त्री पतिव्रता १००

कलत्रेजीवे धर्मशीला पतिव्रता स्त्री १०१

दारशेकेन्द्रे शुभांशेशुभदृष्टयुते धर्मशीलापतिव्रता स्त्री १०२

टीका—सप्तमेश चतुर्थ भावमे किंवा दशमे भाव मे गयाहोतो पतिव्रता स्त्री होवे ९७

सप्तमेश वा सप्तम भावका कारक ( शुक्र ) गुरुसे युत वा दृष्टहोकर बलवान होतो पतिव्रता स्त्री वाला होवे ९८

सप्तमेश रवि होवे और वह शुभग्रहसे दृष्टहोतो पतिव्रता स्त्री वा ला होवे ९९

सप्तम भावका स्वामि शुक्र होवे और वह शुभग्रह से दृष्ट होतो पतिव्रता स्त्री वाला होवे १००

सप्तम भाव मे गुरु गयाहोतो धर्म शीला और पतिव्रता स्त्रीवा ला होवे १०१

सप्तमेश केंद्र ( १४/७/१० ) में शुभग्रहकी राशी के नवांशमें गयाहों

शुभ ग्रहसे युतदृष्टहोतो धर्मशीला और पतिव्रता स्त्री बाल  
होवे १०२

सुदारा योग

दारेशो वा कारके शुभयुतदृष्टेशुभातरेसुदारः १०३

दारेशुभर्क्ष सुदारः १०४

स्त्रोच्चस्ववर्गे गोपुरादौ वा शुक्रे सुदारः १०५

दारैगुरुदृष्टे सुशीलास्त्री १०६

टीका-सप्तमेश भयवा सप्तमका कारक ग्रह (शुक) शुभ ग्रहसे  
युतदृष्टहो शुभग्रहोक मध्यम गयाहोतो भच्छी स्त्री का लाभदाव १०३

सप्तम भाव मे शुभग्रह की राशी होतो भच्छी स्त्री मिले १०४

शुकभपनी उच्चराशी या स्वराशा क वर्ग म गोपुरादिभशम गया  
होतो भच्छी स्त्री मिलेगा १०५

सप्तम भाव को गुरु दस्रता होतो सुशील स्त्री मिलेगा १०६

विधवा स्त्री लाभ याग

अशादोरैराहौ गृहेस्त्री विधवा १०७

टीका-कारकाश लग्न से सातमे भावमे राहुगयादो ता विधवास्त्री  
को भपनी स्त्री करके घरमे रखने वाला हावेगा १०७

जारिणी स्त्री याग ।

पण्डाष्टाद्वेशा सपापाः पापदृष्टाः स्त्री जारिणी १०८

अष्टमेशेष्टमे स्त्री जारिणी १०९

टीका-पण्डश अष्टमेश और नवमेश पे तौनो ग्रह पापग्रह से युत और  
दृष्ट हो वा स्त्री व्यभिचारिणी होवे १०८

अष्टमेश अष्टम भाव मे गया हातो व्यभिचारीणीस्त्री होवेगा १०९

कुदारा याग ।

मंदेस्ते कुदारः ११०

दारपांशेशे पापे कुदारः १११

ऋष्यपञ्चशे दारपे कुदारः ११२

नीचभांशेदारपे वा कारके कुदारः ११३

कलत्रपरवौ पापभांशे पापयुतदृष्टे कुदारः ११४

दारपेचंद्रे पापभांशे कुदारः ११५

टीका—सप्तमभावमें शनि गयाहो वा निंदा करने योग्य स्रोटी स्त्री वाला होवे ( अच्छी स्त्री नहीं मिल ) ११०

सप्तमेश के नवाशका स्वामी पापग्रह हो तो निंदाकरनेयोग्य स्रोटी स्त्री वाला होवे १११

सप्तमेश ऋष्यपञ्चश में गया हो तो स्रोटी स्त्री वाला होवे ११२

सप्तमेश अपनी नीच राशी किंवा नीच राशीके नवाशमें गयाहो भयवा सप्तम भावका कारकग्रह ( शुक्र ) नीचराशी वा नचिके नवाशमें गयाहो तो निंदा करने योग्य कुदारा वाला होवे ११३

सप्तम भावका स्वामी रविहो और वह पापग्रहकी राशीमें वा पापग्रहकी राशीके नवाशमें गया हो और पापग्रहसे युन दृष्ट हो तो स्रोटी स्त्री वाला ( दुष्टस्वभावकी स्त्री से विवाह ) होवे ११४

सप्तमेश चंद्रमा हो और वह पापग्रहकी राशी में वा नवाशमें गया हो तो स्रोटी स्त्री वाला होवे ११५

दाशी समास्त्री योग.

चंद्रेस्ते दाशीसमास्त्री ११६

टीका—सप्तम भावमें चंद्रमा गयाहो तो दाशीके समान रहने वाली स्त्री वाला होवे ११६

बन्ध्यास्त्री योग.

यभेङ्गे ऋक्षसन्धो शुक्रेस्ते बन्ध्या स्त्री ११७

टीका—लग्नभेशनि ऋक्ष संघी में ( कर्क, वृश्चिक किंवा मीनराशी के अंतिम अंश में ) गयाहो और शुक्र सप्तम भावमें होतो बन्ध्या ( बाइ ) स्त्री होवे ११७

पण्डा स्त्री योग.

सोत्थे शाच्छो पष्ठे पण्डा स्त्री ११८

टीका-तृतीयेश और शुक्र ये दोनो छठे भावमेगये हौतो षण्ठा  
( नपुंसक, रज वीर्य रहित ) स्त्री वालाहोवे ११८  
स्वदार रत योग.

जीवे सप्तमे स्वदाररतः ११९

टीका-सप्तम भाव में गुरुगयाहोतो अपनी स्त्री से ही गमन करने  
वाला ( पत्निव्रत परायण ) होवे ११९  
फलगत र भागी योग ।

नीचरिमूढांशेङ्गणे वायूनपे कलत्रांतरभाक् १२०

मदेशेऽबले स्ते पापदृष्टयुते कलत्रांतरभागी १२१

धनेशेऽबलेऽर्थे पापयुतदृष्टे कलत्रांतरभागी १२२

सप्ताष्टमेपापे व्ययेकजेकलत्रांतरभागी १२३

नीचारीमूढांशेगेशे वा दारपे कलत्रांतरभागी १२४

टीका-लग्नेश भयवा सप्तमेश अपनी नीचराशीके वा शत्रुराशीके  
किंवा भस्तराशीके नवाशमें गयाहोतो दूसरीस्त्री करनेवाला होवे  
( पासवान रखनेवाला अर्थात् अन्यभविवादित स्त्री से सहवास कर  
ने वाला होताहै ) १२०

सप्तमेश सप्तम भाव में निर्बली होकर गयाहो और पापग्रहसे युत  
दृष्ट हो तो अन्य स्त्री करने वाला होवे १२१

निर्बली धनेश धनभाव में पपाग्रहसे युत दृष्ट होतो अन्य स्त्री  
करने वाला होवे १२२

सातमे और आठमें भावमें पापग्रह गये हो और वारवे भावमें  
मंगल हो तो अन्य स्त्री करने वाला होवे १२३

लग्नश किंवा सप्तमेश अपनी नीच, शत्रु तथा भस्तराशी के  
नवाशमें गया हा तो अन्य स्त्री करने वाला होवे १२४

बाल्येविवाह योग

दारप सन्निहितेङ्गणे बाल्येविवाहः १२५

लग्नाद्वास्तात्सर्भापे शुभे बाल्येविवाहः १२६

दारपे पारावतादौ सुबले वा धने तादृशे बाल्येविवाहः १२७

टीका-सप्तमेशके समीप भयांत एक राशि मे वा एक राशिके अंतरमें लग्नेश गया हो तो बाल्यावस्था में विवाह होवेगा १२५

लग्नसे किंवा सप्तम भावसे समीप के भावमें ( धन मे किंवा भष्टम भावमें ) शुभग्रह गया हो तो बाल्यावस्थामें विवाह होवेगा १२६

बलवान् सप्तमेश पारावतादि शुभवर्गमें गया हो अथवा बलवान् धनेश पारावतादि अंशमें गया हो तो बाल्यावस्थामें विवाह होवेगा १२७

वृहत्पाराशरी मे विवाह के वर्ष की संख्या के विशेष योग इस प्रकार लिखे है कि—यदि सप्तमेश शुभग्रह की राशिमे गयाहो और शुक्र अरुनी स्व तथा वच्चराशिमे होतो पांचमे किंवा नवमे वर्ष विवाह होवे १

सप्तम स्थानमे सूर्यगया हो और सप्तमेश शुक्र से युक्त होतो सातमे तथा ग्यार वे वर्षमे विवाह होवेगा २

धनभावमे शुक्र गयाहो और सप्तमेश ग्यार मे भावमे गयाहो तो दस मे १० तथा सोलह १६ मे वर्ष विवाह होवेगा ३

लग्नमे शुक्र हो और लग्नेश शनीकी राशि ( १०।११ ) में गयाहो तो ग्यारहमे वर्ष विवाह होवेगा ४

लग्नमे केंद्र स्थानमे शुक्रगया हो और शुक्र से सातमे भावमे शनि गयाहोतो चारमें वर्षमे तथा १९ में वर्ष विवाह होवेगा ५

चंद्रमा से सातमे भावमें शुक्रगयाहो और शुक्र से सात में शनिग याहोतो १८ मे वर्ष विवाहहोवेगा ६

धनेश ग्यारमें गयाहो और लग्नेश दशमे भाव मे गयाहोतो पंद्रहमे वर्ष विवाह होवेगा ७

धनेश लाभमे और लाभेश धनमें गयाहोतो तेरहमेंवर्ष विवाहहोवेगा ८

धनभावमें शुक्रगयाहो और धनेश मंगल से युतहोतो बाबिसमे किंवा सत्तावीस २७ में वर्ष विवाहहोवेगा ९

सप्तम भावमें जोराशीहोवे उसराशिके नवांशमे लग्नेश्वर गयाहो और सप्तमेश्वर वारमे भावमें गयाहोतो तेविसमें तथा २६ उच्चैत मे वर्ष विवाह होवे १०

भष्टम भाव मे निसराशीका नवांश होवे उइराशी सप्तम भावमेगई हो और लग्नमे निसराशीका नवांश हो उसमे शुक्रयुक्तहो तो पचीस

मे तथा तैतीसमे वर्ष विवाह होवेगा ११

पंचम भाव में शुक्रगयाहो और चतुर्थ भाव में राहु स्थित होतोइक तीस वर्षमें तथा तैतीस में वर्ष विवाह होवेगा १२

तीसरे भावमें शुक्र और नवमे भावमे सप्तमेश गयाहोतो तीसमे अथवा सत्ता बीसमे वर्ष में विवाह होवेगा १३

शुक्रसे सप्तम भावमे चंद्रमा और चंद्रसे सातमे भावमें बुधगयाहो और अष्टमेश पंचम भाव में स्थित हातो प्रथम विवाह दशमें वर्ष मे दूसरा बावीसमे वर्ष में और तीसरा ३३ तैतीस में वर्ष में होवेगा १४  
दूरदेशे विवाह योग ।

कारके वा कलत्रेशे सफूरे कोणे दूरदेशे विवाहः १२८

टीका-सप्तमेश किंवा सप्तमभावका कारक ( शुक्र ) धूर ग्रहसे युत होकर १५ भाव में गया हो तो दूरदेशे मे विवाह होवेगा १२८  
स्थूल स्तनी भार्या योग ।

दारपे सशुभे स्थूल स्तनीभार्या १३९

टीका-सप्तमेश शुभग्रहसे युत हो तो स्त्री मोटेस्तनवाली होवेगा १२९  
दीर्घवा दृस्व भगवति तथा गुह्यार्द्रा स्त्री योग ।

मंदेशे सपापे स्त्री दीर्घमगा १३०

ज्ञेन्द्रर्कजर्से मन्दे स्त्री हृस्वमगा १३१

जलर्से दारपे स्त्री गुह्यार्द्रा १३२

स्त्रीकारके वा दारेजलर्से स्त्री गुह्यार्द्रा १३३

दारेचन्द्र दृष्टे वा जलर्से शुके स्त्री गुह्यार्द्रा १३४

जलभेजे मन्ददृष्टे स्त्री गुह्यार्द्रा १३५

सप्तमे चंद्रेजलर्क्षी स्त्री गुह्यार्द्रा १३६

टीका-सप्तमेश पापग्रह से युतहो तोस्त्री दीर्घ भगवाली होवेगा १३०  
सप्तम भावमे बुध, चंद्र किंवा शनिकी राशी ( ३ ६-४ १०-११ )  
गईहोतो स्त्री दृस्वभगवाली होवेगा १३१



सप्तमेश जलराशी मे गयाहोवेतो स्त्री के गुह्यस्थानमे गीलापन रहे १३२  
 स्त्रीकारक ( शुक्र ) जलराशाका हो किंवा सप्तमभावमें जलराशी  
 गई हो तो स्त्री के गुप्तस्थलमे गीला पन रहेगा १३३  
 सप्तम भावको चंद्र देखता हो भयवा जलराशी मे शुक्र गया हो तो  
 स्त्रीका गुह्यस्थान गीलापन वाला होवे १३४  
 जलराशाका बुध शनि से दृष्ट हो तो स्त्रीका गुह्यस्थान गीलापन  
 वाला होवे १३५  
 जलराशी तथा जलराशीके नवांश मे गया हुआ चंद्रमा सातमें भा-  
 वमें गया हो तो स्त्रीके गुह्यस्थानमें गीलापन रहेगा १३६  
 जायानाश योग ।

लग्नेके मन्देस्ते जायानाशः १३७  
 पापान्तस्थास्फुजिदंधे वा सुस्ते जायापाशेन नश्यति १३८  
 सद्योगदृग्धीने शुके पाशेन भार्यानाशः १३९  
 भृगुजे मपापे सौम्यैरदृष्टे अग्निदाहाज्जायानाशः १४०  
 मन्देष्टमे षष्ठेभौमे स्तेराहौ भार्यानजीवति १४१  
 लग्ने नीचग्रहे लग्नेरो नीचगे वा दारनाशः १४२  
 घूनेशेन वा कोशेशेन युतः शुक्रस्त्रिकेयावत्कूरैर्दृष्टस्ता-  
 वत्संख्याभार्यानाशः १४३  
 कन्यांगेसूर्ये क्षपेमन्दे जायानाशः १४४  
 पापान्तरे शुके उच्छ्रितशतनाज्जायानाशः १४५  
 षष्ठेशाच्छौयुतौ भार्याविवत् १४६  
 सुवेशेदारे दारपेसपापे शुकेऽपले गर्भनिमित्तभार्या  
 नाशः १४७  
 सुस्ते नीचगे शुके वा चंद्रे दारनाशः १४८

दारेशे क्रूपग्रहचरो दारनाशः १४९

निद्रागते पापेस्ते पापपीडिते दारनाशः १५०

घृतेर्के प्रकाशे जायानाशः १५१

भौमेस्तेनेत्राणौ जायानाशः १५२

टीका-लग्नेमे सूर्य और सप्तम भावमे शनि गया हो ( रविशनिका प्रतियोग १८० अंशके अंतरकाहो ) तो स्त्री का नाश होवेगा ( मर-जावेगा ) १३७

पापग्रहोंके मध्यमें गया हुआ शुक्र भष्टम भाव में किंवा चतुर्थभावेमें गया हा तो फांशी से स्त्रीका नाश होवेगा १३८

शुक्रशुभग्रहों से युत और दृष्ट नहीं हो तो फांशीसे स्त्री कानाश होवेगा १३९

पापग्रह संयुक्त शुक्र शुभग्रहोंसेदृष्ट नहींहो तो अग्नि से जलजान के कारण स्त्रीकानाश होवेगा १४०

भाठमेशनि छठेभंगल और सातम भावमे राहु गयाहो तो स्त्री जी-वेगा नही ( विशाहहोतेजावगे और स्त्री मरती जावेगा ) १४१

लग्न में नीच राशक घड़ा गहो और लग्नेश नीचराशी नेहातो स्त्रीका नाश होवेगा १४२

सप्तमेशत भयान धनशत युक्त शुक्र ६८।१२ भाव में गया हो और वह जितने पापग्रहों स दृष्ट होवे उतनी ही संख्या कि स्त्रियोंका नाश ( मृत्यु ) होवेगा १४३

द्वयाराशीके लग्न मे सूर्य और भीन राशी में शनि गया हो तो जायाका नाश होवेगा १४४

पापग्रहों के बीचमें ( मध्य में ) शुक्र गया हो तो उपरसे पढ़नेके कारण स्त्री का मृत्यु होवेगा १४५

षष्ठेश और शुक्रका योग हो तो स्त्री संबंधी विपत्ति रहेगा १४६

पंचमश सप्तम भाव में गया हो सप्तमश पापग्रहसे युक्तहो और शुक्र निर्वली दावे तो गर्भके निमित्त भायांका नाश होवेगा ( बालक होत हुवे भयवा मर्राहुवा बच्चावर्द्धीके होनेसे वा गर्भशत से स्त्रीकी मृत्यु होवेगा ) १४७

चतुर्थ भावमें नीचराशी में गणहुवा शुक्र किंवा चंद्रमा गया हो तो जायाकी मृत्यु होवे १४८

सप्तमेश क्रूर पष्ठचंश मे गया हो तो भार्याका नाश होवेगा १४९  
पापग्रहसे पीडित, निद्रावस्थाभे गया हुवा पापग्रह सप्तम भावमें गया हो तो स्त्रीका नाश होवे १५०

प्रकाशावस्था मे गया हुवा सूर्य सप्तम भावमें गया हो तो जायाका नाश होवे १५१

नेत्रपाणी अवस्था में गया हुवा मंगल सप्तम भावमे गया हो तो जायाका नाश होवे १५२

दारनाशके वषकी संख्याके विशेष योग वृहत्पाराशरमें लिखे है कि सप्तमेश नीचराशीकाहो और शुक्र छठे भयवा भाठमें भाव में गया हो तो अठारमे तथा तैतीस में वर्ष में स्त्रीका नाश होवेगा ?

शनी जिस राशी में गयाहो उस राशीका स्वामी भाठ में भाव में हो और चारमे भावका स्वामी शनीकी राशी में गया हो तो उन्नईस ( १९ ) में वर्ष स्त्रीका नाश होवेगा २

धनभावमें राहुगया हो और सातमें भाव में मंगल युक्त हो तो विवाह के तीसरे दिन सोनके काटने से स्त्री की मृत्यु होवेगा ३

अष्टमस्थानमें शुक्र और अष्टमेश शनिकी राशी में गया हो तो चारवें भयवा १९ उन्नईस में वर्ष में स्त्रीकी मृत्यु होवेगा ४

लग्नेश नांचराशी में और धनेरा अष्टम भाव में गया हो तो चालीस में वर्ष स्त्री की मृत्यु होवेगा ५

जायाहीन योग ।

धर्मास्तात्मजगौ त्रिताकी जायाहीनः १५३

चंद्रा दस्तेर्कजारौ सशुक्रौ जायाहीनः १५४

शुक्रज्ञौ घृने दारहनिः १५५

शुक्रान्मदपापे वा सपापेशुके स्त्री सुखंन १५६

टीका—नवमे, सातमें, ताया पाचमें भावमे रवि शुक्रका योग होवेतो स्त्री हीन ( स्त्री रहित ) होवे १५३

चंद्रमासेसप्तमभावनेशनिमंगलभोरशुक्रगयेहोतोभीरहितहोवे १५४

शुक्र बुध का योग जन्म लग्नसे सप्तम भावमें होतो स्त्रीहीनहोवे १५५  
शुक्र से सप्तम भावमें पापग्रह गये हो अथवा पापग्रहसे युक्तशुक्रहो  
तो स्त्रीका सुखनहीहोवे १५६

लोकापवादा द्वायां त्याग योग ।

लग्नेराव्हर्कजौ लोकापवादाद्द्वार्या त्यागः १५७

टीका-लग्न में राहु और शनि का योगहोतो लोकापवाद से भार्या  
का त्याग करने वाला होवे १५७

भार्या या अग्निदाह योग ।

शुक्रानुर्याष्टमगैः पापैर्भार्याया अग्निदाहः १५८

टीका-शुक्रसे चतुर्थ और अष्टम भाव में पापग्रह गयेहोतो स्त्रीका  
अग्निदाह अपने हातसे करने वालाहोवे १५८

स्त्री शरीरे पिशाच पीडायोग ।

मन्दारराहु केत्वन्यतभेदो स्त्रीशरीरे पिशाचपीडा १५९

टीका-शनि, मंगल, राहु, केतु इनचार ग्रहोंमें से कोई भी एकग्रह  
सप्तम भाव में गयेहोतो स्त्री के शरीर में पिशाच [भूत, प्रेत टाकन  
चुडेल आदिकी ] पीडाहोवे १५९

दार हतायोग ।

चन्द्रेन्त्ये शुक्रेस्ते दारहन्ता १६०

टीका-वारवे भावमें चंद्रमा और सप्तम भावमें शुक्रगया होतो स्त्री  
को अपने हात से मारनेवाला होवे १६०

कलत्र संपत् योग ।

लग्नाचद्राद्वायूनशुभेन स्वपतिना वायुतंदष्टंकलत्रसंपत् १६१

टीका-लग्नसे अथवा चंद्रमा से सप्तम भाव अपने स्वामी से और  
शुभग्रह से युक्त दृष्ट होतो स्त्रीका सुख अच्छारहेगा १६१

कामिनीतोष कृतयोग ।

वक्रग्रहर्क्षे शुक्रे कामिन्या रतेतोषकृत् १६२

लग्नेशःस्वर्क्षगंसप्तमस्थं शुक्रंपश्यतिचेत्कामिनीतोषकृत् १६३

भौमात्वे सुखे वा मन्दचन्द्रौ कामिनी तोषकृत् १६४

टीका—बक्रीग्रह की राशी में शुक्रगयाहो तो समागम में कामिनीको प्रसन्न करने वाला होवे १६२

भयनी राशी ( ७१२ ) में गये हुये सप्तम स्थान स्थितशुक्रको लग्नेश देखताहो तो कांता को संतोष करने वाला होवे १६३

मंगल से दशमं भयवा चतुर्थं भाव में शनि चंद्रमा गयेहोतो कामिनी को रतिमें प्रसन्न करने वाला होवे १६४

वाणिज्यवान्योग ।

तुलांशे वाणिज्यवान् १६५

सोम्येऽप्ये वा कर्कांशे वाणिज्यवान् १६६

ज्ञार योगे वाणिज्यवान् १६७

इति सप्तमविवेकः ।

टीका—कारकांश लग्न तुलाराशीकाहो तो वाणिज्य ( हाजरमालका व्यापार ) करने वाला होवे १६५

कारकांश लग्नमें बुध गया हो भयवा कर्कराशीका कारकांश लग्न हो तो वाणिज्य करने वाला होवे १६६

बुध मंगल का योग होतो वाणिज्य करने वाला होवे । इसयोग में स्थान नहीं बताया है परंतु ये योग यदि ११४७, १०१५ इनस्थानोंमें होतो बलवान् होवेगा १६७

इनके सिवाय भाईकापुत्र, माताकीमाता, मित्रकीमाता, पुत्रकाछोटाभाई, पुत्रकेशालेकीस्त्री, पुत्रकापराक्रम, शत्रुकाधनकुटुंब, शालेके पुत्रकीस्त्री, स्त्रीकेपिताकामित्र, वस्ती ( पेटु ) गुप्तस्थान, बापकाबाप ( दादा ) सुसराकीमाता, इत्यादिका विचार भी सप्तम भाव से करना ।

इति सप्तम विवेकस्यटीका समाप्तः ।



अष्टम विवेकः ।

दीर्घाद्यु योग ।

- सुतेचंद्रे गुरौकोणे खेभौमे दीर्घायुः १  
 रन्ध्रशेषापेलाभेल्पायु रन्यथादीर्घायुः २  
 रन्ध्रशेषवर्क्षे वा मन्देष्टमे दीर्घायुः ३  
 रन्ध्राङ्गत्वेशाः केन्द्रकोणलाभगादीर्घायुः ४  
 मन्देस्वर्क्षोच्चे उपचये वा रन्ध्रपेमन्देसुते दीर्घायुः ५  
 रन्ध्राङ्गपौरन्ध्रलाभे वा दीर्घायुः ६  
 पष्ठान्त्यपौलाग्ने वा कर्मपेकेन्द्रे वा लग्नपे दीर्घायुः ७  
 कर्मपेमुतेस्वोच्चो वा रन्ध्रशे केन्द्रे वा चतुरस्रेद्युभेषु दीर्घायुः ८  
 सभानुजैः स्वाङ्गाष्टमपैः केन्द्रे दीर्घायुः ९  
 पापाख्यायारिगाः शुभाः केन्द्रकोणे दीर्घायुः १०  
 पष्ठाष्टमपत्तमे शुभाः पापास्त्रिषष्टाये दीर्घायुः ११  
 रन्ध्रपेङ्गेशुक्रेज्यदृष्टे दीर्घायुः १२  
 शुभाः केन्द्रकोणे पापाः पारावते दीर्घायुः १३

टीका—पंचमभाव में चन्द्रमा, नवमे गृह और दशमे भावमें मंगल, क्रमसे गये हो ता दीर्घायु होवे १

अष्टमेश पापग्रहहो और बर्हलाभ (११) भावमें गयाहो तो अस्त्रायु होवे और लाभ भावके विना किसी दूसरे भाव में गयाहो तो दीर्घायु होवे २

अष्टमेश अपनी स्वराशी में गया हो अथवा शनि अष्टम भावमें गया हो तो दीर्घायु होवे ३

नोट—१२ वा १६ वर्षपर्यंत अस्त्रायु ६४ वा ७२ वर्षपर्यंत मन्त्रायु ६४ वा ७२ से

उपर १०० वर्ष पर्यंत दीर्घायु और १०० के पश्चत् उत्तमायु योगमाना जाता है ।

भष्टमेश लग्नेश और दशमेश ये तीनों ग्रह केन्द्रकोण वा लाभ स्थान ( १।४।७।१०।१५।११ ) में गये हो तो दीर्घायु होवे ४

। शनि अपनी स्वराशि किंवा उच्चराशि में स्थित होकर उपचय स्थान ( ३।६।१०।११ ) में गया हो १ अथवा भष्टमेश शनि पंचम भाव में गया हो तो दीर्घायु होवे ५

भष्टमेश और लग्नेश भष्टम भाव में गये हो १ अथवा भष्टमेश लग्नेश दोनो लाभ भावमें गये हो २ तो दीर्घायु होवे ६

षष्ठेश और व्यपेश ये दोनो लग्नमें गयेहो १ अथवा दशमेश केंद्र में गयाहो २ किंवा लग्नेश केंद्रमें गया हो ३ तो दीर्घायु होवे ७ इससूत्रमें तीन योग कहे है ।

। दशमेश अपनी उच्चराशि में स्थित होकर पंचमभाव में गया हो १ अथवा भष्टमेश केंद्र में गया हो २ किंवा केंद्रस्थानमें शुभ ग्रह गये हो ३ तो दीर्घायु होवे ८ इस सूत्रमें भी तीन योग है ।

दशमेश लग्नेश और भष्टमेश ये तीनों ग्रह शनि से युक्त होकर केंद्रस्थान में गये हो तो दीर्घायु होवे ९

सर्वपापग्रह तीसरे ग्यारवे तथा छठे भावमें और सर्व शुभग्रह केंद्रकोण स्थानमें गये हो तो दीर्घायु होवे १०

सर्वशुभग्रह छठे सातमें और आठमें भावमें और सर्व पापग्रह तीसरे छठे ग्यारवे भावमें गये हो तो दीर्घायु होवे ११

। लग्नमें गयाहुवा भष्टमेश गुरुशुक्र से दृष्ट हो तो दीर्घायु होवे १२ सर्वशुभ ग्रह केंद्रकोण ( १।४।७।१०।१५ ) स्थानमें गये हो और पापग्रह पारावतांश में गये हो तो दीर्घायु होवे १३

मध्यायु योग ।

पापाः पणफरतुर्य त्रिस्थामध्यायुः १४

अङ्गेशोऽत्रले जीविकेद्रकोणे त्रिकेपापे मध्यायुः १५

शुभे केंद्रकोणे मन्देवळिति षष्ठेष्टमे वा पापे मध्यायुः १६

त्रिकोणे केंद्रे वा मिभा मध्यायुः १७

टीका—सर्वपापग्रह पणफर ( २।५।८।११ ) स्थानमें अथवा तीसरे और चतुर्थ भाव में गये हो तो मध्यायु होवे १४

लग्नेशनिर्वली होवे, गुरु केंद्र किंवा त्रिकोण स्थानमें होवे और पापग्रह ६।८।१२ में भावमें गये हो तो मध्यायु होवे १५

सर्वशुभग्रहकेंद्र वा त्रिकोणस्थान में गये हो और शनि बलवान् होकर छठ किंवा भाठ में भाव में गया हो १ अथवा पापग्रह बलवान् होकर छठे वा भाठ में भाव में गये हो तो मध्यायु होवे १६

केन्द्र त्रिकोणस्थान ( १।४।७।१०।१।५ ) में शुभ और पाप ( दोनो मिश्र ग्रह गये हो तो मध्यायु होवे १७

अल्पायु योग ।

सपापे रन्ध्रेशन्त्ये षष्ठे वा अल्पायुः १८

पापाभापोक्लिमस्था अल्पायुः १९

लग्नाष्टमेशौव्यये रिगे वाऽल्पायुः २०

धनेशेके स्तेर्कजे लाभे इज्याच्छौ अल्पायुः २१

लग्नेर्कजारी चन्द्रो रन्ध्रगः षष्ठे जीवेऽल्पायुः २२

लग्नेशेष्टमे ल्पायुः २३

त्रिकेपापेङ्गेशे ऽबलेल्पायुः २४

क्रूरपष्टमंशे मन्दरन्ध्रेशौ सपापौ पापदृष्टौवाल्पायुः २५

पापेकेन्द्रे शुभदृग्घीनेङ्गेशेऽबलेल्पायुः २६

व्ययार्थगोपापौ शुभदृग्घीनौ अल्पायुः २७

टीका-अष्टमेश पापग्रहसे युतहोकर चारवे भाव में किंवा छठे स्थान में गयाहो तो अल्पायु होवे १८

सर्व पापग्रह भापोक्लिम ( ३।६।९।१२ ) स्थानमें गयेहो तोअल्पायु होव १९

लग्नेश और अष्टमेश ये दोनो ग्रह चारवे भाव में अथवा छठेभावमें गये होतो अल्पायुहोवे २०

धनेश नयमें भाव में शनि सातमें भावमें और गुरु शुक्र लाभ ( ग्यार वें ) भाव में गयेहो तो अल्पायुहोवे २१



लग्नमे शनि मंगल, भाठमें भावमें चंद्रमा और छठेस्थान मे गुरु गयाहोतो भल्पायुहोवे २२

लग्नेश भष्टम भावमे गयाहोतो भल्पायुहोवे २३

पापग्रह ६।८।१२ में भाव में गयेहो और लग्नेश निर्बली होतों भल्पायुहोवे २४

शनि और भष्टमेश ये दोनो क्रूरषष्ठचंगमे गयेहो और पापग्रहों से युत किंवा दृष्टहोवेतो भल्पायु होवे २५

केन्द्रस्थान ( १।४।७।१० ) में गयेहुवे सर्व पापग्रहोंको शुभग्रह देखते नहींहो और लग्नेश चलहीन होतो भल्पायु होवे २६

चारवे और दूसरे भाव में पापग्रह गये हो और उनको शुभग्रह नहीं देखते होतो भल्पायु होवे २७

सद्यो मृत्यु योग ।

लग्नेराहुः पष्ठाष्टमे चन्द्रे सधोमृत्युः २८

टीका-लग्नमे राहु और छठे किंवा भाठ में भाव मे चंद्रमा गयाहो तो तुरंत मृत्युहोवेगा २८

वर्षान्तरे मृत्युयोग.

मन्दाकाराः षष्ठेष्टमे वर्षान्तरे मृतिः २९

टीका-शनि, राशि, और मंगल छठे भाठमे भाव में गये होतो एक वर्षकी उमर होनेके पश्चात् मृत्यु होवे २९

अर्काब्दे मृत्यु योग.

सूर्यश्चमन्देमन्दक्षैर्केर्काब्दे मृतिः ३०

टीका-सूर्यकी राशि ( ५ ) मे शनि और शनिकी राशि ( १०।११ ) में राशि गया हो तो बार में वर्ष में मरण होवेगा ३०

एवं सर्वार्थे चिंतामणोमें योगायुके अन्य विशेष योग लिखे हे उनकाभी आधुर्दायमें विचारकरना आवश्यक है अतएव उन योगोंको उधृत करनेमें आते हैं ।

चंद्रमाकी राशिीका स्वामि सूर्य पापग्रहसे युक्त होकर ६।८ मे भाव में जावे शुभग्रहोंकी दृष्टी से रहित हो और लग्नेश भापोक्लिमस्थानमें ३।६।९।१२ गया हो तो १६ वर्ष मे मृत्यु होवे १

लग्नेशकी राशी में भृमेश और भृमेशकी राशीमें लग्नेश हो शुभ ग्रहसे युक्त न हो अथवा लग्नेश भृमेश ६।१२ भावमें पंचमेश से युक्त होतो १८ म वर्ष मरण होवेगा २

केंद्रस्थान में पापग्रह शुभग्रहोंके दृष्टिसे रहित हो और चंद्रमा ६।८ में भावमें गया होतो २० में वर्ष मरण होवे ३

वृहस्पतिसे युत सूर्य ४ केंद्र राशी केंद्रमें गया हो और भृमेश केंद्रमें हो तो २२ में वर्ष मरण होवे ४

राहुस युत चंद्रमा ७ में तथा ८ में भाव में गया हो और लग्न में गुरु हो तो २२ में वर्ष मरण होवे ५

दो पापग्रहोंके बीचमें गया हुआ लग्नेश शुभ ग्रहसे युक्त न हो और जिस लग्न में विना का जन्म होवे उसी राशीके लग्न में जन्म हुआ तो २५ में वर्ष मरण होवे ६

अपनि शत्रु राशी में गया हुआ शनि लग्नमें गया हो और सर्व शुभ ग्रह ३।६।९।१२ भाव में हो तो ५५ या २७ में वर्ष मरण होवे ७

रवि और चंद्रमा शनिसे शीघ्र ही भृमेश में गया हो तो ११ में वर्ष मरण होवे ८

पापग्रह १।८।७ में भावमें गये हो और शुभग्रह पण्डितस्थानमें हो तो २८ में वर्ष मरण होवे ९

लग्नेश और भृमेश के बीचमें चंद्रमा गया हो और भावमें हो तो २७ वा ३० में वर्ष मरण होवे १०

भृमेश पापग्रह गुरुसे और पापग्रहों से दृष्टिदाव अथवा ह में गया होतो २८ म वर्ष मरण होवे ११

भृमेश बलवान होकर केंद्र में अथवा लग्नमें गया होतो ३२ में वर्ष मरण होवे १२

चंद्रमा सूर्य से युक्त हो भृमेश केंद्रमें हो, पापग्रह भृमेश और पापग्रह से युक्त कोई भा निर्बली ग्रह लग्नमें गया होतो मृत्यु होवे १३

बुध सहित चंद्रमा वारवें भाव में हो और निर्बली भृमेश इस युत वा दृष्टि हाकर केंद्रस्थानमें गया हो तो ३० होवे १४

३१

अष्टमेश १२।१ भावों में से किसी भाव में हो और लग्नेश अष्टम  
 भावमें पापयुत दृष्ट हो तो २४ वर्ष में मही मृत्यु होवे १५

दृष्टमेश लग्नमें और लग्नेश बलरहित होवे तो ३० वर्षकी ही  
 होवे १६

द्रमा और लग्नेश पापग्रहोंसे दृष्ट तथा बलहीन होकर आपोक्लि.  
 पान में गये हो तो ३० वर्ष से अधिक नहीं जीवे १७

रुशुक केंद्र में हो पापयुत लग्नेश आपोक्लिम में हो और संध्या  
 लमें जन्म होवे तो ३६ वर्षकी परमायु होवे १८

पापग्रहोंके बीचमें गयाहुवा शुक्रराशी में स्थित निवली रवि लग्नमें  
 हो और शुभग्रह उसको नहीं देखेवे हो तो ३६ वर्षकी परमायु  
 वे १९

लग्न में चंद्रमंगलगयेहो केंद्र तथा अष्टम भावमें शुभग्रह नहो और  
 अग्नि में गलिक हो तो ३६ वर्षकी परमायु होवे २०

मंगलकी राशी ( १।८ ) में गयाहुवा चंद्रमा लग्न में पापग्रहोंसे  
 दृष्ट हो और शुभग्रह केंद्र में नहीं गये हो तो ३३ वर्षकी आयु होवे २१

अष्टमेश पापग्रह चंद्रमासे युत होकर केंद्र किंवा त्रिकोणस्थानमें  
 हो और वह दशमस्थान स्थितपापग्रहोंसे दृष्ट हो तो ३३ वर्षकी  
 आयुहोवे २२

द्रमा सेयुक्त शनि लग्न में गया हो और शुभराशी में मंगल हो तो  
 वर्षकी आयु होवे २३

पापग्रहोंके बीचमें लग्न गया हो और लग्नेश मिथुनराशीका होवे  
 गुरु चतुर्व्यंभाव में हो तो ३७ वर्षकी आयु होवे २४

मंगलसे युक्त अष्टमेश लग्न में गया हो यद्वास्विरराशी में गयाहुवा  
 मंगल आठवें वा बारह में भावमें स्थितहो तो ४२ में वर्ष मरण होवे २५

चंद्र में गुरु, दश में शनि, और लग्नचरराशीका हो तो ४४ वर्षकी  
 आयु होवे २६

शुक्रराशीका शनि लग्न में, गुरुसप्तमभावमें, और शनि दशमें,  
 स्थित गया होतो ४४ वर्ष की आयुहोवे २७

लग्नेश पापग्रहसे युतहोकर अष्टम भावमें गयाहो और शुभग्रह केंद्र  
 में हीहोतो ४० वर्ष की आयुहोवे २८

पापग्रह से युक्तलग्नेश अष्टमभावमें और पापग्रहसे युत अष्टमेश छुटे भाव में बलवान् हाथे वा शुभदृष्टि रहित होतो ४५ में वर्ष में मरण होवे २९

मेघराशी का पूर्ण चंद्रमा लग्नमें शुभग्रहसे दृष्टहोवेतो ४८ में वर्ष मृत्यु होवे ३०

किसीभी ग्रहसे युक्तहोकर शनिलग्न में गयाहो और चंद्रमा ८ किंवा १२ में भावमें होतो ५२ में वर्ष मरण होवे ३१

धनराशिकागुरु लग्नमें गयाहा और राहुसे युक्त मंगल आठवें भावमें होतो ५७में वर्ष मृत्यु होवे ३२

अष्टमेश सप्तम भावमें और पापयुत चंद्रमा ६।८ में भावमें गयाहो तो ५८ में वर्ष मृत्यु होवे ३३

अष्टमेश से युक्त गुरुलग्नमें गयाहो अथवा कुंभराशिका गुरुपापग्रह सहित केंद्रमें होतो ६० में वर्ष मृत्युहोवे ३४

लग्नमें शनि, चतुर्थ में चंद्रमा, सप्तममें मंगल, दशममें सूर्य गयाहो और बुध गुरु शुक्र मेंसे किसीएक से भी युक्तहो तो राजाहोवे ६० वर्ष पर्यंत जीवितरहे ३५

लग्नमें गयाहुवा शुक्र, चंद्र बुध और गुरुसे दृष्टहोवे तथा पंचम भावमें गुरु गयाहोतो ६० वर्ष की आयुहोवे ३६

लग्नमें शुक्र केंद्रमें बुध शनि और ३।११ में भावमेंपरमोच्चराशी गत ग्रह गया, होतो ६० वर्ष की आयुहोवे ३७

लग्नेश तथा ताकाल हीरा लग्नेश ये दोनो आठमें भाव में हो और अष्टमेश केंद्रमें गयाहोतो ६६ किंवा ६० वर्ष की आयुहोवे ३८

चंद्रमा सहित रवि दशमें भावमें, शनि लग्नमें और गुरु चतुर्थ भाव में गयाहोतो ६८ वर्ष की आयुहोवे ३९

लग्नमेंगुरु व मीन राशी में बुध सूर्य शनिकायोग किसी भी भाव में होवे और चारवें भाव में चंद्रमा गया हो तो ६६ वर्षकी आयु होवे ४०

लग्न में चंद्रमा, कर्क राशीका नीचका शनि दशमें, और सातमें भावमें, सूर्य गया हो तो ६५ वर्षकी आयु होवे ४१

नीचराशीका शनि केंद्र वा त्रिकोणमें हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो अथवा बुध सहित सूर्य केंद्रमें गया हो तो ७० वर्ष पर्यंत जीवितरहे ४२

बलवान् शुभग्रह केंद्र म गये हो और अष्टम मे कोई शुभग्रह नहीं होवे  
तथा लग्नेश पापग्रहों से दृष्ट नहीं हो तो ७० वर्ष तक जीवित रहे ४३  
पंचम भाषमें मंगल नीचराशी में शनि और सप्तमभावमें सूर्य गया  
हो तो ७० वर्षकी आय होवे ४४

सर्व शुभाशुभ ग्रह लग्न से छठे भावपर्यंत हो अथवा सप्तम सेव्यय  
पर्यंत क्रम से गये हो तो ७० वष से ऊपर दीर्घायु होवे ४५  
लग्नसे छठे भाव पर्यंत बलवान् सर्वशुभग्रह और सप्तम भाव से  
१२ भावमें पर्यंत बलवान् सर्व पापग्रह गये हो तो ८० वर्षमें मृत्युहोवे ४६  
चंद्रमा से युत होकर गुरुकेंद्रमें शुभ ग्रहसे दृष्ट होवे और अन्य सर्व  
ग्रह दशम भाव से ऊपर के भाव ( ११।१२ ) में गयेहोतो ८६ में वर्ष  
मृत्युहोवे ४७

• केंद्र में शुभग्रह तथैव अष्टमभाष के बिना अन्यभाषमें पापग्रहहो  
और लग्नसे छठे भावमें चंद्रमा गयाहोतो ८६ में वर्ष मृत्युहोवे ४८  
लग्नेशसे केंद्रस्थानमें गुरुगयाहो और ( ३।६।११।१२ ) में भावमें  
पापग्रह स्थित होतो १०० सो वर्ष जीवितरहे ४९  
केवल गुरु लग्नेशसे केंद्रमें गयाहोतो ७० वर्ष की आयुहोवे ५०  
तीनग्रह अपनी उच्चराशीमेंहो वृषभ किंवा कर्क राशीके लग्नमें  
गुरुहो मकरका मंगलहो और अन्यसर्व ग्रहकेंद्र में गयेहोतो परमा  
१२० वर्षकी होवे ५१ इत्यादि और भी अनेक योगदे वे ग्रंथांतरोसे  
जानना ।

सिंहान्मृत्युयोग ।

चंद्राकौपष्ठेवाष्टमे सिंहान्मृतिः ३१

तुर्येभौमे खर्कजे सिंहान्मृतिः ३२

टीका-सूर्य चंद्रमाकायोग छठे किंवा आठमें भाषमें होतो सिंहसे  
मृत्युहोवेगा ३१

चतुर्थ भावमें मंगल और दशमें भावमें शनिगयाहो तो सिंहसे मृत्यु  
होवेगा ३२

सर्पान्मृत्युयोग.

राहूछोखे सर्पान्मृतिः ३३

राहृर्कावंशेषापेक्षितौ सर्पान्मृतिः ३४

स्वर्केसुखेभौमे मन्देष्टमे सर्पान्मृतिः ३५

यूनेशन्यर्कराहृपुसर्पपीडातो मृत्युः ३६

टीका-राहृ और शुक्रका योग दशमें भावमें होतो सर्प दंश से मृत्यु होवे ३३

कारकाशलग्नमें गयाहुवासूर्य पापग्रहसँदृष्टहोतो सर्पदंशसेमृत्युहोवे ३४  
दशमें रवि चतुर्थभावम मंगल और आठमे शनिगयाहोतो सर्पदंशसे  
मृत्युहोवे ३५

शनि रवि और राहृसातमें भावमे गयेहोतो सर्पदंशसे मृत्युहोवे ३६  
शस्त्रान्मृतियोग ।

कुजार्कजावंगे चाष्टमेचंद्रेशस्त्रान्मृतिः ३७

केतुसुखेशौपष्टे शस्त्रेणमृत्युः ३८

पापयोर्मध्ये कुजर्क्षगेचंद्रे शस्त्रेणाग्निना वा मृत्युः ३९

रंध्रस्थौ यमारौ राहृयुतौ शस्त्रतोमृत्युः ४०

शुक्लेशे चन्द्रमन्दौ शस्त्रतोमृत्युः ४१

टीका-लग्नमे शनि मंगल और अष्टम भाव में चंद्रमा गया हो तो  
शस्त्र से मृत्यु होवे ३७

सुखेश और केतु छठे भाव में गये हो तो शस्त्र से ( तलवार बंदूक  
छुरी फटारी आदिके लगने से ) मृत्यु होवे ३८

मंगलकी राशी ( १।८ ) में गया हुवा चंद्रमा पापग्रहों के बीचमें  
स्थितहो तो शस्त्र से भयवा अग्निमें जलजानेसे मृत्यु होवे ३९

आठमेभावमे शनिमंगल राहृसे युक्त हो तो शस्त्रसे मृत्यु होवे ४०

चन्द्रशनि, शुक्रकीराशी ( २।७ ) में गये हो तो शस्त्र से मृत्यु होवे ४१  
श्वदंशान्मृति योग ।

जीवारोस्वर्केयूनेश्वदंशान्मृत्युः ४२

टीका-दशमे गुरुमंगल और सातमें भावमें रवि गया हो तो कुत्तेके  
काटने से मृत्यु होवे ४२

राजगेहे मृत्यु योग ।

द्वादशांशो खेसुखे सूर्ये राजगेहे मृत्युः ४३

टीका—द्वादशांश कुटली मे दशमे तथा चतुयं भाव में सूर्य गया हो तो राजाके मकानमें मृत्यु होवे ४३

कुमृत्यु योग ।

कुजेन्त्ये मंदेष्टमे कुपृत्युः ४४

भौमेरिगेदुर्मृत्युः ४५

टीका—चारमें भाव में मंगल और भाठ में शनि गया हो तो सराव रीतसे मरण होवे ४४

मंगलछटे गया हो तो दुर्मरण होवे ४५

तीर्थे वा पर्वते मरण योग ।

राहुसूर्ययोगे तीर्थे वा पर्वते मृत्युः ४६

जीवेङ्के तीर्थे मृत्युः ४७

ज्ञाच्छौ धर्मे द्वारावत्पामृत्युः ४८

ज्ञाकौधर्मे मार्गे वा शिवालये मृत्युः ४९

लग्नेधर्मेशे तीर्थे मृत्युः ५०

चंद्रधर्मेशावष्टमे सन्मृत्युः ५१

सौम्येरंध्रे शुभदृष्टे वा धर्मपे सौम्ये तीर्थे मृत्युः ५२

टीका—राहु और सूर्यका एक राशी में योग हो तो तीर्थ में वा पर्वतपर मरण होवे ४६

नवमें भावमें गुरु गयाहोतो तीर्थमें मरण होवे ४७

बुध शुक्र नवमें भावमें गये होतो द्वारावतीपुरी ( दारिका ) में मरण होवे ४८

बुध सूर्य नवमें भाव में गयेहोतो मार्ग में किंवा शिवालयमें मरण होवे ४९

धर्मेश लग्नमें गयाहोतो तीर्थमें मरण होवे ५०

चंद्र और नवमेश ये दोनो भाठमेभाव मे गये होतो सन्नरणहोवे ;  
( बिनाकष्टपाये अच्छी तरह मरणहोवेगा ) ५१

अष्टम भाव मे गयाहुवा बुध शुभग्रह से दृष्टहो अथवा नवमेश  
बुधहोतो तीर्थमे मरण होवेगा ५२

कफादतिसाराद्वामृत्यु योग ।

भौमेरिगेर्कदृष्टे कफादतिसाराद्वामृत्युः ५३

टीका-छठे भाव मे गयाहुवा मंगल रविसे दृष्ट हो तो कफसे किंवा  
अतिसाररोग से मरण होव ५३

शकटान्मरण योग ।

मन्देष्टमे शकटान्मृत्युः ५४

टीका-शनि भाठमे भावमे गया हो तो गाड़ी से मरण होवे ५४  
यदि यह शनि पापग्रहसे युत दृष्ट हो ता यह योग चलवान् समझना  
केवल शनिक ८ भाठमे होने से फल मिलना असभव है ।

कारागारे वा शूलनमृत्यु योग.

ज्ञार्कजावष्टमे कारागारे शूलेवा मृत्यु ५५

टीका-बुध शनि का अष्टम भावमे योग हो तो जहलखानेमे किंवा  
शूल ( शूलीपर चढनेसे ) मृत्यु होवे ५५

वर्तमान समयमे शूलीपर चढानेकी शिक्षाके बदले फासीकी सजादु  
भा करतीहै ।

शय्याया वा अंतराले मरण योग

शुक्रज्ञावष्टमे शय्यायां वान्तराले मृत्युः ५६

टीका-शुक्र और बुध भाठ मे भाव मे गये होतो पलंगपर बिछोनेमे  
अथवा अंतराल मे ( मंजिलपर ) मरणहोवे ५६

विभूतिरोगान्मरण योग ।

मन्दार्क योगे विभूति रोगान्मृत्युः ५७

टीका-शनि रवि का योग भाठमे भावमे होतो विभूति रोगसेमरण होवे ५७  
उर्ध्वबंधनान्मरणयोग ।

मन्दारौ मृतिगौ उर्ध्वबंधनान्मृत्युः ५८



धनाङ्गपौत्रिके सराहु केतू उद्वंधनान्मृत्युः ५९.

टीका-शनिमंगल भाट मे भावमे गये हो तो ऊचा बंधनेसे मरण होवे ५८  
धनेश और लग्नेश ये दोनो राहु किजा केतुसे युतहोकर ६।८।१२  
भाव में गये हो तो उद्वंधन ( फामीसे ) मरण होवे ५९

विद्युत्पाततो मृत्यु योग ।

मन्दक्षेत्रे शयुते विद्युत्पातान्मृ युः ६०

टीका-शनिकी राशी ( १०।११ ) में गयाहुभा रवि लग्नेशसे युक्त  
होतो विजली के गिरनेसे मरण होवे ६०

वाहनान्मरण योग ।

सुखेशेपष्ठे मन्दयुते यानान्मृत्युः ६१

भौमेवुगे खेके वाहनपाततो मृत्युः ६२

रंध्रांगपौ तुर्यपयुतौ वाहनतो मृत्युः ६३

टीका-सुक्लेश छठ भावमे शनि से युक्त होतो वाहनपरसे पड़ने से  
मरण होवे ६१

मंगल चतुर्थे भावमे और रवि दशमे भावमे गयाहो तो वाहनपर से  
पड़ने से मरण होवे ६२

अष्टमेश और लग्नेश ये दोनो चतुर्थेश से युक्त होतो वाहन से मरण  
होवे ६३

वाहन-हाथी, घोड़ा, गाड़ी, रेल, मोटर, साइकल, उंट, बगेरा वाहन  
गिनेजाते है ।

स्वदेशे विदेशे वा मार्गे मरण योग ।

चरक्षेत्रे स्वदेशे द्विस्वभावेक्षेत्रे विदेशे ऽन्यथा मार्गे मृत्युः ६४

टीका-जन्म लग्न चरराशीकाहोतो स्वदेशमे , द्विस्वभाव राशी  
३।६।९।१२ का होतो विदेश में और स्थिर राशी २।५।८।११ काहोतो  
मार्गमे मरण होवेगा ६४

चौरान्मरण योग ।

राहुतुर्येशोपष्ठे चौरान्मृत्युः ६५

रन्ध्रांगपौषष्ठे सराहुकेतू चौरशस्त्रघाततोमृत्युः ६६

टीका-चतुर्थेश राहुसे युतहोकर छठे भावमे गयाहोतो चौरसे मरण होवेगा ६५

अष्टमेश और लग्नेश ये दोनो राहु किंवा केतुसे युक्तहोकर छठे भावमे गये होतो चौरके शस्त्रघातसे मरणहोवे ६६  
शिलाप्रपातान्मरण योग.

अर्कारौखेवा सुखे शिलाप्रपातान्मृत्युः ६७

टीका-रवि मंगल दशमें किंवा चतुर्थ भाव में गये होतो शिलाके पड़नेसे मरणहोवे ६७

कूपपातान्मरण योग ।

सौरैन्द्वारैः क्रमाद्बन्ध्वस्तरुर्भगैः कूपपातान्मृत्युः ६८

चंद्रार्का बुभयोदये जलनिमज्जान्मृत्युः ६९

टीका-चतुर्थ भाव मे शनि, सातमें चन्द्रमा, दशमें मंगल क्रमसे गये होतो कूप मे गिरनेसे मरण होवेगा ६८

चन्द्रभौरभूपकायोगमीनराशिमेहोतो जलमें डूबजानेसे मरणहोवेगा ६९  
स्वजनेन हनन योग ।

कन्यास्य चंद्रार्कौ पापदृष्टौ स्वजनेन हन्यते ७०

टीका-कन्याराशि में गये हुवे चंद्र रवि पापग्रहोसे दृष्टहोतो अपने कुटुम्ब के (सगोत्रके) मनुष्यके हात से मारनेके कारण मरणहोवेगा ७०  
जलोदरेण मरण योग ।

मृगेचंद्रे कर्कमन्दे जलोदरेण मृत्युः ७१

टीका-मकर राशिमें चंद्रमा और कर्कराशि में शनि गयाहो तो जलोदर रोग से मरण होवे ७१

रक्तोत्थशोषरोगान्मरणयोग ।

कन्यांगेचंद्रे पापयोर्मध्ये रक्तोत्थशोषान्मृत्युः ७२

टीका-कन्या राशि में गयाहुवा चंद्रमा पापग्रहोके बीच में हो तो रुधिर अन्य शोषरोग से मरणहोवे ७२

रज्जु भग्नि पाताञ्चमरणम योग.

सौरक्षेचंद्रपापयोर्मध्यैरज्ज्वग्निपातै मृत्युः ७३

टीका—शनि की राशी (१०।११) में गया हुआ चंद्रमा पापग्रहों के बीच में  
होतो रस्सी से वा भग्नी से किंवा गिरजाने से मरण होवेगा ७३  
स्त्री हेतुक मरण होगा ।

सपापे इन्दावस्ते मेपेगुके सूर्येङ्गे स्त्री हेतुक मृत्युः ७४

टीका—सप्तम भावमें पापग्रह से युक्त चंद्रमा, मेप राशी में शुक्र और  
लग्नमें सूर्य गयाहोतो स्त्रीके कारण मृत्यु होवेगा ७४  
शूलरोगेण मृत्यु योग ।

सूर्यारौतुर्ये खेयमे शूलेन मृत्युः ७५

त्रिकोणाद्यगैस्सक्षीणेन्दु पापैः शूलेन मृत्युः ७६

तुर्येऽर्के खेकुजे क्षीणेन्दुदृष्टे शूलेन मृत्युः ७७

टीका—चतुर्थ भाव में रवि मंगल और दशमे भाव में शनि गयाहोतो  
शूल रोगसे मृत्युहोवेगा ७५

क्षीण चंद्रमा से युक्त होकर पापग्रह नवमें पांचमें किंवा लग्नमें गये  
होतो शूलरोग से मृत्यु होवे ७६

चतुर्थ भाव में रवि और दशमे मंगल गया हो इनको क्षीण चंद्रमा  
देखता होतो शूलरोग से मृत्यु होवे ७७

काष्ठादि घाततो मृत्युयोग ।

खेभौमे तुर्येर्के मन्ददृष्टे काष्ठाभिघाततो मृत्युः ७८

रंध्रखाम्बुतनुगैः क्रमात्क्षीणेन्द्वारार्कजार्के ळगुटघाततो

मृत्युः ७९

क्षीणेन्द्वारार्कजार्केः स्वाहायेषुगे धूमग्निबन्धनकाष्ठादिप्र

हारान्मृत्युः ८०

सास्ताम्बुगै र्मन्दार्करैरायुधाग्नि नृप कोपतो मृत्युः ८१

टीका—दशमें मंगल, व चतुर्थ भावमें रवि गयाहो और इनको शनिदे

स्रताहोतो लकडीकी चोटलगने से मृत्युहोवे ७८

भाठमें भावमे क्षीणचंद्रमा, दशमे मंगल, चतुर्थ भावमे शनि, और लग्नमे रवि क्रम से गयेहोतों लट्टकी लगने से मृत्युहोवेगा ७९

दशमे क्षीण चंद्रमा नवमें मंगल ग्यार मे भाव में शनि और पंचम भावमे रवि गयेहातो धूँसे घबराजाने के कारण वा भग्नी मे जलजा ने से वा बदन मे पडने से किंवा काष्ठादिक के प्रहारसे ( घातसे ) मरण होवेगा ८०

दशमे शनि सात मे रवि और सुखमे मंगल गयाहोतो शस्त्रसे भग्नि से किंवाराजाक कोपसे मरणहोवेगा ८१

क्रमिपाततो मरण योग ।

मन्देन्द्रारै वर्धञ्चि दशमगे चिउद्रे क्रमिपाततो मृत्युः ८२

टीका—धनमे शनि सुखमे क्षीणचंद्रमा दशमें मंगल गयाहोतो अस्त्रम के उिद्रोमे कीड़े पडजानेसे मरणहोवे ८२

यंत्रपीडनान्मरण योग ।

यूनेभौमे चंद्रार्कजावङ्गे यंत्रपीडनान्मृत्युः ८३

टीका—सातमें मंगल और लग्न मे चंद्र शनि गये होतो किसी यंत्रमे दबजानेसे किंवा कटजानेसे मरण हावे ८३

विष्णमध्ये पतितस्य मरणयोग ।

भौमार्किचन्द्रैस्तुलाजयमर्क्षगैर्विष्णमध्येपतितस्यमृत्युः ८४

सतांबुव्योमगैः सूर्यारक्षीणेन्दु भिर्विष्णमध्येपतितस्यमृत्युः ८५

टीका—तुलराशि मे मंगल मेषराशिमेशनि, शनिकीराशि ( १०।११ ) म चंद्रमा गये होतो विष्टामे पड़ेहुवे का मरण होवे ( मरते समय विष्टामे पडारहे और मरण होवे ) ८४

सातमे रवि चतुर्थ मे मंगल और दशमे क्षीण चंद्रमा गयेहोतो विष्टा मे पड़े हुवे का मरण होवेगा ८५

प्रेत पक्षिभिर्भक्ष्यति योग ।

सूर्यारवस्ते मन्देष्टमे क्षीणेन्दौतुर्ये पक्षिभिर्भक्ष्यतेप्रेतः ८६

टीका—रवि मंगल सात मे, शनि भाठ में, और क्षीण चंद्रमा चतुर्थ

भावमे गये होतो उस के देहको पक्षि भक्षण करेगे अर्थात् उसके शवका  
अग्नि संस्कार नहीं होवेगा और जंगलमे पड़ेहुवे को पक्षीखावेगे ८६  
शैल शिखरा शनि कुड्यपाततो मरण योग ।

चन्द्रेनारयभैर्नवाघात्मजाष्टमगैःशैलशिखराशनिकुड्यपात-  
तो मृत्युः ८७

रन्ध्रलग्नाधिपा वज्रौ भौमपण्डेशयुतौ शैल शिखराश-  
निकुड्यपाततो मृत्युः ८८

टीका-नवमेक्षीण चंद्रमा, लग्न में रवि, पांच में मंगल, और भाठ  
में शनि गये हो तो पर्वतके शिखर गिरनेसे, बिजली वा बिजली के  
संबंधी अशानि उल्का आदिके पड़ने से किंवा भीतके गिरनेसेनीचे  
दबके मरण होवेगा ८७

अष्टमेश और लग्नेश ये दोनो निर्बली होकर मंगल और पण्डेश से  
युक्त हो तो पर्वतके शिखर गिरनेसे वा बिजलीके पड़नेसे किंवा  
दीवालके गिरनेसे दबके मरण होवेगा ८८

रणे तथा शत्रुकोपतः मृत्यु योग ।

रन्ध्रेशुभः पापारिविक्षितोरणे मृत्युः ८९

निद्रितः शयानो वा पापयुषोष्टमे शत्रुकोपतो मृत्यु ९०

टीका-अष्टमभावमे गयाहुवा शुभग्रह पापग्रह से किंवा अपने शत्रु  
ग्रहसे दृष्ट हो तो संग्राम मे मरण होवे ८९ सर्वार्थ मे लिखा है कि  
पण्डेश अष्टमेश किंवा मंगल पराक्रमेश से युक्त हो और शनि गुलिक  
से युतहोकर क्रूरांशक में स्थित हो तो युद्धसे मरण होवे ।

शनि जिसके द्रष्टकाण में गया है वहग्रह मंगल से युक्त वा दृष्ट हो  
और मंगलकी राशीमें वा नवांशमेंही गयाहो तो युद्धसे मरण होवे २

निद्रा तथा शयनावस्था मे गयाहुवा पापग्रह अष्टम भावमें गया हो  
तो शत्रुके कोपसे मृत्यु होवे ९०

वृषभेण मृत्यु योग ।

भौमार्कदृष्टं लग्नं शुक्रेज्यावदृष्टं चेद्वृषभेण मृत्युः ९१

टीका-मंगल और रवि से दृष्ट जन्म लग्न यदि गुरु शुक्रसे दृष्ट न हो तो वृषभ से मरण होवेगा ९१

वृक्षपाततो मृत्युयोग

मन्दाकीर्णने राहु दृष्टौ वृक्षपाततो मृत्युः ९२

टीका-लग्नमे गये हुवे शनि रवि राहुसे दृष्ट हो तो दृक्षके गिरनेसे मरण होवेगा ९२

व्याघ्रतो मरण योग ।

जीवर्क्षज्ञे मंदर्क्षे कुजे व्याघ्रतो मृत्युः ९३

टीका-गुरुकी राशी १।१२ में बुध और शनिका राशी १०।११ में मंगल गयाहो तो सिंहकी जातिके छोटें घाघ से मरण होवे ९३

शरेण मरण योग ।

धर्मपापाः शुभादृष्टाः शरेण मृत्युः ९४

टीका-नवम भाव मे गयेहुवे पापग्रह शुभग्रहसे भदृष्टहो तो शरसे ( बाणसे ) मरण होवेगा ९४

विषेण मरण योग ।

चंद्रज्ञौ पष्ठेष्टमे वा विषेण मृत्युः ९५

टीका-छठे किंवा भाठ मे भाव मे चंद्र बुध गये होंतो विष ( जहरस्त्राने वा छिलाने ) से मरण होवे ९५

गजतः मरण योग

पुष्पवंतौ पष्ठाष्टमे वा गजतो मृत्युः ९६

टीका-छठे भयवा भाठमे भाव मे रवि चंद्रकायोग होतो गजसे मरण होवेगा ९६

रंधगत मद्दोष नशान्मरणयोग ।

रंधेरवौवन्हे अंध्रेजलयोगा क्रौमेरात्रतो बुधेज्वरतो गुरौ

त्रिदोषतः शुके क्षुधया शनौ वृषया मृत्युः ९७

योषलवान्निधनं पश्यते च्छातुकोपतो मृत्युः ९८

उक्तयोगाभवेष्टम भावा विष्टितत्र्यंशेश स्योक्ताग्न्यम्बादि  
स्वगुण हेतुतोमृत्युः ९९

निधनग द्रेष्काणतोमृत्युः १००

टीका-भाठमें भावमे यदि रवि गयाहोतो अग्निमें जलनेसे, चंद्रगया  
होतो जलमे डूबने से, वा जलके संबधसे, मंगल गयाहोतो शस्त्रसे, बुध  
गयाहोतो ज्वर, की पीडासे, गुरु गयाहोतो सन्निपात दोषसे, शुक्रगयाहो  
तो क्षुधाके दुस्त्रः से, शनिगयाहोतो तृषार्त होनेसे मरण होवेगा ९७

यदि कोई भी ग्रह भाठ में भावमे नही गयाहोतो जो बलवान ग्रह  
अष्टम भावको देखताहो उसीकी उपरोक्त धातु के कोपसे मरण होवेगा  
अर्थात् यदि बलवान् रवि अष्टम भावको देखता हो तो अग्नि से,  
चंद्र देखताहो तो जल से, मंगल देखताहो तो शस्त्रसे, बुध देखता हो  
तो ज्वर से गुरुदेखताहोतो सन्निपातरोगसे, शुक्र देखता हो तो क्षुधासे,  
शनि देखता हो तो तृषासे मृत्यु होवेगा ९८

यदि अष्टम भावमें कोई भीग्रह गया नहो वा कोईग्रह अष्टम भावको  
देखता भिनहो तो अष्टम भावमे जिसराशीका द्रेष्काण हो उसके स्वामि  
के अग्नि जल शस्त्रादिदोषके अनुसार मरण हावेगा अर्थात् यदि  
अष्टम भावके द्रेष्काण का स्वामी रवि होतो अग्निसे, चंद्र होतो जलसे,  
मंगल होतो शस्त्रसे, बुधहोतो ज्वरसे गुरुहोतो त्रिदोषसे, शुक्रहोतो  
क्षुधासे शनि होतो तृषासे मरण होवेगा ९९

अथवा अष्टमभावमे जो द्रेष्काणहो उसके अनुसार मरण होवेगा १००

अष्टमभावमे गर्हहुई प्रत्येक राशिके ३ तीन द्रेष्काणो काफल भिन्न  
नीचे लिखाहै तदनुसार जानना ।

द्रेष्काण फल ।

मेपाद्यंशे प्लीहजो वा विषजो वा पित्तजो मध्ये जल-  
जो न्त्येकूपादिधाततो मृत्युः १०१

वृषादिषंशे खराशवादितो मध्ये पित्ताग्निचौरतो न्त्येउच्च  
स्थलाशवादितो मृत्युः १०२

गुग्माद्ये वातश्चासतो मध्येत्रिदोषा दन्त्येयानपर्वत पाततो  
वारण्ये मृत्युः १०३

कर्काद्येऽप्येयानात्कण्टकाद्दामध्ये विषातिसारतोन्त्ये महा-  
भ्रमलीह गुल्मादितो मृत्युः १०४

सिंहाद्ये विषांबुगेगेण मध्ये श्वसनाम्बुरोगेणान्त्येयानपी-  
डाविषशस्त्रेण मृत्युः १०५

कन्याद्ये वातमस्तकरोगेण मध्येदुर्गाद्रिपातानृपकोपतोन्त्ये  
खरोष्ट्र शस्त्राम्बुपाततो मृत्युः १०६

तुलाद्ये पतनात्स्त्रीतः पशुतो मध्येजठररोगेणान्त्येव्याल  
जठान्मृत्युः १०७

अल्याद्ये विषशस्त्रतो मध्ये भारश्रमाद्वा कट्विस्ति रोगतोन्त्ये  
लोष्टकाष्ट पापणतो मृत्युः १०८

चापाद्ये वातगुदामया न्मध्ये विषवाणाभ्यामन्त्ये जलजल  
चार्युदरामयान्मृत्युः १०९

मृगाद्ये सिंहवराह वृश्चिकतो मध्ये भुजंगतोन्त्ये चौगग्नि  
शस्त्रज्वरतः मृत्युः ११०

कुम्भाद्ये ह्यङ्गजोदर व्याधितो मध्येगुह्यरोगादन्त्येविषा-  
न्मृत्युः १११

मीनाद्येग्रहिणी प्रभेहगुल्मजो मध्येजलोदरगजग्राहतो  
नैप्रभेदा दन्त्ये कुरोगा न्मृत्युः ११२

टीका-मेघराशीके प्रथम द्रेष्काणमे अष्टमभावदो तो प्रीहसे ( क्रिये  
के रोगसे ) या विषसे अथवा पित्तके रोगसे मध्यद्रेष्काणदो तो जलमे



दृवनेसे वा जलके संघर्षसे अंत्यद्रेष्काणमें हो तो कुभा बावही तालाब नदी वगैरामें गिरजानेसे मृत्यु होवेगा १०१

अष्टमभाव वृषभ राशीके प्रथम द्रेष्काणमें हो तो गधा घोड़ा भादि चतुष्पद पशुसे पड़नेसे वा इनके मारनेसे मध्यद्रेष्काणमें हो तो पित्तके कोपसे अग्निमें जलनेसे चौरकी चपेटसे तीसरे द्रेष्काणमें हो तो ऊंची जगहसे ( पाहाड़ ऊंचे मकान भादि परसे गिरपड़ने से ) वा कुत्ते चिल्ली बन्दर सियाल बरगड़े भादि के काटनेसे मरण होवेगा १०२

अष्टम भाव मिथुनराशि के प्रथम द्रेष्काणमें हो तो ८४ प्रकारके वात संबंधी वायुरोगसे वा इबाससे [ दमेके रोगसे ] मध्यद्रेष्काणमें हो तो त्रिदोषके कोपसे [ सन्नेहानसे ] तीसरे द्रेष्काणमें हो तो गाढ़े घोड़ा हाथी मोटर साइकल रेल भादि वाहनपरसे गिरजानेसे वा इनकी लगनेसे वा पर्वतपरसे गिरपड़नेसे अथवा पर्वतका कोई भाग अपने ऊपर गिरपड़ने से वा जंगलमें मरण होवेगा १०३

अष्टम भाव कर्क राशी के प्रथम द्रेष्काण में हो तो नही पीने योग्य पीनेकी वस्तुको पानकरने से अथवा कांटे से विधजाने से मध्यद्रेष्काण में हो तो विषसे वा अतिसाररोगसे अंत्यद्रेष्काण में हो तो चक्र भानके महारोगसे प्लीहरोगसे वा गोलके रोगसे वा विशुचिका ( हैजा ) भादि रोगसे मरण होवेगा १०४

अष्टमभाव सिंहराशी के प्रथम द्रेष्काणमें हो तो विषसे वा जहरीलि हवाके महामारी ( प्लेग ) हैजा भादि रोगसे तथा जलोदर अथवा जल संबंधी विकारके रोगसे मध्यद्रेष्काण हो तो इबासरोगसे वा जलसंबंधी रोगसे तीसरा द्रेष्काण हो तो वाहनकी पीड़ासे वा विषसे वा शस्त्राघात से मरण होवेगा १०५

अष्टमभाव कन्याराशि के प्रथम द्रेष्काण में हो तो ८४ प्रकारकी वायु के रोग से वा मस्तक के रोग से अर्थात् मस्तकमें दर्द पीडा हाने से वा मस्तिष्कमें उन्मादादि कोई दुष्ट रोग उत्पन्न होने से मध्यद्रेष्काण हो तो बिलेपरसे वा पर्वतपरसे गिरपड़ने से वा राजाके कोपसे, तीसरा द्रेष्काण हो तो गधे परसे वा ऊंट परसे पड़ने से शस्त्राघातसे वा जलमें पड़ने से मरण होवेगा १०६

अष्टम भावमें तुल्यराशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो गिरपड़ने से स्त्री के सबब से ( स्त्री स्वयं मारदाटे वा स्त्री मरधाटाले ) अथवा गाय

भैस भादि पशु के मारबैठने से दूसरा द्रेष्काण हो तो जलोदर कठोर  
मंदाग्नि अजीर्ण विशूचिका आदिपेटके ८ प्रकारके रोग होतेहे उनमेसे  
किसी भी पेटके रोगसे, तीसरा द्रेष्काण हो तो सांपके काटने से वा  
जलमे गिरनेसे मरण होवेगा १०७

अष्टम भाव मे वृश्चिकराशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो विष ( जहर )  
से शस्त्र से दूसरा द्रेष्काण हो तो बीजा उठानेसे अथवा मिहनतके  
कामसे वा कमर पट्टू आदि स्थानोंके रोगसे तीसरा द्रेष्काण हो तो  
मिट्टीके टेलकी वा काष्ठकी वा पाषाणकी चोट लगनेसे मरण होवेगा १०८

अष्टम भाव धनराशिके प्रथम द्रेष्काण में हो तो वादीके अर्शादि  
गुदाके रोगसे, मध्य द्रेष्काण हो तो विषसे वा बाणके ( तीरके )  
लगनेसे तीसरा द्रेष्काण हो तो जलसे वा जलचारी मगरमच्छ  
कछुभे आदिजीवों से वा पेटकी पीडा भाठ प्रकारकी होती है उनमे  
से कोईभी पेटके रोगसे मरण होवेगा १०९

अष्टमभाव मकरराशिके प्रथम द्रेष्काण में हो तो सिंहसे वा सुभर  
से वा विच्छोक काटने से मध्य द्रेष्काणमें हो तो सापके काटने से  
तीसरे द्रेष्काणमें हो तो चौर अग्नि शस्त्र किवा ज्वरके रोगसे मरण  
होवेगा ११०

अष्टम भाव कुंभराशी के प्रथम द्रेष्काण मे होतो स्त्री के वा पुत्र के सं  
वधसे किवा पेट के रोगसे मध्यद्रेष्काण में होतो गुप्त स्थान ( जन  
नेद्रिय ) में गरमी सुजाक प्रनेह आदि गुप्त रोगोसे तीसरा द्रेष्काण  
होता विष ( जहर ) से मरण होवेगा १११

अष्टम भाव मीन राशी के प्रथम द्रेष्काण मे होतो संग्रहणी रोगसे  
वा प्रमेह गुल्म रोगसे मध्यद्रेष्काणमे होतो जलादर रोगसे वा मनसे  
वा मगरसे वा नाव स्टीमर नहाज आदिमें से जलमे गिरजानेसे  
तीसरे द्रेष्काण में हो तो प्लेग हैजा वगेरा जितने अनेक प्रकारके  
दृष्ट रोग है उनमें से किसीभी दुष्टरोगसे मरण होवेगा ११२

पत्निसहगामिनी योग ।

धर्मपाराकाँ धर्मगा लग्नास्तेशौमित्रे पत्नी सहगामिनी ११३

टीका—नवमेश, मंगल और रावि ये तीनों नवमें भाव में गये हो और  
लग्नेश सप्तमेश मित्र होवे तो स्त्री सती होवेगा ११३

शुभलोकाप्ति योग ।

अंशाद्रालगनादन्धेशुभे शुभलोकाप्तिः ११४

टीका-कारकांश लग्नसे अथवा जन्म लग्नसे भाठ में भावमें शुभग्रह गया हो तो मरणानंतर शुभलोककी प्राप्ति होवेगा ११४

ब्रह्म सायुज्ययोग ।

सिंहासनेचन्द्रेपारिजातेगुरौऐरावतेशुक्रेब्रह्मसायुज्यं ११५

अन्त्येशात्केतौ ब्रह्मसायुज्यं ११६

अंशादन्त्ये मेषचापगशुभे ब्रह्मसायुज्यं ११७

एकस्थानगानां चतुर्णामधिष्ठितराशीशेकेन्द्रकोणे ब्रह्मसायुज्यं ११८

माने मीनेसौम्ये वा भौमे ब्रह्मसायुज्यं ११९

रन्ध्रेशेयाने निद्रिते वा शुभयुतदृष्टे ब्रह्मसायुज्यं १२०

लग्नेशोङ्गधर्मशोधर्मरन्ध्रेशोरन्ध्रंपश्यतिचेद्ब्रह्मसायुज्यं १२१

नवमे केवलशुभद्वये ब्रह्मसायुज्यं १२२

टीका-सिंहासनांश में चंद्रमा, पारिजातांश में गुरु और ऐरावतांश में शुक्र गया हो तो ब्रह्मसायुज्य ( मुक्ति ) प्राप्ति होवेगा ११५

कारकांश लग्न से वारवे भावमें केतु गया हो तो ब्रह्मसायुज्यप्राप्ति होवेगा ११६

कारकांश लग्न से वारवे भावमें मेष किंवा धनराशि में शुभग्रह गया हो तो ब्रह्मसायुज्य प्राप्ति होवेगा ११७

भेकस्थानमें गये हुवे चारग्रह जिस राशिमें गये हो उस राशीका स्वामि केंद्र किंवा त्रिकोणस्थान में गया हो तों ब्रह्मसायुज्यप्राप्ति होवेगा ११८

मीन राशीका बुध दश मे किंवा मीनराशीका मंगल दशमें गया हो तो ब्रह्मसायुज्य प्राप्ति होवेगा ११९

निद्रादस्था में गया हुवा अष्टमश सुप्तभाव में गया हो अथवा नि-

द्रावस्था में गया हुआ भृमेश शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो तो ब्रह्मसा-  
युज्यप्राप्त होवेगा १२०

लग्नेश लग्नको धर्मेश धर्मको भृमेश भृमको देखताहो तो ब्रह्म  
सायुज्यप्राप्ति होवेगा १२१

नक्षत्र भावमें केवल दो शुभग्रह गये हो तो ब्रह्मसायुज्य ( मुक्ति )  
प्राप्त होवेगा १२२

विष, पापाण, अग्नि जलघात योगा ।

धृष्टमे वा चंद्रज्ञौ विषघातः १२३

ज्ञार्कावष्टमे विषाग्निघातः १२४

लाभेभौमाकौ विषाग्निशस्त्रघातः १२५

स्वर्के सुखेकुजे पापाणघातः १२६

भौमाकौ सुखे पापाणघातः १२७

सुखेश युत दृष्टे स्वेशे पापाणघातः १२८

सुखपेतमार्कि युते कुजेक्षिते पापाणघातः १२९

राहौ मदे वा लाभे काष्ठपापाणघातः १३०

कुजेष्टमेग्निघातः १३१

क्षीणेन्दावष्टमे जलघातः १३२

तुर्येशे जलर्क्षे नीचारि मूढहीन बले तुर्यारिगे जलघातः १३३

लग्नेशे बले सुखे पापे जलघातः १३४

सुखेशेऽबले सुखेपापे जलघातः १३५

सुखपे सपापे केन्द्रे जलघातः १३६

लग्नसुखेशो सुखे कर्मेशदृष्टौ जलघातः १३७

सुखेशस्येश्वरेण सुखपे युत दृष्टे जलघातः १३८

टीका-छठे किंवा भाठ में भाव में चंद्र बुध गये हो तो विषकी घात  
अर्थात् जहर से मरणांत कष्ट होवेगा १२३

अष्टम भाव में बुध सूर्य गये हो तो जहर किंवा अग्निकी घात हो-  
वेगा ( जहरसे वा अग्निसे मरते मरते बचेगा ) १२४

रवि मंगल लाभ भावमें गये हो तो विष, अग्नि, वा शस्त्रकी घात  
होवेगा १२५

दशमे रवि और सुखमें मंगल गया हो तो पाषाण (पत्थर) से घात होवे  
( मरते मरते बचेगा ) १२६

रवि और मंगल दोनों सुखभावमें गये हो तो पाषाणकी घात होवे ११७

सुखेश से युक्त किंवा दृष्ट दशमेशहो तो पाषाणकी घात होवे १२८

सुखेश, शनि व राहुसे युत होवे और मंगलसे दृष्ट हो तो पाषाणकी  
घात होवेगा १२९

सातमें किंवा ग्यारहमें भावमें राहु गया हो तो काष्ठ तथा पाषाणकी  
घात होवेगा १३०

मंगल भाठमें भावमें गया हो तो अग्नि की घात अर्थात् अग्निसे जल  
जानेका भय होवेगा १३१

क्षीण चंद्रमा अष्टम भावमें गया हो तो जलघात होवे ( जलसे मरता  
मरता बचे ) १३२

चतुर्थेश जलराशीमें अपनी नीच शत्रु किंवा अस्तराशी का दिन बली  
होकर चतुर्थे में अथवा छठे भावमें गया हो तो जलकी घात होवे १३३

लग्नेश निर्बली हो और सुखमें पापग्रह गया हो तो जलकी घात होवे १३४

सुखेश निर्बली हो और सुखमें पापग्रह गया हो तो जलघात होवे १३५

सुखेश पापग्रह से युत होकर केन्द्रस्थान में जावे तो जलघात होवे १३६

लग्नेश और सुखेश ये दोनों सुखभावमें गये हो और दशमेश इनको  
देखता हो तो जलघात होवे १३७

सुखेश जिसराशी में गया हो उसके स्वामी से सुखेश युत किंवा दृष्ट  
हो तो जलघात होवे १३८

नोट—घात उसको कहते हैं जिसको व्यवहार में लोग " घातल" अर्थात् मरते,  
मरते बचा वा प्राणांत कष्ट हुआ कहते हैं ।

शुंगि, नखि, दंष्ट्री, घात वा वाहनात् तथा उच्चप्रदेश तोपतनघात योगाः ।

राव्हारावष्टमे शुंगि नखि दंष्ट्री घातः १३९

चापांशे वाहना दुच्चप्रदेशतो वा पतनम् १४०

टीका-राहु और मंगल भाठमे भावमे गयेहोतो गायभंस मेंढा हरिण  
भादि सांगवाले पशुभौसे वा सिंह वाघ कुत्ता बिल्ली बन्दर रीछ भादि  
नस्रवाले जानवरोसे वा साप विच्छु भ्रमर सूवर भादि काटने वाले  
जानवरोसे घातहोवे १३९

कारकाश लग्न धनराशी का होतो वाहनपर से गिरपड़नेसे भयवा  
हंवेमकानादिस्थान पर से गिरने की घात होवे १४०

वाहन भययोग ।

चंद्रारौकेन्द्रे वाष्टमे वाहन भयम् १४१

सुखे क्षीणेन्दौ वाहन भयम् १४२

टीका-चंद्र मंगल केन्द्रस्थानम वा भाठ मे भाव में गये होतो वाहन  
से भयहोवेगा १४१

सुखस्थान मे क्षीणचंद्रमा गयाहोतो वाहन से भयहोवेगा १४२

भुज, कर, पाद, मस्तक, कर्ण, च्छेद योगाः ।

सपापे भौमार्कक्षे मन्दे भुजच्छेदः १४३

शत्रुभे मन्दे शुक्रयुत दृष्टे करच्छेदः १४४

चंद्रार्कतमोभौमा अष्टमे करपादच्छेदः १४५

मन्दर्क्षे राहौ सिंहेचंद्रष्टमे मस्तकच्छेदः १४६

भौमार्को रंध्रे मस्तकच्छेदः १४७

मन्दारधनेशालग्ने कर्णच्छेदः १४८

पृथार्थशौलग्ने मन्दारौपष्टे कर्णच्छेदः १४९

टीका-मंगलकी ( १८ ) किंवा सूर्यकी राशी ( ५ ) मे शनि पाप  
ग्रह सहित गया हो तो भुजच्छेद होवेगा १४३

अपने शत्रुकी राशी मे गया हुआ शनि शुक्र से युत किंवा दृष्ट हो तो हाथ कटजावेगा १४४

चंद्र सूर्य राहु और मंगल ये चारो ग्रह भाठ में भाव में गये हों तो हाथ तथा पांव कट जावेगा १४५

शनिकी राशी ( १०।११ ) मे राहु गया हो और सिंहराशीका चंद्र मा भाठमें भाव मे हो तो मस्तक कटेगा १४६

मंगल और सूर्यका योग भाठमे भावमे हो तो मस्तक कटेगा १४७  
केवल भेकहरे योग से फलमिलना असंभव है अतएव यदि ये मंगल रवि पापयुत दृष्ट हो तो ये योग मिलेगा ।

शनि मंगल और धनेशये तीनोंलग्नमे गयेहोतो कानकटजावेगा १४८  
षष्ठेश और धनेश लग्न में गये हो और शनि मंगलछठे भाव में हो तो कान कटजावेगा १४९

ब्रह्म हत्यादि योग ।

पापक्षे चंद्रे भौमार्कदृष्टे ब्रह्महत्या १५०

यर्माकारयोगे ब्रह्महत्या १५१

जीवाकारयोगे ब्रह्महत्या १५२

पापक्षे चंद्रे मन्दाकार दृष्टे गोहत्या १५३

लग्नपारावेकांशगौ क्रूरहत्या १५४

पापयुते गुरौ नीचे वा रषौ वाळहत्या १५५

पापे केन्द्रे रन्ध्रेभृगौ पापदृष्टे गो मृगहत्या १५६

चन्द्रज्ञौखे पापदृष्टौ वा नीचांशगौ शुभदृग्धीनौ नित्यं पाक्षिहत्या १५७

इत्यष्टम विवेकः ।

टीका-पापग्रहकी राशी मे गया हुआ चंद्रमा मंगल और सूर्य से दृष्ट हो तो ब्रह्महत्या करने वाला होवे १५०

शनि रवि और मंगल इन तीनोंका योग एकराशी में हो तो ब्रह्महत्या करने वाला होवे १५१

गुरु रवि और मंगल इन तीनोंका योग एक राशी में हो तो ब्रह्म-  
त्या करने वाला हाता है १५२

पापराशि में गया हुआ चंद्रमा शनि रवि और मंगल इन तीनों ग्रहों  
से दृष्ट हो तो गो इत्या करने वाला होता है १५३

लग्नेश और मंगल ये दोनों भेकराशी में भेकही भंश में गये हो  
अथवा लग्नेशका और मंगलकी पूर्ण युति जिसदिन हो उस दिनका  
जन्म होतो दुष्ट इत्या करने वाला हाता है १५४

पापग्रहसे युत गुरु नीच राशी में गयाहो किवा पापग्रहसे युत रवि  
नीच राशी में गया हो तो बाल इत्या करने वाला होता है १५५

केंद्रस्थानमें पापग्रह और भाठ म भाव में गयाहुवा शुक्र पापग्रहसे  
दृष्ट हो तो गो तथा मृगकी इत्या करने वाला होता है १५६

दशम भाव में गये हुए चंद्र बुध पापग्रहसे दृष्ट हो अथवा नीच-  
राशा क नवाशम गय हो और शुभग्रहों से दृष्ट नहो तो नित्य पक्षियों  
की इत्या करने वाला होता है १५७

इन के सिवाय भाईकी स्त्राकेमामाकीस्त्रीका, भाईकेकाकीसुसरेका,  
भाईक रोग वा शत्रुका, मामिकेभाईका, मित्रकेपुत्रका, पुत्रके सुसरका,  
पुत्रक मित्रका, शत्रुकेभाईका, स्त्रीकेधन वा मृत्युका, गुप्तेद्रीका, दादाके  
धनका, दादिकीमृत्युका, विचारभी इसीअष्टमभावमें करना ।

इति अष्टम विवेकस्य टीका समाप्ताः ।

—०—  
अथ नवम विवेकः ।

पुण्यवान् योग ।

सुखे ज्ञाच्छौ पुण्यवान् १

सौम्यान्तरे सुखे पुण्यवान् २

गोपुराद्यंशे सिते पुण्यवान् ३

मृदंशे जीवे पुण्यवान् ४

\* नोट—एकर शीमे शेषद्वे ग्रहोंके अंशोंका अंतर ५ शेष अंशसे न्यूनहोतो योग  
समसा जाता है ।



भोजनेके पुण्ये पुण्यवान् ५

धर्मेनये निद्रिते राहौ पुण्यक्षेत्रवासी पुण्यवांश्च ६

धर्मे शुभदृष्ट्याधिक्ये पुण्यवान् ७

टीका-बुध शुक्र सुख भाव में गये होंतो पुण्यवान् होवे १

सुख भाव शुभग्रहों के बीचमें होतो पुण्यवान् होवे २

शुक्रगोपुरादि शुभ भंशोमें गया होतो पुण्यवान् होवे ३

गुरु मृदु संज्ञक शुभपष्ठचंशमें गयाहोतो पुण्यवान् होवे ४

भोजनावस्था में गया हुआ रवि नवमें भाव में गया होतो पुण्यवान् होवे ५

निद्रावस्था में गया हुआ राहु नवमें अथवा सातमें भाव में गयाहो तो उत्तम तीर्थोंने रहनेवाला किंवा पुण्यवान् होवे ६

नवमें भावपर शुभग्रहोकि अधिक दृष्टी होतो पुण्यवान् होवे ७

पातकी योग ।

चंद्रारावद्धे शनौयूनेपातकी ८

लग्नेशे सभौमे सपापेन्दौ पष्ठे पातकी ९

एकांशगौ पुष्पवन्तौ सपापौ महापातकी १०

अष्टमेशेङ्गे पातकी ११

मौमार्का षेकत्र पातकी १२

पापान्तरे पापदृष्ट युते तुर्येवा तदीशे पातकी १३

सुखगैः पापैः सुखेशे बले गुलिक युते पातकी १४

धर्मे पापे पातकी १५

धर्मपे पापयुते वा क्रूरपष्ठचंशे वा पापांतरे पातकी १६

मन्दतमसी धर्मे गुलिक दृष्टेऽत्रिपापी १७

सराहुचंद्रे सपापगुरुदृष्टेति पातकी १८

चूने चंद्राको मन्ददृष्टौ पातकी १९

कृशेद्वार योगेपातकी २०

सपापौ गुलिक धनेशौ पातकी २१

जीवेङ्गे मदेमन्दे पातकी २२

पष्ठेचंद्रे सपापे भौमे पातकी २३

व्यये मंदे गुप्तदोषी व्यमनीच २४

टीका-लग्नमें चंद्र मंगल और सातमे भावमे शनि गयाहोतो पातकी ( हत्या वा पाप करने वाला ) होताहै ८

लग्नेश मंगलसे युतहो और पापग्रह से युतहो कर चंद्रमा छठे भावमे गया होतो पातकी होताहै ९

सूर्य चंद्रमा एक राशी मे एकही भंशमें ( समान भंशमे ) गये हो और पाप ग्रह से युक्त होतो महा पापी होताहै १०

भृगुशेष नवमे भावमे गायहो तो पापी होताहै ११

मंगल और सूर्य दोनो एक राशी मे युक्त होतो पापी होताहै १२

चतुर्थ भाव किंवा चतुर्थेश पारिग्रही के बीचमें होवे और पापग्रह से युतदृष्ट होतो पातकी होताहै १३

सुखस्थानमे पापग्रह गयेहो और सुखेश निर्बली होकर गुलिकसे युत होतो पातकी होताहै १४

नवमे भावमे पापग्रह गये होतो पातकी होताहै १५

नवमेश पापग्रहसे युतहो १ भयवा क्रूरपृष्ठचंशमेगयाहो २ भयवा नवमेश पापग्रहोंक बीचमे गयाहो ३ तो पातकी होताहै ( इससूत्रमे ३ योग बहेहै ) १६

गुलिक से देखेहुवे शनिराहु नवमे भावमेगयेहो तो महापापीहोताहै १७

राहुसयुत चंद्रमा पापग्रहसे और गुरुसेदृष्ट होतो महापापीहोताहै १८

सप्तभाव में गये हुवे चंद्रसूर्यको शनि देखता हो तो पापी होता है १९

क्षीणचंद्र और मंगल इन दोनोका योग किसीभी स्थानमे हो तो पातकी होता है २०

गुलिक और धनेश ये दोनों एक राशी में पापग्रह से युक्त हो तो पातकी होता है २१

लग्नमें गुरु और सातमें भाष में शनि गया हो तो पातकी होता है २२  
दृढभाव में चन्द्रमा गया हो और पापग्रहसे युक्त मंगल हो तो पा-  
तकी होता है २३

चारवें भाव में शनि गया हो तो गुप्तपाप करनेवाला और कामजनित  
तथा क्रोधजनित दोष वाला होता है २४

शंकर भक्तियोग ।

केत्वर्कांशे शिवभक्तः २५

अंशेकेत्वीज्यौ शिवभक्तः २६

सुते सूर्य युतदृष्टे सूर्य शंकरभक्तः २७

टीका-कारकांश लग्न में केतु और सूर्य गये हो तो शिवकी भक्ति  
करने वाला होवे २५

कारकांश लग्नमें केतु और गुरुगये हो तो शिवकी भक्ति करने  
वाला होवे २६

पंचम भाव सूर्य से युक्त या दृष्ट हो तो सूर्य तथा शंकरकी भक्ति  
करने वाला होवे २७

गौरी तथा लक्ष्मी भादि देवीभक्ति योग ।

अंशेकेतु चन्द्रौ गौरीभक्तः २८

अंशे शिखिशुक्रौ लक्ष्मी भक्तः २९

सुते गुरु सम्बन्धे शारदाभक्तः ३०

सुते शुक्र संबंधे चामुंडाभक्तः

पंचमे भृगुचंद्रसंबन्धे स्त्री देवभक्तः ३२

टीका-कारकांश लग्न में केतु और चंद्रमा गये हो तो गौरी (पार्व-  
ति) वा पार्वतीके देहसे उत्पन्न हुई महाकालि महासरस्वति भादि  
शक्तियोंकी भक्तिकरने वाला देवीभक्त होवे २८

कारकांश लग्न में केतु और शुक्र गये हो तो महालक्ष्मी तथा महा

लक्ष्मी संबंधी दशमहाविद्याभोकी भक्ति करने वाला होवे २९

पंचमभाव गुरुसे युत दृष्ट हो तो शारदा ( सरस्वती ) की भक्ति करने वाला होवे ३०

पंचमभाव शुक्रसे युत दृष्ट हो तो चामुंडा देवीकी भक्ति करने वाला होवे ३१

पंचमभाव में शुक्र चंद्रका संबंध ( शुक्र तथा चंद्रसे युत दृष्ट पंच भाव ) हो तो स्त्री देवता ( शक्तियों ) की भक्ति करने वाला होवे ३२  
विष्णु तथा सात्विकदेव तथा स्कंद भैरवादि पुरुषदेव भक्ति योग ।

अंशेज्ञार्कजौ विष्णु भक्तः ३३

तुर्येशे सुते विष्णु भक्तः ३४

व्ययेशे धनाष्टमे सुतेश संबंधे सात्विक देवभक्तः ३५

अंशे कैतवारौ स्कंद भक्तः ३६

पुत्रे भौम संबंधे स्कंद भैरवभक्तः ३७

सुतेज्ञ संबंधे सर्वदेवभक्तः ३८

पुत्रे पुंग्रह सम्बन्धे पुन्देव भक्तः ३९

टीका—कारकाश लग्नमे बुध शनि गये हो तो विष्णु की भक्ति करने वाला होवे ३३

चतुर्थेश पंचम भाव मे गया हो ता विष्णु तथा विष्णु के दशायतारके देवताकी भक्ति करने वाला होवे ३४

व्ययेश धन तथा भष्टमभाव मे गया हो और पंचमेश से सम्बंध करता हो तो सात्विक देवताकी भक्ति करने वाला होवे ३५

कारकाश लग्नमे केतु और मंगल गये हो तो कार्तिक स्वामिका भक्त होवे ३६

पंचमभाव मे मंगलका संबंध हो ( मंगल युत दृष्ट हो ) तो कार्तिक स्वामिका तथा भैरवका भक्त होवे ३७

पंचमभावमें बुधका संबंध ( बुधसे पंचमभावयतदृष्ट ) हो तो सर्व देवताओं की भक्ति करने वाला होवे ३८

पंचम भावमे पुरुष ग्रह वा संबंधहो तो परुष देवताओं कि भक्ति करने वाला होवे ३९

गुरु भक्ति योग.

जीवेशश्यांशेशे गुरुशुक्रदृष्टे गुरुभक्तः ४०

नन्देशुभे गुरुयुतदृष्टे गुरु भक्तः ४१

धर्मपे मृदंशादौ गुरुभक्तः ४२

टीका-जिसराशिमे गुरु गयाहो उसक स्वामिके नवांशका स्वामि गुरुभौर शुक्र से दृष्ट होतो गुरुकी भक्ती करनेवाला होवे ४०

नवमे शुभग्रह गयाहो भौर यह गुरुसे युतवा दृष्टहोतो गुरुको भक्ती करनेवाला होवे ४१

नवमेश मृदु संज्ञक शुभपष्ठयंशमे गयाहोतो गुरु कि भक्ति करनेवाला होव ४२

यक्षिणी तथा प्रेताशन्यादि भक्ति योग.

नन्दने चंद्र संबंधे यक्षिणी भक्तः ४३

सुते मन्द सम्बंधे प्रेताशन्यादिभक्तः ४४

टीका-पंचम भावमे चंद्रका संबंधहो ( चंद्रसे युतदृष्ट पंचम भावहो ) तो यक्षिणी की भक्ति करनेवाला होताहै ४३

पंचम भावमे शनिका संबंधहोतो प्रेत शाकिनी भादि क्षुद्रदेवियो किभक्ति करने वालाहोवे ४४

परपीडक देवभक्तियोग ।

तमःसंबंधेपुत्रे परपीडक देवताभक्तः ४५

टीका-पंचमभाव मे राहुका संबंध ( राहुसे युतदृष्ट पंचम भाव ) होते दूसरेको पीडा देनेवाले देवताओ कि भक्ति करने वाला होताहै ४५

धर्माध्यक्ष योग ।

गुरौ वा भृगौ स्वोच्चशुभवर्गे धर्मशे तत्रले धर्माध्यक्षः ४६

ईज्याच्छौ ज्ञांशे धर्माध्यक्षः ४७

धर्मपेशुभयुतदृष्टे धर्माध्यक्षः ४८

टीका—गुरु भयवा शुक्र भयनि उच्चराशी मे और शुभग्रहोके वर्गमे गया हो और नवमेश बलवान् हो तो धर्माध्यक्ष ( धर्माचार्य वा अधिक धर्म करनेकराने वाला ) होता है ४६

गुरु शुक्र ये दोनो बुधके नवांशमें गये हो तो धर्माचार्य वा अधिक धर्म करने कराने वाला होता है ४७

नवमेश शुभग्रहसे युत और दृष्ट हो तो धर्माचार्य वा धर्म करने कराने वाला होता है ४८

कूप तडाग तथा जीर्णोद्धार तथा मुस्थानादि कर्ता योग ।

स्वेशे गोपुरे कूपादिकर्ता ४९

भाग्ये मृदुशे शुभदृष्टे कूपादिकर्ता ५०

कुंभाशे तडागादिकर्ता ५१

स्व सुवेशे जीर्णोद्धारदि कर्ता ५२

सजीवेशे गोपुरे वा सर्भामे सुस्थानकर्ता ५३

टीका—दशमेश गोपुराश मे गया होतो कुवा, बाबडी भादि जलाशय करने वाला होवे ४९

नवमेश मृदु संज्ञक शुभ षष्ठ्यंश मे गयाहो और शुभ ग्रहसे दृष्ट होतो कुवा बाबडी भादि जलाशय करने वाला होवे ५०

कारकाश लग्नमे कुंभराशी होतो तलाव बाबडी कुवा भादि करने वाला होता है ५१

सुवेश दशमे भावमे गया होतो देवालय तथा जलाशयो का जीर्णोद्धार करने वाला होता है ५२

गुरुसे युक्त बुध गोपुराश मे गयाही भयवा मंगलसे युक्त बुध गोपुराश मे होतो उत्तम (सर्वजनिक लाभायं) स्थान करनेवाला होता है ५३

यज्ञ कर्ता योग ।

ज्ञेय्यकर्मपाः सचला यज्ञकर्ता ५४

स्वज्ञे स्वपेक्षे शुभांशे शुभ दृष्टे यज्ञकर्ता ५५

धर्म ज्ञे स्वोच्चे पापहर्घ्याने यज्ञकर्ता ५६

ज्ञेयस्वेषाः सबलाः शुभदृष्टा विशेषेण यज्ञकर्ता ५७

टीका—बुध गुरु और दशमेश ये तीनों ग्रह बलवान् होतो यज्ञ करने वाला होवे ५४

दशमे भावमें बुध गयाहो और शुभग्रह के नवांश मे गयाहुवा शुभग्रह से दृष्ट दशमेश नवमे भावमें स्थित होतो यज्ञकरने वाला होवे ५५

अपनी उच्च राशी मे ( कन्या राशी के १५ अंशमे ) गयाहुवा बुध नवमे भावमे गयाहो और पाप ग्रह से दृष्ट नहो तो यज्ञ करने वाला होवे ५६

बुध गुरु और दशमेश ये तीनों ग्रह बलवान् होकर शुभग्रहसे दृष्ट हो तो अथवा यज्ञादि शुभधर्म कार्य करने वाला होवे ५७

यज्ञे विघ्नयोग-

स्वप्ने स्वोच्चे सपापे नीचांशगे दुस्थे यज्ञारंभोत्तर विघ्नः ५८

टीका—अपनी उच्चराशी मे गयाहुवा दशमेश पापग्रहसे युत होकर नीचराशीके नवांशमें और ६।८।१२ भावमे गयाहो तो यज्ञका आरंभ होनेके पश्चात् यज्ञमें विघ्न उपस्थित होवेगा ५८

अथश योग ।

चन्द्राद्वा शुक्राद्भने मन्देऽयशः ५९

चन्द्राच्छौ लग्ने मन्ददृष्टेऽयशः ६०

टीका—चंद्रसे अथवा शुक्रसे धनभाव मे शानि गयाहो तो यशहीन (अथयश वाला ) होता है ५९

चंद्र और शुक्र लग्नमे गये हो और उनको शानि देखता हो तो यश हीन (अथयशवाला ) होता है ६०

भाग्यहीन योग ।

तुर्यशेषमे भाग्यहीनः ६१

लग्नार्थदारपादुस्थाविवाहात्परतोऽभाग्यम् ६२

धर्मपेपष्ठे शत्रुनीचदृष्टेऽभाग्यम् ६३

भाग्येशे क्रूरांशे नीचभांशेऽभाग्यम् ६४

भाग्यपेऽवले धर्मे पापा अभाग्यं ६५

लग्नपेऽवलेऽभाग्यम् ६६

केन्द्रेशनौ जीवचन्द्रान्यतरादृष्टेऽभाग्यं ६७

टीका-सुक्लेश भाठमें भावमे गया हो तो भाग्यहीन होवे ६१

लग्न धन और सप्तमभावका स्वामि ये तीनों ग्रह छठे भाठ में  
किंवा वारमे भावमे गये हो तो विवाद होनेके पश्चात् भाग्यहीन होवे ६२

नवमेश छठे भाव मे गया हो और अपने शत्रुग्रहसे किंवा नचिराशमिमें  
गये हुये ग्रह से दृष्ट हो तो भाग्यहीन होवे ६३

नवमेश कूरग्रहके नवांशमें वा नचिराशमिंशमे गया हो तो भाग्यहीन  
होवे ६४

नवमेश बलराहितहो और धर्मभावमे पापग्रहगयेहोतो भाग्यहीनहोवे ६५

लग्नेश निर्बली हो तो भाग्यहीन होवे ६६

केन्द्र में गयाहुवाशनि, गुरु किंवा चंद्रमा से दृष्टनहोती भाग्यहीनहोवे ६७

भाग्यवान् योगः।

धनेशे लाभे कर्मपयुतदृष्टे भाग्यवान् ६८

लाभेशेऽङ्के कर्मपयुतदृष्टे भाग्यवान् ६९

धर्मपेथे कर्मपयुतदृष्टे भाग्यवान् ७०

लाभपेऽङ्के धनपेलाभे धर्मेशेथे सपयुतदृष्टे महाभाग्यवान् ७१

भाग्येऽङ्क्याच्छयुतदृष्टे भाग्यवान् ७२

धर्मपेशुकेज्ययुतदृष्टे भाग्यवान् ७३

लग्नार्थेशौ पुत्रे भाग्यवान् ७४

लग्नेशेऽङ्केऽङ्केशेऽङ्के भाग्यवान् ७५

भाग्येशे लाभे भाग्यवान् ७६

भाग्यापयोगे भाग्यवान् ७७



भाग्येशेर्धे भाग्यवान् ७८

सोत्पपुत्राङ्गं सबलग्रहे भाग्यवान् ७९

टीका—धनेश लाभ भावमे गया हो और दशमेश से युत वा दृष्ट हों तो भाग्यवान् होवे ६८

लाभेश नवम भावमे गया हो और दशमेश से यत वा दृष्ट हो तो भाग्यवान् होवे ६९

नवमेश धनभाव मे गयाहो और दशमेश से युत वा दृष्ट हो तो भाग्यवान् होवे ७०

लाभेश नवमे भाव मे, धनेश लाभभावमें, नवमेश धनभावमें गया हो और दशमेश से युत वा दृष्ट हो तो महाभाग्यवान् होवे ७१

नवम भाव गुरुशुक्र से युत वा दृष्ट हो तो भाग्यवान् होवे ७२

भाग्येश गुरुशुक्र से युत वा दृष्ट हो तो भाग्यवान् होवे ७३

लग्नेश और धनेश ये दोनो पंचम भावमें गयेहोतोभाग्यवान् होवे ७४

लग्नेश नवमें भावमे और नवमेश लग्नमें गयाहोतोभाग्यवान् होवे ७५

भाग्येश लाभ भाव में गया हो तो भाग्यवान् होवे ७६

भाग्येश और लाभेश इन दोनोंका एकराशी में योग हो तो भाग्यवान् होवे ७७

भाग्येश धन भाव में गयाहो तो भाग्यवान् होवे ७८

तीसरे पांचमें और लग्नमें बलवान् शुभग्रह गयेहोतोभाग्यवान् होवे ७९  
भाग्योदय योग ।

चरेङ्गे तदीशे चतथा चरखेट दृष्टे विदेशे भाग्योदयः ८०

स्थिरे लग्नाङ्गेशौस्थिरखेटदृष्टौ स्वदेशे भाग्योदयः ८१

अन्यथा सर्वत्र भाग्योदयः ८२

धर्म शुभदृष्ट्याधिक्ये सर्वदेशे भाग्योदयः ८३

शुके उपचये सप्तमेवाविवाहोत्तरं भाग्योदयः ८४

जायेशे सप्तमोपचये विवाहोत्तरं भाग्योदयः ८५

सोत्पाङ्गेशौशुभयुतदृष्टौवाशुभांशगौआतृधनतो भाग्योदयः ८६

पुत्राङ्केशयोगे शुभयुतदृष्टे सुततो भाग्योदयः ८७

त्रिकोणे भाग्यपयुतदृष्टे सुततो भाग्योदयः ८८

टीका—चरराशिका लग्न और लग्नेश हो और चरग्रह ( चंद्र ) से दृष्टहो तो विदेशमे भाग्योदयहोवेगा ८०

स्थिर राशि का लग्न और लग्नेश हो और स्थिरग्रह ( सूर्य ) से दृष्टहो तो स्वदेशमे ही भाग्योदय होवेगा ८१

द्विस्वभाव राशिका लग्न और लग्नेशहो और शुभग्रहसे युत दृष्टहो तो सर्वदेशमे भाग्यो दयहोवेगा ८२

नवमभावपर शुभग्रहोकि अधिकदृष्टिहोतो सर्वदेश मे भाग्योदय होवेगा ८३

शुक उपचयस्थान [ ३।६।१०।११ ] मे अथावा सप्तम भावमें गया होतो विवाह होनेके पश्चात् भाग्योदय होवेगा ८४

सप्तमेश सात मेभावमे अथावा उपचय स्थान ( ३।६।१०।११ ) मे गयाहोतो विवाह होनेके पश्चात् भाग्यो दय होवेगा ८५

तृतीयेश और नवमेश का योगहो और शुभग्रहसे युत वा दृष्टहो अथावा तृतीयेश नवमेश शुभग्रहों के नवाश मे गये हो और दोनो युतहो तो भाई के धनसे भाग्योदय होवेगा ८६

पंचमेश नवमेश का योगहोऔर वह शुभग्रह से युत व दृष्ट होतोपुत्र से भाग्योदय होवेगा ८७

नवम पंचम भाव भाग्येश से युत और दृष्टहोतो पत्रसे भाग्योदय होवेगा ८८

भाग्योदयके वर्षको विचार वृहत्पाराशरीमे लिखा है कि भाग्यस्थान में गुरुगयाहो और भाग्येश केद्र मे हो तो २० वर्षके बाद भाग्योदय होवेगा १

बुधपरमोच्चाशमें गयाहो और भाग्येश भाग्यमेही हो तो ३६ मे वर्षके बाद भाग्योदय होवेगा २

भाग्येश धनभाव मे गयाहो और धनेश भाग्य मे गय हो तो ३२ वर्षके पश्चात् भाग्योदय होवेगा ३

यदि अधिक बलवात् और पद्वर्ग शुद्ध होकर अपनी स्वराशी किंवा

उच्चराशि में गयाहुवा भाग्येश रवि होतो २२ मेंवर्ष चंद्रहोतो २४ मेंवर्ष मंगल हो तो २८ में, बुध होतो ३२ में, गुरु होतो १६ में, शुक्रहो तो २५ में शनि हो तो ३६ में राहु होतो ४२ में वर्ष में भाग्यो दय होवेगा । इसी प्रकार अन्य भाग्योके स्वामीभी जो अधिक बलवान होकर अपनी स्व वा उच्चराशी में गयेहो उनकेवर्षमें भाग्योदय और उसभावके फलकी वृद्धि होवेगा ।

गंगास्नान योग ।

स्वराहो वा सूर्ये गंगास्नानम् ८९

स्वे पूर्णेन्द्रीज्यौ गंगास्नानम् ९०

स्वे जीवे गंगास्नानम् ९१

शुकेज्यौ केन्द्रे युक्तौ गंगास्नानं ९२

धनेरा शुकेज्यास्तुंगे गंगास्नानम् ९३

ज्ञे वा तदीशेन्त्ये गंगास्नानम् ९४

चन्द्रे सोत्ये शुभदृष्टे जलक्षे गंगास्नानम् ९५

धर्मेशे जलक्षे केन्द्रे शुभदृष्टे गंगास्नानम् ९६

धर्मे जीवदृष्टे गंगास्नानम् ९७

रन्ध्रगेज्ञे शुभदृष्टेऽनेकतीर्थे दर्शनम् ९८

टीका-दशमे भाव में राहु भयवा सूर्य गया हो तो गंगास्नान होवेगा ८९ । गंगाजिमें स्नान करनेको जानेका तीर्थ यात्राका योग बनेगा।

दशमें भाव में पूर्णचंद्रमा और गुरु गये हो तो गंगास्नान होवेगा ९०

दशमें भाव में गुरु गया होतो गंगास्नान होवेगा ९१

केन्द्रस्थान में गुरु शुक्रका योग होतो गंगास्थान होवेगा ९२

धनेश शुक्र और गुरु ये तीनों अपनी उच्चराशी में गये हो तो गंगास्नान होवेगा ९३

बुध भयवा बुध जिस राशीमें गयाहो उसराशीका स्वामी बारमें भावमें गयाहोतो गंगास्नान होवेगा ९४

जलराशी का चंद्रमा तीसरे भावमे गयाहो और शुभग्रह से दृष्टहो तो गंगास्नान होवेगा ९५

जलराशी मे गयाहुवा नवमेश केंद्रस्थान मे गयाहो और शुभग्रहसे दृष्टहोतो गंगास्नानहावेगा ९६

नवन भाव को गुहदेखता होतो गंगास्नान होवेगा ९७

भाठमें भाव में गया हुवा बुध शुभग्रह से दृष्टहोतो अनेक तीर्थस्था नों के दर्शन होवेगा ९८

महायात्रा योग ।

धर्म कर्मयोगे महायात्रा ९९

धर्म शुभदृष्ट्याधिक्ये धर्मके केंद्रायकोणे महायात्रा १००

चंद्राद्धर्मो केन्द्रे महायात्रा १०१

चंद्राद्धर्म शुभदृष्ट्याधिक्ये वा शुभयुते महायात्रा १०२

टीका—नवमेश दशमेश का एक राशीमियोगहोतो महायात्रा होवेगा ९९

नवम भावपर शुभग्रहो कि अधिक दृष्टि हो और नवमेश १।४।७।

१०।१।१।५ भावमे गयाहो तो महायात्रा होवेगा १००

चंद्रमासे नवमेभावका स्वामि केन्द्रमे गयाहोतो महायात्रा होवेगा १०१

चंद्रमा से नवमे भावपर शुभग्रहों कि अधिकदृष्टि हो अथवा अधिक

शुभग्रहो से नवम भावयुत होतो महायात्रा होवेगा १०२

प्रव्रज्या योग ।

ग्रहचतुष्टयादि एकर्क्षगंप्रव्रज्या करम् १०३

यावन्तो बलिनस्तावन्तः स्व स्व प्रव्रज्या कराः १०४

तापसः कापालिकोऽक्तपट आजीवी त्रिदंडी चक्रधरो

नग्नः सूर्योदितः १०५

अस्तगास्तु तद्भक्तिमात्रम् १०६

मन्द च्पंशे वा मंदारांशे चंद्रेमन्दमात्र दृष्टे संन्यासी १०७

लग्नपमंदौ बलहीनो संन्यासी १०८

चंद्रज्याङ्गेयकिं दृष्टे बुधर्मजीवेराजयोगजोबलगत काणादा  
दिसमः १०९

टीका—एक राशी में चार पांच छ सात ग्रहों का योग होने से ग्रह स्थ धर्म को त्याग करके संन्यासी होता है १०३

एक राशी में गये हूँ चार से अधिक प्रव्रज्या योग करने वाले ग्रहों में जितने अधिक बलवान् ग्रह हों उतने ही ग्रह अपने अपने आधिपत्य की प्रव्रज्या करते हैं १०४

यदि प्रव्रज्या करने वाले ग्रहों में रवि अधिक बलवान् हो तो तपस्वी ( भगिनी होत्र, वा गायत्री का उपासक किंवा सूर्य की भक्ति करने वाला वा नैष्टिक ब्रह्मचारी ) होता है ।

चंद्र बलवान् हो तो कापालिक ( कपालको धारण करनेवाला वा नग्न व्रत के धारणवाला वा शिवकी दीक्षावाले व्रतोपवासादि करनेवाला तपस्वी ) होता है ।

मंगल बलवान् हो तो लालवस्त्र धारण करनेवाला वा बुद्धिके भाश्रयसहो देवोपासना करनेवाला जितेन्द्रिशिक्षासूत्ररहित कापायावरधारी होता है ।

बुध बलवान् हो तो भाजीवी अर्थात् कपट करके जीविका करने वाला वा गारुड मंत्रोंसे दीक्षित होता है ।

गुरुबलवान् हो तो त्रिदंड धारण करनेवाला कापायावरधारी संन्यासी होता है ।

शुक्र बलवान् हो तो चक्रको धारण करनेवाला अथवा बहुत साधुसंन्यासियों किं जमातकामालिक ठाटपाटसे साधुओंकी मंडली रखनेवाला और पशुपतिदीक्षामें स्थित होता है ।

शनि बलवान् हो तो नग्न रहनेवाला पड़िफठिनतपस्याके व्रतको धारण करनेवाला दिगंबर तपस्वी होता है १०५

यदि प्रव्रज्या योग करने वाले ग्रह अस्तंगत हो तो केवल संन्यासियोंकी भक्ति करने वाला होवेगा ( प्रव्रज्या नहीं होवेगा ) १०६

चंद्रना शनिके द्रेष्काणमें गया हो किंवा शनि मंगलके नवांशमें गयाहुवा चंद्रना केवलशनीसेही दृष्ट हो तो संन्यासी होता है १०७

लग्नेश और शनि बलवान् होवे तो संन्यासी होता है १०८

चंद्र, गुरु, और लग्न इन तीनोंको शनि देखता होवे और नवम भाव में गुरुगयाहो तो राजयोगका भोगानुभव करनेवाला ब्रह्मगुप्त काणादादि मुनियोंके समान प्रतिष्ठावाला भयवा भाचार्य पदधारी तपस्वी होवगा १०९

प्रव्रज्याभ्रष्ट योग ।

प्रव्रज्याकरे पगजिते प्रव्रज्याभ्रष्टः ११०

जन्मेशे मन्दमात्र दृष्टे प्रव्रज्या भ्रष्टः १११

चंद्रराहुयोगे क्रूरांशे सगुलिके संन्यासभ्रष्टः ११२

अंशेकेतौमन्दमात्रदृष्टे संन्यासभासः ११३

जीवेरिगेर्कम्बुगे तपोहीनसंन्यासी ११४

इति नवम विवेकः ।

टीका—संन्यासयोग करनेवालाग्रह पराजित ( ग्रहयुद्धमें हाराहुआ ) होतो प्रव्रज्या भ्रष्टहोवेगा ११०

जन्मराशी के स्वामी को केवलशनीही देखताहो और अन्य कोई भीग्रहदेखतेनहो तो प्रव्रज्या भ्रष्टहोवेगा १११

क्रूरग्रहोर्जनवांशमें गयेहुवे चंद्र और राहुका एकराशीमेंयोगहो और वह गुलिकसे युतहो तो संन्याससेभ्रष्ट [ संन्यासग्रहण करके त्यागदेगा वा संन्यासके नियम पालननहीं करनेवाला नाममात्रका संन्यासी ] होवेगा । ११२

कारकाशललग्नमें गयाहुवा केतू केवलशनीसेदृष्ट हो तो संन्यासिकाकेवलवेषधारण करनेवाला होवे अर्थात् स्त्रियांसंन्यासी नहींहोवे ११३  
छूटे भावमें गुरु और सुखभावमें राविगयाहो तो तपराहित ( यम नियम रहित वा तपस्याहीन ) संन्यासी होवेगा ११४

इत्यादिविचारोंके सिवाय गुरु, भाईकीस्त्री, भाईकेपुत्र केशालेकीस्त्री, मामा कीमाता, माताकामामा, मित्रवा मामा, मित्रकीकाकी, पुत्रका पुत्र, पुत्रकीविद्या, शत्रुकीमाता, शालक, नोकरकीस्त्री, ठरुस्थान, दादाका भाई, आदिवातोंकाविचारभी इसनवम भावसेही करना ।

इति नवमविवेकस्य टीकासमाप्तः । ९

धर्मशेलाभे राजवन्द्यः १३

धर्मपेपारावतादौ राजवन्द्यः १४

लग्नेशे शुभवर्गे वा गोपुरादौ राजवन्द्यः १५

टीका-दशमेश शुभग्रहसे सम्बंध करता हो तो मानवाला होवेगा ७  
दशमेश शुभग्रहके वर्गमें गयाहो भयवा भवनी उच्चराशी में गया  
हो तो दृढव्रत और मानवाला होता है ८

दशमभाव शुभग्रहके मध्यमें गया हो तो मानवाला होता है ९  
दशमेश वैशेषिकाश में गयाहो तो मान ( प्रतिष्ठा ) वाला होताहै १०  
लग्नमें गयाहुवा नवमेश गुरुसेदृष्टहोतो राजमेंमानवाला होताहै ११  
बुध गुरुका याग एकराशीमें हो तो राजमें मानप्रतिष्ठा वालाहोवे १२  
नवमेश लाभ भावमें गयाहो तो राजवन्द्य ( राजालोग जिसको झुके )  
वैसा मान वाला होवे १३

नववर्गमें भावका स्वामि पारावतादि भंशमें गयाहो तो राजवन्द्य होवे १४  
लग्नेश शुभग्रहों के वर्गमें किंवा गोपुरादिशुभाशों में गया हो तो  
राजवन्द्य होवेगा १५

मानहीन योग ।

स्वपे पापसंबंधे मानहीनः १६

स्वपे पापवर्गे क्रूरपृष्ठचंशे वा मानहीनः १७

टीका-दशमेश पापग्रहसे संबंध ( संज्ञातत्वम संबंध ४ प्रकारका  
कहा है तदनुसार ) करता हो तो मानहीन होवेगा १६

दशमेश पापग्रहके दशवर्गमें गया हो भयवा पापपृष्ठचंशमें गया  
हो तो मानप्रतिष्ठा हीन होवेगा १७

कर्मादि वैकल्य योग ।

स्वशेषलेसपापे कर्मादिवैकल्यम् १८

ज्ञेयपशुक्रादुस्थाः पापदृष्टाः कर्मादिवैकल्यं १९

स्वपापदृष्ट्याधिक्ये कर्मादिवैकल्यं २०

कर्मपेदुस्थे कर्मादिवैकल्यं २१

टीका-पापग्रहसे युत दशमेश बलहीन हो तो जोकोई व्यापार धंधा या काम करेगा उसमें सफलता नहीगी और विकलता वा व्यग्रता होवेगा १८  
 बुध गुरु और शुक ये तीनों ६।८।१२ में भाव में गये हो और पापग्रहसे दृष्टहोतो प्रत्येक काम में सफलता नहीगी और उसमें विकलता विध्न व्यग्रतादि होवेगा १९

दशमभावपर पापग्रहों कि अधिक दृष्टि हो तो प्रत्येक काम करनेमें विकलता होवेगा २०

दशमेश ६।८।१२ में भावमें गया होतो जो काम करेगा उसी में विकलता व्यग्रता वा हानि होगा और सफलता प्राप्त न होवेगा २१

सत्कीर्तियोग ।

कर्क चंद्रे पारावतांसे शुक्रेज्येक्षिते सत्कीर्तिः २२

स्वशेभारवतादौ सत्कीर्तिः २३

शुभयुते स्वशे सत्कीर्तिः २४

शुभांतरेस्वशे शुभदृष्टे सत्कीर्तिः २५

स्वपेशुभांसे सत्कीर्तिः २६

लानपे बलाद्ये स्वपेदेवलोके धर्मपे सिंहासने सत्कीर्तिः २७

टीका-कर्कराशीमें गयाहुवा चंद्रमा पारावतांशमें हो और वह गुरु शुकसे दृष्ट हो तो सत्कीर्ति ( उत्तमकीर्ति वाला ) होवेगा २२

दशमेश पारावतादि शुभवर्ग में गयाहोतो सत्कीर्ति वाला होवे २३

दशमेश शुभग्रह से युत होतो सत्कीर्ति वाला होवे २४

दशमेश शुभग्रहके मध्यमें गयाहो और शुभग्रहसे दृष्टहोतो सत्कीर्ति वाला होवे २५

दशमेश शुभग्रहकी राशी के भवांश में गयाहोतो सत्कीर्तिवालाहोवे २६

लानपे बलवान् हो दशमेश देवलोकांश में गयाहो और नवमेश सिंहासनांश में गयाहोतो सत्कीर्ति वाला होवे २७

भसत्कीर्तियोग ।

स्वपेपापसंबंधे ऽसत्कीर्तिः २८



स्वप्ने पापवर्गे ऽसत्कीर्तिः २९

स्वमंदाकौ असत्कीर्तिः ३०

पातांतरे कर्मणी असत्कीर्तिः ३०

टीका-दशमेश पापग्रह से संबंध करताहो तो असत्कीर्ति वालाहोवे २९  
दशमेश पापग्रहो के दशवर्गमे गयाहो तो असत्कीर्ति वाला होवे २९  
शनि और रविका योग दशमें भावमे हो तो असत्कीर्ति वाला होवे ३०  
दशम भावपापग्रहोके बीचमे गयाहो तो असत्कीर्ति वालाहोवे ३१

भाज्ञाकर्ता तथा क्रूर सौम्याज्ञा कर्तायोगाः ।

स्वशे शुभे शुभदृष्टयुते आज्ञाकर्ता ३२

स्वशे मृदुशे वा शुभांशे वा केन्द्रे बलाढ्ये आज्ञाकर्ता ३३

स्वर्के वा भौमे आज्ञाकर्ता ३४

स्वशे केन्द्रे शुभयुतदृष्टे क्रूरषष्ठ्यंशे सौम्याज्ञाकर्ता ३५

समन्देकर्मपे रन्ध्रपयुते क्रूरांशे केन्द्रे क्रूराज्ञाकर्ता ३६

राहु गुलिकौमाने क्रूराज्ञाकर्ता ३७

धने राहु केतु क्रूराज्ञाकर्ता ३८

धर्मपेनीचे क्रूराज्ञाकर्ता ३९

टीका-दशमेश शुभग्रह हो और शुभग्रहसे युत और दृष्ट होतो भाज्ञा  
( हुक्म ) करने वाला होवे ३२

दशमेश मृदु संज्ञकशुभषष्ठ्यंशमे गयाहो १ भयवा दशमेश शुभग्रह  
की राशिके नवांशमे गयाहो २ किंवा दशमेश बलवान होकर केन्द्र  
( २११७१० ) स्थान मे गया हो तो भाज्ञाकरने वालाहोवे ३३ ( इस  
सूत्र मे ३ योग है )

दशमे भावमे रवि भयवा मंगल गयाहोतो भाज्ञाकरने वालाहोवे ३४  
दशमेश शुभग्रह से युतदृष्ट होकर केन्द्रमे गयाहो और क्रूर षष्ठ्यंश  
मे गयाहोतो सौम्य [ शांतीकेसाय ] भाज्ञा करने वाला होवे ३५

शनि और अष्टमेश से युत होकर दशमेश पापग्रहकी राशी के नवांश में हो और केन्द्रस्थान ( १।४।७।१० ) में गया हो तो क्रूरता करनेवाला होवे ३६

दशमे भावमें राहु और गुलिक गये हो तो क्रूर भाजा करनेवाला होवे ३७  
धनभावमें राहु किंवा केतु गया हो तो क्रूर भाजा करनेवाला होवे ३८  
नवमेश नीचराशी में गय. हो तो क्रूर ( बठोर ) भाजा करनेवाला होवे ३९  
राज कार्य कर्ता योग ।

साकेशे राजकार्य कर्ता ४०

केन्द्रेके राजकार्य कर्ता ४१

केन्द्रे कोणे चंद्रे राजकार्य कर्ता ४२

राज्येशे लाभे केन्द्रे वा राजकार्य कर्ता ४३

लग्नांशुगे जीवे राजकार्य कर्ता ४४

टीका-कारकांश लग्नमें रवि गया हो तो राजकार्य करनेवाला होवे ४०  
केन्द्रस्थान ( १।४।७।१० ) में रवि गया हो तो राज्यकार्य करने वाला होवे ४१

चंद्रमा केन्द्र वा त्रिकोण स्थानमें ( १।४।७।१०।१।५ ) गया हो तो राज में काम करने वाला होवे ४२

राज्येश लाभ भावमें गया हो अथवा दशमेश केन्द्र में गया हो तो राजकार्य करने वाला होवे ४३

लग्न किंवा चतुर्थ भावमें गुरु गया हो तो राजकार्य करनेवाला होवे ४४  
कुल मुख्य कुल तुल्यादि योग ।

अंशे ग्रहद्वये कुल मुख्यः ४५

एकः स्वर्क्षे कुलतुल्यः ४६

द्वोः स्वर्क्षे स्वकुश धिकः ४७

सोत्येगुणौ लाभे चंद्रे कुलदीपकः ४८

भोभे द्वैस्तिहे सुने चंद्रे व्यपे राहौ कुलदीपकः ४९

टीका—कारकांश लग्नमें शुभ भिवा पाप कोईभी दोग्रह गयेहोतो अपने कुलमें मुख्य मनुष्यहोवेगा ४५

कोईभी एकग्रह अपनी स्वराशी में गयाहोतो अपने कुलके वरावर प्रतिष्ठा, बालाहोवेगा ४६

दोग्रह अपनी स्वराशी में गयेहोतो अपने कुलसे अधिकप्रतिष्ठावाला होवे ४७

तीसरेभावमें गुरु और लाभ भावमें चंद्रमा गयाहोतो कुल दीपक होवे ४८

लग्नमेंसिद्ध राशी का मंगल, पांचमें चंद्रमा और बारवें भावमें राहु गयाहोतो कुलदीपक होवे ४९

प्रतापीयोग

रन्ध्रारीशा वन्योन्यस्थानगौ वा केन्द्रगौ प्रतापी ५०

प्लेगुरौ लाभेचन्द्रे प्रतापी ५१

लाभपे शुभभांशे प्रतापी ५२

टीका—अष्टमेश छठे भाव में और पष्ठेश भाठमें भाव में गयाहो अथवा अष्टमेश और पष्ठेश ये दोनों केन्द्रस्थान ( १।४।७.१० ) में गये हो तो प्रतापी होवे ५०

छठे भावमें गुरु और लाभ भावमें चंद्रमा गयाहो तो प्रतापी होवे ५१

लाभेश शुभग्रहकी राशी और शुभग्रहके ही नवांशमें हो तो प्रतापी होवे ५२

श्रीमान् योग ।

लाभेवल्लभेशुभग्रहे शुभदृष्टे वा श्रीमान् ५३

धनगाश्चन्द्रेज्याच्छाः श्रीमान् ५४

टीका—बलवान् शुभग्रह; लाभभाव में गयाहो अथवा शुभग्रह लाभ भावको देखता हो तो श्रीमान् होवे ५३

धनभाव में चंद्र गुरु और शुक गये हो तो श्रीमान् होवे ५४

पितृसुख योग ।

खेशे शुभे शुभयुतदृष्टे पितृसुखम् ५५

खेश पारावतादौ पितृसुखम् ५६

खेशे शुभांतो गुरु शुक्र युते वा पितृसुखम् ५७

गोपुरादौ पितृकारके पितृसुखम् ५८

टीका—दशमेश शुभग्रहहो और वह शुभग्रहसे युत और दृष्ट हो तो पिताका सुख उत्तम रहेगा ( पिताकी दीर्घायु होगा ) ५५

दशमेश पारावतादि शुभवर्गमें गया हो तो पिताका सुख उत्तमरहेगा ५६

दशमेश शुभग्रहोंके मध्यमें ( बीचमें ) गया हो भयवा दशमेश गुरु शुक्रसे युत हो तो पिताका सुख उत्तम रहेगा ५७

पितृकारक ग्रह ( राव ) गोपुरादि शुभांशमें गयाहो तो पिताका सुख अच्छा रहेगा ५८ बृहत्पाराशरी में लिखा है कि भाग्येश परमेश्वा शमें गया हो भाग्यस्थानगतराशीके नयांशमें गुरुगयाहो और जन्मलग्न से केन्द्रस्थानमें शुक्रगया होतो पिताकी दीर्घायु होवे ?

पिता परस्त्रीगामी योग ।

स्वारिपौ स्वर्गौ पितापरस्त्री गामी ५९

लग्नेशे सपापे धने वा धनारिद्यूनेशाः सपापाः कोशगाः

पितासज्जन स्त्री गामी ६०

टीका—दशमेश और पष्ठेश ये दोनों दशम भाव में गये हो तो पिता परस्त्री गामी होवे ५९

पापग्रहसे युक्त होकर लग्नेश धन भाव में गयाहो ? भयवा धनेश पष्ठेश और सप्तमेश ये तीनों पापग्रहसे युक्त होकर धनभाव में गये होतो पिता सज्जन परस्त्री से गमन करनेवाला होवे ६०

पिता, धूर्त योग ।

सुखाशीशावद्धे जनको विटः ६१

भाग्याम्बुपौ सुखे जनको विटः ६२

टीका—सुक्लेश और पष्ठेश ये दोनों नवमें भाव में गये हो तो पिता धूर्त किंवा ठगाईका काम करने वाला होवे ६१

नवमेंश और सुक्लेश ये दोनों सुखभाव में गये हो तो पिता धूर्त वा ठगाई करने वाला होवे ६२

पितृ दुःख योग ।

खेशे पापसंबंधे पापान्तरे पितृ दुःखम् ६३

अर्कादशमेशे पापयुतदृष्टे पितादुःखी ६४

टीका-दशमेश पाप ग्रहसे संबंध करता हो पापग्रहोंके बीचमें गया होतो पिताका दुःख होगा वा पिता दुःखी रहेगा ६३

रवि से दशम भावका स्वामि पापग्रहसे युत और दृष्टहोतो पिता दुःखी रहेगा ६४

पितृसुखादि अल्प योग ।

सुखेशे त्रिके पितृसुखमल्पम् ६५

सूर्यारौखे धर्मे वा शीघ्रं पितृमृतिः ६६

सपापसूर्ये यूने शीघ्रं पितृमृतिः ६७

सार्कारेखेशे शीघ्रं पितृमृतिः ६८

यूनेर्के खेभौमेन्त्येराहौ पितानजीवति ६९

खे शत्रुभे भौमे पितानजीवति ७०

छानेजीवे धने ज्ञारयमा विवाहे पितृमृतिः ७१

चन्द्रार्कावडे पितुर्जलेमृतिः ७२

चन्द्रार्कोक्षपे पापदृष्टौ पितुर्जलेमृतिः ७३

शुक्रार्को चरे भौमदृष्टयुतौ पितुरन्यदेशे मृतिः ७४

टीका-सुखेश ६१, १२ में भाव में गया हो तो पिताका सुख अल्प रहेगा ६५

सूर्य और मंगल दशमभाव में अथवा नवमे भावमें गयेहोतो शीघ्र ( भदनी छोटी बमरमेही ) पिताकी मृत्यु होवेगा ६६

पापग्रहसे युक्त सूर्य सातमे भाव में गया हो तो पिताकी शीघ्र मृत्यु होवेगा ६७

दशमेश रवि और मंगल से युक्त हो तो पिताकी शीघ्र मृत्यु होवेगा ६८

सात में सूर्य दशमें मंगल और चारवें भावमें राहुगया होतो पिता जीवने नहीं ६९ ( शीघ्र पिता कि मृत्यु होवेगा )

दशम भावमें शत्रुराशी में गयाहुवा मंगल होवे तो पिता जीवनेही ( शीघ्रपिता का मृत्युहोवेगा ) ७०

लग्नमेंगुरु धनभावमें बुध, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह गयेहो तो विवाह के समय पिताकि मृत्यु होवेगा ७१

चंद्र और रवि येदोनो नवमें भावमें गयेहोतो पिताकी जलमें डूबने से मृत्युहोवेगा ७२

चंद्र और रवि मीनराशी में गये हो और पापग्रह से दृष्ट होतो पिता कि जलमें डूबने से मृत्यु होवेगा ७३

चरराशी में गयेहुवे शुक्र और रवि, मंगलसे युक्त किंवा दृष्ट होतो पिताकि अन्य देशमें मृत्यु होवेगा ७४

पितुर्दहनयोग ।

चरके केन्द्रे वा चन्द्रे पितरौ नदहेत् ७५

टीका--चरराशी का रवि केन्द्रमें गयाहोतो पिताका और चरराशी का चंद्रमा केन्द्रमें गयाहोतो माता का अग्नि संस्कार अपनेहातसे न ही करने पावेगा ७५

जन्मतः प्राक्पितृ मरणयोग.

भौमार्काविजे खे जन्मतः प्राक् पितृमरणम् ७६

मन्दारौ खे जन्मतः प्राक् पितृमरणम् ७७

टीका--मेष राशी में गयेहुवे मंगल और रवि दशम भावमें गये होतो जन्महोनेके पहिले ही पिता का मरण कहना ७६

शनि मंगल दशम भावमें गयेहोतो जन्महोनेके पूर्व ही पिता का मरण कहना ७७

वृहत्पाराशरी में लिखाहै कि छठे भाठमें किंवा चारवें भावमें रवि नवमभावमें अष्टमेश लग्नमें व्यपेश और छठेस्थानमें जिसराशी का नरांशहो वहराशी पंचमभावमें गई होतो जन्महोने के पहिले ही पिता कि मृत्यु होवेऐसाजानना १

भाठमें रवि और अष्टमेश नवम भावमें गयाहोतो पहिले वर्ष में पिता कि मृत्यु होवेगा २

व्ययेशनवमेभावमें और नवमेश नीचराश्यंश में गयाहोतो ३ तीसरे किंवा १६ मे वर्ष मे पिता कि मृत्यु होवेगा ३

लग्नेश भाठमेभावमें और अष्टमेश रविसे युक्त होतो २ दूसरे भयवा चारवे वर्ष मे पिताकि मृत्यु होवेगा ४

जन्म लग्नसे चतुर्थ भावमे राहु और पंचम भावमे रवि गयाहोतो सोलहमे भयवा अठारह मे ( १८ ) वर्ष मे पिता कि मृत्यु कहना ५

राहुसे युक्त सूर्य होवे और चंद्रमासे नवमे भावमे शनि गया हो तो सातमे भयवा उन्नईन ( १९ ) मे वर्षमे पिताका मरण होवेगा ६

भाग्येश व्ययभावमे और व्ययेश भाग्यभाव मे गया हो तो ४४ चुन्मालीस मे वर्ष मे पिताका मरण होवेगा ७

सूर्यके नवाशमे चंद्रमा गया हो और लग्नेश अष्टम भावमे हो तो ३९ मे तथा ४१ मे वर्ष मे पिताका मरण होवेगा ८

दशमस्थानका स्वामि सूर्य, चंद्र और मंगलसे युक्त हो तो ५० मे वर्ष पिताकी मृत्यु होवेगा ९

तीसरे भावमे रवि और तीसरे तथा सातमे भाव मे राहु गयाहोतो ६ छठे वर्ष मे भयवा पचीस मे वर्ष मे पिताका मरण जानना १०

धनभाव म शनि और भाठमे भाव मे रवि गयाहोतो ३० मे तथा २१ में किंवा २६ मे वर्ष पिताका मरण होवेगा. ११

भाग्येश नीचराशी मे गयाहो और उसनीचराशिका स्वामी नवमे भाव मे गयाहोतो २६ मे तथा ३३ मे वर्ष पिताका मरण होवेगा १२

सिंहासनाप्तियोग ।

सुखार्थाङ्गेश्याः स्वर्क्षे धर्मशेङ्गे सिंहासनाप्तिः ७८

धर्माङ्गसुखेशाः कर्मगाः बलिखेशयुताः सिंहा० ७९

धर्मव्यपे शुक्रेज्यौ तुर्धे धर्मशे केंद्रकोणे सिंहासनाप्तिः ८०

वित्तपे केन्द्रे स्वोच्चे शुभदृष्टे सिंहासनाप्तिः ८१

शुभाःकेन्द्रे व्यरीशगाः पापाः सिंहासनाप्तिः ८२

टीका-सुखेश धनेश और लग्नेश भवनि स्वराशिये गयेहो और नवमेश लग्नमे स्थितहोतो सिंहासनाप्ति प्राप्ती होवेगा अर्थात् किसीबड़े राजाकी गद्दीपर बैठनेका सौभाग्य प्राप्त होवेगा ७८

नवमेश लग्नेश और सुक्लेश ये तीनों दशम भावमे गयेहो और बल  
वाग् दशमेश से युक्त होतो सिंहासन की प्राप्ति होवेगा ७९

सुक्लेश नवमे, गुरु शुक्र चतुर्थ भावमे और नवमेश केन्द्रको वा विकोण  
स्थानमे गयाहोतो सिंहासन की प्राप्ति होवेगा ८०

अपनि उच्चराशि मे गयाहुवा धनेश केन्द्रमे गयाहो और शुभग्रह  
से दृष्टहोतो सिंहासन की प्राप्ति होवेगा ८१

संपूर्ण शुभग्रह केन्द्रमे गयेहो और संपूर्ण पापग्रह तीसरे छठे ग्यारमे  
भावमे स्थित होने सिंहासन की प्राप्ति होवेगा ८२

इन योगोंमें जन्माहुवा किसी राजाके यहां दत्तक जायगा वा भ-  
पनी धीरतासे राज्य संपादन करेगा ।

नृपतुल्य योग ।

पट्स्वर्क्षगाः वा शुभषष्ठ्यंशेर्के नृपतुल्यः ८३

चन्द्रेज्यौसुते वीत्तमांशे नृपतुल्यः ८४

चन्द्रेङ्गे गुरौसुखे सेशुके मन्देस्वर्क्षोच्चे नृपतुल्यः ८५

दशमादासोत्थगाः सौम्यानृपतुल्यः ८६

सौम्याः केन्द्रकोणेपापाख्यायारिगाल्गनेशसबलेनृपतुल्यः ८७

नीचगभेशोच्चेसः केन्द्रेनृपतुल्यः ८८

बलिनिचन्द्रे लग्नेतर केन्द्रकोणे शुक्रजीवान्यतरदृष्टे नृप  
तुल्यः ८९

नीचगाः स्वोच्चांशगाः नृपतुल्यः ९०

देहेजीवे ज्ञेकेन्द्रे भाग्यपदृष्टे नृपतुल्यः ९१

सेशोस्वोच्चभित्रांशे पारावतादौ नृपतुल्यः ९२

नीचे जीवेङ्गे धर्मपेरन्ध्रे शुभांशे नृपतुल्यः ९३

जीवेन्त्ये लाभेमंदे सौत्थपेर्के नृपतुल्यः ९४

टीका-उग्रह अपनी स्वराशी मे गये हो ? भयवा रवि शुभषष्ठ्यंश



मे गयाहो तो राजाके समान होवे ८३

चंद्र और गुरु ये दोनो पंचम भावमें गये हो भयवा सप्तमांश में गये होतो राजाके समान होवेगा ८४

लग्नमे चंद्रमा सुखमेगुरु दशमेशुक गयाहो और शनि अपनी स्व-तथा उच्चराशामे स्थितहो तो राजाके समान होवेगा ८५

दशम भावसे तीसरे भावपर्यंत ( १०।११।१२।१३ ) के छ भावों में संपूर्ण शुभग्रह गयेहोतो राजाके समान होवे ८६

संपूर्ण शुभग्रह केन्द्र वा त्रिकोणस्थान में और संपूर्ण पापग्रह ३।६।११ भावमें गये हो लग्नेश चलवान् होतो राजाके समान होवेगा ८७

नीचराशीम जो ग्रहगयाहो उसराशीके स्वामीकी जो उच्चराशी हो उसका स्वामी यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ) में गया हो तो राजाके समान होवेगा ८८

चलवान् चंद्रमा लग्नकेबिना अन्य केन्द्रकोणस्थानमें ( ४।७।१०।१५ ) गयाहो और शुक किंवा गुरुसे दृष्ट हो तो राजाके समान होवे ८९

नीचराशीमें गये हुवे ग्रह अपनी उच्चराशीके नवाशमें गये हो तो राजाके समान होवेगा ९०

लग्नमे गुरु और केन्द्रमे गयाहुवा बुध भाग्येश से दृष्टहो तो राजाके समान होवेगा ९१

दशमेश अपनी स्व, उच्च तथा मित्रराशीके नवांशमें और पारव-तादि शुभाशमें गया होतो राजाके समान होवेगा ९२

नीचराशीका गुरुलग्नमे और भाग्येश अष्टमभाव में शुभग्रहकी रा-शीके नवाशमें गया हो तो राजाके समान होवेगा ९३

वारवे भावमें गुरु व ग्यारहभावमेंशनि गयेहो और तीसरे भावका स्वामि मूर्धहो तो राजाके समान होवेगा ९४

राजाधिराज योग ।

पट्प्रहाः स्वोच्चगाराजाधिराजः ९५

स्वशेसुतेसुत्तेशेखे कोणपदष्टे राजाधिराजः ९६

धर्मापत्यपौत्रानोत केन्द्रे लग्नपयुतौ राजाधिराजः ९७

चंद्रात्सोत्थे मंदाकौ तुर्पज्ञाञ्जौ लाभेजीवे राजाधिराजः ९८

- गुरावङ्गे द्यूनाम्बुगेसूर्ये वक्रगेशुक्रेसुते राजाधिराजः १९  
 जीवार्कावजे खेकुजे धर्मगात्रेन्द्रच्छाराजाधिराजः १००  
 कन्याङ्गेज्ञे ज्ञेपेजीवे लाभेमंदे ह्येशुक्रेवक्रार्कावलो राजा  
 धिराजः १०१  
 धर्ममन्दे उच्चे कुजे ज्ञेज्याच्छाः सुते राजाधिराजः १०२  
 सकलाश्वरेषु राजाधिराजः १०३  
 सोत्थेशनौ पष्ठेभौमे खे शुक्रे धर्मस्वोच्चेर्के राजाधिराजः १०४  
 सुतेशे सबले स्वाङ्गेशयोगे केन्द्रे राजाधिराजः १०५  
 खेशेदेवलोके स्वाङ्गेशौपारावते लाभेगोपुरे राजाधिराजः १०६  
 गो मीनालिकन्यासु सर्वे राजाधिराजः १०७  
 घट सिंह युग्म धनुःषु सर्वे राजाधिराजः १०८  
 तुलाङ्गना ह्य मृग हरिषु सर्वे राजाधिराजः १०९  
 ज्ञारार्केज्यर्क्षेषु सघटेषु सर्वे राजाधिराजः ११०  
 ज्ञेन्दु जीवभेषु सर्वे राजाधिराजः १११  
 टीका—छग्रह अपनी उच्चराशी में गयेहो तो राजाधिराज होताहै ९५  
 दशमेश पंचममे सुखेश दशम भावमें गया हो और नवम पंचम  
 भावके स्वामियो से दृष्ट होतो राजाधिराज होवे ९६  
 नवम और पंचमभावके स्वामी लगनेसे युत होकर सप्तम स्थानके  
 विना अन्यकेद्रस्थान (१४।१०) में गये होतो राजाधिराज होवेगा ९७  
 चंद्रमासे तीसरे भावमें शनि रवि, चतुर्थभावमें बुधशुक्र और लाभ  
 भाव मे गृह गया हो तो राजाधिराज ( बढाराजा ) होवेगा ९८  
 लग्नमेगुरु सप्तम किंवा चतुर्थभावमे रवि और वक्रगती का शुक्र  
 पंचमभाव मे गयाहो तो राजाधिराज होवे ९९  
 भेषराशी मेगुरुऔर रवि, दशमेमंगल और नवम भावमे बुध चंद्र  
 व शुक्र ये तीनोंग्रहगयेहो तो राजाधिराज होवे १००

कन्याराशि के लग्न भेदुग, मीनराशिमें गुरु, लाभ भावमें शनी, धन राशि में शुक्र, गयेहो और मंगल व रवि वृश्चिक राशि में होतोराना धिराज होवेगा १०१

नवमे भावमें शनि हो अपनि उच्चराशिमें मंगल हो और बुध गुरु शुक्र ये तीनों पंचम भावमें गये होतो राजाधिराज होवे । येयोग यदि वृषभ वा वृश्चिक लग्नमें होतो अधिक दखवान होवेगा १०२

शुभ और पाप संपूर्ण ग्रह यदि चरराशि १।४।७।१० में गये होतो राजाधिराज होवे १०३

तीसरे भावमें शनि छठे मंगल दशमें शुरु और नवमें भावमें अपनि उच्चराशि में गया हुवारवि गयाहोतो राजा धिराज होवेगा । येयोग सिद्ध लग्नमें जन्म होने वारिकी कुंडली में होना संभवहै १०४

केंद्रस्थान १।४।७।१० में नवमेश और दशमेश का योग हो और पंचमेश बलवान होवेना राजाधिराज होवे १०५

दशमेश देवलोकाशमें धनेश व नवमेश ये दोनों पारावतांशमें और लाभेश गोपुराश में गयाहोतो राजाधिराज होवे १०६

वृषभ मीन वृश्चिक और कन्या इनचार राशियोंमें यदि शुभपापसर्व ग्रह गयेहोतो राजाधिराज होवेगा १०७

कुंभ, सिद्ध, मिथुन और धन इनचारराशियों में यदि संपूर्ण शुभपापग्रह गयेहोतो राजाधिराज होवेगा १०८

तुल, कन्या, धन मकर और सिद्ध इनचारराशियोंमें सकल शुभ पापग्रह यदि गये होतो राजाधिराज होवेगा १०९

बुधमंगलसूर्य औरगुरु इनचारों ग्रहा की राशिमें तथा कुंभ राशिमें ( ३।६।१।८।१।९।१२।१। ) सर्व शुभ पाप ग्रह यदि गये हो तो राजा धिराज होवेगा ११०

बुध चंद्र और गुरु की राशि ( ३।६।४।९।१२ ) में सर्व शुभपाप-ग्रहयदि गयेहोतो राजाधिराज होवेगा । १११

भूपति योग ।

लग्नाद्वाचंद्रार्द्धकर्मपावन्योन्यगौ भूपतिः ११२

स्वर्क्षगाः सप्त भूपतिः ११३

सप्तसुहृद्गगा भूपतिः ११४

व्यादिग्रहास्वोच्चगा भूपवंशजो भूपतिः ११५

क्रूरेषु स्वोच्चेषु क्रूरो भूपतिः ११६

स्वोच्चेषु शुभेषु शुभमतिभिर्भेषु मिश्रमतिः भूपतिः ११७

पञ्चादयो ग्रहाउच्चागा अन्यकुलजो भूपतिः ११८

चरेङ्गे मन्दार्करिज्याः स्वोच्चगाभूपतिः ११९

मृगानचरेङ्गे मन्दार्करिज्याः स्वोच्चगा भूपतिः १२०

तुलानचरेङ्गे भौवेज्यार्काः स्वोच्चगाभूपतिः १२१

कर्कानचरेङ्गे मन्दारार्काः स्वोच्चगा भूपतिः १२२

मेघानचरेङ्गे मन्दारेज्याः स्वोच्चगा भूपतिः १२३

टीका-लग्न से भयवा चंद्रमासे नवम और दशम भावके स्वामि परस्पर अन्यान्यस्थानमे [ नवमेश दशम भावमे और दशमेश नवमे भावमे ] गये होतो राजा होवे ११२

सातग्रह अपनि स्वराशिमे यदि गये हो तो राजाहोवे ११३

यदि सातग्रह अपने मित्रग्रहकी राशिमे गयेहोतो राजाहोवे ११४

तीन से अधिक ग्रह अपनी उच्चराशि मे गयेहो तो राजाके वंशमे उत्पन्न हुवाहोनातो राजाहोवेगा ११५ अर्थात् अन्य वंशमे उत्पन्नहो तो राजाके समान वा प्रधान भादि होवेगा ।

क्रूर ग्रह अपनि उच्चराशिमे गये होतो क्रूरस्वभावका राजा होवेगा ११६

शुभग्रह अपनि उच्चराशिमे गयेहो तो शुभ ( शांत ) स्वभावका तथा शुभ और पाप दोनों ग्रह ( मिश्र ग्रह ) अपनि उच्चराशि मे गये हो तो मिश्र स्वभावका राजा होवेगा ११७

पांचसे अधिक ग्रह ( पांच छ सात ) यदि अपनि उच्चराशि मे हो तो अन्यके कुलमे उत्पन्न हुवा मनुष्यभी राजा होवेगा ११८

चरराशि १४७१० का लग्नहो और शनि रवि मंगल गुरु ये चारो ग्रह अपनि उच्चराशिमे गये हो तो राजा होवे ११९

मकरराशिके विना अन्य चर राशि ( ११४७ ) का लग्न हो और शनि रवि गुरु ये तीनों ग्रह अपनी उच्चराशी में गये हो तो राजा होवेगा १२०

तलराशिके विना अन्य चरराशि [ ११४१० ] का लग्न हो और मंगल गुरु रवि ये तीनों ग्रह अपनी उच्चराशी में गये हो तो राजा होवे १२१

कर्कराशिके विना अन्य चरराशी [ ११७१० ] का लग्न हो और शनि मंगल रवि ये तीनों ग्रह अपनी उच्चराशी में गये हो तो राजा होवे १२२

मेषराशी के विना अन्य चरराशी ( ४१७१० ) का लग्न हो और शनि मंगल गुरु ये तीनों ग्रह अपनी उच्चराशि में गये हो तो राजा होवे १२३

कर्कचंद्रे स्वोच्चग जीवार्कयोरन्यतरेङ्गे भूपतिः १२४

स्वर्क्षचंद्रे स्वोच्चग दमार्कयोरन्यतरेङ्गे भूपतिः १२५

कर्कचंद्रे स्वोच्चग सूर्यार्योरन्यतरेङ्गे भूपतिः १२६

कर्कचंद्रे स्वोच्चग यो र्यमेज्ययो रन्यतरेङ्गे भूपतिः १२७

कर्कचंद्रे स्वोच्चग जीवारगोरन्यतरेङ्गे भूपतिः १२८

कर्कचंद्रे स्वोच्चग यमारयोरन्यतरेङ्गे भूपतिः १२९

मेपेङ्गे कर्कचंद्रे भूपतिः १३०

चन्द्रेज्यौ कर्कडे भूपतिः १३१

तुलेङ्गे कजे कर्कचन्द्रे भूपतिः १३२

भौमेमृगेङ्गे कर्कचन्द्रे भूपतिः १३३

टीका-कर्क राशिका चंद्रहो और अपनी उच्चराशी में गयाहुवा गुरु तथा सूर्य लग्नमें गयाहो अर्थात् मेषकिंवा कर्कराशी का लग्नहो और रवि गुरु ये दोनों उच्चराशी के होचंद्र कर्क राशी का हातो राजा होवेगा १२४

कर्क राशि का चंद्रमा हो और भवनि उच्चराशि में गयाहुवा शनि तथा रवि लग्न में गयाहो तो राजा होवे अर्थात् तुल किंवा मंगल हो शनि रवि उच्चके और चंद्रमा कर्कका होतो राजा होवे १२५

कर्क राशि का चंद्रमाहो और भवनि उच्चराशि में गयाहुवा रवि मंगल लग्नमें गयाहो अर्थात् मेष किंवा मकर राशि का लग्नहो रवि मंगल उच्च के हो और कर्कका चंद्रमाहो तो राजा होवेगा १२६

कर्क राशि का चंद्रमा हो और भवनि उच्चराशि में गया हुवा शनि तथा गुरु लग्नमें गयाहो अर्थात् तुल किंवा कर्क राशि का लग्न होशनि व गुरु उच्चराशि के और चंद्रमा कर्कराशि का होतो राजाहोवेगा १२७

कर्क राशि का चंद्रमाहो और भवनि उच्चराशिमें गया हुवा गुरु तथा मंगल लग्नमें गयाहो अर्थात् कर्ककिंवा मकरराशि के लग्नहो गुरु मंगल उच्चके और चंद्रमा कर्कका होतो राजा होवेगा १२८

कर्क राशि का चंद्रमा हो और भवनि उच्चराशिमें गया हुवा शनि तथा मंगल लग्नमें गयाहो अर्थात् तुल किंवा मकर लग्नहो शनि मंगल उच्चके और कर्क क चंद्रमा होतो राजा होवेगा १२९

मेघराशि के लग्नमें रवि गयाहो और कर्क राशि में चंद्रमा होतो राजा होवेगा १३०

कर्क राशि के लग्न में चंद्र गुरु मेषहोतो राजा होवे १३१  
तुललग्न में शनि गयाहो और कर्कका चंद्र होतो राजा होवे १३२  
मकर राशि के लग्नमें मंगल हो तो राजा होवे १३३

लग्नेवर्गोत्तमे चन्द्रेऽग्रह चतुष्टयादिदृष्टे भूषतिः १३४

वर्गोत्तमेचन्द्रे ग्रहचतुष्टयादिदृष्टे भूषतिः १३५

कुंभेर्कजे मेषेर्क वृषेचन्द्रे न्यतमेक्षेत्रे युग्मसिंहालिगेषु ज्ञेया रेषु भूषतिः १३६

ज्ञार्कोपष्टे यमेन्द्रन्यतरे उच्चगे लग्नेऽ जेकुजे तुलेशुक्रे कर्केजीवे भूषतिः १३७

लग्नेर्कजे भौमेमृगे चापे चन्द्रार्को भूषतिः १३८

चन्द्रारौ मृगश्र्क्षेत्रे चापके भूपतिः १३९

चन्द्रार्कीं यूने सूर्यक्षेत्रे चापेजीवे भूपतिः १४०

तुङ्गक्षेत्रे सिंहके खेयमे यूनेजीवे भूपतिः १४१

मृगश्र्क्षेत्रे मन्दसोत्थे चन्द्रे युग्मे भौमे धर्मज्ञे व्यये जीवे पृथुयशो गुणी  
भूपतिः १४२

चापे चन्द्रे ज्यौ मृगमुखे भौमे तुङ्गक्षेत्रे च्छान्यतरेक्षेत्रे भूपतिः १४३

जेतुक्षेत्रे यमारौ सुते चन्द्रे ज्ये सितास्तुर्ये गुणी भूपतिः १४४

कुम्भे चन्द्रे तुङ्गक्षेत्रे स्वर्शके मीनेक्षेत्रे चन्द्रे भूपतिः १४५

टीका--वर्गोत्तमांशमे ( जिस राशी का लग्न हो उसी राशी के नवांश  
मे ) गया हुआ लग्न, चंद्र के बिना अन्य चार पांच ग्रहों से दृष्ट हो तो  
भूपति होवे १३४

वर्गोत्तमांशमे गया हुआ चंद्रमा चार पांच ग्रहों से दृष्ट हो तो राजा  
होवे १३५

कुम्भराशीका शनि मेषकारषि बुधभक्ता चंद्रमा इन तीनों में से को-  
इभी एक लग्न में गया हो और मिथुनमें बुध, सिंहमें गुरु और वृश्चिक  
राशि में मंगल हो तो राजा होवे १३६

दृष्टे भावमें बुध सूर्य और भवनि उच्चराशीमें गया हुआ शनि किंवा  
चंद्रमा लग्नमें हो मेषराशी में मंगल तुल में शुक व कर्कराशी में गुरु  
गया हो तो राजा होवे १३७

लग्नमें शनि मकरराशीमें मंगल और धन राशी में चंद्र व रवि गये हो  
तो राजा होवे १३८

मकर राशी के लग्न में चंद्रमंगल गये हो और धन राशीका रवि हो  
तो राजा होवे १३९

सातमें भावमें चंद्र शनि लग्नमें सूर्य और धनराशीमें गुरु गया हो तो  
राजा होवे १४०

उच्चराशी (२) में गया हुआ चंद्रमा लग्नमें गया हो और सिंहराशी  
में सूर्य, दशमें शनि, सातमें भावमें गुरु, गया हो तो राजा होवे १४१

मकरराशीके लग्नमे शनि, तीसरे भावमे चंद्रमा मिथुनराशीमे मंगल नवमे पुत्र और चारमे भावमे गुरु गयाहो तो बढीकीर्तिवाला गुणवान् राजा होवे १४२

धन राशीमे चंद्र गुरु व मकरराशी के पूर्वार्द्धमे मंगल गया हो और अपनी उच्च राशीमे गया हुवा बुध किवा शुक्र लग्नमे गया हो तो राजाहोवे १४३

उच्चराशी ( ६ ) मे गयाहुवाबुध लग्नमेगयाहो शनिमंगल पंचम भावमे ( मकर राशी मे ) और चंद्र गुरु व शुक्रमे तीनों चतुर्थ भावमे गयेहोतो गुणवान् राजाहोवे १४४

कुंभराशी का शनि मकरराशी १० का मंगल सिंहराशी ५ कारवि हो और मिनराशी के लग्नमे चंद्रमा गयाहोतो राजा होवे १४५

तुङ्गेजीवे मषेभीमे तदन्यतरेडे भूपतिः १४६

मषेके चंद्राच्छज्ञेषु लाभेषु तुङ्गे जीवे भूपतिः १४७

मृगेकेजेङ्गे चंद्रार्कोस्वर्के भीमेजे ज्ञेयुग्मे तुलेशुके पृथुय-  
शो भूपतिः १४८

ज्ञेतुङ्गे खेशुके च-द्रेज्यायूने मन्दारौसुते भूपतिः १४९

आत्मकारकाद्धने तुर्पे सुते शुभे भूपतिः १५०

आत्मकारकाद्रिपु सौत्यगौ पागौ भूपतिः १५१

कर्कङ्गे तुर्पेर्कजारौ खे ज्ञेयार्कशुक्रा भूपतिः १५२

कुंभेद्रेशुके चतुर्पुस्वोच्चगेषु भूपतिः १५३

बलाढ्याः स्वोच्चगाः पूर्वपु पूर्वदलेनृपो न्यथापरदले १५४

पूर्गेन्दु युक्तौ मन्दारौ भाग्ये भूपतिः १५५

टीका--उच्चराशीमे गुरुऔर मेषराशिमे मंगल गयाहो और इनदोनो मे से भेक लग्नमे गयाहोतो राजाहोवेगा १४६

मेष राशी का रवि दशमे चंद्र शुक्र वबुध ये तीनों लाभ भावमें और अपनी उच्चराशी ४ मे गया हुवा गुरु लग्नमे गयाहोतो राजा होवेगा १४७



मकर राशीके लग्नमे शनि, चंद्र और रवि ये दोनो अपनी अपनी स्वराशी म ( ४ म चंद्र ५ मे रवि ) मे पराशि मे भंगल मिथुनराशीमे घर और तुलराशी मे शुक गया हो तो बडे यश और कीर्ति वाला राजा होवेगा १४८

लग्नमे अपनी उच्चराशि ( ६ ) मे गया हुआ बुध, दशम भावमे शुक, सप्तमभावमे चंद्र वगुह और पंचमभावमे शनि मगल गये होतो राजा हावेगा १४९

आत्मकारक ग्रहस दूसे चोथे और पाच मे भावमे शुभग्रह गये हो तो राजा होवेगा १५०

आत्मकारक ग्रहमे छठे और तीसरे भावमे पापग्रह गये होतो राजा होवे १५१

कर्कराशीका लग्नमे चतुर्थभाव मे शनि भंग हो और दशमे भावमे बुध गुरु सर्व व शुक ये चारो ग्रह गये होतो राजा होवे १५२

कमराशिके लग्नमे शुक गये हो और कोईभी चार ग्रह अपनी स्वराशिमे गये हो तो राजा होवे १५३

लग्न से छठे भाव पर्यंत के पूर्वपट्टक मे भरनि उच्चराशि मे गयेहुये चलवान ग्रह गये होतो भायु के पूर्व दलमे राजा होवेगा और सप्तम भावसे लग्न पर्यंत के परपट्टक मे यदि उच्चराशी म गयेहुये चलवानग्रह गये होतो भायु के उत्तरार्द्धमे राजा होवेगा १५४

शनि और मगल ये दोना पूर्णचंद्रते युक्त हो कर भाग्यभाव ( नवम ) मे गये हो तो राजा होवेगा १५५

लग्नपसौम्या उपचये राजा १५६

रावहारचंद्राः पञ्चमे राजा १५७

उदयेचरे भाग्यपेसिहासने केंद्रे राजा १५८

खेत्थिराङ्गेशे केंद्रे जीभे राजा १५९

भाग्यशांतोरो सुखे पुत्रे राजा १६०

टीका- मनेश और शुभग्रह उपचय ३६।१०।११ स्थानमे गये होतो राजा होवे १५६

राहु मंगल और चंद्रमा ये तीनों पंचम भावमे गये होतो राजाहोवे १५७  
 चरराशि १:४।७।१० का लग्न हो और सिंहासनांश मे गया हुआ  
 भाग्येश केंद्रस्थानमें गयाहोतो राजा होवे १५८

स्थिरराशी २।५।८।११ के लग्नका स्वामि दशम भावमे गयाहो और  
 गुरु केंद्रमे होतो राजा होवे १५९

भाग्येश के नवांश का स्वामि सुख मे वा पंचम भावमे गयाहोतो रा  
 जा होवे १६०

भूपति तथा मंत्रीयोग ।

- जीवर्षे तुल्येर्केजे भूपजोभूपान्यजो मंत्री १६१  
 खेजाके रावहारौषष्ठे भूपजोभूपान्यजो मंत्री १६२  
 सोत्थेजीवेरन्धेशुके भूपजोभू० १६३  
 सिंहेकुजे युग्मे राहौ भूपजोभू० १६४  
 चंद्रारांशके वा दशमे भूपजोभू० १६५  
 शुभपष्ठचंरोके केंद्रायकोणे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १६६  
 सुतेशेङ्के धर्मसुते भूपजोभू० १६७  
 कोणांबु राज्यादेशा युक्ता भूपजोभू० १६८  
 चंद्रादशमेशे सबले केन्द्रनवमार्थे भूपजोभू० १६९  
 एकोप्युच्चगो मित्रदष्टो भूपजोभू० १७०  
 धर्मेशे जीवर्षे खेशुके पुत्रशदष्टे भूपजोभू० १७१  
 शुक्रज्यौतुर्ये भूपजोभू० १७२

टीका-तुल्यराशी का जन्म लग्न हो और गुरुकी राशी.१।१२ मे शनि  
 गयाहोतो राजा के यहां जन्मपायाहोतो राजा और अन्यके यहांजन्म  
 पायाहोतो मंत्री होताहै १६१

दशमे भावमे बुध रवि, और छठे भावमे राहु मंगल गये होतो राजाके  
 यहां जन्म पायाहोतो राजा और अन्यके घरजन्म पाया हुआ प्रधान  
 वामंत्री होताहै १६२

तीसरे भाव में गुरु और भाठमे भावमे शुक्र गयाहो तो राजाके यहा जन्म पाया होतो राजा और अन्य के यहाजन्म पायाहा यहमची होताहै १६३

सिहराशीमे मंगल और मियुन राशी में राहुगयाहोतो राजाके यहा जन्म पायाहो तो राजा और अन्यके यहा जन्म पाया हो तो मंत्री होताहै १६४

यहयोग कर्क वा सिंह राशी के लग्नमेजन्म होनेवाले के बलवानहोताहै चंद्रऔर मंगल ये दोनो लग्न मे भयवा दशमे भावमे गयेहोतो राजा के यहा जन्मपायाहोवहराजाऔर अन्यकेयहाजन्म पायाहो तो मंत्री होता है १६५

शुभषष्ठचंद्रमें गयाहुवा रवि १।४।७।१०।१।१।१।५ भाव में से किसी भावमे गया होतो राजाके यहा जन्मपायाहो तो राजा और अन्यके यहा जन्म पाया हो तो मंत्री होता है १६६

पंचमेश नवमभावमे और नवमेश पंचम भावमे गयाहोतो राजा के यहा जन्मपायाहुवा राजा और अन्यकेयहाजन्मपाया होतो मंत्री होताहै १६७

नमब पंचम चतुर्थ दशम और लग्न इनपाचो भावके स्वामि एक रा शिमे युक्त होतो राजा केयहा जन्म हुवाहोतो राजा और अन्य केयहा जन्मपाया होतो मंत्री होवेगा १६८

चंद्रभासे दशम भावमे जो राशी हो उस का स्वामि बलवान होकर १।४।७।१०।१।२भावमें गयाहोतो राजाके यहाजन्मपायाहोतो राजा और अन्य के यहाजन्मपायाहो तो मंत्री होताहै १६९

उच्चराशीमे गयाहुवा एकभीग्रह अपने मित्रग्रहसे दृष्टहोतो राजाके यहाजन्मपायाहोतो राजा व अन्यके यहाजन्मपायाहो तो मंत्रीहोताहै १७०

नवमेशगुरु कीराशी ९।१२ मे गयाहो और दशमभावमे गयाहुवा शुक्र पंचमेश से दृष्टहोतो राजाके यहाजन्मपायाहोतो राजा व अन्यके यहाजन्मपायाहो तो मंत्रीहोताहै १७१

शुक्र और गुरु येदोनो चतुर्थ भावमेगयेहोतो राजा के यहा जन्म पाय होतो राजा और अन्यकेयहा जन्मपाया होतो मंत्रीहोताहै १७२

चंद्रज्यौ कर्क भूपजोभूपान्यजो मंत्री १७३

कन्यायां चंद्रती भूपजोभूपान्यजो मंत्री १७४

तुङ्गके सचलमन्दयुते भूपजो भूपान्यजो मंत्री १७५  
 शुक्रज्यौ तुङ्गगौ केन्द्र कोणे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १७६  
 नगार्थाढान्त्येषु सर्वेषु भूपजो भूपान्यजो मंत्री १७७  
 घूनोन केन्द्रकोणे सुखेशे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १७८  
 गुरावुच्चगे केन्द्रे खे शुक्रे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १७९  
 केन्द्रकोणार्थे खेशे शुभदृष्टे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १८०  
 सशुभे खेशे सुते पुत्रपेचापे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १८१  
 धर्मेशे पारावते शुभदृष्टे चन्द्रात्पुण्यपे देवलोके भूप० १८२  
 लग्नेशके खेशेके भूपजो भूपान्यजो मंत्री १८३  
 पुष्पवन्ताबद्धे खेभौमे यमेआये धर्मेचापगे जीवे भू० १८४  
 स्वर्क्षेशुक्रेतुर्ये धर्मेचन्द्रे भूपजो भूपान्यजो मंत्री १८५  
 यमेके तुर्ये जीवे पुष्पवन्तौ दशमे लामेजाराच्छाभूप० १८६  
 दशायोदयगाश्वन्द्रार्किजीवा ज्ञारौवने शुक्रार्को तुर्ये भूप-  
 जो भूपान्यजो मंत्री १८७

गुरौगोपुरादौबलिनि सुतेश युते भूपजो भूपान्यजो मंत्री १८८

टी.का-कर्कराशी में चंद्र और गुरुगये होतो राजाके यहा जन्मपायाहो  
 वह राजा और अन्यके यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७३

कन्याराशी में चंद्र बुधगये होतो राजाके यहा जन्मपायाहो वह राजा  
 व अन्य के यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७४

उच्चराशी में गयाहुवा रवि बलवान् शानिसे युतहो तो राजाके यहा  
 जन्मपायाहो वह राजा व अन्यके यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७५

अपनी उच्चराशी मे गये हुवे शुक्र गुरु [ मीनमेशुक्र कर्कमे गुरु गया  
 हो और ये दोनो ] केन्द्र वा त्रिकोण स्थान मे गये हो तो राजा के यहा  
 जन्म पायाहो वह राजा व अन्यके यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७६

सप्तम धन लग्न और व्यय ७२।१।१२ इन चारों भावों में सर्वशुभ पाप ग्रह गये हों तो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा व अन्य के यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होताहै १७७

सप्तमस्थान के विना अन्य केंद्रत्रिकोणस्थान (१।४।१०।१।५) में सुक्लेश गया होतो राजा के यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७८

उच्चराशी में गयाहुवा गुरु केंद्रमें और शुक्र दशमेभावमें गयाहो तो राजा के यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १७९

शुभग्रहसे देखाहुवा दशमेश केंद्रत्रिकोण में तथा धनभाव में गया हो तो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १८०

शुभग्रह से युत दशमेश पंचमभाव में गयाहो और पंचमेश धनराशी में होतो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १८१

पारावताशमें गयाहुवा धनेश शुभग्रहसे दृष्ट हो और चंद्रमा से नवमे स्थानका स्वामी देवरोकाश में गयाहो तो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १८२

लग्नेश नवमे भावमें हो और दशमेश लग्नमें गया होतो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होता है १८३

रवि चंद्र लग्नमें हो, दशमें मंगल, ग्यारमे भावमें शनि, नवमे भावमें धनराशीमें गयाहुवा गुरु गयाहो तो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होताहै १८४ ये योग मेष राशीके लग्न में होवेगा ।

अपनी स्वराशी ७२ में गयाहुवा शुक्र चतुर्थभावमें और चंद्रमा नवमे भावमें गयाहो तो राजाके यहां जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहां जन्मपायाहो वह मंत्री होताहै १८५ यह योग कर्क वा कुंभ लग्नमें होवेगा ।

लग्नमें शनि, चतुर्थभावमें गुरु, दशम भावमें सूर्य व चंद्रमा और लाभ (११) भावमें बुध मंगल शुक्र ये तीनोंग्रह गये हों तो राजाके यहां

जन्मपायाहो वह राजा और अन्यके यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होताहै १८६

दशमे चंद्रमा ग्यारमेशनि लग्नमेगुरु धनमेबुधमंगल और चतुर्थभावमे रवि शुक्र गये हो तो राजाके यहां मपायाहो वह राजा और अन्यके यहा जन्मपायाहो वह मंत्री होताहै १८७

गोपुरादि शुभांश में गुरु गयाहो और बलघातृ होकर पचमेशसे युत हो तो राजाके यहां जन्मपाया हो तो राजाहोताहै और अन्यके यहां जन्महुवाहो वह मंत्री होता है १८८

राजयोगभग योगाः ।

नवायखेशानीचगा व्यर्थाराजयोगाः १८९

भद्रायां व्यतीपाते क्रांतिपाते जन्मनिव्यर्था राजयोगाः १९०

परमनीचांशे चंद्रे व्यर्थाराजयोगाः १९१

उच्चगाः खटानीचांशगाव्यर्थाराजयोगाः १९२

उच्चके नीचांशे राजपुत्रोपि नीचतांगच्छति १९३

परमनीचगेके व्यर्थाराजयोगाः १९४

नीचगेशुके सिंहांशे वा स्वांशे व्यर्थाराजयोगाः १९५

राज्यदानीचारात्यस्तगाव्यर्थाराजयोगाः १९६

उत्पातदिने जन्मनि व्यर्थाराजयोगाः १९७

दशमेनीचस्वगे व्यर्थाराजयोगाः १९८

चतुर्षु स्वगे पशत्रुभगेषु वा नीचांशभगेषु व्यर्थाराजयोगाः १९९

ग्रहमात्रादृष्टश्वंद्रो वा लग्नो व्यर्थाराजयोगाः २००

सिंहांशेके पापयुते क्षीणेन्दौ सौम्यादृष्टे व्यर्थाराजयोगाः २०१

परमनीचांशे जीवे वा शुंके व्यर्थाराजयोगाः २०२

पाषाणीचगास्तर्वे कण्टकगाः सौम्यास्त्रिकगाव्यर्थाराजयोगाः २०३

सौम्याअस्तगा केन्द्रहीना लग्नेराहौचन्द्रदृष्टे पाषाःषट्

ईयायगाव्यर्था राजयोगः २०४

इति दशम विवेकः ।

टीका-नवमेश दशमेश और लाभेश ये तीनों अपनी नीचराशी में गये हों तो उपरोक्त राजयोग व्यर्थ होवेगा अर्थात् यद्यपि राजयोग उत्तम बना होगा तथापि राजयोगका भगयोग बलवान् भाजायगा तो वह उपरोक्त सर्व राजयोग निष्फल होजावेगा । अतएव उभययोगों के बलाबलका विचार करके राजयोगका फलाफल कहना १८९

मद्रा में वरतीवातयोगमें कातिरात ( महापात ) दाष में जन्म होनेसे राज योग व्यर्थ होवेगा १९०

परमनीचाश में ( वृश्चिकराशीके ३ भंशका ) चंद्रमा होतो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९१

उच्चराशीमें गये हुत्रे ग्रह यदि नीचराशीके नवाशमें गयेहोतो राज योग व्यर्थ होवेगा १९२

उच्चराशीमें गयाहुवासूर्य नीचराशीके नवाशमें गयाहोतो राजा काभीपुत्रहोतो नीचताको प्राप्त हावेगा अर्थात् वह राज्यच्युत होजावेगा १९३

परमनीच राशी में ( तुलराशीके १० भंशमें ) रवि गयाहो तो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९४

नीचराशीमें ( ६ राशी में ) गयाहुवा शुक्र सिहराशीके भयवा स्वराशी ७२ के नवाशमें गया होतो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९५

राजयोग करनेवाले ग्रह यदि नीच, शत्रु राशी में गयेहो किंवा भस्तगतहो तो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९६

उत्पातके दिन अर्थात् जिसदिन भूकंप विद्युत्पात गधर्वनगरदर्शन दिग्दाह परिवेपादिदिव्यभौमभातरिक्षके उत्रातहो उसदिन यदि जन्म होतो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९७

दशमभावमें नीचराशीका ग्रहगयाहोतो राजयोग व्यर्थ होवेगा १९८

कोईभी चारग्रह अपने शत्रु ग्रहकी राशीमें गये हो अथवा चारग्रह नीचराशी के नवाशमें गये हो तो राजयोग व्यर्थ होजावेगा १९९

चंद्रमा अथवा लग्न किसीभी ग्रहसे दृष्ट न हो तो राजयोग व्यर्थ हावेगा, २००

सिंहराशीके नवांशमें गयाहुवारवि पापग्रहसे युत हो और क्षीण चंद्रमा किसी शुभग्रहसे दृष्ट नही तो राजयोग व्यर्थ होवेगा २०१

गुरु भयवा शुक्र अपने परमनीचराशीके अंशमें ( गुरु मकरके ५ अंशमें किंवा शुक्र कन्याके २७ अंशमें ) गयाहोतो राजयोग व्यर्थ होवेगा २०२

नीचराशीमें गये हुवे सर्व पापग्रह केंद्रमें गये हो और सर्व शुभग्रह त्रिकस्थान ६।८।१२ में गये होतो राजयोग व्यर्थ होवेगा २०३

शुभग्रह अस्तंगत होवे और केंद्रमें नही गयेहो चंद्रसेदृष्टराहु लग्नमें हो सर्वपापग्रह ६।३।११ में भावमें स्थितहोतो सर्व राजयोग व्यर्थहोवेगा २०४

इत्यादि विचारों के सिवाय भाईकीमृत्यु, श्रीकीमाता ( सासु ) मालिक, जानुस्थान [ घृत्ने ] पुत्रकारोग शत्रु, दादाके मित्र, ग्रह, चतुष्पदादि विषयोका विचारभी इसी दशमभावमें करना-

इति दशम विवेकस्य टीका समाप्ताः॥



### अथैकादशविवेकः

बहु लाभयोग ।

लाभेशुभान्दायतोलाभोन्यथा न्यायतो मिश्राउभयथा १

लाभेशुभदृष्ट्याधिक्ये बहुलाभः २

लाभपेकेंद्रकोणे बहुलाभः ३

लाभपे शुभ संबंधे बहुलाभः ४

टीका-लाभ ( ग्यारमें ) भावमें शुभग्रहगये हो तो न्यायमार्ग से धनका लाभ होवेगा । और पापग्रह लाभ भावमें गये होतो अन्यायमार्गसे धनका लाभ होवेगा । तथा शुभ व पापदोनो ( मिश्रग्रह ) लाभ भावमें गये होतो न्याय और अन्याय दोनो से अर्थात् मिश्रमार्ग से धनका लाभ होवेगा १

लाभभावपर शुभग्रहो कि अधिक दृष्टि होतो धनकालाभ बहुत होवेगा २



लाभेश केन्द्रकिंवा त्रिकोणस्थान ( ११४।७।१०।१।५ ) में गया हो तो धनका बहुत लाभ होवेगा ३

लाभेश शुभग्रहसे संबंध ( संबंधचारप्रकारका संज्ञातत्त्वकेसुत्र ६४ में कहा है ) करता हाता धनका लाभ बहुत होवेगा ४

वाहनवाच्ययोग

चंद्राद्युने शुक्रेयानवान् ५

चंद्रास्तिते सोत्थायेयानवान् ६

सुखेशोलाभे गुरुदृष्टे बहुयानवान् ७

गुरुदृष्टसुखेशेन सुखेदृष्टे यानवान् ८

जीवाञ्छौ सुखेश युतौ केन्द्रकोणायगौ यानव्यूनाथः ९

इज्याच्छौ धर्मपयुतौ भाग्ये वा तुर्येयानव्यूहनाथः १०

धनपयुतेन्त्येशे तुङ्गे भाग्यदृष्टे यानव्यूहनाथः ११

टीका—चंद्रमासे सप्तस्थान में शुक्र गयाहो तो गाड़ी घोडा मोटर साइकल आदि वाहनवाला होवे ५

चंद्रमासे शुक्र तीसर किंवा ग्यार में भावमें गयाहो तो वाहनका मालिक होवे अर्थात् वाहन अपने घर रखने वाला होवे ६

गुरुसे देखाहुआ सुख भावेश लाभभारमें गयाहो तो बहुत वाहनो वाला होवे ७

गुरुसे देखे हुवे सुखेशसे सुखभाष संदृष्ट होतो वाहनवाला होवे ८

गुरु व शुक्र से युक्त होकर सुखेश केन्द्रत्रिकोण भयवा लाभ भाव में गयाहो तो वाहनके समूह [ झुंड ] का मालिक होवे अर्थात् बहुत वाहनो वाला होव ९

गुरु व शुक्र नवमेशसे युक्त होकर भाग्य ( नवम ) भाव में किंवा सुख भावमें गयेहो तो अनेक वाहनोका मालिक होवे १०

अपनी च्चराशी में गयाहुआ व्यपेश धनेशसे युतहोकर नवम भावको देखता होतो बहुत वाहनोके झुटका मालिक होवे ११

जिनके वाहनव्यूहनाथ योग होता है उनक घरमें बहुत वाहन हाथि

घोडागाडी मोटर आदि होवेगे किंवा इन वाहनोका धंधा करने वाला होवेगा ट्रामवे भयवा रेलवे कंपनीके भागीदार वा निजके वाहनके धंधेका व्यापार करनेवाले लोगोकेभी येही योग बलवान् हुवे नजर आवेगे।  
वाहन सुखयोग।

धर्मियखेशास्तुर्ये वाहनसुखम् १२

स्वउच्चगखेटे धर्मागेशदृष्टे वाहनसुखम् १३

सिंहासनेभ्युर्कर्मशौ लग्नेशदृष्टौ वाहनसुखम् १४

सुखेशे सबले शुभदृष्टयुते वाहनसुखम् १५

सुखेशोङ्गे सशुके वाहनसुखम् १६

सुखेशोङ्गे जीवयुते वाहनसुखम् १७

चंद्रज्यशुक्रास्तुर्गपयुता अङ्गे वाहनसुखम् १८

धर्मपयुतेभ्युपे सबले जीवदृष्टयुते वाहनसुखम् १९

भाग्येशाल्लाभेङ्गेशे सुखेशोधर्मे वाहनसुखम् २०

सुखपे केंद्रे तदीशोङ्गे वाहनसुखम् २१

स्त्रे लग्नेशे स्वशोङ्गे वाहनसुखम् २२

धनेशोङ्गे कर्मेशोर्धे तुंगगे कस्मिश्चिद्ग्रहे वाहनसुखं २३

सुखेशे ऐरावते गजवाहनसुखं २४

सुखेशे केन्द्रेवैशेषिकेवा लाभपेगोपुरे गजवाहनसुखं २५

इत्येकादशमविवेकः ११

टीका-नवमेश लाभेश और दशमेश ये तीनोंग्रह चतुर्य भावमे गये-  
हो तो वाहनका सुख होवेगा १२

उच्चराशिमे गयाहुवा ग्रह दशमभावमे गयाहो और वह भाग्येश व  
लग्नेश इन दोनोसे दृष्टहोतो वाहनका सुख होवेगा १३

सुखेश और दशमेश ये दोनो सिंहासनांशमेगयेहो और लग्नेश से  
दृष्टहोतो वाहनका सुख होवे १४

सुक्लेशचक्रवाहोकर शुभग्रहसेयुत और दृष्टहोतो वाहनका सुखहोवे १५  
 शुक्रसे युतहोकर सुक्लेश लग्नमे गयाहो तो वाहनका सुखहोवेगा १६  
 गुरुसे युत होकर सुक्लेश लग्नमे गयाहोतो वाहनका सुखहोवेगा १७  
 चंद्र गुरु शुक्र और चतुर्थभावका स्वामी ये चारोग्रह लग्नमे गयेहो  
 तो वाहनका सुखहोगा १८

बलवान् सुक्लेश भाग्येश से युतहोकर गुरुसे युतदृष्ट होतो वाहन का  
 सुखहोवेगा १९

भाग्येशसे लाभभावमे लग्नेश गयाहो और सुक्लेश भाग्यभावमे गया  
 हो तो वाहनका सुखहोवेगा २०


सुक्लेश केन्द्रस्थानमें जिस राशिमे गयाहो उसराशी का स्वामी लग्नमें  
 गयाहातो वाहनका सुखहोवेगा २१

लग्नेशदशमे औ. दशमेश लग्नमे गयाहोतो वाहनका सुखहोवेगा २२  
 लग्नमे धनेश व धनमे दशमेश गयाहो और कोईभी एक ग्रह उच्च  
 राशीमे होतो वाहनका सुखहोवेगा २३

सुक्लेश एरावताश मे गयाहोतो गजवाहन का सुखहोवेगा २४  
 सुक्लेश केन्द्रमेहो वैशेषिकाशमें गयाहो और लाभेश गोपुरांशमे गयाहो  
 तो गज ( हाथी ) की सवारी का सुखमिलेगा २५ जिनके निजके घर  
 की सवारी नहोतेभी गाड़ी घोड़ा मोटर बग्गी हाथी आदि सवारियोंमे  
 बैठके फिरनेका वा उनपर अधिकार रखनेका भवसर मिलतारहता है  
 उनकी जन्मकुंडलीमे वाहनसुख का योग बलवान् देखनेमे आवेगा ।

इत्यादि विचारोके सिवाय भाईकेभाईकीस्त्री, भाईके शाला शाली,  
 भाईका भाग्य, माताकी मृत्यु, मित्रकी मृत्यु, पुत्रकीस्त्री, पुत्रके पुत्रकी  
 शालेकी स्त्री, स्त्री कि विद्या, पीढिये ( घटनेके नीचेकी पीढलियो  
 का स्थान ) और दादाकी विद्या बुद्धि आदि बातोका विचार भी  
 लाभभावसे करना ।

इत्येकादशम विवेकस्यटीका समाप्ता ।



## अथ द्वादशमविवेकः ।

हानि योग ।

पष्ठेष्टमेचंद्रेद्युनेमन्दे सर्वहानिः १

व्ययेपापदृष्ट्याधिक्ये धनहानिः पदेपदे २

टीका-छठे किंवा भाठमे भावमे चंद्रमागया हो और सप्तम भावमें शनिहो तो सर्वस्वकी हानि होवेगा ।

चारमे भावपरपापग्रहों कि अधिक दृष्टिहो तो पदपद पर धनकी हानी होती रहेगा अर्थात् कोईभी काम लाभके लिये करेगा उसमें बारबार हानि होती जावेगा २

त्यागी योग ।

### मीनशि त्यागी ३

टीका-कारकांश लग्नमे मीनराशी हो तो त्यागी पुरुष होवेगा ३

दंभाद्धर्म परिग्रह योग ।

शुभेष्टे धर्मपेपापांशे वा पापपष्ठचंशे दम्भाद्धर्मपरिग्रहः ४

टीका-नवमभावमे शुभग्रह गया हो और धर्मेशपापग्रहके नवांश मे हो अथवा नवमे शुभग्रह गयाहो और नवमेश पापपष्ठचंशमे होतो कपट से धर्माचरण करने वाला होवेगा ५४

दानशीलयोग ।

धर्मपे स्वोच्चै शुभदृष्टे दानशीलः ५

धर्म शुभदृष्टयुते दानशीलः ६

धर्मपे पारावतादौगुरुदृष्टे लग्नपेभृगुदृष्टे दानशीलः ७

लग्नेधर्मपदृष्टे लग्नपे केन्द्रे महादानशीलः ८

दानेशे सिंहासने खाङ्गप दृष्टे माहादानशीलः ९

दानपेभृगु खपेकेन्द्रे व्यपेशे गुरुदृष्टे महादानशीलः १०

स्वोच्चगेत्रे धर्मपदृष्टे लाभे केन्द्रे महादान शीलः ११

टीका-नवमेश अपनी उच्चराशी मे गया हो और वह शुभग्रह होइ

हो तो दानकरने वाला ( दानशील ) होवे ५

नवम भाव शुभग्रहसे युत और दृष्टहोतो दानशीलहोवे ६

पारावतदि शुभाशमे गयाहुवा नवमेश गुरुसे दृष्टहो और लग्नेश गुरु  
से दृष्ट हातो दानशील होवे ७

धनेशसे लग्नदृष्टहो और लग्नेश केंद्र स्थान मे गयाहोतो महादान  
शील ( बडादान देनेवाला ) होवे ८

नवमेश सिंहासनाश मे गयाहो और नव लग्नेश व दशमेश से दृष्ट  
हो तो बडादानशील होवे ९

नवमेश सुखमे व दशमेश केंद्र मे गया हो और व्ययेशको गुरु देख-  
ताहो तो महादानशील होवे १०

अपनी उच्चराशी मे गयाहुवा बुध नवमेश से दृष्ट होकर लाभमे वा  
केंद्रमे गयाहोतो महादान शीलहोवे ११

दानप्राप्ति योग ।

सबलेङ्गपेलाभे धर्म कर्मपदृष्टे दानप्राप्तिः १२

सुतपेङ्गे धर्मकर्मपयुते लग्नपदृष्टे दानप्राप्तिः १३

धर्मपेस्वपदृष्टे केंद्रकोणे परमोच्चांशेवा दानप्राप्तिः १४

टीका—चंद्रवात् लग्नेश लाभभावमेगयाहो और नवमेश व दशमेश  
इनदोनो से दृष्टहोतो दानकी प्राप्ति होवेगा १२

नवमेश व दशमेशसे युतहो कर पंचमेश नवमे भावमे गयाहो और  
लग्नेश सेदृष्ट होतो दानकीप्राप्ति होवेगा १३

दशमेश से दृष्टहोकर नवमेश केंद्र किंवा त्रिकोण मे गयाहो अथवा  
नवमेश अपने परमोच्चांश मे गयाहोतो दानकीप्राप्ति होवेगा १४

धर्मदृष्टि योग ।

धर्मेशे सशुभे शुभांशे धर्म दृढबुद्धिः १५

धर्मपे वैशेषिके धर्म दृढबुद्धिः १६

धर्मपे शुभपष्ठचंशे धर्म दृढबुद्धिः १७

टीका—नवमेश शुभ ग्रहसेयुत होकर शुभग्रह के नवांशमें गयाहो तो  
धर्म मे दृढबुद्धि वालाहोवे १५

धर्मेश वैशेषिकांशमे गयाहोतो भर्ममे दृष्ट्युद्धि वाला होवे १६  
नवमेश शुभपष्ठचंश मे गयाहोतो धर्म मे दृष्ट विश्वास वाला होवे १७  
अन्नदाता योग ।

शुक्रेज्यौधने धनेशे वैशेषिकेऽन्नदाता १८

सबलेधनपे केन्द्रोपचये वलिशुभैर्दृष्टेऽन्नदाता १९

टीका—शुक्रव गुरु धनभावमे गयेहो और धनेश वैशेषिकांशमे होतो  
अन्नदान करनेवाला होताहै १८

बलवान् धनेश केद्रभयवा उपचय ३।६।१०।११ स्थानमे गयाहो और  
बलादान शुभग्रहो से दृष्टहोतो अन्नदाता होताहै १९

सदऽसव्यययोग ।

व्ययेशुभेसव्ययोऽशुभेऽसव्ययो मिश्रमिश्रः २०

व्यये रवि राहुशुक्र योगे राजमूलोव्ययः २१

जीवेन्त्ये करव्याजेन व्ययः २२

क्षीणेन्दु सूर्यौ व्यये राजद्राव्यं हरेत् २३

अन्त्ये मंदारौ भ्रातृद्वारा व्ययः २४

टीका—वारमे भावमेशुभग्रह गयेहोतो सन्मार्गमे धनका स्वर्चहोवेगा पाप  
ग्रह गये होतो असन्मार्गमे और शुभपाप दोनो [ मिश्र ] ग्रह गयेहोतो  
मिश्र मार्ग [ भच्छे और गुरे दोनो मार्ग ]मे धनका स्वर्च होवेगा २०

रवि राहु और शुक्र इन तीनोंका योग वारमे भावमे होतो राज्यके  
कार्य संबन्धमे धनका स्वर्च होवेगा २१

वारमे भावमे गुरुगयाहोतो कर [ महमूल ]के वाहने से धनका स्वर्च  
होवेगा २२

क्षिणचंद्र और रविपेदोनोवारमे भावमे गयेहोतो राजाधनहीनलेगा २३  
वारमे भावमें शनि और मंगल ये दोनो गये होतो भाइके द्वारा धनका  
स्वर्चहोवेगा २४

धन संचय वर्तायोग ।

व्यये शुभे धनसंचय संस्था २५

टीका-चारमे भावमे शुभग्रह गयेहोतो धनका संचय होता रहेगा २५  
ऋण ग्रस्त याग ।

धनेपापे व्ययेङ्गेशे स्वैशलाभपयुत दृष्टे ऋणग्रस्तः २६

सपापे धनेशे मूढे धनरंध्रे ऋणग्रस्तः २७

नीचैर्धेशे क्रूरपष्ठचशे तथा लाभेशे ऋणग्रस्तः २८

सपाप लग्नपात्रिकेश युतदृष्टे ऋणग्रस्तः २९

पुत्रपेङ्गे शुभादृष्टे ऋणग्रस्तः ३०

लाभेशाशेशे शुभयुते क्रूरपष्ठचशे ऋणग्रस्तः ३१

लग्नपे मूढारिनीचत्रिके मारकेशयुते भाग्यपे शुभैरदृष्टे  
नरेशोपि ऋणग्रस्तः ३२

टीका-पापग्रह धन भावमें व लग्नेश चारमेभावमे गयाहो और दशमेश  
लाभेशसे युतदृष्टहो तो ऋणग्रस्त होवेगा २६

पापग्रहसे युत धनेश भस्तगत होकर धनभावमे किंवा भाठमें भावमे  
गयाहो तो ऋणग्रस्त [ कर्ज से पीडित ] होवेगा २७

नीचराशीम गयाहुवा धनेश क्रूरपष्ठचशमे गयाहो और लाभेशभी  
नीचराशीमे स्थितहोकर क्रूरपष्ठचशमे स्थितहो तो ऋणग्रस्त होवेगा २८

पापग्रहसे युतलग्नेश छेठ भाठमे किंवा चारमें भावमे स्वामि से युत  
अथवा दृष्ट हो तो ऋणग्रस्त होवेगा २९

पचमेश लग्नमे गयाहो और वह शुभग्रहो से दृष्टनहो तो ऋणग्रस्त  
होवेगा ३०

लाभेशक नवाशका स्वामि शुभग्रहसे युतहो और क्रूरपष्ठचशमे  
गयाहो तो ऋणग्रस्त होवे ३१

लग्नेश भस्तका वा अपनी शत्रु किंवा नीचराशीमे स्थितहोकर ६।८।१२  
मे भावमे गयाहो और भाग्यश [ नवमेश ] मारकेशसे ( धनेश वा सप्त  
मेशसे ) युतहोवे और वह शुभग्रहोसे दृष्ट नहो तो यदि राजा वा राजा  
के समान मनुष्य हो तथापि ऋणग्रस्त होवेगा अर्थात् ये योग राजाके  
होतो वहभी अवश्य ऋणग्रस्त हुये विना रहता नहीं तो साधारण मनुष्य  
की क्या क्या है ।

ऋणदाता योग ।

धनायेशयोर्द्वयशेशस्यांशेशौवैशेषिकांशे केंद्रकोणे ऋणदाता ३३

लग्नेशांशेशो मृदंशादौ जीवदृष्ट ऋणदाता ३४

टीका—धन और लाभ इन दोनों भावोंके स्वामियोंके द्रेष्काणके स्वामिके नवांशके स्वामि यदि वैशेषिकांश में स्थितहोकर केंद्र किंवा त्रिकोणस्थानमें गये हो तो लोगोंको उधाररूपमें व्याजपर देने वाला ( करजा देने वाला ) होता है ३३

लग्नेशके नवांशका स्वामि मृदुसंज्ञकादि शुभ पदचंशमें गयाहो और गुरु उसको देखता होतो ऋणदेनेवाला ( करजा देनेवाला ) होता है ३४ बंधन योग ।

व्ययत्रिकोणार्थगेषु पापेषु बन्धनम् ३५

स्वान्त्ययोः सुताङ्कयोः पष्ठान्त्ययोः सोत्थाययोश्चतुर्थदश

मयोर्वाग्रहसाम्ये बंधनम् ३६

वृषाजहयो दये पापाबन्त्याङ्कसुतगारज्जुबंधनं ३७

वृश्चिकोदये द्व्यन्त्याङ्क सुतगाः पापाः भूग्रहे बंधनं ३८

सुम्भतुलाजकन्योदये द्व्यन्त्याङ्कपुत्रगाः पापानिगडबंधनं ३९

शपकर्मृगोदये द्व्यन्त्याङ्क सुत्रगाःपापा दुर्गप्रवेशो निगडरहितः ४०

लग्नारीशौ समन्दौ केन्द्रकोणे बंधनं ४१

टीका—चारमें दूसरे नवमें और पांचमें इनचारो भावोमें पापग्रह गये होतो बंधन होवेगा ३५

धन में और चारमें, वा नवमें व पांच में, किंवा छठे व चारमें, भयवा तीसरे व ग्यारमें, वा चौथे व दशमें, भावमें समान ग्रह भयात् भेक धनमें गयाहो तो एक व्ययमेंभी वा दो ग्रहधन में गये हो तो दोही व्यय में गये हो ऐसे जितने एक भाव में उतनेही दूसरे भावमें ग्रहगये होतो बंधन होवेगा ।



इससूत्रमें बंधनके पाच योग कहे है इनमें से एकभी योग बनने से बंधन योग होता है किंतु जितने अधिकयोग होंगे उतनाहि योग अधिक बलवान समझा जावेगा ३६

वृषभ मेष वा धनराशीका लग्नहो और उसमें दूसरे चारमें और नवमें पाच में इनचारोही भावमें पापग्रह गये होतो रस्सी से बंधन होगा ३७

वृश्चिकराशिका लग्नहो और २-१२-९-५ इन चारो स्थान में पाप-ग्रहगये होतो गुफा वा जमीन के नीचे के तलघरमें बंधनमें रहेगा ३८

मिथुन तुल मेष किंवा कन्याराशी का जन्म लग्नहो और २-१२-९-५ इनचारोभावोंमें पाप ग्रहगयेहोतो अंजीर से बंधनहोगा ( पावमें बंधीपड़ेगा ) ३९

मीन कर्क किंवा मकर राशी का लग्नहो और दूसरे चारमें नवमें पाचमें इनचारो भावोंमें पापग्रह गयेहो तो किलेमें सादि ( साधारण ) कैदहोगा ४०

लग्नेश और षष्ठेश ये दोनो शनि से युक्त होकर केंद्र किंवा त्रिकोण स्थानमें गयेहोतो बंधन ( कैद ) होवेगा ४१

योगानाफलपरिपाकसमयः ।

योगकर्तृषु योधिकब्रह्मस्तदीयदशांतर्दशायां परिपाकः ४१

इतिद्वादशमविवेकः ।

टीका-जितने योग कहेगये है उनयोगोंके योगकर्तामहोमेसे जो अधिकबलवान् ग्रहहोताहै उसग्रहकी दशा अंतर्दशामें उस योगके फलकी प्राप्ति होवेगा ४२

इसप्रकार योगोंकेफल परिपाक का समयजानना ।

व्यय भावमें उपरोक्त फलविचारोंके सिवाय भाईकीसासु भाईकी राजपसुन मामी माताकाभाग्य मित्रकेभाईकीस्त्री काका ( पिताका भाई ) मित्रकाभाग्य पुत्रकामृत्यु स्त्रीकामामा स्त्री की काकी मालिक का भाई, दूरकीमुसाफरी, पांच व नेत्रस्थान सुसराका भाग्य, दादाकारोग शत्रुभादि, सर्व बातोंका विशेषविचारभी इसी भावमें करना ।

इतिद्वादशमविवेकस्यटीका समाप्ताः । १२

अथमिश्रविवेकः

वन्दिजीवियोग ।

अंशभौमे धातुवादिकौन्तिको वन्दिजीवीच १

टीका-काकांश लग्नमे मंगलगयाहो तो धातुवधातुका कामकरने वालावा रसायनशास्त्रज्ञ भालारखनेवाला भयवा शस्त्रबनानेवाला किंवा भगिनके संबंधसे कामकरनेवाले लुहार सुनार आदिके कामकरके वप-जीविकाकरनेवाला होता है १

वाग्विद्याहीन योग ।

सुतपत्त्रिके वाग्धीनो विद्याहीनश्च २

सुतेशो ज्ञेययुतास्त्रिके वाग्विद्या प्रबंधहीनः ३

टीका-पंचमेशान्निकस्थान ६।८।१२ मे गयाहोतो वाक् और विद्याहीन पुरुषहोता है २

पंचमेश, बुध और गुरुसेयतहोकर चिकस्थान ६।८।१२ में गयाहोतो वाक्विद्या और प्रबंधहीन मनुष्यहोता है ३

विरक्तयोग ।

दूनेक्षेत्रो भार्यानजीवति वाविरक्तः ४

लग्नेपापे शुभादृष्टयुते संन्यासीस्त्रीनाशोवा ५

टीका-सप्तमेशलग्नमे गयाहोतो भार्या (स्त्री) जीवेनही किंवाविरक्त (संन्यासी) होता है ४

लग्नमें गयाहवा पापघट शुभघटसे युत किंवादृष्ट नहोतो संन्यासी होवे भयवा स्त्रीकानाशहोवे भार्यात् स्त्री जीवित नहीरहेगा ५

लग्नेशभावेशयोः संबंधफलं ।

लग्नेशेक्षे भाग्यवान् वैष्णवःपटुश्च ६

धनेशेक्षेक्षेत्रोधने धनीमानीगुणीदानीच ७

सौत्येशेक्षेत्रेशे सौत्येऽल्पधर्यः कुलसुखदः ८

सुखेशेक्षेत्रेशे सुखेक्षमावान् सद्बुद्धिमन्स्वीपितृभाक्तिमांश्च ९

सुतपेङ्गेङ्गेरो सुते मनस्वी विद्वान् मानीच १०

लग्नेशःपष्ठेपष्ठेङ्गे व्याधिहीनः शूरोबलवांश्च ११

सप्तमेङ्गेरो सप्तमेरो लग्ने तातसेवी शालकसेवोच १२

रन्ध्रेलग्नेशेलग्नेरो रन्ध्रे द्यूतकारीशुग्श्चौर्यादिरतश्चः १३

धर्मेशेङ्गेङ्गेरोधर्मविदेशी धर्मशीलो राजमान्यश्च १४

कर्मेशेङ्गेङ्गेरो कर्मे भूपतिः प्रख्यातगुणरूपकीर्तिमांश्च १५

लग्नेशेलाभे लाभपेङ्गे सुकर्मादीर्घायुभूपतिःकोविदश्च १६—

लग्नेशेन्त्येन्त्येशे लग्नेसर्वशत्रुर्धुद्धिहीनः रूपणश्च १७

टीका-लग्नेश नवमे भावमे गयाहोतो भाग्यवान् वैष्णवधर्मानुयायी  
और चतुरपुरुष होता है ६

धनेशलग्नेमे और लग्नेश धनमे गयाहोतो धनीमानी गुणी और  
दानी होता है ७

तृतीयेश लग्नेमे और लग्नेश तृतीयभावेमे गयाहोतो भल्पवीर्य  
[ भशक्त ] बहुसौरूपयुत राजपूज्य कुलके मनुष्यो को सुखदेनेवाला  
माताके पक्षके लोगोका सुखपानेवाला होताहै ८

चतुर्थेश लग्नेमे और लग्नेश चतुर्थ मे गयाहोतो क्षमावान् पितृभक्ति  
ब राजभक्तिकरनेवाला उत्तम बुद्धवान् अच्छागुरु व भपने मतपर  
चलनेवाला होताहै ९

पंचमेश लग्नेमे और लग्नेश पंचममे गयाहोतो मनस्वी विद्वान् और  
मानीहोताहै १०

लग्नेशछेठ और पष्ठेशलग्नेमे गयाहोतो व्याधिहीन शूरवीर और  
बलवान् होताहै ११

लग्नेश सप्तमे मे और सप्तमेशलग्नेमे गयाहोतो पिताकी सेवाकरने  
वाला और शालककी सेवाकरनेवाला होताहै १२

लग्नेश अष्टमे मे और अष्टमेश लग्नेमे गयाहोतो जुंभाखेलनेवाला  
शूरवीर और चोरी वगेरा बुरेकाम करनेवाला होताहै १३

नवमेश लग्नेमे और लग्नेशनवमे गयाहोतो विदेशमेफिरनेवाला  
धर्मशील और राजमान्ययुत होताहै १४

- दशमेशलग्नमे और लग्नेश दशमे गयाहोतो राजा, प्रख्यात गुण-  
 वाला, सुंदररूप और सत्कीर्तिवाला होताहै १५  
 लग्नेशलाभमे और लाभेश लग्नेमे गयाहोतो सत्कर्म करनेवाला दीर्घायु  
 राजा और विद्वान होताहै १६  
 लग्नेश वारमे और व्ययेश लग्नमे गयाहोतो सर्वका शत्रु बुद्धिहीन  
 और कृपण मनुष्य होताहै १७  
 लग्नेशे सोत्थेपष्ठे विक्रमी मानीदयावांश्च १८  
 स्वाभ्युगेशे कामीसुखीच १९  
 अन्त्येर्धेशे मानीधनहीनश्च २०  
 सजीवेशोत्थेपधीरः शास्त्रविशारदश्च २१  
 सारेसोत्थेपे जडःप्रचण्डःकोपीच २२  
 सगुल्लिके सोत्थेपेदृढो जडोधीरश्च २३  
 अंशपूर्णन्दुशुक्रौ भोगीविद्याजीवीच २४  
 अंशेजीवे कर्मज्ञानी वेदविद्वाताच २५  
 भाग्यपेकेंद्रकोणे शुभयुतदृष्टे धनविद्याभाग्ययुतः २६  
 नीचेकेंपष्ठेऽष्टमे क्रूरदृष्टे नृपकोपात्पितृमरणंवित्तनाराश्च २७  
 सवत्रेभाग्यपे पारावतादौ मानीगुणी धर्मशीलो धनीच २८  
 टीका-लग्नेश तीसरे किंवा छठे भावमे गयाहो तो पराक्रमी मानी  
 और दयावान होताहै १८  
 लग्नेशदशमे किंवा चतुर्थभावमे गयाहोतो कामी और सुखी होताहै १९  
 धनेश वारमे भावमे गयाहोतो मानी और धनहीन होता है २०  
 तृतीयेश गुरुसे युतहोतो धीर [ धैर्यवान् ] और शास्त्रविशारदहोताहै २१  
 तृतीयेश मंगलसेयुतहोतो जड बढाप्रचंड और क्रोधी मनुष्यहोताहै २२  
 तृतीयेश गुल्लिकसे युतहोतो दृढ़, जडबुद्धि वा मज्जवृत्त और धीर पुरुष  
 होताहै २३  
 कारकांश लग्नमे पूर्ण चन्द्रमा और शुक्र गयेहोतो ऐश्वर्यसुख भोग

भोगनेवाला और विद्याके संबंध से ( पढ़ने पढ़ाने से ) जीविका करने वाला होताहै २४

कारकाश लग्नमे गुरुगयाहोतो मीमांसा शास्त्र जाननेवाला कर्मज्ञानी वेदविद्या जाननेवाला और दातापुरुष होताहै २५

नवमेश शुभग्रहसेयुत और दृष्टहोकर केन्द्र किंवा त्रिकोण ९।५ स्थान मे गयाहोतो धन विद्या और भाग्य से युतहोनाहै २६

नीचराज्ञीमे गयाहूवारवि क्रूर ग्रहसेदृष्टहोकर छठे तथा भाठमे भाव मे गयाहोतो राजाके कोपसे पिताका मरण और धनकानाश होनाहै २७  
चलवान नवमेश पाश्र्वादिशुभाशमे गयाहोतो मानी गुणी धर्मशील और धनवान पुरुषहोताहै २८

जपध्यान समाधिमान् तथा धर्मनिरत योग ।

स्वशेङ्केशेषबले शुकेज्ययुतदृष्टे जपध्यान समाधिमान् २९

स्वशस्यांशेशांशेषबले स्वशेङ्के जपध्यान समाधिमान् ३०

अंशाद्धर्मे शुभदृष्टयुते धर्मनिरतः सत्यवादी गुरुभक्तश्चान्य  
थातुपापदृष्टयुते ३१

व्यपेशेङ्के यात्रावान् धार्मिको धनी ३२

टीका-दशमेश नवमे हो और नवमेश चलवानहोकर शुक्र और गुरु से युत किंवा दृष्टहोतो जपध्यान वा समाधि साधन करनेवावाला होताहै २९

दशमेश के नवांशका स्वामि जिसराशीके नवाशमे गयाहो उसका स्वामि चलवानहो और दशमेश नवमे भावमगयाहो तो जपध्यान समाधिवालाहोताहै ३०

कारकाशलग्नसे नवम स्थान शुभग्रहसेयुत और दृष्टहोतो धर्मनिरत सत्यवादी और गुरुभक्त होताहै पापग्रहसेयुत दृष्टहोतो ललटा फल-होषेगा अर्थात् यदि कारकाशलग्नसे नवमभाव पापग्रहसे युत और दृष्टहोतो पापरत असत्यवादी और गुरुद्वेषी होताहै ३१

व्यपेश नवमे भावमे गयाहोतो यात्रा ( तीर्थयात्रा वादेशां तरगमन ) करनेवाला धर्म करनेवाला ( धार्मिक ) और धनवान् मनुष्यहोताहै ३२

धनी कृपण तथा प्रतापी योग ।

स्वर्शन्त्येशे धनी कृपणो बहुपशुमांश्च ३१

कर्माङ्गेशावन्योन्यभगौ ख्यातःप्रतापीच ३४

टीका-वारमेभावका स्वामी अपनी स्वराशिमें गयाहोतो धनवान् कृपण ( कजूस ) और बहुत गाय भेस आदि पशुभोवाला होताहै ३३ दशमेश और लग्नेश परस्पर अन्योन्यराशी में अर्थात् दशमेशकी राशी में लग्नेश और लग्नेशकी राशीमें दशमेश गयाहोतो प्रख्याति-वाला और प्रतापी मनुष्य होताहै ३४

कुलघ्न बहुस्त्रीरत योग ।

दारे कुजे बहुस्त्रीरतः कुलघ्नश्च ३५

अंशादस्तेके पतिव्रता विकलाङ्गी स्त्री ३६

पापालग्नान्त्यास्तगा सुत स्त्री नाशकाः ३७

मदेके कुटुम्बी बहुस्त्रीरतः ३८

धर्मेन्त्येन्त्येशेथे सोत्थे पापेकुभोजिदुष्कर्मान्यगामी ३९

नीचभांशे जीवेजीवांशेकेऽतिदुःखी सुतदारहीनः ४०

टीका-सप्तमभावमें मंगलगयाहो तो बहुतस्त्रियो से सहवास करने वाला और कुलघ्न मनुष्य होता है ३५

कारकाशलग्न से सप्तमभावमें सूर्य गयाहो तो पतिव्रतास्त्रीहोवेगा किंतु वह विकलदेह वाली होवे ३६

लग्न में वारवे और सातमें भावमें पापग्रहगये होतो पुषका और स्त्रीका नाश करते है ३७

सप्तमभावमें सूर्य गयाहोतो घडे कुटुम्ब वाला और बहुतस्त्रियोसे सहवास करनेवाला होता है ३८

नवमेश धारमें व्ययेशधनभावमें और पापग्रह तीसरे भावमें गये होतो दुष्टान्न भोजनकरनेवाला दुष्टकर्म करनेवाला परस्त्रीगामी नर होता है ३९

नीचराशी तथा नीचराशीके नवांशमें गुरुगयाहो और गुरुकी राशी

के नवाशये रवि होते। महादुःखी पुत्र तथा स्त्री हीनमनुष्य होता है।  
द्विघ्न योग ।

चन्द्रार्कयोगे यन्त्राशमकर्ता ४१

ज्ञार्कयोगे क्रियापटुर्धीकीर्तिसौख्यानवितः ४२

जीवार्कयोगे क्रूरान्यकार्य निरतः ४३

शुक्रार्कयोगे द्वायुधैर्लब्धस्वः ४४

मंदार्कयोगे धातुनैपुण्यं ४५

चंद्रारयोगे लुब्धकश्चलचितः ४६

चंद्रज्ञयोगे प्रियवार्गार्थपटुः सौभाग्यकीर्त्यन्वितः ४७

चंद्रेज्ययोगे शत्रुजेता कुलमुख्यश्चपलो धनी ४८

चंद्राच्छयोगे बद्धादिक्रियापटुः ४९

चंद्रमंदयोगे परुषबाक्कपटी ५०

समन्देर्षे परवञ्चनदक्षो गुरुवचनातिक्रामीच ५१

शुकेज्ययोगे सद्दिद्या धनदारगुणयुक्तः ५२

ज्ञाच्छयोगे वाग्मी विद्वान्भूपगणपः ५३

ज्ञेज्ययोगे गीतप्रियो नृत्यविन्मल्लः ५४

मन्दारयोगे दुःख्यनृत्तभाषो निन्दितश्च ५५

यमाच्छयोगे लपट्टिर्लिपिपुस्तचित्रवेत्ता ५६

शुक्रारयोगे गोपालकमहदक्षपराङ्मना गामी ५७

आरेज्ययोगे पुराध्यक्षो नृप-प्राप्तविद्योद्विजः ५८

टीका-रविचंद्रका एकराशी में योगहोतो यन्त्र (कलाकोशल)  
काकाम और पत्थरका कामकरने वालाहोता है ४१

बुध रविकायोगहोतो काम करने में कुशलबुद्धिवान्, सत्कीर्ति और सुखसे युतहोता है ४२

गुरुरविका योगहो तो क्रूरस्वभावका और दूसरेका कामकरने वाला होता है ४३

शुक्ररविका योगहोतो अपने शरीरके बलसे और शस्त्रादिकसेधन प्राप्त होता है ४४

शनिरविका योग होतो रसायनशास्त्रके काममें निपुणता भववाधातु उपधातुभोसे बननेवाले कार्योंको करनेमें निपुण होता है ४५

—चंद्र मंगलका योगहोतो लोभी और चञ्चलचित्तवाला होता है ( स्थिर चित्त रहतानही ) ४६

चंद्रबुधका योगहोतो प्रियवचन बोलनेवाला द्रव्योपार्जनके काममें चतुर भाग्यवान् और सत्कीर्तियालाहोता है ४७

चंद्रगुरुका योगहोतो शत्रुको जीतनेवाला अपने कुलमें मुख्यपुरुष चपलबुद्धिवाला और बहाधनवान् होता है ४८

चंद्रशुक्रका योगहोतो घघसीबनावुनना नयावनाना इत्यादि वस्त्रनिर्माणके काममें कुशलहोता है ४९

चंद्रशनिका योग होतो कठोरवचन बोलने वाला और कपटी स्वभावका पुरुष होता है ५०

शनियुंघका एक राशीमें योग होतो दूसरे को ठगनेमें चतुर और गुरुके वचन को उल्लंघन करनेवाला होता है ५१

शुक्रगुरु का एकराशीमें योगहोतो सद्बिद्यान्वित धन, श्री, और गुण युक्तमनुष्य होता है ५२

बुधशुक्र का योगहोतो अच्छा बोलनेवाला ( वक्ता ) विद्वान् और राजाभोके समूहका अधिपति होता है ५३

बुधगुरुका योगहोतो गायनमें प्रीतिरखनेवाला नृत्यकलाको जाननेवाला और मल्ल [ कुस्तीकरनेवाला ] होता है ५४

शनिमंगलका योगहोतो दुःखी झूठबोलनेवाला और निन्दित मनुष्य होता है ५५

शनिशुक्रका योगहोतो भ्रष्टदृष्टि अर्थात् भद्रदृष्टि वा भंग्रेजीमें जिस्को शोर्टसाईड कहतेहै ऐसीदृष्टीवाला होता है लिखनेके कामको



वा लीपनेपोतने रंगाईकरनेके कामको और चित्र कलाको जाननेवाला होताहै ५६

शुक्रमंगल का योगहोतो गौभोपालनेवाला, मल्ल, चतुर और परांग-नागामी मनुष्य होताहै ५६

गुरुमंगलका योगहोतो किसी गाम वा शहरका मालिक वा बडेस्व-  
भधिकारवाला राजा और विद्वान् ब्राह्मणहोताहै ५८

परग्रहवासी, मातृपितृघाती, निर्धनी, लोभीयोग ।

राव्हर्कान्यतर युतेपष्ठेशन्त्ये परग्रहवासी नीचवृत्तिश्च ५९

लग्नेन्त्येके चन्द्रेपष्ठेभौमेस्ते मातापितृघाती ६०

मेपेचन्द्रेमन्ददृष्टे निर्धनोलोभी ६१

टीका-पष्ठेशराहु तथा रविसे युतहोकर चारमेभावमे गयाहोतो परा-  
येधरमेरहनेवाला और नीचवृत्तिका मनुष्यहोताहै ५९

लग्नमे तथा चारमे भावमे रविगयाहो और चंद्रमा छठे ष मंगल  
सातमे भावमे गयाहोतो मातापिताका घात [ नाश ] करनेवालाहोवे ६०

मेषराशीमे गयाहुवाचंद्रमाशनिसे दृष्टहोतो निर्धन और लोभीहोताहै ६१  
जन्मावसरे पितुर्मातुर्वा मरणयोग ।

कर्मांशुपौत्रिकेऽवलीसबलेऽपेजन्मावसरेपितुर्मातुर्वा मरणम् ६२

टीका-दशमेश और सुक्लेश ये दोनो निर्धलीहोकर त्रिकस्थान ६।८।१२  
मे गयेहो और लग्नेशबलधान होतो जन्मके समय पिताका वा  
माताका मरणहोयेगा ६२

यहयोगहोवे उसके जन्मकालमे मातृपितृ के सद्योमरणयोग भी हुवे  
होतो अवश्य इस योगका फलमिलेगा ।

आतृधनक्षेत्रादिलाभ तथा भाग्यवान् तथा मानीयोग ।

सुक्लेशांशपेकेन्द्रेमित्रदृष्टेवाभौमदृष्टयुतेआतृधनक्षेत्रंचप्रामोति ६३

धर्मांशुपौ कर्मगौ सर्वार्थवाहनयुतो भाग्यवान् ६४

खेजीवे इदित्तज्ञोमानीच ६५

टीका- सुक्लेश के नवांशका स्वामि केन्द्रमे गयाहो और वह अपने

मित्रग्रहसे दृष्टहो भयवा मंगलसे युत तथा दृष्टहोतो भाईकाधन और  
जमीन आदि संपत्तिका लाभहोताहै ६३

नवमेश और सुप्तेश ये दोनो दशमभावमे गयेहोतो सर्व संपत्ति और  
घाहन सेयुत भाग्यवान् मनुष्यहोताहै ६४

दशमभावमे गुरु गयाहोतो इसारेपरसे मनकी बात जाननेवाला और  
मानी ( अहंकारी ) मनुष्यहोताहै ६५

कपटन विषमक्षण कर्तापोग ।

धनेश पापदृष्टे कपटादिनाविष भोजनम् ६६

॥

टीका—धनेश पापग्रहसे दृष्टहोतो कपटादिक से विषसाधेगा ( कोई  
जहरखिलादेवेगा ) ६६

धैर्यान्वित युद्धपटु सत्यवादी कटुप्रियावियोग ।

शुभर्षभातृकारके शौर्यधैर्यान्वितः ६७

सौत्येशशश्वरांशेशस्वर्क्षादिवर्गे मानीयुद्ध पटुःकलहप्रियः ६८

लग्नेर्थेजीवे मधुरप्रिय मधुरवाक् सत्यवादी ६९

लग्नेशेके कुजार्कदृष्टे क्रोधीव्यसनी कटुप्रियः ७०

कोशगौज्ञाकौ सेवारतो स्थिरधनी ७१

सौत्येराहुमन्दौ कुनखीदक्षकरेघाती वायुरोगी ७२

सौत्येर्क वा भौमेस्थिभंगो विषभयं वन्हिजं चिन्हम् ७३

खलामृतिगा सव्रणचिन्हं गुत्यं भगंदरादिरोगीच ७४

खेचंद्रे सुतांगेजीवे दानीतपस्वी जितेंद्रियश्च ७५

जेन्द्रर्कजाः केन्द्रव्ययधर्मगा ऐश्वर्यज्ञानहीनः ७६

सर्वग्रहानीचारीभागगा उच्चस्था अपि सत्कर्महीनो भिक्षाशी ७७

टीका—भातृकारकमह [ मंगल ] शुभग्रहकी राशीमे गयाहोतो शूरता  
युत और धैर्यान्वित होताहै ६७

तृतीयेशके नवांशका स्वामि जिसराशी के नवांशमे गयाहो उसका

स्वामि स्वउच्च मित्र राशीके शुभवर्गमे गयाहोतो मानी युद्धकलाप्रवीण  
और कलहाप्रिय मनुष्यहोताहै ६८

लग्नमे तथा धनभावमे गुरुगयाहोतो मीठीवस्तुखानेपर प्रेमरखनेवाला  
मधुरवाणीसे भाषणकरनेवाला भार सत्यवादी मनुष्यहोताहै ६९

लग्नेश लग्नमे गयाहो और रवि तथा मंगलसे दृष्टहोतो कोपी  
विपत्ती भोगनेवाला और कटुरस [ चरपरासारापदार्थ ] पर प्रेमरखने-  
वालाहोताहै ७०

बुध और रवि धनभावमें गयेहो तो सेवाकरनेमे तत्पर रहनेवाला  
और स्थिरधनवाला होता है ७१

तीसरेभाव में राहु और शनिगयेहोतो सराब नखवाला दक्षिणहाथमे  
घात ( चोट वा शस्त्रसे घावहोनेका भय ) वाला और बापुकेरोगसे  
युत होता है ७२

तीसरे भाव में रवि भयवा मंगलगया होतो किसी भंगकी दृष्टी दु-  
टेगी तथा विषकाभय वा अग्निसे जलजानेका शरीरपर चिन्ह होवेगा ७३  
पापग्रह अष्टमभाव में गयेहोतो गुप्तस्थानमें किसी जन्मका चिन्ह  
होवे और भगदरववाशीर आदि रोग वाला होता है ७४

दशमें भावमें चंद्रमा और पंचमभावमें भयवा लग्नमें गुरुगयाहोतो  
दानी लपुस्वी और जितेन्द्री होता है ७५

बुधकेद्रमे, चंद्रमाचारमें भावमे और शनि नवमेंभावमे, गयेहोतो  
ऐश्वर्य और ज्ञानहीन मनुष्य होताहै ७६

उच्चराशिमे गये हुवेभीसर्वग्रह यदि नीच किवा शमुराशीके नवां-  
शमे गयहोतो सत्कर्महीन और भिक्षामार्गके पेटभरनेवालाहोताहै ७७

दद्रु कंडुपीडा, मंदाग्नि भ्रातृहीन कलहशीलादि योग ।

लग्नेशरन्ध्रे क्रूरयुतदृष्टेग्निमान्यदद्रुकण्डुपीडाश्वित्री ७८

भौमेङ्गे नेत्रपाणौ भुजङ्गदन्तक्षतपावकाम्बु भयम् ७९

चंद्राच्छौपष्टेऽष्टमे वा मन्दाग्न्युदररोगी ८०

केत्विदूभोत्थे भ्रातृहीनो धनीच ८१

क्रुवात्पष्ठादित्रयगाभावागुमन्दा भार्यानिजावतिभ्रातृहीनश्च ८२

राह्निदूसपापौरिके उन्मादीकलहशीलः ८३

अंशेराहो धानुष्कश्चौरावा ८४

अंशेशुक्रे राजसेवीकामीच ८५

भ्रातृपेसशुक्रे कामीकलही ८६

सल्युतदष्टे कुजेस्ते मूत्रकृच्छ्री कळीषः ८७

शुभांशहीनौज्जचंद्रौकेन्द्रे विस्मयालुर्ध्रमयुक्तः ८८

लाभांकेथेशे उद्यमी धनी गुणी ८९

लग्नेशेन्त्ये खेषापे भौमयुतचंद्रे परदेशी भिक्षाशीदुःखी ९०

जीवार्थेशौ पष्ठान्त्यगौ कठेशभागद्रव्यहीनः ९१

टीका-लग्नेश भष्टमभावमें गयाहो और कुरग्रहोसे युत व दृष्टहो तो मंदाग्निरोग, दद्रु [ दादकी ] पीडा खुजलकी पीडा और सफेद दाग के कुष्ठरोगका भय होता है ७८

नेत्रपाणि अवस्थामे गयाहुभा मंगल लग्नमे गयाहोतो सर्पकेदांतका जखम (सांपकेकाटनेकादुःख) और अग्निका तथा जलकाभयहोवेगा ७९ चंद्र और शुक येदोनो छुटे भयवा भाठमें भावमें गयेहोतो मंदाग्नी रोगवाला तथा उदरके रोगवालाहोताहै ८०

केतु और चंद्रमा का योग तीसरे भावमे होतो भ्रातृहीन और धन-यात्र होताहै ८१

छुटेमंगल सातमेभावमेराहु भाठमेशनि क्रमसेगयेहोतो स्त्री जीवित नहीरहे और भ्रातृहीनहोवेगा ८२

राहु और चंद्रमापापमहसे युतहोकर वारमे भावमें गयेहोतो उन्माद ( पागलपनके ) रोगवाला और कलहशील [ झगड़ाळू ] होताहै ८३

कारकांशललग्नमे राहुगयाहोतो धनुष्यरस्त्रेनवाला भयवा चौरहोताहै ८४ कारकांशललग्नमे शुकगयाहोतो राजसेवी ( राजमेनोकरी करनेवाला )

और कामीहोताहै ८५

वृतीयेश शुकसे युतहोतो कामी और फलहकरनेवाला होताहै ८६

सप्तमभावमे गयाहुवा मंगल पापग्रहसे युतदृष्टहोतो मूषकृच्छरोग-  
बाला तथा नर्पुसकहोताहै ८७

पापग्रहोके नवांशमे गयेहुवे बुधचंद्र केंद्रमें गयेहोतो विस्मयशील,  
दयालु, और भ्रमयुक्त होताहै ८८

धनेश लाभमे भयवा नवमभावमे गयाहोतो उद्योगी धनवान् और  
गुणी होताहै ८९

लग्नेश पारमेभावमे पापग्रह दशमेभावमे और चंद्रमा मंगलसे  
युतहोकर कोईभीभावमे गयाहोतो परदेशमे रहनेवाला भीखमागके-  
सानेवाला दुखी मनप्यहोताहै ९०

गुरु और धनेश ये दोनो छठे तथा चारमे भावमे गयेहोतो बलेश  
भोगनेवाला और द्रव्यहीन मनुष्यहोताहै ९१

अधियोग ।

चंद्रात्सौम्याः पष्ठादित्रयगाभ्रमूप सचिर्वभूपोचलतात्तम्यात् ९२

टीका—चंद्रमासे छठे सातमे आठमे भावमे शुभग्रहगयेहोतो ग्रहोके  
बलकेतारतम्यभेदसे सेनापति, मंत्री और राजाहोताहै अर्थात् चंद्रमासे  
छठेस्थानमे सर्वशुभग्रह गयेहोतो सेनापति और सप्तमस्थानमे सर्व  
शुभ ग्रहगयेहोतो मंत्री तथैव अष्टमभावमे सर्वशुभग्रह गये होतो राजा  
होताहै । इनग्रहोके अधिक बलवान् होनेसे बलवान् और हीनबली होनेसे  
निर्बल योगसमझना ९२

जैसे चंद्रसे यह अधियोग कहाहै वैसाहि जन्मलग्नसेभी छठे सातमे  
आठमे भावमेसर्व-शुभग्रहोके जाननेसे अधियोगहोताहै और उसका  
फलभी उपरोक्त फलके अनुसारही होताहै ।

अनफा सुनफा दुर्धरा तथा केमद्रुम योगलक्षण ।

चन्द्राद्रव्यन्यो व्ययेऽनुफा धनेमनुफा उभयत्र दुरुधरा-  
न्यथा केमद्रुमः ९३

टीका—चंद्रमासे रविके बिना अन्य कोईग्रह व्ययभाव मे गयेहोतो  
अनुफा धनभावमे गयेहोतो सनुफा और चारमे और दूसरे दोनो भा-  
वोंमें गयेहोतो दुरुधरा और चारमे तथा दूसरेदोनों भावोंमें कोईभीग्रह  
नहीगयाहो तो केमद्रुम योगहोताहै ९३

सनुफा योग फल ।

सनुफायां राजात्समो वा धीधनख्यातिमांश्च ९४

टीका-सनुफा योगमें जन्महोतो राजा वा राजाके समान भाग्यशाली बुद्धिमान धनवान और सत्कीर्तिवाला प्रसिद्धपुरुष होता है ९४

भनुफा योग फल ।

अनुफायां प्रभुः शीलवान् ख्यातो निरोगी ९५

टीका-भनुफायोगमें जन्महोतो राजा वा राजाके समान भाग्यवान् शीलगुणसम्पन्न प्रसिद्ध और निरोगी पुरुष होता है ९५

दुरुधरायोग फल ।

दुरुधरायां धन वाहनाढ्योत्पन्नभोगसुखभुक् ९६

टीका-दुरुधरायोगमें जन्महोतो धन और वाहनके सुखसे युत और धनादिककी प्राप्तिसे नैक सुखभोग भोगनेवाला होता है ९६

केमद्रुमयोग फल ।

केमद्रुमे मलिन दुःखितनीचनिस्वो नृपजोषि ९७

टीका-केमद्रुमयोगमें जन्महोतो राजाके यहाँ जन्मपाया हुआ मनुष्य भी मलिनस्वभावका वा मैलारहने वाला दुखी नीचप्रकृतिवाला नीचे दर्जेका और निर्धन मनुष्य होता है अर्थात् साधारण मनुष्य के भंग रहित यह योग होतो वह दरिद्रीहृये विना रहतानही ७७

केमद्रुमभंग योग-जातकपरिजातभेलिस्त्रा है ।

निशाकरकेन्द्रगते भगौवा जीवेशिते नैव दरिद्रयोगः शुभान्विते वा शुभ मध्यगौदो जीवेशिते नैव दरिद्रयोग ३६

चंद्रेति मत्र निजतंगगृहांशकस्य जीवेशिते यदि दरिद्रतया विहीनः पूर्णतनौ शुभयुते विदितंगजाते जीवेशिते हिमकरेन भवे दरिद्रः ३७

वृद्धराशारे = प्रालेयाशुःसूतिकाले यदा वा सर्वैः खेटैर्वीक्ष्यमाणः करोति दार्ढ्यायुष्यं राजयोगं मनुष्यं सत्कोशाढ्यं इति केमद्रुमं च ५७

अर्थात् जिसके जन्म समय में

( १ ) चंद्रमा भयवा शुक्र केन्द्रस्थानमें स्थित हो और गुरुसे दृष्ट हो तो केमद्रुमयोग का भंग ( दरिद्रयोग नहीं ) करता है ।

( २ ) चंद्रमा शुभग्रहसे युत हो भयवा शुभग्रहोंके मध्यमें

और गुरुसे दृष्टहोतो केन्द्रम योग नहीं होता है ।

- ( ३ ) चंद्रमा अधिमित्रराशी का किंवा अपनी उच्चराशीका हो  
अथवा अधिमित्र तथा अपनी उच्चराशीके नवाशमे गया  
हो और गुरुसे दृष्टहोतो केन्द्रम योग नहीं होता है ।
- ( ४ ) पूर्णचंद्रमा शुभग्रहसे युतहोकर बुधकी उच्चराशीमे गयाहो  
और गुरुसे दृष्टहोतो केन्द्रम योग नहीं होता है ।
- ( ५ ) चंद्रमा सर्वग्रहसे दृष्टहोतो केन्द्रम योग का भंग कर-  
ता है ।

इन पांच योगोंमे से भेक भी योग जिसके जन्मसमेय मे नहीं हो  
वसके केन्द्रम योग का फल भवश्यहोवेगा ।

एकस्मिन्नप्युच्चगे समिन्ने प्रचुरधनः सिद्धः ९८

सबलेखेशेकेन्द्रकोणयज्ञकूपायतनकर्तादेवतातिथिपूजकः ९९

शुभावक्रगाराज्यार्थदाः प्रापाव्यसनधनहानिदाः १००

सर्वेसौम्यास्यायारिगा बाल्येमुखी तत्रैवपापावयसोन्त्ये १०१

इति महादेवकृत जातकतत्त्वे प्रकीर्णतत्त्वं तृतीयम् ३ ।

टीका-यदि भेकभी ग्रह अपनी उच्चराशीमे गयाहो और अपने मित्र  
ग्रहसे युत होतो बहुतधनवाला तथा सिद्धपुरुष होता है ९८

बलवान् दशमेश केन्द्रत्रिकोणस्थान [ १।४।७।१०।१।५ ] मे गयाहो  
तो यज्ञ तथा कुभा चावढी भादिजलाशय करनेवाला तथा देवालायादि  
करनेवाला और देवता तथा भतिथिको पूजनेवाला होता है ९९

शुभग्रह वक्रगती मे गयेहोतो राज्य और धनका लाभदेतेहै और  
पापग्रह वक्रगती मे गयेहोतो दुःख भापति तथा धनकी हानीको  
देतेहै १००

सर्वशुभग्रह तीसरे ग्यारमे किंवा छठेभावमे गयेहोतो बाल्यावस्थामे  
सुखी पुरुषहोताहै और इनही भावोंमे पापग्रहगयेहोतो आयुके उत्तरा-  
र्द्धमे ( बुढापेमे ) सुखीहोताहै १०१

इति श्री गणकवर्ध श्रीमन्महादेवकृत जातकतत्त्वाख्य जातकग्रंथे  
तत्सुनु श्रीनिवासरचित तरुप्रदर्शनिभाषाटीकाया प्रकीर्णतत्त्वं तृतीयम् ।

अथ स्त्री जातकतत्त्वम् ।

यत्पुंजातकोक्तं तत्सर्वं स्त्रीणामपि १

स्त्रीणामसंभवंपतिषु २

लग्नचन्द्रतः शरीरं तत्सप्तमाष्टमतः सौभाग्यवैषट्ये ३

लग्नेन्द्रोः समभे स्त्री स्त्री स्वभावाशुभदृष्टेसच्छीलभूषणगुणाः ४

विषमक्षेतयोः पुरुषाकृति शीलयुक्तापापयुतदृष्टे पापिनी

गुणरूपहीना ५

तयोर्यो बली तत्रिंशशे फलम् ६

टीका-जो फल पुरुष जातक में पुरुषोंके लिये कहागया है वही सर्व फलस्त्रियोंकेभी जानना १

पुरुष जातकमें कहे हुये फलोमेसे जो फल स्त्रियोंके होना असंभव जानपड़े वहफल उसके पतिको होवेगा ऐसाजानना २

लग्न और चंद्रमासे स्त्रीके शरीर ( शरीर और उसका वर्णाकृति सुखदुःख आदि ) का विचारकरना और उनही ( लग्न और चंद्रमा से सप्तमभावमें सौभाग्यका और अष्टमभावमें वैषट्यका विचारकरना ३

लग्न और चंद्रमा यदि समराशी २।४।६।८।१०।१२ के हो और शुभ ग्रहसे दृष्टहो तो स्त्रियोंका जैसा स्वभावहोता है वैसेही स्त्रीके स्वभावकी शील भूषणगुण रूपवाली स्त्री होती है ४

यदि लग्न और चंद्रमा विषमराशी १।३।५।७।९।११ में गयेहोतो पुरुषकी भाकृतिवालि [ पुरुषके स्वभाव भाषण गुणवाली ] पतिव्रतादि शीलधर्मयुतास्त्री होती है और यदि पुरुषराशिमें गयेहुये लग्न व चंद्र पापग्रहसे युत और दृष्टहो तो पापिनी गुणरूपहीना स्त्री होती है ५

लग्न और चंद्रमा इन दोनोमेसे जो बलवान् होता है उसके त्रिंशशके फलानुसार उसस्त्रीका स्वभावरूपादि जानना ६

त्रिंशशफल ।

भौमभे भौमस्यत्रिंशशे कन्यैवदुष्टाज्ञस्यमायाविनी गुरोः

साध्वकिवेकुवृत्तामन्दस्यदासी ७



शुक्रभेशुक्रस्य त्रिंशंशे गुणख्याना ज्ञस्यकलाज्ञा गुरोर्गु-  
णमयो मन्दस्यपुनर्भूः कुजस्यदुष्टा ८

ज्ञभेकुजस्य त्रिंशंशे कपटिनी ज्ञस्यगुणिनी जीदस्य  
सती शुक्रस्य कामुकी मन्दस्य कलैव्यवती ९

कर्के वक्रस्यत्रिंशंशेवेश्या ज्ञस्यशिल्पज्ञा जीवस्यगुणा-  
द्याशुक्रस्यकुलटामन्दस्यपतिघ्नी १०

सिंहेकुजस्य त्रिंशंशेनराचारा ज्ञस्यपुंश्वेष्टिता गुरोराज्ञी  
शुक्रस्यपुत्रगामिनी मन्दस्यकुलच्युताः ११

जीवर्क्षे कुजस्यत्रिंशंशेबहुगुणा ज्ञस्यविज्ञा जीवस्यगुणतत्त्व  
विज्ञा शुक्रस्यसती मन्दस्यजारिणी १२

मंदभे वक्रस्यत्रिंशंशेदासी ज्ञस्यदुष्टागुरोःसाध्वी शुक्रस्यव-  
न्ध्या शनेर्जारिणी १३

टीका—लग्न और चंद्रमा इनदोनोंमेंसे जो चलवान होवे वह यदि मंगल की राशी ( १।८ ) में स्थिर होकर मंगलके त्रिंशांशमें गयाहोतो कन्यावस्तामही दुष्टकार्यकरनेवाली । बुधके त्रिंशांशमें होतो मायाविनी ( बड़ीजालप्रपंच करनेवाली ) गुरुके त्रिंशांशमेंहोतो साध्वी, शुक्रके त्रिंशांशमें होतो दुराचरणवाली, शनिके त्रिंशांशमेंहोतो दासीकेसमान कन्याहोतीहै ७

लग्न भयवा चंद्रमा [ इनदोनोंमेंसे जो चलवानहो वह ] यदि शुक्रकी राशी ( २।७ ) में स्थित होकर शुक्रके त्रिंशांशमें गयाहोतो अपनेगुणसे प्रशंसापाईहुई, बुधके त्रिंशांशमेंहोतो कलाका कामजानने-वाली, गुरुकेत्रिंशांशमेंहोतो गुणवती, शनिके त्रिंशांशमें होतो पुनर्विवाह करनेवाली, मंगलकेत्रिंशांशमेंहोतो दुष्टस्वभाववाली होतीहै ८

यदिलग्न भयवा चंद्रमा बुधकी राशी [ ३।६ ] में स्थित होकर मंगलके त्रिंशांशमें गयाहोतो कपटकरनेवाला, बुधके त्रिंशांशमें होतो गणवती, गुरुके त्रिंशांशमेंहोतो सती ( पतिव्रत धर्मपालन करनेवाली )

शुक्रके त्रिंशंशमे होतो अधिक कामयुता और शनिके त्रिंशंशमे होतो नपुंसकता ( पंढाव ) वालीहोतीहै ९

लग्न भयवा चंद्रमा ( इनदोनोमेसे अधिक बलवानहो यह ) यदि कर्कराशीमे स्थितहोकर मंगलके त्रिंशंशमे गयाहोतो वेदया ( रण्डी ) बुधके त्रिंशंशमे गयाहोतो शिल्पकार्य [ सीवना पोना तथा फसाका-काम ] जाननेवाली गुरुके त्रिंशंशमे होतो गुणवती, शुक्रके त्रिंशंशमे होतो कुलटा ( व्यभिचारिणी ) शनिके त्रिंशंशमे होतो पतिको मार-के नाशकरनेवाली होतीहै १०

लग्न भयवा चंद्रमा सिंहराशीमे स्थितहोकर मंगलके त्रिंशंशमे गयाहोतो पुरुषके भाचरणके समान भाचरणकरनेवालि बंधके त्रिंशं-शमेहोतो पुरुषके समानचेष्टाकरनेवाली गुरुके त्रिंशंश मे होतो राजा कीस्त्री वा राजाकी स्त्रीकेसमान भाग्यवती शुक्रके त्रिंशंशमेहोतो पुत्रसे गमनकरनेवाली शनिके त्रिंशंशमेहोतो अपनेकुलसे निकालि-हुईहोतीहै ११

लग्न भयवा चंद्रमा गुरुकी राशी ( ११२ ) मे स्थितहोकर मंगलके त्रिंशंशमे गयाहोतो बहुतगुणवति बुधके त्रिंशंशमे गयाहोतो विशेष-जाननेवाली बुद्धिवती गुरुके त्रिंशंशमे गयाहोतो गुण तथा तत्वज्ञानको विशेषरीतिसे जाननेवालि शुक्रके त्रिंशंशमे गयाहोतो सती ( पतिव्रता ) शनिके त्रिंशंशमे गयाहोतो व्यभिचारिणीहोतीहै १२

लग्न भयवाचंद्रमा शनिकी राशी ( १०११ ) मे स्थित होकर मं-गलके त्रिंशंश में गयाहो तो दासके समान बुधके त्रिंशंशमें गयाहो तो दुष्टस्वभाववाली गुरुकेत्रिंशंश मे गयाहो तो साध्वि ( सदाचरण युता ] शुक्रके त्रिंशंश में गया हो तो बन्ध्या ( वाङ्ग ) शनिके त्रिंशं-शमें गयाहो तो व्यभिचारिणी होती है १३

श्रीतःस्वकामग्रमनकर्त्री योग ।

मन्दाच्छावन्योन्यांशगा वन्योन्यदृष्टौ वा शुक्रभेदो घटां  
शे पुरुषायिताभिस्त्रीभिः स्वकामं शमयति १४

टीका—शनि और शुक्र परस्पर [ शनिको शुक्र और शुक्रको शनि ] देखतेहो और परस्परराशी के नवाशमें [ शनिके नवाशमें शुक्र और शुक्रके नवाशमें शनि ] गये हो भयवा शुक्रकीराशी [ १३७ ] का लग्न

कुंभराशीके नवाशमें गपाहो तो पुरुषका वेश धारणकी हुई स्त्री से अपना काम शमन करने वालीहोती है १४ [ इसमें दो योगहै ]

कुम्भतृका तथा क्लीबभर्तान्विता योग ।

सप्तमे ग्रहाभावेऽचले सौम्यादृष्टे कुम्भतृका १५

शार्कजावस्ते भर्ताक्लीबः १६

टीका-सप्तम भावमें कोईभी ग्रहनहीगयाहो सप्तमभाव निर्बली हो और शुभग्रह उसको देखते नहो तो दृष्टपति युता होतीहै १५

बुध और शनिका योग सप्तमभावमें होतो पति नपुंसक होता है १६

प्रवासी पतियोग ।

चरेङ्गे भर्ताप्रवासी १७

टीका-चरराशीका जन्मलग्नहोतो पतिप्रवासी [ देशदेशान्तरो में अधिक फिरनेवाला ] होता है १७

भर्तात्यज्यते योग ।

मदेसूर्ये भर्तात्यज्यते १८

पापेऽचलेस्ते शुभदृष्टेभर्तात्यज्यते १९

टीका-सप्तभावमें सूर्यगयाहो तो पतित्यागकरदेवेगा १८

निर्बली पापग्रहसप्तमभावमें गयेहो और शुभग्रहसे दृष्टहो तो पति छोटदेवेगा १९

अविवाहयोग ।

मदेमन्दे पापेदृष्टेअविवाहः २०

टीका-सप्तमभावमेंगयाहुवाशनिपापग्रहोंसेदृष्टहोतोविवाहनहीहोवेगा [ क्वारिही रहेगा ] २० सप्तमशे पापयुत दृष्टहो सप्तममें पापयुत हातो ये योग बलवान समझना ।

पुनर्भू योग ।

मिथः सप्तमे पुनर्भूः २१

टीका-सप्तमभावमें मिथ्र [ शुभ और पाप दोनो ] ग्रह गयेहोखो पुन विवाहकरने वाली तथा नातरेजानेवाली होती है २१

अन्यसक्ता योग ।

वक्राञ्छान्योन्यांशगावन्यसक्ता २२

चन्द्राराच्छासप्तमे वा पुष्पवन्तौ पत्याज्ञयान्यसक्ता २३  
 लग्नेसि तेन्दू मन्दारभगौ पापदृष्टौ जनन्यासहान्यरता २४  
 कर्केस्ते भौमार्कोपरासक्ता जारिणी २५

लग्नतुर्याष्टमान्त्यमदान्यतमे सपापारे पतित्यागात्परासक्ता २६

टीका—मंगल और शुक्रपरस्परनवांशमे [ मंगलके नवांशमें शुक्र और शुक्रके नवांशमें मंगल ] गयेहोतो परपुरुषसे संबंधरसने वाली होतीहै २२  
 चंद्र मंगल और शुक्र ये तीनों सप्तमभावमें गये हो १ भयवा सूर्य चंद्रका योगसप्तमभावमें होतो पतिकी आज्ञासे परपुरुषसे रमणकरने वालीहोती है २३

शानिकी किंवा मंगलकी राशी [ १०।११।१८ ] के लग्नमें शुक्र और चंद्रमा गयेहो और वे पापग्रहों से दृष्टहोतो माताके सहित अन्यपुरुषसे गमनकरने वाली होतीहै अर्थात् माता और स्वयं दोनों परपुरुषरता होतीहै २४

कर्कराशीमे गयेहुवे मंगल और रवि दोनों सप्तम भावमे गयेहोता परपुरुषमे आसक्त और व्यभिचारिणी होतीहै २५

लग्न चतुर्थ अष्टम व्यय और सप्तम इनपांचोभावोमे से किसीभी भावमे पापग्रहसे युक्त मंगल गयाहोतो पतिके छोड़देनेकेकारण से परपुरुषरता होतीहै २६

सरोगभगा वा सद्भगा योग ।

कुजक्षारिस्ते मन्ददृष्टे सरोगभगा २७

सद्ग्रहांशिस्ते सद्भगापतिप्रिया २८

टीका—सप्तमभाव में मंगलकी राशी और मंगलका नवांशगयाहो शनिदेखताहो तो रोगयुक्तभगवाली होतीहै अर्थात् योनीमें रोगहोता है २७

सप्तमभाव में शुभग्रहका नवांशगयाहो तो सुंदर योनिवाली और पति प्रिया होती है २८

पति लक्षण ।

सूर्यक्षारिद्युने पतिर्मन्दरतिः २९

चन्द्रक्षारिस्ते मृदुः कामीपतिः ३०

मन्वेकक्षींशे प्रियः क्रोधिपतिः ३१

ज्ञक्षींशेस्ते पतिर्विद्वान् ३२

जीवभांशेस्तेगुणीजितेद्रियः पतिः ३३

शुक्रभांशेस्ते कान्तो भाग्यवान् ३४

मन्दभांशेस्ते मुर्खो वृद्धध्वपतिः ३५

मन्देष्टमे पती रोगी ३६

टीका-सप्तमभावमे सूर्यकी राशी [ सिंह ] और सूर्यका नवांशहो तो पति मंदरतिवाला होता है २९

सप्तमभावमें चंद्रकीराशिकर्क और चंद्रका नवांशहो तो पतिनरम [ कोमलशरीरका ] और कामी होता है ३०

सप्तमभावमे मंगलकीराशी १।८ और मंगलका नवांशहो तो उसका पतिप्यारा और क्रोधयुक्त होता है ३१

सप्तमभावमें बुधकी राशी ३।६ और बुधका नवांशहो तो पति विद्वान् होता है ३२

सप्तमभावमें गुरुकीराशी ९।१२ और गुरुका नवांशहो तो गुणवान् और जितेद्री पतिहोता है ३३

सप्तमभावमे शुक्रकीराशी २।७ और शुक्रका नवांशहो तो पतिबड़ा-भाग्यवान् होता है ३४

सप्तमभावमे शनिकीराशी १०।११ और शनिका नव शहो तो मूर्ख तथा वृद्धपति होता है ३५

शनि भाठमे भावमे गयाहो तो पतिरोगीहोता है ३६

सुखयुतायोग ।

लग्नेशुकेन्दु मात्सर्यवती सुलिनी ३७

ज्ञेन्दुलग्ने कलाज्ञागुण सुखाढ्या ३८

ज्ञाच्छावङ्गे दर्शनीया भर्तृप्रियाकलाज्ञा ३९

शुभाङ्गनगा अनेक सुखगुणाढ्या ४०

ज्ञारेज्याच्छावलिनः स्त्रीलग्नजाख्याता ब्रह्मवित् ४१

एकस्मिन्द्वयोस्त्रिपुसौम्येषु सप्तमे पतिप्रियाप्रवराराज्ञी ४२

क्रूरेस्तेर्धर्मग प्रव्रज्या ४३

टीका-लग्नमे शुक्र और चंद्रमा गयाहोतो मात्सर्यवति और सुखा-

न्विता होतीहै ३७

बुधचंद्रलग्नमे गयेहोतो कलाजाननेवाली गुण और सुधसंपत्ति गुता

होतीहै ३८

बुधशुक्र लग्नमे गयेहोतो दिखनेटे शरीरवाली ( सुंदरांगी ) पति

कीप्यारी कलाजाननेवाली होतीहै ३९

शुभग्रह लग्नमेगयेहोतो अनेकमुद्र और गुणसे युतहोतीहै ४०

बुधमंगल गुरु और शुक्र ये चारो बलवानहो और स्त्रीराशी २४१६

८१२ के लग्नमे जन्महोतो प्रसिद्ध [ कीर्तिवाली ] ब्रह्मनिष्ठा होतीहै ४१

एक, दो, किंवा तीन शुभग्रह सप्तम भावमे गयेहोतो पतिप्रिया उत्तम

रूपगुणयुता राजाकी स्त्री तथा राजाकी स्त्री के समान होतीहै ४२

क्रूरग्रह सप्तम भावमेगयेहो और नवमभावमे शुभग्रहगयाहोतो नवम

भावमे गयेहुवे ग्रहके धर्म ( पृष्ठ २८३ सूत्र १०५ मे ) जो लिखेहै

तदनुसार प्रव्रज्या [ संन्यासधर्म पालनकरनेवाली ] होतीहै ४३

अल्पपुत्रा वा अनपत्या वा मृतापत्यायोग ।

गोकन्यालिसिहेष्विन्दावल्पपुत्रा ४४

पापमेपापदृष्टेस्तेनपत्या ४५

अष्टमेजीवे वा शुक्लेनष्टगर्भा वा मृतापत्या ४६

टीका-वृषभ कन्या वृश्चिक किंवा सिंहराशमे चंद्रमा गयाहोतो

अल्पपुत्रावाली होतीहै ४४

सप्तमभावमे पापग्रहकीराशी पापग्रहसेदृष्टहोतो संतानरहिता होती

है ४५

अष्टमभावमे गुरु भयवा शुक्रगयाहोतो नष्टगर्भा, ( जिसकागर्भकां

यमनहीरहसके ऐसी ) भयवा मृतापत्या होतीहै ४६

एवंदृष्टायोग ।

मन्देमध्यबलेनृग्रहेषुसबलेषुशेषेषुनिर्बलेषुपुंलग्नजापुंवदृष्टा ४७

टीका-शनिमध्यमबली, सर्वपुरुषग्रहपूर्णबली, व इतरशेषग्रह ( बुध शुक्र चंद्र ) निर्बलीहोवे और पुरुषराशी [ १३।५।७।११ ] के लग्नमे जन्महोतो वह स्त्री पुरुषके समान हरेक काममे धीठ ( मजबूत ) होतीहै ४७

दु स्वार्ता तथा कुलद्वयधनीयोग ।

यूनेराहौकुलदोषदादुःस्वार्ता ४८

लग्नेन्दू पापान्तरगौसौम्यादृष्टौ कुलद्वयधनी ४९

कुजेष्टमे कुलटा ५०

रंधेराहौ कुलधर्मधनी ५१

सूर्येष्टमे संतापयुक्ता ५२

टीका-सप्तम भावमे राहुगयाहोतो कुलको दोषलगानेवाली और दुःससे पीडित होतीहै ४८

लग्न और चंद्रमा ये दोनो पापघट्टोके मध्यमे गयेहो और शुभग्रहोसे दृष्टनहोतो दोनो कुल ( पतिकुल और पितृकुल ) का नाश करने वाली होतीहै ४९

मंगल भाठमे भाववे गया होतो कुलटा [ व्यभीचारिणी ] होतीहै ५०

अष्टम भावमे राहु गयाहोतो कुलधर्म का नाशकरने वाली होतीहै ५१

अष्टम भावमे सूर्य गया होतो संताप करने वाली होतीहै ५२

बालविधवा तथा विधवा योग ।

सप्तमे भौमे पापदृष्टे बालविधवा ५३

लग्नचंद्रान्यतरतःपापाः सप्तमेष्टमे वा विधवा ५४

भौमर्शे राहौ सपापेष्टमे व्यये विधवा ५५

यूनेङ्गेपापे विवाहोत्तरं सप्तमाब्देरण्डा ५६

पष्टेष्टमे चंद्रेष्टमाब्देरण्डा ५७

सप्तमेरन्ध्रेशे रंध्रेसप्तमेशेपापदृष्टे नवोदारण्डा ५८

पष्ठाष्टमेशौषष्ठे वा व्ययेपापयुते नवोदारण्डा ५९

पापेष्टमे ष्टमेशशिशदशायांविधवा ६०

टीका—सप्तमभावमे गयाहुवा भंगल पापग्रहसे दृष्टहोतो बालविधवाहोतीहै ५३

लग्न भयवा चंद्रमासे सातमे किंवा भाठमे भावमे पापग्रह ( तीन चार पापग्रह ) गयेहोतो विधवाहोतीहै ५४

मंगल की राशी १८ मे गाहुयभा राहुपापग्रहसे युक्तहोकर भाठमे भावमे किंवा बारमे भावमे गयाहोतो विधवाहोतीहै ५५

सप्तमभावमें और लग्नमे पापग्रह गयेहो ( दोनोभावोमे पापग्रह—येंहो ) तो विवाह होनेकेपश्चात्सातमे वर्ष विधवाहोतीहै ५६

छठे किंवा भाठमेभावमे चंद्रमागयाहोतो भाठमे वर्ष विधवाहोतीहै परंतु यदिये चंद्रमा क्षीण तथा नीच शत्रु राशिगतहो और पापग्रहसे युतदृष्टहोतो उरु फल मिलनासंभवहै केवल चंद्रके छठेभाठमे जानेसे ही भाठमे वर्ष रंडाहोंनेका योग यद्यपिसूत्रमे कहाहै तथापि असंभव जानपड़ताहै ५७

अष्टमेश सातमे भावमें और सप्तमेश भाठमेभावमे गयाहोपापग्रहसे दृष्टहोतो नवोदयस्या ( युवावस्या ) मेही विधवाहोतीहै ५८

छठे और भाठमे स्थानके स्वामि छठे किंवा बारमे भावमे गयेहो और पापग्रहसे युतहोतो युवावस्यामे विधवाहोवेगा ५९

पापग्रह अष्टमस्थानमे गयाहोतो अष्टमेशके नवांशका स्वामि जो ग्रहहो उसकी दशांतर्दशामे विधवाहोवेगा ६०

विपकन्यायोग तथा तत्फल ।

मन्दाश्लेषाद्वितीयायांजाताविपाख्या ६१

सूर्यवारुण द्वादश्यांजाताविपाख्या ६२

कुजविशाखा सप्तम्यांजाताविपाख्या ६३

पापेङ्गे सशुभे पापावरिगौजाताविपाख्या ६४

पुत्रेके मन्देङ्गे भौमेङ्गे विपाख्या ६५



## सादुर्भगामृतापत्याधनोना शोकार्ता ६५

टीका—शनिवारभ्रश्लेषानक्षत्र और द्वितीयातिथी येतीनो जिसदिन मिले उसदिन जन्महोतो विषकन्या होती है ६१

रविवार शतभिषानक्षत्र और द्वादशी तिथि येतीनो जिसदिन मिले उसदिन जन्महोता विषकन्या होती है ६२

मंगलवार विशाखानक्षत्र और सप्तमीतिथी येतीनो जिसदिनहो उसदिन जन्महो तो विषकन्या होती है ६३

शुभग्रहसे युतपापग्रह लग्नमेंगयाहो और दो पापग्रहउठे भावमेंगये हो ऐसेयोगमें जन्मे वह विषकन्या होती है ६४

पाचमें रवि लग्नमेंशनि नयमेंमंगलगयाहो ऐसे योगमें जन्म पावे वह विषकन्या होती है ६५

जिसके विषकन्यायोग हो वह विषकन्या भाग्यहीन मृतप्रजा धनरहिता ( दरिद्रिणी ) और शोकसंतापयुता होतीहै ६६

विषकन्याभंगयोग ।

## यूनपे वा शुभेस्ते विपाख्यान ६७

टीका—सप्तमेश भयवा कोई शुभग्रह सप्तमभावमें गयाहोतो विषकन्यायोग नहीं समझना भर्थात् जिसके विषकन्या योगहुवाहो उसके जन्मलग्नसे सप्तमभावमें सप्तमेश वा कोई शुभग्रहगयाहो तो विषकन्या योगकाभंग ( नाश ) होजाता है ६७

काकवन्ध्या तथा बंध्यायोग ।

## ज्ञेष्टमे काकवन्ध्या ६८

## मन्दार्कावष्टमे वन्ध्या ६९

टीका—भाठमें भावमें बुधगयाहोतो काकवन्ध्याहोती है भर्थात् भेक बार संतानहोकर फिर संतान नहींहोवे एसी होती है ६८

शनि और रवि ये दोनो भाठमें भावमें गये होतो बंध्या ( वाझ ) होती है ६९

इत्थं विवाहकाले प्रच्छायां च चिन्त्यम् ७०

शिविस्त्रीजावकं चतुर्थं तत्त्वम् !

टीका—इसीप्रकार फलका विचार विवाहसमयमें और प्रदत्तसमयमें भी जानना ।  
 इनके सिवाय पंचांगफल ग्रहोकाभाषफल राजयोगादिकफलका विशेषविचारजानना हो तो ही जातकमें देखना ।  
 इतिश्री गणकबर्ध् श्रीमन्महादेवकृत जातकतत्त्वाख्य जातकग्रंथे तत्सुतु श्रीनिवास रचिततत्वप्रदर्शिनी भाषाटीकायां खीजातर्तीविं चतुर्थम ४

अथ दशातत्त्वारम्भः ।

दशाविचार ।

ग्रहोभावरशिद्धयोगजीविकादिफलं स्वदशांतर्दशयांददाति १  
 टीका—भावजनित राशिजनित दृष्टिजनित योग तथा सम्बंधजनित तथा जीविकादि जितने शुभाशुभ फल ग्रहों के कहेगये है वे सर्वफल ग्रह अपनी दशा अंतर्दशामें देते है १. २१  
 सपूर्णा दशाफलं

अतिबलस्यपरमोच्चगस्य वा दशासंपूर्णाभिधाधनारोग्य विवर्धिनी २

टीका—जो ग्रह अतिबलवानहो भयवा परम उच्चराशीमें गयाहो उसकी दशा संपूर्णानामकीहोतीहैयहदशा धन आरोग्यकोबढ़ानेवाली जानना २ पूर्णादशाफल ।

किंचिद्वलोपेतस्योच्चगस्य पूर्णाधनदा ३

टीका—जोग्रह किंचिद्वलवान् हो और अपनी उच्चराशीमें गयाहो उसकी दशा पूर्णानाम की होती है वह धनलाभ करने वाली जानना ३ रिक्ता दशाफल ।

विबलस्य वा नीचगस्य रिक्ता धनहानिदा ४

टीका—जोग्रह निर्बली हो किंवा अपनी नीचराशीमें गयाहो उसकी दशा रिक्तानाम की होतीहै यह धनहानी देनेवालीजानना ४

अनिष्टादशाफल ।

परमनीचगस्यवानोचांशगस्य वारिप्यंशगस्यानिष्टाधनारो-  
ग्यनाशिनी ५

टीका—जो ग्रह परमनीच राशीमें गयाहो अथवा नीचराशीके नवांश में गयाहो किंवा शत्रुराशी के नवांश में गयाहो उसकी दशा अनिष्टा नाम की होतीहै यह दशा धनका और शरीरके आरोग्यका नाशकरने वाली जानना ५

अवरोहिणी दशाफल ।

नीचाभिमुखस्यावरोहिणी कष्टदा सैव मित्रोच्चराश्यात्मां-  
शगस्यमध्यमा ६

टीका—जो ग्रह अपनी उच्चराशीको छोड़कर नीचराशीके तरफ जाने-  
वालाहो अर्थात् अपनी उच्चराशी के भागेकी नीचपर्यतकी छराशी में हो उस की दशा अवरोहिणी नामकी होतीहै यह कष्टदेनेवाली जानना यदि यही अवरोहिणी दशा अपनेमित्र तथा उच्चराशीके अथवा अपनी स्वराशी के नवांशमें गयेहुवे ग्रहकीहोतो मध्यम फलदेनेवालो जानना ६

आरोहिणी दशाफल ।

उच्चाभिमुखस्यारोहिणी शुभदा सैवनीचारीभांशगस्या  
धमल्पशुभदा ७

टीका—जो ग्रह अपनी नीचराशी को छोड़कर उच्चराशी की ओर जानेवालाहो अर्थात् अपनी नीचराशी के भागेकी उच्चराशीपर्यतकी छराशी में गयाहो उसकी दशा आरोहिणी नाम की होतीहै यह दशा शुभफल देनेवाली जानना यदि यही आरोहिणी दशा अपनी नीच तथा शत्रु राशीके नवांशमें गयेहुवे ग्रहकीहोतो अधमा और अल्पशुभफल देनेवालीहोतीहै ७

पूर्वाद्धंशुभापराद्धं मित्रादशाफलं ।

तुंगात्ममित्रभगस्य शत्रुनीचांशगत्वे पूर्वाद्धंशुभापराद्धं मित्रा

टीका—जो ग्रह अपनी उच्चराशी तथा स्वराशी वा मित्रराशिमें गया-  
हो और यदि वह अपनी शत्रु किंवा नीचराशीके नवांशमें होतो उसकी

दशा पूर्वाद्धिमे [ भाधी ] शुभ और उवराद्धिमे मध्यम फल देनेवाली होवेगा ८

शुभदशा ।

मित्रोच्चात्मस्वत्रिकोण वर्गोत्तम स्ववर्गस्यशुभा ९

टीका—जोग्रह अपने मित्रग्रह की राशी में तथा उच्चराशीमें, स्वराशी में या मूलत्रिकोण राशीमें अथवा वर्गोत्तमांसमें ( जन्मकालमें जिस-राशीका ग्रहहो उसीराशीका नवांश में भीहो ) अथवा अपनी स्वरा-शीके दशवर्गमें गयाहो उसग्रह की दशा शुभफल देनेवाली जानना ९

कष्टा दशा

अस्तारि नीच भांशगस्य कष्टा १०

टीका—जोग्रह अस्तकाहो अपने शत्रु ग्रह की राशी और नवांश में गयाहो अथवा नीचराशी और नीचराशीके नवांश में गयाहो उसकी दशा कष्ट देनेवाली अशुभजानना १०

अवरोहिण्यधमाचेत्कष्टा ११

आरोहिणी मध्याचेत्संपूर्णा १२

सदृष्टयुतस्याधिकरश्मेः केन्द्रकोणगस्य शुभान्यथा कष्टा १३

टीका—जिसग्रहकी अधम सज्ञक अवरोहिणी दशा अर्थात् ( जोग्रह अपनी उच्चराशीको उल्लंघन करके नीच राशी के संमुख जानेवाली उच्चराशी में स्थितहोकर ( नीचाभी लापी होकर ) अपनी नीच वा शत्रु राशीके नवांश में गयाहो उसकी दशा नेष्ट [ कष्टदेने वाली समझना ]

जिसग्रहकी आरोहिणी दशा मध्यासंज्ञक अर्थात् जोग्रह अपनी नीच राशीको उल्लंघन करके उच्चराशीके संमुख जानेवाली उच्चराशीमें स्थितहोकर ( उच्चाभीलापी होकर ) अपने मित्र ग्रहकी राशी के वा उच्च राशीके वा अपनी स्वराशीके नवांशमें गयाहो उसकी दशा संपूर्ण उत्तम श्रेष्ठफल देनेवाली समझना १२

जोग्रह शुभग्रहसे दृष्ट और युतहो अधिक बलवात्र हो जिसकी उच्च राशि अधिक भाईहो जोकेन्द्र वा त्रिकोण स्थान ( १४/७/१०/१५ ) में गयाहो उसकी दशा शुभफल देनेवाली जानना और इससे विपरी

त स्थितिमे गयाहुना होतो उसकी दशा कष्टदेनेवाली नेष्टजानना ।  
 अर्थात् जो ग्रह पापग्रहसे युत और दृष्टहो निर्बली, भस्तंगत, नीच,  
 वा शत्रुगती गत किंवा राशिसंधिमे भयत्रा भावमंथीमे गयाहो घूर-  
 पष्टचशमे वा पापाशमे गयाहो २।३।६।८।११।१२ इनठभावोमले किसी  
 भी भावमे गयाहो उसग्रहकी दशा कष्टदेनेवाली होवेगा १३

लग्नदशाफल.

लग्नदशा चरभेगे द्रेष्काणक्रमाच्छ्रेष्ठामध्याधमा द्विस्व-  
 भावेव्यत्ययेन स्थिरेनेष्टेष्टसमा १४

टीका-लग्नकी महादशा यदि चरराशी का लग्नहोतो द्रेष्काणके  
 क्रमसे अर्थात् चरराशीका लग्न प्रथम द्रेष्काणमे होतो उसकीदशा  
 श्रेष्ठ दूसरे द्रेष्काणमे होतो मध्यम और तीसरे द्रेष्काणमे होतो भध-  
 म फल देनेवाली, एवं द्विस्वभावराशी का लग्न यदि प्रथम द्रेष्काणमे  
 होतो भधम दूसरेमे मध्यम तीसरे द्रेष्काणमे होतो श्रेष्ठ फलदेनेवाली  
 और स्थिरराशीका लग्नहोतो यदि वह प्रथम द्रेष्काणमेहोतो नेष्ट  
 दूसरे द्रेष्काणमे होतो श्रेष्ठ तीसरे द्रेष्काणमे होतो मध्यमफल देनेवाली  
 दशा जानना १४

वक्रगतिस्वग्रहदशाफलं ।

वक्रगस्यपाके स्थानमान सौख्याद्यपचयः १५

टीका-जोग्रह वक्रगतीका हो उसकी दशामे स्थानमान सुखादिक  
 का ह्रास होवेगा एसाजानना १५

त्रिकेतरगस्यपाके भीष्मसिद्धिः १६

भाङ्गेशरिपुपाके बुद्धिभ्रंशो राजभयंच १७

राहयुतस्य दशारिष्टदा १८

रन्ध्रगाङ्गेशस्यपाके तिपीडा १९

इष्टाधिकस्यश्रेष्ठा कष्टाधिकस्यनेष्टा सप्तस्यसमा २०

दिग्बलोपेतस्य पाके महाप्रतिष्ठास्वादिग्भागे २१

जातकतत्व.

टीका-त्रिकस्थान ६।८।१२ के विना अन्यस्थान में १।२।३।४।५।७-  
 ९।१०।११ गयेहुवे ग्रहकी दशामे अभीष्टकार्य की सिद्धिहोतीहै १६  
 जन्मराशी और लग्नके स्वामीका जोग्रह शत्रुहो उसकी दशामें  
 बुद्धिभ्रंश और राजभय होताहै १७  
 जोग्रह राहुसे युतहो उसकी दशा कष्टदेनेवाली होतीहै १८  
 अष्टम स्थानमें गयेहुवे लग्नेश की दशा शरीरमें अतिपीड़ादायक  
 होतीहै १९  
 जिसग्रहका इष्ट ( केशवीपद्धतीके अनुसार ग्रहों का जो इष्ट कष्ट  
 फल लायाजाता है वह इष्ट ) यदि अधिकहोतो उसकी दशा श्रेष्ठ  
 और कष्ट फल अधिक होतो उसकी दशा नेष्ट और यदि मध्यम  
 [दोनो इष्टकष्टबलसमान] होतो सामान्य मध्यमफलदेनेवालीहोतीहै २०  
 जोग्रह दिग्बल से युक्तहोताहै उसकी दशामे महा प्रतिष्ठा और  
 भाग्यकीवृद्धि जिसदिशाका वहग्रह स्वामिहो उसदिशामे होतिहै २१  
 दिशाके स्वामि वृहज्जातकमेंलिखेहै 'प्रागाद्या रविशुक्र लोहित तमः  
 शौरिदु वित्सूरयः अर्थात् पूर्ण कास्वामी रवि, अग्नि कोणका शुक्र,  
 दक्षिणका मंगल, नैऋतकाराहु, पश्चिमका शनि, वायुकोणका चंद्र, उत्तर  
 का बुध, और ईशान कोणका गुरु, स्वामिहै तदनुसार जानना ।  
 भावेश दशा फल.

लग्नेश दशाबल धनदा २२

धनेशदशा कष्टार्थदा २३

सौत्यपपाके प्रायेण नेष्टफलम् २४

सुखेश पाके गृहादिसुखं २५

सुतेशदशा विद्यार्थदा २६

पक्षेशदशा रिपु भयदा २७

जापेशदशाशोकदा २८

मृत्युपदशायां मृत्यु २९

धर्मेश दशायां धर्मक्रिया ३०

स्वेशदशा नृपाश्रयार्थदा ३१

लभेशदशा लाभदा ३२

व्ययेश दशार्थ हानि कष्टदा ३३

टीका—लग्नेश की दशा बल और धनके देनेवाली श्रेष्ठहोतीहै इस दशामे स्त्री कोपीड़ा भी होतीहै २२

धनेशकी दशा कष्ट ( शरीर में पीड़ा तथा मरण ) और धनलाभ देनेवाली तथा स्त्री को पीड़ा करने वाली होतीहै २३

तृतीयेश की दशा बहुधानेष्टफल देनेवाली ही निकलतीहै तथा भाई की स्त्रीकोभी पीड़ादेतीहै २४

सुवेशकी दशामे घर वाहन चतुष्पद माता मित्रा दिक का तथा देह का सुखहोताहै और प्रायः पिताके शरीरमे कष्टभीहोताहै २५

पंचमेशकी दशामे विद्याप्राप्ती और धनकालाभ तथा सन्मान वृद्धि सुवृद्धिवृद्धि माताका मृत्यु वा माताको पीड़ा होतीहै २६

षष्ठेशकी दशामे शत्रुका भय और रोग वृद्धि तथा पुत्रको पीड़ा होतीहै २७

सप्तमेश की दशा शोक देने वाली तथा शरीरमे पीड़ा करनेवाली होतीहै २८

अष्टमेश की दशामे मृत्यु भय होताहै तथा स्त्री की मृत्यु वा विवाह भी होताहै २९

नवमेश की दशामे तीर्थ यात्रा देव दर्शन यज्ञ तथा कन्यादानादि धर्म कार्य और भाग्योदय होताहै ३०

दशमेश की दशामे राज्याश्रय की प्राप्ती और धनकालाभ तथा मान वृद्धि सुखोदय होताहै तथा माता के देहमे पीड़ा भी होतीहै ३१

लभेशकी दशा धनलाभ देनेवाली और पिताकी मृत्यु कारक होतीहै ३२

व्ययेश [ चारमे भावके स्वामि ] की दशा धनहानी और कष्टदायक होतीहै ३३

अंतरदशाफल ।

पापदशायां पापान्तरे शत्रुतोर्यहानि महाभयम् ३४

अन्योन्यपष्ठाष्टमगयो रन्तरे महाभयम् ३५

पाकेशात्रिकग्रहस्य भुक्तौ स्थानच्युतिर्हानिश्च ३६

पापपाकेशुभांतरे आदौकष्टंततः सुखम् ३७

शुभपाके शुभांतरे सुखम् ३८

शुभपाके पापांतरे आदौसुखंततोभयम् ३९

रिपुयुक्पापस्य पापदशांतरे विपत् ४०

टीका-पापग्रहकी महादशामे पापग्रहकी अंतर्दशा जबआतीहै तबशत्रु के सबसे धनकी हानि और महाभय होताहै ३४

पूर्णचन्द्रमा शुभयुत बुध और गुरु शुक्र ये शुभग्रह औरक्षीणचन्द्रमा पापयुतबुध व शनि भंगल राहु केतु ये पापग्रह यद्यपी माने गयेहै तथापि ग्रहोका शुभाशुभ निर्णय उट्टदायप्रदीपानुसार उक्तपापग्रहभो केद्रका स्वामिहोतोशुभ औरशुभपाप सर्वग्रह त्रिकोणके (९।५ के) स्वामिहो तो शुभग्रह मानेजातेहै और तीसरे, छठे, ग्यारमें, तथा आठ मे स्थानके स्वामे पापग्रह तथा दूसरे वारवे स्थानकेस्वामि शुभहोकर पापसंबंधी होतो पाप और पाप हाकर भी शुभका संबंधी होतो शुभफल दाता स्थान तथा संबंध से होता है तदनुसार विचार करनेसे जो शुभ पाप ग्रह हो वह शुभ और पाप जानना ।

जो ग्रह परस्पर एकदूसरेसे छठे आठमे स्थानमे गयेहो उसकी अर्थात् जिसग्रहकी महादशाहो उससे छठे किवा आठमे स्थानमे गयेहुवे ग्रहकी अंतर्दशा मे महाभय कष्टरोग स्थानच्युति आदिनेष्टफल होताहै ३५

जिसग्रहकी महादशाहो उससे त्रिकस्थान ६।८।१२ मे गयेहुवे ग्रह की अंतर्दशा मे स्थानच्युति ( स्थान छुटजाना ) और धनकी हानि होतीहै ३६

पापग्रहकी महादशामे शुभग्रहकी अंतर्दशा होतो वह अंतर्दशा पहिले आधी कष्टदेनेवाली और उतरती हुई आधी सुखदायक होतीहै ३७

शुभग्रहकी महादशामे शुभग्रहकी अंतर्दशा होतो उसमे सुख पुद्धि धनागम होताहै ३८

शुभग्रहकी महादशामे पापग्रह की अंतर्दशाहोतो यह अंतर्दशा पहिले ( पर्वार्ल मे बैठती हुई ) आधी सुखादि शुभफल और उतरती हुई [ उत्तरार्द्धमे ] आधीभय देनेवाली होतीहै ३९



पापग्रह की महादशा में अपने शत्रुग्रह से युक्त पापग्रहकी भंतर्दशा होतो उसमें विपत्ती प्राप्त होतीहै ४०

दशातर्दशा प्रवेश समय वसात्युभाशुभ फल विचार ।

दशान्तर्दशाप्रवेशलग्नाः खेटाःस्फुटाःकार्याः ४१

तत्रपाकेशो वा शुभलग्नोपचयगे दशाश्रेष्ठा ४२

अंगेपाकपमित्रवर्गे वा शुभवर्गेदशाशुभा ४३

प्रवेशोस्वर्क्षगेचंद्रे मानार्थसुखं सिहेन्नसुखं भौमभेकलहर्ण-

ज्ञभेविद्यार्थाति जीवभेकपिमानार्थसुखं शुक्रभेकदार मान

यशोर्थाति भन्दभेसेवा ४४

त्रिकेतरस्थे सवलेचंद्रेदशाश्रेष्ठा ४५

मुख्यदेशोच्च मित्रस्वभस्थः सन्देशशाधिष्ठित राशि

त उपचय त्रिकोणास्तगभेच्चन्द्रः शुभफलदोन्यथानेष्टः ४६

चंद्राधिष्ठितो राशिर्जन्मनियन्त्राव गस्तद्रावोत्थंशुभमशुभं

वाज्ञेयम् ४७

विपत्कर्तृदशारम्भे सर्वाधिकबलः कोपिसहर्गगः शुभमित्रदृष्ट

श्वेन्नविपत् ४८

टीका—महादशा तथा भंतर्दशाके प्रवेश समयमें अर्थात् दशाभंतर्दशा

जिससमय प्रवेश हो उस समयके स्पष्टग्रह लग्न और भाव, चलितादि

करना और उसपरसे दशान्तर्दशा का शुभाशुभ फल ज्ञान करना ४१

दशाप्रवेश समयके लग्नकुंडलीमें देशेश ( जिस ग्रहकी दशातर्दशा

प्रवेशहो वह ) अथवा शुभग्रह लग्नमें तथा उपचय ३६।१०।११ स्थान

में गयाहो तो वहदशा श्रेष्ठफल देनेवाली होतीहै ४२

दशाप्रवेश समयके लग्नमें यदि जिसग्रहकी दशाप्रवेशहुई हा वस

ग्रहका और उसके मित्रग्रह का वर्गहो अथवा शुभग्रहाकावर्ग होतो

वह प्रवेशहुईदशा शुभफल देनेवाली समझना ४३

जिसदिन जिससमय दशाप्रवेश हो उस समयका चंद्रमा यदि स्वराशी (४) का होतो मान धन और सुखका लाभ होवेगा, यदि सिंह राशीका होतो भद्रका सुख होगा, मंगल की राशी १८ का होतो कलह [ लड़ाई ] और ऋण [ कर्जा ] बढ़ेगा, बुधकी राशीका ३६ का होतो विद्या की और धनकी प्राप्ती होगा, गुरुकी राशी ९१२ का होतो कृषि [ खेत ] मान, धन, और सुख, की वृद्धि होगा। शुककी राशा २७ का होतो कुदारा [ खराबखी ] से संग और मान यश धना १६ककी प्राप्तीहोगा। शनि की राशी १०११ का होतो सेवाका सुख होगा [ सेवाकरने करानेका सुख मिलेगा ] ४४

दशाप्रवेश समयका चंद्रमा चलवानहोकर यदि प्रवेशसमय की लग्न कुंडलीमें त्रिकस्थान ६८१२ के विना अन्यस्थान १२३४५७-७१२०१२ में गयाहोतो वह दशा श्रेष्ठफल देनेवाली जानना ४५

जिसग्रह की दशा प्रवेशहो वह मुख्यदशाका स्वामी यदि दशाप्रवेश समयमें अपनी उच्चराशी मित्र तथा स्वराशी में स्थित होकर दशा-प्रवेश लग्न कुंडलीमें जिसभावमें गयाहो उसभावस्थित राशीसे उपचय ३६१०११ तथा त्रिकोण ९५ स्थानमें तथा सप्तम भावमें चंद्रमा गयाहो तो वह चंद्रमा दशाका फल [ जिस गृहीदशातर्दशा प्रवेशहो उसका फल ] शुभदेवेगा और इससे विपरीत [ १२३४५ ८१२० स्थानमें गया ] हो तो नेष्टफल होवेगा ४६

दशाप्रवेश समयका चंद्रमा जिसराशीमें गयाहो वहराशी जन्म कुंडलीमें जिसभावमें गईहो उसभावजनित जो शुभ अथवा अशुभफल चंद्रकाहै उसीकेसमान शुभाशुभफल जानना। उदाहरणार्थ कल्पनाकरो वह चंद्रमा धनभावमें गयाहै और धनभावमें चंद्रमा शुभफलदाताहै तो दशाप्रवेशसमय में भी वह चंद्रमा शुभफलदाता होवेगा। एवं वह चंद्रमा अशुभफलदाताहै तो दशाप्रवेशमेंभी अशुभफलदेगा।

विपत्ति करनेवाली [ अशुभफलदेनेवाली ] दशाप्रवेशहो उससमय यदि कोई ग्रह सर्वग्रहोंसे अधिक चलवान होकर हस्तहोके वर्गमें गयाहो और शुभ तथा अपने मित्रग्रहसे दृष्ट हो तो विपत्ति नहींहोगा ( अशुभफलनहींहोगा ) एवं उपरोक्तक्षणशब्दा सर्वाधिकवलीयह अशुभफलदायक दशाके स्वामिको देखनाहोतो अल्प अशुभफल नहींहोगा ४८

ग्रहचारवशेन भष्टवर्गज शुभाशुभफलविचार ।

जन्माङ्गचन्द्रान्यतरतश्चारवशेनोपचयगोत्रहश्चे न्मित्रोच्च  
मूलत्रिकोणाभितो ष्टवर्गजंशुभंपूर्णमशुभंस्वल्प दिशतिअन्य  
थानेष्टं पूर्णशुभंस्वल्प तत्रापितारतम्यात्कथनीयम् ४९

टीका-जन्मलग्नसे अथवा जन्मके चंद्रमासे जोशहराशीके भ्रमण  
वशात् उपचयस्थान ३।६।१०।११ मेषयाहो और अपने मित्रग्रहकी  
राशीमे तथा उच्च अथवा मूलत्रिकोण राशीमेगयाहो वह ग्रह यदि भष्ट  
वर्गमेभीशुभफल देनेवाला ( अधिकरेसैक्ययुत ) होतो शुभफलपूर्णदेवेगा  
और अशुभफल स्वल्पदेवेगा और विपरीतहोतो अर्थात् जन्मलग्नसे अथ-  
वा चंद्रमासे अनुपचयस्थान १।२।४।५।७।८।९।१२ मेषयाहो और शत्रु तथा  
नीच राशीमे गयाहो अथवा भस्तकाहो पापयुतदृष्टहो और भष्टवर्गमे  
अशुभफल देनेवाला ( स्वल्परेसैक्ययुत ) होतो नेष्टफलपूर्ण और  
शुभफलस्वल्पदेवेगा इनमे शुभाशुभफलके तारतम्यभेदसे विचार करके  
शुभाशुभफलग्रहोका गोचर विचारसे कहना ४९

इसपद्धतीसेही ग्रहोका राशीभ्रमणद्वारागोचर से शुभाशुभफल विचा-  
र जन्मलग्न और जन्मस्थचंद्रसे पाश्चात्य विद्वान गण भी वर्ष मास  
दिन घटीपर्यंत का करतेहै और वास्तव मे इसप्रकार विचार करना  
दशाफलविचाकी अपेक्षा अधिकसुगमऔर सरल व युक्तियुक्त प्रतीत-  
होताहै मेने स्वयंअनुभवकरकेदेखाहै कि उपरोक्त सूत्रानुसार ग्रहोका-  
फल विचारकरनेसे बराबरशुभाशुभफल मिलतेजातेहै ।

अनुभूतिप्रदन्नाम ज्योतिषंशास्त्रमुत्तमम् ।

निगमान्निर्गतं लोकबंधं विजयतेतराम् १

जैमिन्यायुक्तिः सारंनवनीत मिबोद्धृतं ॥

महादेवेनविदुषा स्वादयन्तुसुबुद्धयः २

टीका-वेदसेनिकलाहूवा ( वेदाग वा वेदकाचक्षुरूपशास्त्र ) और  
सर्वलोकोसे बंदित ( समानित ) प्रत्यक्ष अनुभवको प्रदर्शितकरनेवाला

ज्योतिषनामका जो उत्तम शास्त्र है वह विजय ( विशेषजय ) को प्राप्त होतारहो १

ग्रंथकर्ता महादेवजी विद्वद्ग्रन्थ लिखते हैं कि जैमिनी भादि मुनिवर्यो ने जो फलविचारके लिये अनेक ग्रंथ लिखे हैं उनका सार ग्रहण करके जैसे दहीमें से मक्खन निकालते हैं वैसे ही अनेक ग्रंथोंमें से नवनीत रूपयह ग्रंथ निकाला है इसका स्वाद सुबुद्धिवाले विद्वानगण छेंते रहे ॥ २

इति महादेवकृत जातकतत्त्वे दशातत्त्वं पञ्चमम् ५

इति श्री गणकवर्य श्रीमन्महादेवकृत जातकतत्त्वाख्य जातकग्रंथे तन्मूनु श्रीनिवासरचित तत्त्वप्रदर्शिनि भाषाटीकायां दशातत्व पञ्चमं ५ समाप्तः ।

ग्रंथकर्ताका निवास स्थान और ग्रंथसमाप्ति का समय वर्णन ।

गद्यम् ।

त्या जनितशीपोत्सवसुखं चन्द्रचुम्बिना प्रसादिना प्रसादेन  
जनितजननयनानन्द प्रतिकूलवद्धपूलेन निरस्तप्रावृषिज  
वृजिनौघं वर्वर्त्यत्र वसता पराशरवंश्यपाठक रेवाशङ्करसुनुनो  
दुम्बरेण महादेवेन विष्णुसहायेनाष्टाविंशदधिकैकोनविंशतिश-  
ततमेविक्रमवत्सरे ( १९२८ ) फाल्गुनशुक्लपञ्चम्यां जातकतत्वं  
नाम ग्रन्थोनीतः पूर्णताम् ।

तात्पर्य-भवंतिकापुरी जिसको उज्जैन कहते हैं उससे पश्चिममे दृयोजन  
[ २४ कोश ] पर राठोटकुलभूषण श्रीमद्रलवंतसिंहजी महाराजाके पुत्र  
भैरवसिंहजीके पुत्र श्रीमद्रणजीतसिंहजी माहाराजासाहबकी राजधानी  
का रतलाम शहरहै जिसका साशन उक्त माहाराजाकीसुकुमारावस्था  
होनेकेकारण उनकी औरसे सहायकरूपसे अतीधीर गंभीरस्वभावके  
सुन्दरदर्शावधारवान । श्री० सहामतभलीजी [ सुप्रिन्टेन्डेन्ट ] साहब  
बड़ीचतुरतासे सुन्दरबगीचा तथा उत्तमपाठशाला ( संट्रलकालेन )  
अतिविशाल राजभवन ( महल ) और बड़ी बड़ी भेनेक सड़के पुले तथा  
उत्तम रोशनीका प्रबंधादि भेनेक दर्शनीय शहरको शोभा देनेवाले मनो  
रंजक कार्यकी योजनाकरकेन्यायानुसारकार्यचलारहेहै ऐसे सुन्दर नगर  
मेनिवासकरनेवाले उदुंबर झातिय पाराशर गोत्रमे उत्पन्न पाठकोपनाम  
वाले रेवाशंकरजी के पुत्र महादेव शर्माने विष्णुशास्त्रीजी की सहा  
यतासे विक्रम सम्वत् १९२८ के फाल्गुन शुक्ल पंचमीके दिन यह-  
जातक तत्त्व नाम ग्रंथ संपूर्ण किया ।

\*लोक-भासीद्वत्नपुरे पराशर कुलोत्पन्नो द्विजोदुम्बरः । रूपातःपाठक  
नामतो गुणनिधिः श्रीनन्दरामाभिधः ॥ तत्सूनुर्गणितानामज्ञतिलकः  
श्रीमोतीरामाह्वयो । रेवाशङ्कर भागमेषुनिपुणस्तस्माद्भूद्भार्मिकः ।  
तदात्मजउदारधी गणकमौलि चूडामणि । रभूद्भरणिमंडले गुणनिधि-  
महादेववित् ॥ तदङ्गजनपु मधो नगगुणाष्टचंद्रैर्मिते शकेबिनिरमादिदं  
विवरणं सतांप्रीतये २

२१३६२ " भाषाटीकासहित श्यायंघंथस्तमातः ।

भगुद्धगुद्धपत्रम् ।

पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं
१	१७	कीट	कटि	१०	१	चंद्रार्कज्या	चंद्रार्कज्या
२	१०	राव	रवि	११	७	सूर्य है	सूर्य है
२	१४	चरस्थि	चरस्थि	१२	१२	दर्शनीवपु	दर्शनीवपु
२	१९	तल	तुल	१२	२३	४७	४८
३	९	दावाः	द्रावाः	१३	४	सुहृद	सुहृदः
३	१९	चंर	चर	१३	१७	भौमशत्रु	भौम]शत्रु
४	२	हारा	होरा	१४	३	मे त्रिसाधन	मैत्रिसाधन
४	१४	ढाई	भटाई	१५	१६	योजनपं	} योजनै पंलेयुतो
५	३	द्विस्व	द्विस्व		लर्युतो		
५	१४	टीक	टीका	१७	११	२ रा०जान	२ रानान
५	२५	रह	रहे	१८	१८	७२	७१
६	१७	ष्टयंशे	षष्ठ्यंशे	१९	१२	इसकरण	इसकारण
६	१९	प्तात	त्पात	१९	१५	भवस्याने	भवस्यामे
७	२	षष्ठ्यंशे	} षष्ठ्यं- शेशघोर	१९	१७	स्वोच्च-	} स्वोच्चगो दिप्तः
	५	गिननेस		गिननेसे		गोदिप्त	
७	५	षष्ठ्यंशे	} षष्ठ्यंशे होवे	१९	२५	पिहित	} पिहित संज्ञक
	५	षष्ठ्यंशे		होवे		संज्ञक	
७	६	षष्ठ्यं शेष	षष्ठ्यंशे	२०	२३	वेष्टितो	वेष्टितो
७	१९	दष्टा	दंष्ट्रा	२१	३	प्रसंगसे	प्रसंगानुसार
८	१८	कइतेहै	कइतेहै	२१	८	होवे	होवे
८	२०	२९ भंश	२९ मा भंश	२१	१०	सह	सिंह
८	२३	तल	तुल	२१	१०	होता	होतो
८	२३	त्रधिक	वृश्चिक	२१	१६	मकर-	} मकरका पूर्वाह्न
९	१६	यपापग्रह	येपापग्रह		पूर्वाह्न		
९	१९	बुध गुरु	बुधगौरुगुरु	२२	२	हाताहै	होताहै
९	२१	संज्ञक	संज्ञक	२२	४	स्ते पूर्ण	स्ते पूर्ण
				२२	४	जन्म	जन्मः
				२२	६	स्वामुत्थेजलपत्रेजन्मः	स्वामुत्थेजलपत्रेजन्मः

पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं
२२	२१	रेताकी	रेतीकी	३१	२७	भयां २९	भयांत् २९
२२	२३	जन्म	जन्मः	३१	३०	बलक	बालक
२२	२६	देखता हावता	देखता होवेतो	३२	४	शीब	शीघ्र
२३	४	गोकला	गोकुला	३२	१३	से होवे	सेदृष्टहोवे
२३	५	शि पालये	शिल्पालये	३२	१९	तुल्य	तुल्य
२३	८	हावता	होवेतो	३२	२१	सौम्या	सौम्या
२३	२२	होवे	होवे	३३	५	भार	भौर
२४	१	ग्रहमेस	ग्रहमेसे	३४	८	लग्न- द्रेष्का	लग्नके द्रेष्का
२४	७	सूर्यपिता	सूर्यपिता	३४	२६	९०	९१
२४	१४	योगः	योगः	"	२७	९१	९२
२४	१५	सर्वे	सर्वे	३५	५	शराशि	राशी
२४	२०	दृष्ट	दृष्टे	३५	१७	गुरुस	गुरुसे
२४	२२	मार्गम जान	मार्गमे नन्मजान	३८	८	सबले	सबले
२५	१६	शीर्षा	शीर्षा	३८	२३	दपापघ हसेदष्ट	पापग्रह सेदष्ट
२५	२४	चंद्रमासे	चन्द्रमासे	३९	१४	शुक	शुक
२६	१०	जोग्रह	जोग्रह	३९	२८	हावे	होव
२६	२७	शिर	शिर	३९	३०	सर्वारिष्ट	सर्वारिष्ट
२८	१७	प्रसहुवा	प्रसबहुवा	४१	११	स्वमि	स्वामि
२८	१७	सप्तम- ७म स्या	सप्तम ७स्या	४१	१६	भार	भौर
२९	१	छटे	छटे	४४	६	युक्त	युक्त
३०	१३	युक्त	युक्त	४४	९	नन्दाशप	नन्दाशप
३१	८	होवेता	होवेतो	४४	१७	पृकृती	प्रकृती
३१	९	पापग्रहे	पापग्रह	४४	२३	श्रमन्म	श्रीमन्म
				४७	१०	नवाशम	नवाशमे
				४८	६	ता( दुर्बला )	तोदुर्बल
				"	"	देहमनप्य	देहमनुष्य

पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं
५०	१८	सूर्य	सूर्य	६८	९	पापदृष्टय	पापदृष्टय
५०	२२	हस्व	हस्व	६९	१७	छटे	छटे
५१	१	तुष	तुष्ये	७०	१०	म्लेञ्जो	म्लेञ्जो
५१	१६	वैशि	वैशि	७२	८	लगनेसे	लगनेसे
५३	२४	होताहै	होताहै	७३	७	घारव- स्थानम	घारव- स्थानमे
५४	१६	इन्द्रको	इन्द्रको	७४	१६	लग्नश	लग्नश
५६	४	कारकांसश	कारकांसश	७५	३	सूर्य	सूर्य
५६	११	व्यवीर्ये	व्यवीर्ये	७५	१७	कुर्जेग	कुर्जेगे
५६	१९	होवेना	होवेतो	७६	१४	सेक नेसे	सेकनेसे
५८	१८	होवेने	होवेतो	७७	९	शीन	शानि
५९	२९	सः संबंध	संबंध	"	११	वा में	घारमें
६०	२२	होनौह	होताहै	"	१४	स्थानम	स्थानमें
६३	१९	लगनेशैना	लगनेशनी	"	८	मगळ	मंगळ
६३	२७	चंद्राको	चंद्राको	७८	२२	उखाडे	उखाडे
६४	१५	सूर्य	सूर्य	"		जावे	जावेगे
६४	२३	विबहल	विबहल	७९	७	दखते	देखते
६४	२६	शीध	शीध	"	२४	यनेत्र	येनेत्र
६४	२७	शीध	शीध	"	२८	गंधकार	गंधकारने
६५	१	गुरु	गुरु	"		ननेत्र	नेत्र
६५	६	होताहै	दिखनेवा- लाहोताहै	८०	१	हाताहै	होताहै
६५	१५	विशेष	विशेष	"	१	भनएवएस)	भतएवरेसे
६५	२२	वामि	वामि	"	५	पत्र	पुत्र
६६	२८	चर	चरराशि	"	६	पुत्ररूपुत्र	पुत्ररूपुत्र
६७	८	दखते	देखते	"	१८	पुर्गेहु	पुर्गेहु
"	२५	होव	होने	"	२७	बाधेर	बाधेर
"	२७	शभग्रह	शुभग्रह	८१	९	ताप	तपा
६८	१	धी होताहै	धी रहोताहै	८२	२०	दिजाय	द्विजाय
"	६	शुनयोग	विशुनयोग	८४	१२	हुहु	हुहु



पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं
८६	४	पाप इ	पापग्रह	१००	४	स्वच	स्वच्छ
"	१८	वचल	विवले	"	२५	शुक	शुक
८७	१७	जाव	जावे	"	२८	भयवा	भयवा
"	१८	दात	दात	१०१	१४	गुरु	गुरु
८८	२६	जण्ड	जाण्ड	"	१५	गुरु	गुरु
८९	३	होवेता } वायसे }	होवेता वायुसे	१०२	२४	हानेका	हानेका
८९	५	होव	होवे	१०३	१३	चतुष्पद	चतुष्पद
"	६	वृद्धि	वृद्धि	"	२७	बनाव	बनाव
"	१४	होतीह	होताहै	१०४	५	चतुर्थ	चतुर्थ
९०	१६	ग्रहासे	ग्रहासे	१०५	१	लोग } भगवे }	जोलोग, भगवे
"	१७	पड्डा	पीडा	"	६	मिले	मिलताहो
९०	१९	शिवाय	सिवाय	"	१७	कारणः	कारण
"	२०	यागोके } शिवाय }	योगोके सिवाय	"	२४	होत,नही	होतीनही
"	२२	सालका	सालेका	१०७	५	युतो	युतो
९२	७	क्रोध	क्रोध	"	१३	ग्रहोवे	ग्रहोवे-
"	८	कुलपीले	कुलपीले-	१०९	२६	महाधनी } होताहै }	महाधनी होताहै
"	८	मुख	मुख	११०	१	गुरु	गुरु
"	१०	निग्रही	निग्रही	"	१०	स्वराशी	स्वराशी
"	१३	राशीके	राशीके	"	१२	कावध	कावध
"	१६	राव	रवि	"	२४	हाताहै	होताहै
"	२९	मातसे	मातामे	१११	४	स्वामि	स्वामि
९३	१६	पटिक	स्फटिक	११३	१४	स्वमी	स्वामी
"	२४	विद्य	विद्या	११४	१८	शतयुत	शयुत
९४	८	राी	राशी	११९	१९	पष्ट्यंशे	पष्ट्यंशे
९५	३	तावेमें	तावेमें	११९	२२	पष्ट्यंश	पष्ट्यंश
"	५	सेनापति	सेनापति	१२०	१	नीचेक	नीचेकें
९६	२४	घाजवीकी	घाजवीकी	१२३	९	निर्धन	निर्धने
९९	१	चर्वी ब	चर्वीब				

भगुद्धशुद्धपत्रम् ।

पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्ध	शुद्ध
१२४	९	दग्दित्री	दरिद्री	१४२	२२	कमकाडा	कर्मकांडा
"	११	हावेतो	होवेतो	१४४	८	बचनेवाला	बचनेवाला
"	१३	हावे	होवे	"	१७	हरके	हरके
"	१६	सपत्तमान	संपत्तिमान	"	२८	राशाका	राशीका
१२५	९	यतहोवे	युतहोवे	"	२९	करक	करके
"	१७	चतर्थ	चतुर्थ	१४५	१४	राशिम	राशिमै
१२६	२३	पनेवाला	पानेवाला	"	२४	त्रिवेक	त्रिवेकस्य
१२९	१४	मनी	मेभी	१४७	१९	होवेतो	होवेतो
१२९	२८	बदलाता	बदलातो	१४८	१९	बधगो	बधयोग
१२९	३१	तरेसे	तरहसे	१४९	३	होवतो	होवेतो
पृष्ठांक	२२९-२३०		१२९-१३०	"	१४	शुभेक्षित	शुभेक्षित
	२३१-२३२		१३१-१३२	"	२२	मतायोग	मातायोग
१३१	७	विवेक	विवेकस्य	"	२६	चतु प्पद	चतुष्पद
		टीका	टीका	१५०	२५	त्रिशद्वर्ष	त्रिशद्वर्ष
१३२	१	दृष्ट	दृष्टे	१५१	९	जन्मलसे	जन्मलग्नसे
"	२	लाभे	लाभो	"	१२	कद्र	कद्र
"	२९	भार	भौर	१५२	४	केद्र	केद्र
पृष्ठांक	२३३		१३३	"	९	वयसोः	वयसी
१३४	४	पृष्ठचो	पृष्ठचो	"	१५	भार	भौर
पृष्ठांक	२३६		१३६	१५३	१९	गुप्तश	सुक्षेश
१३६	२२	दोके	दोकेतया	"	२२	गठ	गुठ
१३७	४	स्थानमें	स्थानमें	"	२	स्तपें	स्तुपें
१३८	१९	मेपचंद्र	मेपचंद्रे	१५४	२	गुरु	गुठ
"	२५	हावेतो	होवेतो	"	१७	गुरु	स्थानमे
१४०	११	वृत्ति	वृत्ति	१५५	५	स्थानम	श्रादयो
"	१४	द्वर्ति	द्वर्ति	१५५	११	श्रावदयो	कुंडलीमे
१४१	४	वृत्तिः	वृत्तिः	"	१३	कुंडलीम	लग्नसे
"	६	वृत्तिः	वृत्तिः	"	२७	लग्नत	शानिसे
"				१५६	१९	शानिस	

पृष्ठ	पक्ति	भशुधदं	शुधदं	पृष्ठ	पक्ति	भशुधदं	शुधदं
१५८	२०	भनुभवार्थ	भनुभवार्थ	॥	११	पुत्रसे	पुत्रेशे
१५९	१८	लग्नय	लग्नये	॥	१२	सूर्ये	सूर्ये
॥	२३	इनतीभाव	इनतीनोभाव	॥	१७	सूर्ये	सूर्ये
१६०	२१	हावतो	होवेतो	॥	२८	नीचगे	नीचगे
१६१	८	चतुर्थेश	चतुर्थेश	१८१	९	चतुर्थ	चतुर्थ
१६२	१६	जावता	जावतो	॥	११	भावमे	भावमे
१६४	३	स्वराशिम	स्वराशिम	॥	२३	शानि	शानि
॥	१२	काशमे	काशमे	१८२	४	छटे	छटे
१६५	४	चतुर्थ	चतुर्थ	१८२	१८	थे सूर्ये	थे सूर्ये
१६५	८	टीका चतुर्थ	टीका-चतुर्थ	१८२	२३	कुनक्षे	कुनक्षे
१६६	६	पचका		पुनको	१८३	२९	राशा
१६६	८	व्यपार	व्यापार	१८६	१२	भार	भोर
१६६	२३	गुरु	गुरु	॥	२१	मुखदोषे	मुखदोषिगा
१६७	७	पेरिहित	पेरिहित	॥	२८	पञ्ज	पुत्र
॥	१८	दृष्टो	दृष्टो	१८९	१४	सुखकी	सुखकी
१६८	१३	सदृष्ट हावेबुद्धि	सेदृष्टहोवे- तोबुद्धि	॥	१६	पंचमे	पंचमे
१६८	२४	पचमेश		पचमेश	नोटमे-पं०१	मे मप्ति	प्राप्ति
१६८	॥	बुद्धि	बुद्धि	१९०	२४	गघ	गया
१६९	८	बुद्धि	बुद्धि	१९१	१२	पत्राप्ति	पुत्राप्ति
१७०	२	दानो	दानो	॥	२०	शुभग्रह	शुभग्रह
१७०	२०	गपहाव	गपेहोवे	१९२	६	हुवा	हुवा
नोटमे-पं०१	मे६-१८-३		६-१८-३०	॥	८	सभावस्ता	सभावस्था
१७१	१	कारकाश	कारकाश	॥	२९	नीचका	नीचका
१७३	१७	होव	होवे	१९३	१८	ग्रह	ग्रह
१७६	२	धनस्था	धनस्थ	१९४	१	केतगया	केतुगया
१७६	१२	त्रिकाण	त्रिकोण	॥	२२	शुक्र	शुक्र
१८०	१०	मन्दाशे	मन्दाशे	१९५	२८	भौर स	भौरस
				१९७	१९	भाईकेप्ता	भाईकेसा

पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भगुद्धं	शुद्धं
२००	९	पिठिका	पीठिका	२३५	२३	सन्धो	सन्धौ
२०१	५	फेडा	फोडा	२३६	११	व्ययेकजे	व्ययेकुजे
	६	केतु	केतु	२३७	६	विवाह	विवाह
	१६	जख	जखम	२३७	११	सयं	सूर्य
	१७	गल	मंगल	२३८	१३	स्थल	स्थल
	२७	वष्टेश	वष्टेश	२४१	२६	मद	मदे
२०२	२४	लग्नेश	लग्नेश	२४३	१४	व्यापर	व्यापार
२०५	१६	छटे	छठे	२४४	९	केन्द्रेवा	केन्द्रेवा
	१३	नाभिगेगी	नाभिरीगी	२४५	१३	दीर्घाय	दीर्घायु
२०७	७	भठमे	भाठमे	२४५	२५	जीवेकेद्र	जीवेकेद्र
२०८	६	पापयुत	पापयुत	२४८	२१	गरुसे	गुरुसे
	९	भौर	भौर	२४९	१३	गलिक	गुलिक
	२०	सेत्ये	सोत्ये	२५१	१	केन्द्रम	केन्द्रमे
२०९	५	न्येपापे	न्येपापे	२५१	४	भाय	भायु
	२२	राशिमं	राशिमंतया	२५१	६	वष	वर्ष
	२३	राशीक	राशीके	२५१	८	१२भावमें	१२मेंभावमें
११४	११	केन्द्र	केन्द्र	२५१	२६	मृत्यु	मृत्यु
११६	७	दुद्र	दुद्रु	२५१	२९	राव्हछौ	राव्हच्छौ
१२१	२०	पष्टचंशे	पष्टचंशेमे	२५४	२४	विभ्रुति	विभ्रुति
१२२	२१	हावे	होवे	२५४	२६	योग	योग
	२४	व्यभि- चारी	व्यभिचारी	२५५	५	मृत्यु	मृत्यु
१२४	६	व्यभि- चारी	व्यभिचारी	२५५	६	न्मृत्युः	न्मृत्युः
१२८	२२	शुकमे	शुकसे	२५५	२७	चौर न्मृत्युः	चौरान्मृत्युः
१३१	२	दाराशा	दारेशा	२६०	५	दृक्ष	धृक्ष
१३१	२७	स्वामी	स्वामी	२६०	११	शनिका	शनिकी
१३१	२१	स्वामीमे	स्वामीसे	२६४	२२	प्रथ	प्रथम

पृष्ठ	पंक्ति	भंगुद्ध	शुद्धं	पृष्ठ	पंक्ति	भंगुद्धं	शुद्ध
"	२३	मेध्यद्रे०	मध्यद्रे०	३२०	१	पात्र	पात्र
"	२३	जलादर	जलोदर	३२३	८	राम्बुगेशे	राम्बुगेशे
२६५	२६	भद्रमश	भद्रमेश	३२५	२४	बला	बाला
२६६	१५	मदे वा	मदे वा	३२६	२०	भारेज्य योग	भारेज्य योग
२७४	२६	यनदृष्ट	युतदृष्ट	३२८	१७	सवलेद्वे	सवलेद्वे
२७५	१	पुरुष	पुरुष	"	२६	इडित	इडित
२७९	३	धनश	धनेश	३३०	४	भार	भौर
२८०	२७	गयहोतो	गयाहोतो	३३२	१	यन	युत
२८४	२८	स प्त	समाप्त	"	९	मनप्य	मनुप्य
२८८	१०	शुभांशेषा	शुभांशेषा	३३५	५	स्त्री स्त्री	स्त्री स्त्री
२८९	२४	द्वौस्वर्क्षे	द्वौस्वर्क्षे	"	६	दृष्टे	दृष्टे
२९९	९	चरेडे	चरेडे	"	२७	साध्विक	साध्विक
३००	१३	तेरङ्गे	तेरङ्गे	३३७	१०	बुधके	बुधके
३०२	४	मृगङ्गे	मृगङ्गे	३३८	२२	कुवारी	कुवारी
३०३	१२	तेरङ्गे	तेरङ्गे	"	"	सप्तमेश	सप्तमेश
३०३	२१	पूर्वपट्के	पूर्वपट्के	३३९	२१	सद्	सद्
३०४	१८	पटक	पटक	"	२८	चन्द्रक्षी	चन्द्रक्षी
३०५	१६	राज्या देशा	राज्यादेशा	३४०	१९	नवश	नवश
३०७	९	शुकुज्यौ	शुकुज्यौ	३४२	१६	भाववे	भावमे
३०७	३	नगार्थाङ्गा	नगार्थाङ्गा	३४५	६	जाततरं	जाततरं
३१३	१४	तदीशेडे	तदीशेडे	३४८	२	निर्धली	निर्धली
३१३	१६	धनेशेडे	धनेशेडे	जहाजहा	दृष्ट	दृष्ट	
३१५	७	वारमेः	वारमे	जहाजहा	भष्ट	भष्ट	
३१७	१३	व्याजन	व्याजेन	जहाजहा	पष्ट	पष्ट	
३१८	२	याग	योग	जहाजहा	पष्टयंश	पष्टयंश	
३१९	१५	द्वयन्ताड	द्वयन्ताड	जहाजहा	निष्ट	निष्ट	

इतिशुद्धिपत्रम् ।

छपने योग्य नवान् तय्यार होना  
और छपना शुरुहोगया.

## चौघडिया विचार

चौघडिया जिसको मारवाडी लोग दुघडिया कहतेहै वास्तव में यह चौघडियाहै या दुघडिये है वा पोनेचारघडियेहै अथवा कोई ओरहा है— इनका शास्त्रीय पद्धतीसे कैसे विचार करना और किस काम में येदेखना इसका विवेचन इस पुस्तकमें भलिभांति हिन्दी भाषामें किये गयेहै कीमत १) मात्र

## शनिविचार.

इसपुस्तक में किसराशी में शनी किसको कैसे कय शुभा शुभ फल अपनी साठसाती ( पनोती ) कादेता है वगैरा २ विषयोका शास्त्रीय पद्धती के अनुसार सोपपात्तक विवेचन हिन्दी भाषामें कियेगया है कीमत १) मात्र है ।

## संतति समयविचार.

संतान किस समयमें होगा इस प्रश्नका उत्तर शास्त्रानुसार जानके गर्भ रहनेका समय निश्चय बनाना चाहते हो तो इस पुस्तकको देखिये विचार करल हिन्दी भाषामें लिखेगया है कीमत २) मात्र

## द्वात्रिंशद्योगावली जानिक.

यह खान खाना नववाय की बनाई हुई वर्षफल देखने की उत्तम पुस्तकहै इन्में उत्तमव्याख्यसादबने अपने अनुभव कियेहुने चमत्कारीक ३२ योग वर्षफल विचारके लिखेहै वही भाषा टीकासहित प्रकाशित कियेहै मूल्य सिर्फ १) मात्र है.

## उद्दीप्त तंत्रशास्त्र.

बहुत उद्दीप्त छंपनुके है परऐसा उद्दीप्त अभीतक कहींमि छपानही है इसमें जितने तंत्रमंत्र लिखेहै वे सद्यचमत्कार पतानेवाहेंहै पुस्तक देखने योग है मूल्य १) मात्र

होगा और किस २ दशामे उपरोक्त बातोंकी हानिहोगी उसका उपरहीविस्तार पूर्वक फल विचार औरभी अन्यान्य विशेष विचार तथा दशामवेश लग्नसेदशाफलका सूक्ष्मविचारदशावाहन या जागृतादिवालादिदीप्तादि गर्वितादि शयनादि भवस्थागत विशेष रूपसे दशाफल विचारवर्णित है ।

—दूसरे विभागमे सूर्यादि नव ग्रहोंकी त्रिंशोतरी महादशा का २ एक २ ग्रह की दशाके फलका विचार कमसेकम १०० सौ से निश्चय करसके.

—तीसरे विभागमे भंतर्दशा संबंधी विचार का समस्त सामान्य सूक्ष्मफल विचार विस्तार पूर्वक पृथक्कर ग्रहोंका ऐसा लिंके समस्त भंतर्दशा का सूक्ष्मफल का विस्तृतरूपसे विचार ।

१-६ चौथे पाचमे छठे विभागमे क्रमसे उपदशा सूक्ष्मदशाप्राणिका विस्तार पूर्वक निःशेष फल विचार वर्णित कियागयाहै ।

७ सातमे विभाग में अष्टोत्तरांशदशाके पाचोहि प्रकारकी दशाका र पूर्वक फलविचार कियागया है ।

८ आठमे विभागमे योगिनो दशाके दशांतदर्शादिक का समस्त विचार वर्णित है ॥

९-नवमे विभागमे चरस्थिर रुद्र शूल वर्णदादि जैमिन्युक्त सम-शा भंतर्दशाभोका फलविचार है ।

१०-दशमविभागमे उक्तदशा भोके भतिरिक्त शेष समस्त दशा-फलविचार और उपसंहार है । इसप्रकार यह ग्रंथ सुंदर तयार गया है इसकी कीमत २॥ ) मात्र है टपाल सर्व्व अलग ।

❀ आशुबोध जोतिष ❀